

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



क्रम संख्या

काल नं०

ग्राम

४०२७  
२२४.०२ राजम

ज्ञान मन्दिर  
न्यू सेण्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड,  
बजवज, चौबीस परगना  
की ओर से  
श्री सिद्धचक्रविधान महोत्सव के  
सानन्द सम्पन्न होने के उपलक्ष में  
सादर भेंट



ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ अपभ्रंश ग्रन्थाङ्क २ ]

कविराज स्वयम्भूदेव विरचित

# पउमचरिउ

[ पद्मचरित ]

हिन्दी अनुवाद सहित

द्वितीय भाग—अयोध्याकाण्ड



—अनुवादक—

श्री देवेन्द्रकुमार जैन एम० ए०, साहित्याचार्य

## भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम आवृत्ति  
१००० प्रति

}

माघ वार नि० सं० २४८४  
त्रि० सं० २०१४  
जनवरी १९५८

}

मूल्य ३ रु०


स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें  
तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा  
संस्थापित

## भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

### अपभ्रंश ग्रन्थाङ्क २

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल  
आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक,  
साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि त्रिविध-विषयक जैन-साहित्यका  
अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथाम्भव  
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी  
सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-  
ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी  
इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक  
डॉ० हीरालाल जैन,  
एम० ए०, डी० लिट्०  
डॉ० आ० ने० उपाध्ये  
एम० ए०, डी० लिट्०



प्रकाशक  
अयोध्याप्रसाद गोयलीय  
मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ  
दुर्गाकुण्ड रोड,  
वाराणसी

● मुद्रक ●

वाबूलाल जैन फागुल्ल, सन्मति मुद्रलणाय, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

स्थापनाद्व  
फाल्गुन कृष्ण ६  
वीरनि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २०००  
१८ फरवरी सन् १९४४

JNĀNAPĪTH MŪRTIDEVĪ JAIN GRANTHMĀLĀ

*Apabhraṅsha Grantha No. 2*

PAUMCIIIRIU


of

KAVIRĀJA SVAYAMBHŪDEVE .

Vol. 2

WITH

HINDĪ TRĀNSLATION



Translated by

**Devendra Kumar Jain M. A., Sahityacharya**

Published by

**Bharatiya Jnanapitha Kashi**

First Edition

1000 Copies

MAGHA VIR SAMVAT 2484

VIKRAMA SAMVAT 2014

JANUARY 1958

Price

Rs. 3/-

# Bhāratiyā Jnāna-Pīthā Kāshī

FOUNDED BY

SETH SHĀNTI PRASĀD JAIN

In Memory of his late Benevolent Mother

SHRĪ MURTI DEVĪ

BHĀRĀTĪYĀ JNĀNA-PĪTHĀ MŪRTI DEVĪ  
JAIN GRANTHAMĀLĀ

*Apabhraṅsh Granatha No. 2.*

In this Granthamālā critically edited Jain āgamic  
philosophical, paurānic, literary, historical and  
other original texts available in prākṛit, sanskrit,  
apabhraṅsha, hindi, kannada and tamil etc.,  
will be published in their respective  
languages with their translations  
in modern languages

AND

Catalogues of Jain Bhandaras, inscriptions, studies of  
competent scholars & popular jain literature  
will also be published

General Editor

**Dr. Hiralal Jain, M.A.D. Litt.**

**Dr. A.N. Upadhye M.A.D.Litt.**

Publisher

**Ayodhya Prasad Goyal**

Secy. Bharatiya Jnanapitha

Durgakund Road, Varanasi.

Founded on  
Phalgunā Krishna 9  
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved.

Akrama Samavat  
2000  
18th Feb. 1944.

## विषय-सूची

### इक्कीसवीं संधि

विभीषण-द्वारा जनक और दशरथ का मरवानेका असफल प्रयत्न	३
दशरथ और जनकका कौतुक-मङ्गल नगरके लिए जाना, नगरका वर्णन	५
कैकेयीका स्वयंवरमें आकर दशरथका वरण करना	५
युद्धमें दशरथका कैकेयीको दो वर देना	७
दशरथके पुत्र-जन्म	७
जनकके यहाँ सीता और भामण्डलकी उत्पत्ति, भामण्डल का अपहरण	७
जनक द्वारा शवरोके विरुद्ध दशरथ से सहायताकी याचना	६
राम और लक्ष्मणका प्रस्थान	६
शवरोके परास्त करनेके बाद जनक द्वारा विदा	११
नारदका सीतापर कांप, उसका चित्रपट भामंडलको दिखाना	११
भामंडलका कामासक्त होना	११

विद्याधर चन्द्र गति द्वारा जनकके अपहरणका आदेश	१३
चपलवेगका घोड़ा बनकर जनकको ले आना	१३
विद्याधर चन्द्रगतिका प्रस्ताव	१५
धनुषयज्ञ द्वारा सीताके विवाहका निश्चय	१५
स्वयंवरकी योजना	१७
राम-सीताका विवाह	१७

### बाईसवीं संधि

दशरथ-द्वारा जिनका अभिप्रेक	१६
रानी मुप्रभाकी शिकायत, कंचुकीके बुढ़ापेका वर्णन	१६
दशरथकी विरक्ति और रामको राज्य देनेका निश्चय	२१
श्रमण संघका आगमन	२१
भामंडलकी विरह वेदना	२२
सीताका बलपूर्वक ले आनेके लिए प्रस्थान	२३
पूर्व भव स्मरण	२५
कामावस्थाका नाश	२५
अयोध्या जाना	२५



कैकेयीका सभामण्डपमें जाना	२७	नदीका वर्णन	४७
और वर माँगना	२७	राम द्वारा सेनाकी वापसी	५७
दशरथ द्वारा रामको वनवास	२७	दक्षिणकी ओर प्रस्थान	४७
भरत द्वारा विरोध	२६	सैनिकोंका वियोग-दुःख	४६
दशरथ द्वारा समाधान	३१	<b>चौबीसवीं संधि</b>	
<b>तेईसवीं संधि</b>		अयोध्यावासियोंका विलाप	४६
कवि द्वारा फिरसे स्तुति	३१	राजा दशरथकी संन्यास लेनेकी घोषणा	५१
भरतको तिलककर रामको वन गमन की तैयारी	३३	भरतकी हठ	५१
दशरथकी सत्यनिष्ठा	३३	दशरथ द्वारा दीक्षा लेना	५५
रामका अपनी माँसे विदा माँगना	३५	उनके साथ और भी राजा दीक्षित हुए उनका वर्णन	५५
कौशल्याकी मूर्छा और विलाप	३५	भरतका विलाप और रामको मनानेके लिए प्रस्थान	५७
माँको समझा-बुझाकर रामका प्रस्थान	३७	भरतकी रामसे लौटनेकी प्रार्थना	५७
सीताका भी रामके साथ जाना	३६	राम-द्वारा भरतकी प्रशंसा	५६
लक्ष्मणकी प्रतिक्रिया और पिता-पर रोष	३६	कैकेयी का समाधान	५६
रामका लक्ष्मणको समझाना और दोनोंका एक साथ वनगमन	४१	भरतका लौटकर रामकी माताको समझाना	६१
सिद्धवरकूटमें विश्राम	४१	रामका तापस वनमें प्रवेश	६१
जिनकी वन्दना	४३	धानुष्कवनका वर्णन	६१
रामका सुरति युद्ध-देखना	४५	भीलवस्तीमें राम और लक्ष्मण का निवास	६३
वीरान अयोध्याका वर्णन	४५	वनके बीचमें प्रवेश	६३
रामका गम्भीर नदी पहुँचना तथा		चित्रकूटसे दशपुरनगरमें प्रवेश	६५

सीरकूटुम्बिकसे भेंट	६५	रामका कूबर नगरमें प्रवेश	८३
<b>पच्चीसवीं संधि</b>		वसन्तका वर्णन	८३
सीरकूटुम्बिक द्वारा वज्रकर्ण और		लक्ष्मणका पानीकी खोजमें जाना	८३
सिंहोदरके युद्धका उल्लेख	६७	कूबरनगरके राजाकी	
विद्युदंग चोरका उपाख्यान	६७	जलक्रीड़ा	८५
सेनाका वर्णन	६६	राजाका लक्ष्मणको देखना	८५
राम और लक्ष्मणका सहस्रकूट		राजाका कामासक्त होकर	
जिनभवनमें प्रवेश	७३	लक्ष्मणको बुलवाना	८७
जिनेन्द्रकी स्तुति	७५	दोनोंका एक आसनपर बैठना	८७
लक्ष्मणका सिंहोदरके नगरमें प्रवेश	७७	दोनोंका तुलनात्मक चित्रण	८७
सिंहोदरकी प्रसन्नता	७७	कूबरनरेशका आधिपत्य	८६
सिंहोदर द्वारा रामादिको		वालिखिल्यकी अन्तर्कथाका संकेत	६३
भोजन कराना	७६	भोजनकी व्यवस्था	६७
लक्ष्मण द्वारा सिंहोदरकी सहायता,		रामको बुलाने जाना	६६
वज्रकर्णसे युद्ध	८१	राम सीताका अलंकृत वर्णन	१०१
युद्धमें वज्रकर्णकी हार	७३	जलक्रीड़ाका आयोजन	१०३
लक्ष्मणकी शूर वीरता	८५	जलक्रीड़ाके प्रसाधनोंका	
वज्रकर्णको पकड़कर लक्ष्मणका		वर्णन	१०५
लौटना	८७	भोजन	१०७
<b>छब्बीसवीं संधि</b>		सुन्दर वस्त्र पहनना	१०६
राम-द्वारा साधुवाद	८६	कूबरनरेशका कल्याणमालाके	
विद्युदङ्गकी प्रशंसा	८६	रूपमें अपनी सारी कहानी	
वज्रकर्ण और सिंहोदरकी मैत्री	८१	बताना	१०६
वज्रकर्ण और सिंहोदर द्वारा-		लक्ष्मणका अभयदान	१११
कन्यओंके पाणिग्रहणका प्रस्ताव	८१	दूसरे सबेरे तीनोंका प्रस्थान	१११

कल्याणमालाका विलाप	११३	यक्षकी यक्षराजसे शिकायत	१३३
<b>सत्ताईसवीं सन्धि</b>		यक्षराज द्वारा राम-लक्ष्मणकी	
विन्ध्याचलकी ओर प्रस्थान	११३	स्तुति	१३५
विन्ध्याचलका वर्णन	११३	रामपुरी नगरीका बसाना	१३५
रुद्रभूतिसे मुठभेड़	११७	नगरीका वर्णन	१३५
लक्ष्मणके धनुषकी टङ्कारका		यक्षका रामसे निवेदन	१३७
विश्वव्यापी प्रभाव	११६	कपिलकी रामसे धन-याचना	१३६
रुद्रभूतिकी जिज्ञासा	११६	मुनिका उपदेश	१३६
रुद्रभूतिका गमन	१२३	जनता-द्वारा व्रत-ग्रहण	१४१
लक्ष्मणका आक्रोश	१२३	लक्ष्मणको देखकर कपिलका	
वालिखिल्य और रुद्रभूतिमें		भयभीत होना	१४१
मैत्री	१२५	ब्राह्मण-द्वारा अर्थकी प्रशंसा	१४३
राम लक्ष्मणका ताप्ति पार		<b>उनतीसवीं सन्धि</b>	
करना	१२५	राम-लक्ष्मणका जीवन्त नगरमें	
रामने सीता देवीको धीरज		प्रवेश	१४५
बँधाया	१२७	जीवन्त नगरके राजाके पास	
कपिल ब्राह्मणके घरमें प्रवेश	१२७	भरतका लेख-पत्र आना	१४५
ब्राह्मण देवतासे भिड़न्त	१२६	वनमालाकी आत्म-हत्याकी चेष्टा	१४७
प्रख्याति और वट-वृक्षका		गलेमें फाँसी लगाते ही लक्ष्मण	
वर्णन	१२६	का प्रकट होना	१५१
<b>अट्ठाईसवीं सन्धि</b>		दोनोंका रामके सम्मुख जाना	१५३
रामका वटके नीचे बैठना और		सैनिकोंका आक्रमण	१५३
कृत्रिम वर्षाका प्रकोप	१३१	राजाका अभियान	१५५
अलंकृत वर्णन	१३१	राजाका लक्ष्मणको सहर्ष	
		कन्यादान	१५७

<b>तीसवीं सन्धि</b>	
भरतके विरुद्ध अनन्तवीर्यकी	
सामरिक तैयारी	१५७
भिन्न-भिन्न राजाओंको लेखपत्र	१५६
रामका गुप्तरूपसे अनन्तवीर्यको	
हरानेका निश्चय	१६१
नंदावर्त नगरमें प्रवेश	१६१
प्रतिहारसे कह सुनकर उनका	
दरबारमें प्रवेश	१६३
रामका नृत्यगान	१६५
अनन्तवीर्यका पतन	१६७
अनन्तवीर्यकी विरक्ति	१६६
कई राजाओंके साथ उसका	
दीक्षा ग्रहण	१६६
रामका जयंतपुर नगरमें प्रवेश	१७१
<b>इकतीसवीं सन्धि</b>	
लक्ष्मणकी वनमालासे विदा	१७१
गोदावरी नदीका वर्णन	१७३
क्षेमञ्जलि नगरका वर्णन	१७५
हड्डियोंके ढेरका वर्णन	१७५
लक्ष्मणका नगरमें प्रवेश	१७७
लक्ष्मणका अरिदमनकी शक्ति	
भेलना	१७६
दोनोंमें संघर्ष और वनमालाका	
बीचमें पड़ना	१८५

अरिदमनकी क्षमा-याचना	१८७
रामका नगरमें प्रवेश	१८६
<b>बत्तीसवीं सन्धि</b>	
वंशस्थ नगरमें प्रवेश	१८६
मुनियोंपर उपसर्ग	१८६
वनका वर्णन	१६३
रामका सीताको नाना पुण्य	
वृक्षोंका दर्शन कराना	१६३
रामका उपद्रव दूर करना	१६५
मुनियोंकी वन्दना-भक्ति	१६७
लक्ष्मणने शास्त्रीय सङ्गीत	
प्रारम्भ किया	१६७
फिर उपसर्ग	१६६
रामका सीताको अभय वचन	२०१
धनुषकी टङ्कारसे उपसर्ग दूर	
होना, मुनिको केवलज्ञानकी	
प्राप्ति	२०१
देवों द्वारा वन्दना भक्ति	२०१
<b>तैंतीसवीं सन्धि</b>	
मुनि कुलभूषण द्वारा उपसर्गके	
कारणपर प्रकाश डालना	२०५
पूर्व जन्मकी कथा	२०७
<b>चौतीसवीं सन्धि</b>	
रामकी धर्म-जिज्ञासा और	
मुनिको धर्मोपदेश	२२१

रामका दण्डकवनमें प्रवेश	२३१
दण्डक अटवीका वर्णन	२३१
गोकुल वस्तीका वर्णन	२३३
यतियोंको आहारदान	२३३
आहारका श्लेषमें वर्णन	२३५

### पैतीसवीं सन्धि

देवताओं द्वारा रत्न-वृष्टि	२३७
जटायुका उपाख्यान	२३६
पूर्वभव प्रसङ्ग	२३६
दार्शनिक वाद-विवाद	२४१
राजा द्वारा मुनियोंकी यन्त्रणा	२४७
मुनियों-द्वारा उपसर्ग टालना	२४७
राजाको नारकीय यातना	२४६
जटायुका व्रत ग्रहण करना, रत्नोंकी आभासे उसके पङ्क स्वर्णमय हो जाना	२५३

### छत्तीसवीं सन्धि

रथपर राम-लक्ष्मणका लीलापूर्वक विहार	२५३
क्रौंचनदीके तटपर विश्राम	२५५
लक्ष्मणका वंशस्थलमें प्रवेश	२५५
सूर्यहास खड्गकी प्राप्ति	२५७
शम्बूक कुमारका वध	२५७
सीता देवीकी चिन्ता	२५६
चन्द्रनखाका प्रलाप	२५६

उसका राम-लक्ष्मणपर आसक्त होना	२६३
कामावस्थाएँ	२६५
रामका नीति-विचार	२६७
दोनोंका उसे डुकराना	२६७
सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार स्त्रियोंका वर्णन	२६६

### सैंतीसवीं सन्धि

चन्द्रनखाका विदूरूप रूप	२७१
लक्ष्मणको रोष	२७३
चन्द्रनखाका पतिको सब हाल बताना	२७५
खरका पुत्र शोक	२७७
चन्द्रनखाका बात ब्रनाना	२७७
भाइयोंमें परामर्श	२७६
खरकी प्रतिज्ञा	२८१
रावणको खबर भेजकर युद्धकी तैयारी	२८३

युद्धका प्रारम्भ	२८५
लक्ष्मणकी शूरवीरता	२८५
लक्ष्मणकी विजय	२८७

### अड़तीसवीं सन्धि

रावणके नाम दूषणका पत्र	२८७
रावण द्वारा लक्ष्मणकी सराहना	२८६



खरदूषणके पुत्र सुण्डका अपनी

माँके कहनेसे विरत होना ३४३

जिनकी स्तुति ३४५

### इकतालीसवीं सन्धि

चन्द्रनखाका रावणके पास

जाना ३४५

रावणका चन्द्रनखाको

आश्वासन ३४७

मन्दोदरीका रावणको समझाना ३४९

रावणका सीतासे अनुरोध ३५५

सीताका प्रति उत्तर ३५७

रावणका आक्रोश ३६१

### ब्यालीसवीं सन्धि

विभीषणका सीता देवीसे संवाद ३६३

सीताका आत्मपरिचय और

हरणकी घटना बताना ३६५

विभीषणका रावणको समझाना ३६७

रावणका सीताको यानसे लङ्का

घुमाना ३६९

रावणका सीताको प्रलोभन ३७१

सीताकी भर्त्सना ३७१

रावणकी निराशा ३७१

नन्दनवनका वर्णन ३७३

रावणकी कामदशाएँ ३७५

मन्त्रिमण्डलकी चिन्ता और

विचार विमर्श ३७७

नगरकी रक्षाका प्रबन्ध ३७७

[२]

पउमचरिउ

•



कइराय-सयम्भुएव-किउ  
प उ म च रि उ



बीअं उज्झाकण्डं  
२१. एकवीसमो संधि

सायरबुद्धि विहीसण्ण परिपुच्छिउ 'जयसिरि-माणणहों ।  
कहें केत्तडउ कालु अचलु जउ जीविउ रज्जु दसा दसाणणहों' ॥

[ १ ]

पभणइ सायरबुद्धि भडारउ । कुसुमाउह--सर--पसर--णिवारउ ॥ १ ॥  
'सुणु अक्खमि रहुवंसु पहाणउ । दसरहु अत्थि अउज्जहँ राणउ ॥ २ ॥  
तासु पुत्त होसन्ति धुरन्धर । वासुएव--वलएव धणुद्धर ॥ ३ ॥  
तेहिँ हणेवउ रक्खु महारणँ । जणय-णराहिव-तणयहँ कारणँ ॥ ४ ॥  
तो सहसत्ति पलित्तु विहीसणु । णं घय-घडएँहिँ सित्तु हुआसणु ॥ ५ ॥  
'जाम ण लङ्का-वल्लरि सुक्कइ । जाम ण भरणु दसासणँ दुक्कइ ॥ ६ ॥  
तोडमि ताम ताहुँ भय-भीसइँ । दसरह-जणय-णराहिव-सीसइँ' ॥ ७ ॥  
तो तं वयणु सुणँवि कलियारउ । वद्धावणहँ पधाइउ णारउ ॥ ८ ॥  
'अज्जु विहीसणु उप्परि एसइ । तुम्हहँ विहि मि सिरइँ तोडेसइ' ॥ ९ ॥

घत्ता

दसरह-जणय विणीसरिय लेप्पमउ थवेप्पिणु अप्पणउ ।  
णियइँ सिरइँ विज्जाहरँहिँ परियणहों करेप्पिणु चप्पणउ ॥१०॥

# पद्मचरित

## अयोध्याकाण्ड

### इक्कीसवीं सन्धि

[ १ ] एक दिन विभीषणने सागरबुद्धि भट्टारकसे पूछा कि “जयलक्ष्मीके प्रिय, रावणकी विजय, जीवन और राज्य, कितने समय तक अविचल रहेगा ।” तब उन्होंने कहा—“सुनो, मैं बताता हूँ, अयोध्याके रघुवंशमें दशरथ नामका मुख्य राजा होगा, उसके दो पुत्र धुरंधर धनुर्धारी, वासुदेव और बलदेव होंगे, राजा जनककी कन्याको लेकर, होनेवाले महायुद्धमें रावण उनके द्वारा मारा जायगा” । यह सुनकर विभीषण एकदम उत्तेजित हो उठा मानो घीका घड़ा आगमें पड़ गया हो । उसने कहा—“लंकाकी बेल न सूखे और रावणका मरण न हो, इसलिए क्यों न मैं, भयभीषण दशरथ और जनकके सिरोंको तुड़वा दूँ” । यह जानकर कलहकारी नारद वर्धमान नगर पहुँचा । उसने दशरथ और जनकसे कहा कि आज विभीषण आयगा और तुम दोनोंके सिर तोड़ देगा । तब, वे दोनों अपनी लेपमयी मूर्ति स्थापित करवा कर वहाँसे चल दिये । विद्याधर आये और उन्हीं लेपमयी मूर्तियोंके सिर काटकर ले गये ॥ १-१० ॥

[ २ ]

दसरह-जणय वे वि गय तेत्तहँ । पुरवरु कउतुकमङ्गलु जेत्तहँ ॥ १ ॥  
 जेम्मइ जेत्थु अमग्गिय-लद्धउ । सूरकन्त-मणि-हुयवह-रद्धउ ॥ २ ॥  
 जहि जलु चन्दकन्ति-णिउभरणेहिँ । सुप्पइ पडिय-पुप्फ-पत्थरणेहिँ ॥ ३ ॥  
 जहिँ णेउर-भङ्गारिय-चलणेहिँ । रम्मइ अच्चण-पुप्फ-क्खलणेहिँ ॥ ४ ॥  
 जहिँ पासाय-सिहरँ णिहसिज्जइ । तेण मियङ्कु वङ्कु किंसु किज्जइ ॥ ५ ॥  
 तहिँ सुहमइ-गामेण पहाणउ । णं सुरपुरहोँ पुरन्दरु राणउ ॥ ६ ॥  
 पिहुसिरि तहो महएवि मणोहर । सुरकरि-कर कुम्भयल-पओहर ॥ ७ ॥  
 णन्दणु ताहँ दोणु उप्पज्जइ । केक्कय तणय काइँ वण्णिज्जइ ॥ ८ ॥  
 सयल - कला - कलाव - संपण्णी । णं पच्चक्ख लच्छी अवड्डण्णी ॥ ९ ॥

घत्ता

ताहँ सयम्बरँ मिलिय वर हरिवाहण-हेमप्पह-पमुह ।

णाइँ समुह-महासिरिहँ थिय जलवाहिणि-पवाह समुह ॥१०॥

[ ३ ]

तो करेणु आरुहँवि विणिग्गय । णं पच्चक्ख महासिरि-देवय ॥ १ ॥  
 पेक्खन्तहँ णरवर - संघायहुँ । भूगोयर - विजाहर - रायहुँ ॥ २ ॥  
 घित्त माल दससन्दण - णामहोँ । मणहर-गइएँ रइएँ णं कामहोँ ॥ ३ ॥  
 तहिँ अवसरँ विरुद्ध हरिवाहणु । धाइउ 'लेहु' भणन्तु स-साहणु ॥ ४ ॥  
 'वरु आहणहोँ कण्ण उद्दालहोँ । रयणइँ जेम तेम महिपालहोँ ॥ ५ ॥  
 सुहमइ रहु-सुएण विण्णप्पइ । 'धीरिउ होहि माम को चप्पइ ॥ ६ ॥  
 मइँ जियन्तँ अणरण्होँ णन्दणँ' । एउ भणेवि परिट्टिउ सन्दणँ ॥ ७ ॥  
 केक्कइ धुरहिँ करेप्पिणु सारहि । तहिँ पयट्टु जहिँ सयल महारहि ॥ ८ ॥

[ २ ] जनक और दशरथ दोनों ही वहाँसे कौतुकमंगल नगर चले गये, उस नगरमें सूर्यकांतमणिकी आगमें पका हुआ भोजन, बिना माँगे ही खानेके लिए मिलता था और चंद्रकांत मणियोंके भरनोंसे पानी। फूलोंसे ढके ऐसे पत्थर सोनेके लिए मिल जाते थे जो नूपुरोंसे भङ्कृत चरणों और पूजाके कुसुमोंके गिरनेसे सुन्दर हो रहे थे। चन्द्रमा वहाँके प्रासादोंके शिखरोंसे घिसकर टेढ़ा और काला हो गया था। उस नगरका शासक शुभमति था। वैसे ही जैसे सुरपुरका शासक इन्द्र है। उसकी सुन्दरी कुंभस्तनी पृथुश्री रानीसे दो सन्तान उत्पन्न हुई। उनमेंसे कैकेयीका वर्णन किस प्रकार किया जाय। वह सभी कलाओंके कलापसे संपूर्ण थी। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात् लक्ष्मीने अवतार लिया हो। जिस प्रकार समुद्रकी महाश्रीके सम्मुख नदियोंके नाना प्रवाह आते हैं उसी प्रकार, उसके स्वयंवरमें हरिवाहन हेमप्रभ प्रभृति अनेक राजा आये ॥१-१०॥

[ ३ ] वह, हथिनीपर बैठकर ऐसे निकली मानो महालक्ष्मी ही हो। नरवर-समूहों, मनुष्य, तथा विद्याधर राजाओंके देखते-देखते, उसने दशरथके गलेमें माला ऐसे डाल दी, मानो कमनीय गतिवाली रतिने ही कामदेवके गलेमें माला डाल दी हो। उस अवसर पर हरिवाहन बिगड़ उठा, 'पकड़ो' यह कहकर, वह सेना सहित दौड़ा। वह फिर बोला, "इस राजासे कन्या वैसे ही छीन ले जैसे सर्पसे मणि छीन लिया जाता है।" तब दशरथने अपने ससुर शुभमतिको धोरज बँधाते हुए कहा, "आप ढाढ़स रक्खें। अणरण्णके पुत्र मेरे जीतेजी, कोन इसे चाँप सकता है।" वह रथ पर चढ़ गया—और कैकेयी धुरा पर सारथि बनकर जा बैठी। वह महारथियोंके बीच गया। उसने अपनी नई पत्नीसे

घत्ता

तो वोह्लिज्जइ दसरहण 'दूरयर-णिवारिय-रवियरइ' ।  
रहु वाहँवि तहिँ गेहि पियएँ धय-छत्तइँ जेत्थु गिरन्तरइँ ॥ ६ ॥

[ ४ ]

तं गिसुणँवि परिओसिय-जणएँ । वाहिउ रहवरु पिहुसिरि-तणएँ ॥ १ ॥  
तेण वि सरहिँ परज्जिउ साहणु । भग्गु स-हेमप्पहु हरिवाहणु ॥ २ ॥  
परिणिय केक्कइ दिण्णु महा-वरु । चवइ अउज्झापुर - परमेसरु ॥ ३ ॥  
'सुन्दरि मग्गु मग्गु जं रुच्चइ' । सुहमइ-सुयएँ णवेप्पिणु बुच्चइ ॥ ४ ॥  
'दिण्णु देव पइँ मग्गमि जइयहुँ । गियय-सच्चु पालिज्जइ तइयहुँ' ॥ ५ ॥  
एम चवन्तइँ धण-कण-संकुलँ । थियइँ वे वि पुरँ कउतुकमङ्गलँ ॥ ६ ॥  
वहु - वासरँहिँ अउज्झ पइट्टइँ । सइ-वासव इव रज्जं वइट्टइँ ॥ ७ ॥  
सयल-कला - कलाव - संपण्णा । ताम चयारि पुत्त उप्पण्णा ॥ ८ ॥

घत्ता

रामचन्दु अपरज्जियहँ सोमिन्ति सुमिन्तिहँ एक्कु जणु ।  
भरहु धुरन्धरु केक्कइहँ सुप्पहहँ पुत्तु पुणु सत्तहणु ॥ ६ ॥

[ ५ ]

एय चयारि पुत्त तहँ रायहँ । णाईँ महा-समुद्द महि-भायहँ ॥ १ ॥  
णाईँ दन्त गिब्वाण - गइन्दहँ । णाईँ मणोरह सज्जण-विन्दहँ ॥ २ ॥  
जणउ वि मिहिला-णयरँ पइट्टउ । समउ विदेहएँ रज्जं णिविट्टउ ॥ ३ ॥  
ताहँ विहि मि वर-विक्कम-वीयउ । भामण्डलु उप्पण्णु स-सीयउ ॥ ४ ॥  
पुव्व-वइरु संभरँवि अ - खेवँ । दाहिण सेढि हरँवि णिउ देवँ ॥ ५ ॥  
तहिँ रहणेउरचक्कवाल - पुरँ । वहल-धवल-छुह - पङ्कापण्डुरँ ॥ ६ ॥  
चन्दगइहँ चन्दुज्जल - वयणहँ । णन्दणवण-समीवँ तहँ सयणहँ ॥ ७ ॥  
घत्तिउ पिङ्गलेण अमरिन्दे । पुप्फवइहँ अल्लविउ णरिन्दे ॥ ८ ॥

कहा “प्रिये रथ हाँककर वहाँ ले चलो जहाँ अपने तेजसे सूरजको हटानेवाले अनेक छत्र और ध्वज हैं” ॥१-६॥

[ ४ ] यह सुनकर, जनोंको संतुष्ट करने वाली कैकेयीने रथ [हाँका । तब दशरथने भी बाणोंसे शत्रु-सेनाको रोककर हेमप्रभु और हरिवाहनको भग्न कर दिया । कैकेयीसे विवाह हो चुकनेपर दशरथने उसे दो महा वर दिये । अयोध्याके अधिपति दशरथने उससे कहा “सुन्दरी माँगों माँगो, जो भी अच्छा लगता हो ।” तब शुभमतिकी कन्या कैकेयीने माथा झुकाकर कहा, “देव, जब मैं माँगूँ तब दे देना । तब तक अपने सत्यका पालन करते रहिए ।” ऐसा कह सुनकर वे दोनों कुछ दिनों तक धन-धान्यसे व्याप्त कौतुकमंगल नगरमें रहे । फिर बहुत समयके बाद उन्होंने अयोध्या नगरीमें प्रवेश किया । वे दोनों इन्द्र और शचीकी तरह राजगद्दी पर बैठे । दशरथ राजाके सकल कलाओंसे संपूर्ण चार पुत्र उत्पन्न हुए, सबसे बड़ी कौशल्यासे रामचन्द्र, सुमित्रासे लक्ष्मण, कैकेयीसे धुन्धर भरत, और सुप्रभासे शत्रुघ्न उत्पन्न एक पुत्र हुआ ॥ १-६ ॥

[ ५ ] राजा दशरथके वे चार पुत्र मानो भूमण्डलके लिए चार महासमुद्र, ऐरावत हाथीके दाँत या सज्जनोंके मनोरथोंके समान थे । जनक भी मिथिलापुरीमें जाकर विदेहका राज्य करने लगे । उनके भी दूसरे विक्रमकी तरह भामंडल, तथा सीता देवी उत्पन्न हुई । परन्तु भामंडलको, पिछले जन्मके बैरका स्मरणकर पिंगल देव उसे हरकर विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें ले गया, और उसने उसे, स्वच्छ सुधा चूर्णसे सफेद रतनूपुरचक्रवाल-पुरमें चन्द्रमुख और चन्द्रगति नामके विद्याधरोंके उपवनके समीप डाल दिया । विद्याधरने उठाकर उसे अपनी पत्नी पुष्पावतीको

घत्ता

ताव रजु जणयहौं तणउ उट्टद्धु महाडइ-वासिएँहि ।

वच्चर-सवर-पुलिन्दएँहि हिमवन्त-विष्क-संवासिएँहि ॥ ६ ॥

[ ६ ]

वेढिय जणय-कणय दुप्पेच्छँहि । वच्चर-सवर-पुलिन्दा - मेच्छँहि ॥ १ ॥

गरुयासङ्गएँ वाल - सहायहौं । लेहु विसज्जिउ, दसरह-रायहौं ॥ २ ॥

सूरइँ देवि सो वि सण्णज्झइ । रामु स-लक्खणु ताव विरुज्झइ ॥ ३ ॥

‘मइँ जीयन्तं ताय तुहुँ चञ्चहि । हणमि वइरि छुडु हत्थुत्थञ्चहि’ ॥ ४ ॥

वुत्तु णराहिवेण ‘तुहुँ वालउ । रम्भा-खम्भ - गढ्भ-सोमालउ ॥ ५ ॥

किह आलग्गहि णरवर-त्रिन्दहुँ । किह घड भञ्जहि मत्त-गइन्दहुँ ॥ ६ ॥

किह रिउ-रहँ महारहु चोयहि । किह वर-तुरय तुरङ्गहुँ ढोयहि’ ॥ ७ ॥

पभणइ रामु ‘ताय पञ्चट्टहि । हउँ जँ पहुच्चमि काइँ पयट्टहि ॥ ८ ॥

घत्ता

किं तुम हणइ ण वालु रवि किं वालु दवग्गि ण डहइ वणु ।

किं करि दलइ ण वालु हरि किं वालु ण डङ्गइ उरगमणु’ ॥ ६ ॥

[ ७ ]

पहु पञ्चट्टु पयट्टिउ राहउ । दूरासंघिय - मेच्छ - महाहउ ॥ १ ॥

दूसहु सो जि अण्णु पुणु लक्खणु । एक्कु पवणु अण्णेक्कु हुआसणु ॥ २ ॥

विण्णि मि भिडिय पुलिन्दहौं साहणँ । रहवर - तुरय-जोह-गय-वाहणँ ॥ ३ ॥

दीहर - सरँहिँ वइरि संताविय । जणय-कणय रणँ उच्चेट्ठाविय ॥ ४ ॥

धाइउ समरङ्गणँ तमु राणउ । वच्चर-सवर-पुलिन्द - पहाणउ ॥ ५ ॥

तेण कुमारहौं चूरिउ रहवरु । छिण्णु छत्तु दोहाइउ धणुहरु ॥ ६ ॥

दे दिया । ठीक इसी समय, महाअटवी हिमवन्त, और बिन्ध्या-चलमें रहनेवाले बर्बर शबर, पुलिंद और म्लेच्छोंने राजा जनकके राज्यको छीनना शुरू कर दिया ॥ १-६ ॥

[ ६ ] बर्बर शबर, पुलिंद और म्लेच्छोंसे अपनी सेना घिर जानेपर राजा जनकने बहुत भारी आशंकासे बालकोंकी सहायताके लिए राजा दशरथके पास लेखपत्र भेजा । उस पत्रसे यह जानकर राजा दशरथ स्वयं जानेकी तैयारी करने लगे । तब इसपर राम और लक्ष्मणने आपत्ति प्रकट की । रामने कहा, “मेरे जीवित रहते हुए आप जा रहे हैं । आप तो केवल यह आदेश दें कि मैं शीघ्र शत्रुका संहार करूँ ।” इसपर राजाने कहा, “तुम अभी बच्चे हो, केलेके गाभकी तरह अत्यन्त सुकुमार तुम बड़े-बड़े राज-समूहोंसे कैसे लड़ोगे ? हाथियोंकी घटा कैसे विदीर्ण करोगे ? महारथसे शत्रुओंके रथको कैसे प्रेरित करोगे ? अपने उत्तम अश्वोंसे अश्वोंके निकट कैसे पहुँचोगे ?” तब रामने कहा—“तात, आप लौट जाइये, हम लोग ही काफी हैं, आप क्यों प्रवृत्ति कर रहे हैं । क्या बालरवि अन्धकार नष्ट नहीं करता ? क्या छोटी दावाग्नि जंगल नहीं जला देती ? क्या साँपका बच्चा नहीं काटता ?” ॥ १-६ ॥

[ ७ ] तब दशरथ घर लौट आये । और राघव दूरसे ही म्लेच्छोंके महायुद्धकी सूचना पाकर चल पड़े । उनके साथ दूसरा केवल दुःसह लक्ष्मण था, मानो एक पवन था तो दूसरा आग । वे दोनों श्रेष्ठ रथ, अश्व, योधा और गजवाहनों सहित म्लेच्छोंसे लड़े । अपने लम्बे बाणोंकी मारसे शत्रु-सेनाको सन्त्रस्त कर उन्होंने सीताका उद्धार किया । तब शबर और पुलिन्दोंका प्रधानतम नामका राजा युद्धमें आया । उसने कुमारके रथको नष्ट कर दिया, और छत्र छिन्न-भिन्न । धनुषके दो टुकड़ेकर दिये । तब रामने नाग



तो राहवॅण लइजइ वाण्हिं । णाइणि-णाय- काय-परिमाण्हिं ॥ ७ ॥  
साहणु भग्गउ लग्गु उमग्ग्हिं । करयल्ल्हिं ओलम्बिय-खग्ग्हिं ॥ ८ ॥

घत्ता

दसहिं तुरङ्गहिं णोसरिउ भिन्नाहिउ भज्जवि आहवहोँ ।  
जाणइ जणय-णराहिवॅण तहिं कालं वि अप्पिय राहवहोँ ॥ ९ ॥

[ ८ ]

वन्वर - सवर - वरूहिणि भग्गी । जणयहोँ जाय पिहिवि आवग्गी ॥ १ ॥  
णाणा - रयणाहरणहिं पुज्जिय । वासुएव - वलएव विसज्जिय ॥ २ ॥  
सीयहँ देह रिद्धि पावन्तिहँ । एक्कु दिवसु दप्पणु जोयन्तिहँ ॥ ३ ॥  
पडिमा- छल्लण महा-भय-गारउ । आरिस-वेसु णिहालिउ णारउ ॥ ४ ॥  
जणय-तणय सहसत्ति पणट्ठी । सीहागमणँ कुरङ्गि व तट्ठी ॥ ५ ॥  
'हा हा माएँ' भणन्तिहिं सहियहिं । कलयलु किउ सज्जस-गह-गहियहिं । ६ ।  
अमरिस-कुद्धद्धाइय किङ्कर । उक्खय-वर-करवाल-भयङ्कर ॥ ७ ॥  
मिल्लवि तेहिं कह कह विणमारिउ । लेवि अद्धचन्द्हिं णीसारिउ ॥ ८ ॥

घत्ता

गउ स-पराहउ देवरिसि पडँ पडिम लिहँवि सीयहँ तणिय ।  
दरिसाविय भामण्डलहोँ विस-जुत्ति णाइँ णर-वारणिय ॥ ९ ॥

[ ९ ]

दिट्ठ जं जँ पडँ पडिम कुमारें । पञ्चहिं सरहिं विद्धु णं मारें ॥ १ ॥  
सुसिय-वयणु घुम्मइय-णिडालउ । वलिय-अक्कु मोडिय-भुव-डालउ ॥ २ ॥  
वद्ध-केसु पक्खोडिय-वच्छउ । दरिसाविय-दस-कामावत्थउ ॥ ३ ॥  
चिन्त पढम-थाणन्तरँ लग्गइ । वीयएँ पिय-मुह-दंसणु मग्गइ ॥ ४ ॥  
तइयएँ ससइ दीह-णीसासँ । कणइ चउत्थएँ जर-विण्णासँ ॥ ५ ॥

और नागिनीके आकारके बाणोंसे उसका सामना किया। तब उसकी सेना, तलवार भुकाये हुए इधर-उधर भागने लगी। युद्धमें आहत होकर भिल्लराज दशों ही घोड़ोंसे किसी तरह भाग निकला। तब जनकने उसी समय रामके लिए जानकी अर्पित कर दी ॥ १-६ ॥

[ ८ ] बर्बर शबरोंकी सेना नष्ट होने पर जनककी घरा स्वतन्त्र हो गई। उन्होंने रामलक्ष्मण (बलभद्र और वासुदेव) का तरह-तरहके आभरणों और रत्नोंसे आदर-सत्कारकर उन्हें विदा किया लेकिन इस समय तक सीता देवीकी देह-ऋद्धि (यौवन) विकसित हो चुकी थी। तब एक दिन दर्पण देखते हुए उसने (दर्पणकी) परछाईमें महाभयंकर नारदको ऋषिवेषमें देखा। वह तुरन्त ही उसी तरह मूर्छित हो गई जिस तरह कुरंगी सिंहके आनेपर भीत हो जाती है। आशंकाके ग्रहसे अभिभूत सहेलियोंने “हाय माँ, हाय माँ” कहते हुए कोलाहल किया। (उसे सुनकर) अनुचर असर्ष और क्रोधसे भरकर तलवार उठाये हुए दौड़े। नारदको पाकर मारा तो नहीं परन्तु तो भी गर्दनिया देकर बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर देवर्षि चले गये। उन्होंने तब, पटपर सीताका चित्र अंकित किया। और जाकर, विषयुक्तिकी भाँति उस प्रतिमा को भामंडलके लिए ‘गृहपत्नी’ के रूपमें दिखाया ॥ १-६ ॥

[ ६ ] कुमार भी उस चित्र-प्रतिमाको देखकर कामदेवके पंच-वाणोंसे आहत हो गया। उसका मुख सूखने लगा। मस्तक घूमने लगा। अंग-अंगमें जलन होने लगी। भुजा रूपी डालें मुड़ने लगीं। बाल बँधे हुए होने पर भी वक्षःस्थल खुला हुआ था। कामकी दशों दिशाएँ इस प्रकार साफ प्रकट होने लगीं—पहली अवस्थामें चिंता, तो दूसरी अवस्थामें प्रियको देखनेको अभिलाषा हो रही थी। तीसरीमें लम्बी साँसे खींचना और चौथीमें ज्वरका आ

पञ्चमँ डहँ अङ्गु ण मुच्चइ । छट्टएँ मुहहँ ण काइ मि रुच्चइ ॥ ६ ॥  
 सत्तमँ थाणँ ण गासु लइज्जइ । अट्टमँ गमणुम्माएँहिँ भिज्जइ ॥ ७ ॥  
 णवमँ पाण-संदेहहँ दुक्कइ । दसमएँ मरइ ण केम वि चुक्कइ ॥ ८ ॥

## घत्ता

कहिउ णरिन्दहँ किङ्करँहिँ 'पहु दुक्करु जीवइ पुत्तु तउ ।  
 काँहँ वि कण्हँ कारणँण सो दसमी कामावत्थ गउ ॥ ९ ॥

[ १० ]

णाग - णरामर - कुल-कलियारउ । चन्दगइएँ पडिपुच्छिइ णारउ ॥ १ ॥  
 'कहि कहँ तणिय कण्हँ कहँ दिट्ठी । जा महु पुत्तहँ हियएँ पइट्ठी' ॥ २ ॥  
 कहइ महारिसि 'मिहिला-राणउ । चन्दकेउ - णामेण पहाणउ ॥ ३ ॥  
 तहँ सुउ जणउ तेथु मइँ दिट्ठउ । कण्णा-रयणु तिलोय-वरिट्ठउ ॥ ४ ॥  
 तं जइ होइ कुमारहँ आयहँ । तो सिय हरइ पुरन्दर-रायहँ' ॥ ५ ॥  
 तं णिसुणँवि विजाहर - णाहँ । पेसिउ चवलवेउ असगाहँ ॥ ६ ॥  
 'जाहि विदेहा-दइउ हरेवउ । मइँ विवाह-संवन्धु करेवउ' ॥ ७ ॥  
 गउ सो चन्दगइहँ मुहु जोएँवि । इन्दुर दुक्कु तुरङ्गसु होएँवि ॥ ८ ॥  
 कोहुँ चडिउ णराहिउ जावँहिँ । दाहिण सेढि पराइउ तावँहिँ ॥ ९ ॥  
 मिहिला-णाहु मुएँपिणु जिण-हरँ । चवलवेउ पइसइ पुरँ मणहरँ ॥ १० ॥

## घत्ता

आणिउ जणय-णराहिवइ णिय-णाहहँ अक्खिउ स-रहँसण ।  
 वन्दणहत्तिएँ सो वि गउ सहुँ पुत्तँ विरह-परव्वसँण ॥ ११ ॥

जाना । पाँचवींमें जलनका अंगोंको नहीं छोड़ना, छठीमें मुँहमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगना, सातवींमें एक कौर भी भोजन नहीं करना । आठवींमें चलना और जम्हाई लेना बंद हो जाना । नवींमें प्राणोंमें संदेह होने लगना और दशवींमें मृत्युका किसी भी तरह नहीं चूकना ॥१-८॥

उसकी यह हालत देखकर, अनुचरोंने जाकर राजासे कहा “देव, अब आपके पुत्रका जीवित रहना कठिन है । किसी लड़कीके ( प्रेममें ) वह कामकी दसवीं अवस्थाको पहुँच गया है” ॥६॥

[ १० ] जब विद्याधर चन्द्रगतिने, “नाग नर और अमर-कुलोंमें कलह करनेवाले नारदजीसे पूछा, “कहिए आपने कहीं कोई ऐसी भी कन्या देखी है जो मेरे पुत्रके हृदयमें बस सकती है ।” यह सुनकर महर्षि बोले—“मिथिलामें चन्द्रकेतु नामका राजा हुआ था । उसके पुत्र जनककी कन्या सीता तीनों लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ है । वही इस कुमारके योग्य है अतः पुरंदरराज जनकसे उसका अपहरण कर लाओ ।” यह सुनकर, विद्याधरस्वामी चंद्रगतिने, अकुंठित-गतिवाले चपलवेग नामके विद्याधरसे कहा—“जाओ, विदेहराज जनकको हरकर ले आओ, मुझे उससे विवाह-सम्बन्ध करना है ।” वह भी चन्द्रगतिका मुँह देखकर चला गया, और घोड़ा बनकर राजा जनकके भवनमें पहुँचा । राजा जनक कौतुकसे जैसे ही उस घोड़े पर चढ़ा, वैसे ही वह दक्षिण श्रेणीमें पहुँच गया । विद्याधर मिथिला-नरेश जनकको जिन-मंदिरमें छोड़कर, अपने सुन्दर नगरमें प्रविष्ट हुआ, और अपने स्वामीके पास जाकर कहा, “मैं राजा जनकको ले आया हूँ ।” यह सुनते ही, विरह-परवश अपने पुत्रके साथ चंद्रगति जिन-मंदिरमें, वंदना भक्तिके लिए गया ॥ १-११ ॥

[ ११ ]

विजाहर - णर - णयणाणन्देहिं । क्खिउ संभासणुविहि मि परिन्देहिं ॥ १ ॥  
 पभणइ चन्द्रगमणु तोसिय-मणु । 'विण्णि वि क्खिण करहुं सयणत्तणु ॥२॥  
 दुहिय तुहारी पुत्तु महारउ । होउ विवाहु मणोरह-गारउ' ॥ ३ ॥  
 अमरिसु णवर पवद्धिउ जणयहो । 'दिण्ण कण्ण भइँ दसरह-तणयहो ॥४॥  
 रामहो जयसिरि- रामासत्तहो । संवर - वरुहिण-चूरिय-गत्तहो ॥ ५ ॥  
 तहिं अवसरँ वद्धिय-अहिमाणं । वुत्तु णरिन्दु चन्दपत्थाणं ॥ ६ ॥  
 'कहिं विजाहरु कहिं भूगोयरु । गय-मसयहुं वड्डारउ अन्तरु ॥ ७ ॥  
 माणुस-खेत्तु जे ताम कणिट्टउ । जीविउ तहिं कहिं तणउ विसिट्टउ' ॥८॥

घत्ता

भणइ णराहिउ 'केत्तिण्ण जगं माणुस-खेत्तु जे अगलउ ।  
 जसु पासिउ तित्थङ्करहिं सिद्धत्तणु लद्धउ केवलउ' ॥ ९ ॥

[ १२ ]

तं णिसुणोवि भामण्डल-वप्पे । वुच्चइ विजा-वल-माहप्पे ॥ १ ॥  
 'पगुण-गुणइँ अइ-दुजय-भावइँ । पुरँ अच्छन्ति एत्थु वे चावइँ ॥ २ ॥  
 वजावत्त- समुदावत्तइँ । जक्खारक्खिय-रक्खिय-गत्तइँ ॥ ३ ॥  
 किं भामण्डलेण किं रामे । ताइँ चडावइ जो आयामे ॥ ४ ॥  
 परिणउ सो जे कण्ण एउ पभणित' । तं जि पमाणु करेवि पहु भणियउ ॥५॥  
 गय स-सरासणु मिहिला-पुरवरु । वद्ध मच्च आढत्तु सयम्बरु ॥ ६ ॥  
 मिलिय णराहिव जे जगं जाणिय । सयल वि धणु-पयाव-अवमाणिय ॥७॥  
 को वि णाहिं जो ताइँ चडावइ । जक्ख-सहासहुं मुहु दरिसावइ ॥ ८ ॥

घत्ता

जाम ण गुणहिं चडन्ताइँ अहिजायइँ कउ सुह-दंसणइँ ।  
 अवसें जणहो अणिट्टाइँ कुकलत्तइँ जेम सरासणइँ ॥ ९ ॥

[ ११ ] विद्याधर और मनुष्योंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले चंद्रगति और जनकमें बातें होने लगीं । संतुष्टमन चंद्रगतिने कहा, “हम दोनों स्वजनता ( रिश्तेदारी ) क्यों न कर लें, तुम्हारी लड़की और मेरा लड़का, यदि दोनोंका विवाह हो जाय तो मेरा मनोरथ सफल हो ।” पर इस बातसे जनकका केवल क्रोध बढ़ा । उन्होंने कहा, “परंतु मैंने अपनी लड़की दशरथ-पुत्र रामको दे दी है, विजयश्री रूपी कामिनीमें आसक्त उन्होंने भीलोंकी सेनाको ध्वस्त किया है ।” इस प्रसंग पर, चन्द्रगतिने अहंकारके स्वरमें कहा— “कहाँ विद्याधर और कहाँ धरतीवासी मनुष्य ? इन दोनोंमें वही अन्तर है जो हाथी और मच्छरमें, और फिर मनुष्य क्षेत्र अत्यंत तुच्छ है । वहाँका जीवन स्तर भी कुछ विशेष ऊँचा नहीं है ।” तब जनकने उत्तरमें कहा,—“विश्वमें मनुष्य क्षेत्र ही सबसे आगे और अच्छा है । उसमें ही तीर्थकरोंने भी मुक्ति और केवलज्ञान प्राप्त किया है” ॥१-६॥

[ १२ ] यह सुनकर भामंडलके पिता चन्द्रगतिने, जो विचार और शक्तिमें बड़ा था, कहा—“अच्छा हमारे नगरमें, मजबूत प्रत्यंचाके दो दुर्जेय धनुष हैं, उनके नाम हैं वज्रावर्त और समुद्रावर्त । यक्ष-राक्षसों द्वारा वे सुरक्षित हैं । भामंडल और राममेंसे जो उन्हें चढ़ानेमें समर्थ होगा, सीता उसीको व्याही जाय ।” जनकने यह शर्त मान ली । और उन धनुषोंको लेकर वह अपनी नगरीको चले गये । मंच (और मंडप) बनवाकर उन्होंने स्वयंवर बुलवाया । दुनियाके जिन राजाओंको मालूम हो सका, वे सब उसमें आये, परन्तु धनुषके प्रतापके आगे सबको पराजित होना पड़ा । उनमें एक भी ऐसा नहीं था जो धनुषको चढ़ा सकता । हजारों यक्ष भी अपना मुँह दिखाकर रह गये । वे दोनों धनुष, कुलीकी तरह शुद्धवंश ( बांस और कुल ) के और शोभन होते

[ १३ ]

जं गरवइ असेस अवयाणिय । दसरह-तणय चयारि वि आणिय ॥१॥  
 हरि - वलएव पढुक्किय तेत्तहँ । सीय-सयम्बर - मण्डउ जेत्तहँ ॥ २ ॥  
 दूर-णिवारिय- गरवर - लक्खँहिँ । धणुहराईँ अल्लवियईँ जक्खँहिँ ॥ ३ ॥  
 'अप्पण - अप्पणाईँ सु-पमाणईँ । णिम्वाडेवि लेहु वर-चावईँ' ॥ ४ ॥  
 लइयईँ सायर - वजावत्तईँ । गामहणा इव गुणँहिँ चडन्तईँ ॥ ५ ॥  
 मेस्सिउ कुसुम-वासु सुर-सत्थँ । परिणिय जणय-तणय काकुत्थँ ॥ ६ ॥  
 जे जे मिलिय सयम्बरँ राणा । णिय-णिय णयरहँ गय विहाणा ॥ ७ ॥  
 दिवसु वारु णक्खत्तु गणेप्पिणु । लग्गु जोग्गु गह-दुत्थु णिएप्पिणु ॥ ८ ॥

घत्ता

जोइसिँहिँ भाएसु किउ 'जउ लक्खण-रामहुँ सरहसहुँ ।  
 आयहँ कण्हँ कारणँ होसइ विणासु बहु-रक्ससहुँ' ॥६॥

[ १४ ]

'ससिवद्धणेण ससि - वयणियउ । कुवलय-दल-दीहर- णयणियउ ॥ १ ॥  
 कल - कोइल - वीणा - वाणियउ । अट्टारह कण्णउ आणियउ ॥ २ ॥  
 दस लहु-भायरहुँ समप्पियउ । लक्खणहँ अट्ट परिकप्पियउ ॥ ३ ॥  
 दोणेण विसल्ला - सुन्दरिय । कण्हहँ चिन्तविय मणोहरिय ॥ ४ ॥  
 वइदेहि अउज्झा-णयरि णिय । दसरहँण महोच्छव-सोह किय ॥ ५ ॥  
 रह तिक्क - चउक्कहिँ चच्चरहिँ । कुक्कुम - कप्पूर - पवर - वरहिँ ॥ ६ ॥  
 चन्दन - छडोह - दिज्जन्तँहिँ । गायण - गीयहिँ गिज्जन्तँहिँ ॥ ७ ॥  
 मणिमइयउ रइयउ देहलिउ । मोत्तिय कणँहिँ रङ्गावलियउ ॥ ८ ॥  
 सोवण्ण - दण्ड - मणि -तोरणईँ । वद्धईँ सुरवर - मण - चोरणईँ ॥ ९ ॥

घत्ता

सीय-वलइँ पइसारियईँ जणँ जय-जय-कारिज्जन्ताईँ ।  
 थियईँ अउज्झहँ अवचलइँ रइ-सोक्ख-स यं भुज्जन्ताईँ ॥१०॥

हुए भी, गुण (प्रत्यंचा और अच्छे गुण) पर नहीं चढ़ रहे थे, इसलिए अवश्य वे लोगोंको अनिष्टकर थे ॥ १-६ ॥

[ १३ ] सब राजाओंके पराजित होनेपर बलभद्र और वासुदेव सीताके स्वयंवर-मंडपमें पहुँचे । तब लाखों राजाओंको दूरसे ही हटानेवाले रक्षक यज्ञोंने दोनों धनुष बताते हुए उनसे कहा,— “लीजिये, अपने-अपने प्रमाणके अनुरूप इनमेंसे एक-एक चुन लें । उन्होंने समुद्रावर्त और वज्रावर्त धनुष हाथमें लेकर मामूली धनुषोंकी भाँति, उनपर डोरी चढ़ा दी, तब देववृन्दने फूलोंकी वर्षा की । राम-सीताका विवाह हो गया, जो राजा स्वयंवरमें आये थे वे उदास होकर अपने-अपने नगर चले गये । दिन-वार-नक्षत्र गिन लगनके योग्य ग्रहोंको देखकर, ज्योतिषियोंने भविष्यवाणी की, “इस कन्याके कारण बहुतसे राजासाँका विनाश होगा” ॥१-६॥

[ १४ ] शशिवर्द्धन नामक राजाकी अठारह लड़कियाँ थीं । सभी चन्द्रमुखी कमलदलकी तरह आयत नेत्रवालीं, कोयल और बीणाकी तरह सुन्दर स्वरवाली थीं । उसने उनमेंसे दस रामके छोटे भाइयों ( भरत और शत्रुघ्न ) को तथा शेष आठ लक्ष्मणको विवाह दीं । द्रोणने भी अपनी सुन्दर कन्या लक्ष्मणको विवाह दी । वैदेहीके अयोध्या आनेपर राजा दशरथने धूमधामसे उत्सव किया । त्रिपथ चतुष्पथ और कथा-स्थान केशर और कपूर-धूलिसे पूरित थे । चन्दनका छिड़काव हो रहा था । तरह-तरहके गायन और गीत गाये जा रहे थे । देहली मणियोंसे रचित थी, और मोतियोंके दानोंसे ‘रंगावली’ बनाई जा रही थी । सुवर्ण और मणियोंसे बने, देवताओंका भी मन चुराने-वाले तोरण बाँधे जा रहे थे । सीता और रामके (गृह) प्रवेशपर लोगोंने जयजयकार किया । वे दोनों भी, साकेतमें अविचल रति सुखका आनन्द लेते हुए रहने लगे ॥ १-१० ॥



## [ २२. वावसमो संधि ]

कोसलणन्दणेण स-कलत्ते णिय-घरु भाएं ।  
आसाढट्टमिहिं किउ ण्हवणु जिणिन्दहो राएं ॥

[ १ ]

सुर-समर-सहासेहिं दुग्महेण । किउ ण्हवणु जिणिन्दहो दसरहेण ॥ १ ॥  
पट्टवियइं जिण-तणु-धोवयाइं । देविहिं दिव्वइं गन्धोदयाइं ॥ २ ॥  
सुप्पहहे णवर कञ्चुइ ण पत्तु । पट्टु पभणइ रहसुच्छलिय-गत्तु ॥ ३ ॥  
'कहे काइं णियस्विणि मणे विसण्ण । चिर-चित्तिय भित्ति व थिय विवण्ण' ॥ ४ ॥  
पणवेप्पिणु वुच्चइ सुप्पहाएँ । 'किर काइं महु त्तिणियएँ कहाएँ ॥ ५ ॥  
जइ हउं जे पाणवह्णहिय देव । तो गन्ध-सलिलु पावइ ण केम' ॥ ६ ॥  
तहिं अवसरं कञ्चुइ दुक्कु पासु । छण-ससि व णिरन्तर-धवलियासु ॥ ७ ॥  
गय-दन्तु अयंगमु (?) दण्ड-पाणि । अणियच्छिय-पट्टु पक्खलिय-वाणि ॥ ८ ॥

घत्ता

गरहिउ दसरहेण 'पइं कञ्चुइ काइं चिराविउ ।

जलु जिण-वयणु जिह सुप्पहहे दवत्ति ण पाविउ' ॥ ९ ॥

[ २ ]

पणवेप्पिणु तेण वि वुत्तु एम । 'गय दियहा जोव्वणु ल्हसिउ देव ॥ १ ॥  
पढमाउसु जर धवलन्ति आय । पुणु असइ व सीस-वल्लग जाय ॥ २ ॥  
गइ तुट्टिय विहडिय सन्धि-वन्ध । ण सुणन्ति कण्ण लोयण णिरन्ध ॥ ३ ॥  
सिरु कम्पइ मुहे पक्खलइ वाय । गय दन्त सरीरहो णट्ट छाया ॥ ४ ॥  
परिगलिउ रुहिरु थिउ णवर चम्मु । महु एत्थु जे हुउ णं अवरु जम्मु ॥ ५ ॥

## बाईसवीं संधि

अपने घर आकर, कौशल्यानन्दन रामने सपत्नीक, आषाढ़की अष्टमीके दिन जिनन्द्रका अभिषेक किया ।

[ १ ] हजारों देवयुद्धोंमें अजेय राजा दशरथने भी जिनका अभिषेक किया, उन्होंने जिन-प्रतिमाके प्रक्षालनका दिव्य गंधोदक रानियोंके पास भेजा । परन्तु बूढ़ा कंचुकी रानी सुप्रभाके पास उसे नहीं ले गया । इतनेमें राजा दशरथ रानीके पास पहुँचे, और उसे (दीनमुद्रामें) देख, हर्षसे गद्गद स्वरमें बोले “हे नितम्बिनी, तुम खिन्नमन क्यों हो ? चिर चित्रित दीवालकी तरह तुम्हारा मुँह फीका क्यों हो रहा है ।” इसपर प्रणाम करके रानी सुप्रभा बोली—“देव मेरी कहानीको सुननेसे क्या, यदि मैं भी औरोंकी तरह प्रिय होती तो गंधोदक मुझे भी मिलता । ठीक इसी समय कंचुकी उसके पास आया । चेहरा पूर्ण चन्द्रकी तरह एकदम सफेद, दाँत लम्बे, हाथमें दण्ड, बोली लड़खड़ाती हुई, राजाको भी देखनेमें असमर्थ । देखते ही राजाने उसे खूब डाँटा, कंचुकी तुमने इतनी देर क्यों की, जिससे जिन-वचनकी तरह ही पवित्र गंधोदक रानीको शीघ्र नहीं मिल सका ॥१-६॥

[२] तब प्रणाम करके कंचुकीने निवेदन किया, “महाराज, मेरे दिन अब चले गये, मेरा यौवन ढल चुका है । पहलेकी अवस्थापर सफेदी पोतती हुई यह जरा आ रही है । और दुराचारिणी स्त्रीकी तरह जबर्दस्ती मेरे सिरसे लग रही है, मेरी गति टूट चुकी है, हड्डियोंके जोड़ ढीले पड़ गये हैं, कान सुनते नहीं, आँखें देखती नहीं ( अन्धी हो चुकी हैं ), सिर कांप रहा है; और बोली मुँहमें ही लड़खड़ा जाता है, दाँत भी चले गये और शरीरकी कांति भी क्षीण हो गई । खून सब गल गया है, केवल

गिरि-णइ-पवाह ण वहन्ति पाय । गन्धोवउ पावउ केम राय' ॥ ६ ॥  
 वयणेण तेण किउ पहु-वियप्पु । गउ परम-विसायहोँ राम-वप्पु ॥ ७ ॥  
 चच्चसउलु, जीविउ कवणु सोक्खु । तं किज्जइ सिज्जइ जेण मोक्खु ॥ ८ ॥

घत्ता

सुहु महु-विन्दु-समु दुहु मेरु-सरिसु पत्रियम्भइ ।  
 वरि तं कम्मु हिउ जं पउ अजरामरु लडभइ ॥ ९ ॥

[ ३ ]

कं दिवसु वि होसइ आरिसाहुँ । कञ्चुइ-अवत्थ अम्हारिसाहुँ ॥१॥  
 को हउँ का महि कहोँ तणउ दव्वु । सिंहासणु छत्तइँ अथिरु सव्वु ॥२॥  
 जोव्वणु सरोरु जीविउ धिगत्थु । संसारु असारु अणत्थु अन्थु ॥३॥  
 विसु विसय वन्धु दिढ-वन्धणाइँ । घर-दारइँ परिहव-कारणाइँ ॥४॥  
 सुय सत्तु विढत्तउ अवहरन्ति । जर-मरणहँ किङ्कर किं करन्ति ॥५॥  
 जीवाउ वाउ हय हय वराय । सन्दण सन्दण गय गय जेँ णाय ॥६॥  
 तणु तणु जेँ खणद्धेँ खयहोँ जाइ । धणु धणु जि गुणेण वि वङ्कु थाइ ॥७॥  
 दुहिया वि दुहिय माया वि माय । सम-भाउ लेन्ति किर तेण भाय ॥८॥

घत्ता

आयइँ अवरइ मि सव्वइँ राहवहोँ समप्पेवि ।  
 अप्पणु तउ करमि' थिउ दसरहु एम वियप्पेवि ॥९॥

[ ४ ]

तहिँ अवसरँ आइउ सवण-सङ्कु । पर-समयसमोरण-गिरि-अलङ्कु ॥१॥  
 दुम्महमह-वम्मह-महण-सीलु । भय-भङ्गुर-भुअणुद्धरण-लोलु ॥२॥  
 अहि-विसम-विसय-विस-वेय-समणु । खम-दम-णिसेणि-किय-मोक्ख-गमणु ॥३॥

चमड़ी ही चमड़ी है यहाँ मैं ऐसा ही हूँ जैसे दूसरा जन्म हो । अब पहाड़ी नदीके वेगकी तरह मेरे पैर सरपट नहीं चलते, अब आप ही बताइए देव ! गंधोदक सभीको कैसे मिलता ॥१-६॥

कंचुकीके वचन सुनकर राजा दशरथने जब उनपर विचार किया तो वह गहरे विषादमें पड़ गये । उन्हें लगा—सचमुच जीवन अस्थिर है, कौन सा सुख है इसमें । इसलिए मुझे वह काम करना चाहिए जिसमें मोक्ष सध सके” ( दुनियामें ) सुख मधुकी बूँदकी तरह है और दुख मेरु पर्वतकी तरह फैल जाता है । अतः वही कर्म करना ठीक है जिससे मोक्षकी सिद्धि हो ॥७-६॥

[३] किसी दिन मेरी भी, इस बूढ़े कंचुकीकी तरह हालत हो जायगी, कौन मैं ? किसकी यह धरती ? किसका धन ? छत्र और सिंहासन ? सभी कुछ अस्थिर है, यौवन शरीर और जीवनको धिक्कार है । संसार असार है और धन अनर्थकर है । विषय विष है, और बंधुजन दृढ़बन्धन । घरकी स्त्रियाँ अपमानकी कारण हैं । पुत्र केवल विघ्न करनेवाले शत्रु हैं, बुढ़ापे और मौतमें ये नौकर चाकर क्या करते हैं, जीवकी आयु वायु है, हय भी बेचारे हत हो जाते हैं । रथ खण्डित हो जाते हैं । और गज भी रोगको जानते हैं । तन तृणकी तरह है जो आधे पलमें ही नष्ट हो जाता है । धन धनुषकी तरह है जो गुण (डोरी) से भी टेढ़ा होता है । दुहिता दुष्ट हृदय ही होती है । माताको माया ही समझो । समभाग (धनका) बँटानेवाले होनेसे भाई भाई हैं । यह, और जो भी है वह सब ‘राम’ को अर्पितकर मैं तप करूँगा” राजा दशरथने यह विकल्प अपने मनमें स्थिर कर लिया ॥१-६॥

[४] ठीक इसी समय एक श्रमणसंघ वहाँ आया । जो परमत-रूपी पवनके लिए अलंघ्य पर्वत, दुर्दम कामदेवको मथनेवाला, भयभीत जनोंका उद्धारक, विषयरूपी साँपके विषका शमन

तवसिरि-वररामालिङ्गियङ्गु । कलि-कलुस-सलिल-सोसण-पयङ्गु ॥४॥  
 तित्थङ्कर-चरणम्युरुह-भमरु । किय-मोह-महासुर-णयर-डमरु ॥ ५ ॥  
 तहिँ सच्चभूइ णामेण साहु । जाणिय-संसार-समुद्-थाहु ॥ ६ ॥  
 मगहाहिउ विसय-विरत्त-देहु । अवहत्थिय-पुत्त-कलत्त-णेहु ॥ ७ ॥  
 गिच्चाण-महागिरि धीरिमाएँ । रयणायर-गुरु गम्भीरिमाएँ ॥ ८ ॥

घत्ता

रिसि-सङ्गाहिवइ सो आउ अउज्ज भडारउ ।  
 'सिचपुरि-गमणु करि' दसरहहौँ णाईँ हकारउ ॥ ६ ॥

[ ५ ]

पडिवण्णएँ तहिँ तेत्तडणँ कालँ । तो पुरँ रहणेउरचक्कवालँ ॥ १ ॥  
 भामण्डलु मण्डलु परिहरन्तु । अच्छइ रिसि सिद्धि व संभरन्तु ॥२॥  
 वइदेहि-विरह-वेयण सहन्तु । दस कामावत्थउ दक्खवन्तु ॥ ३ ॥  
 पडिहन्ति ण विजाहर-तियाउ । णउ णाण-खाण-भोयण-कियाउ ॥४॥  
 ण जलह ण चन्दण कमल-सेज । हुक्कन्ति जन्ति अण्णोण्ण वेज ॥५॥  
 वाहिज्जइ विरहें दूसहेण । णउ फिट्टइ केण वि ओसहेण ॥६॥  
 णीसासु मुएप्पिणु दीहु दीहु । पुणरवि थिउ थक्कवि जेम सीहु ॥७॥  
 'भूगोयरि भुञ्जमि मण्ड लेवि' । णीसरिउ स-साहणु सण्णहेवि ॥८॥

घत्ता

पत्तु वियड्ड-पुरु तं णिएँवि जाउ जाईँसरु ।  
 'अण्णहिँ भव-गहणँ हउँ होन्तु एत्थु रउजेसरु' ॥ ६ ॥

[ ६ ]

मुच्छाविउ तं पेक्खँवि पएसु । संभरँवि भवन्तरु णिरवसेसु ॥ १ ॥  
 सब्भावें पभणिउ तेण ताउ । 'कुण्डलमण्डिउ णामेण राउ ॥ २ ॥

करनेके लिए गरुड़, शम और दमकी सीढ़ियोंसे मोक्षगामी, तप लक्ष्मीरूपी उत्तम स्त्रीका आलिंगन करनेवाला, कलियुगके पाप-जल का शोषण करनेके लिए सूर्य, तीर्थकरोंके चरणकमलोंके लिए भ्रमर और मोहरूपी महासुरकी नगरीके लिए भयंकर था। उसमें संसार समुद्रकी थाहको जाननेवाले सत्यभूति नामक एक साधु थे जो कर्मा मगध शासक थे। वह पुत्र और स्त्रीके प्रेमसे दूर हो चुके थे। वह धीरतामें मन्दराचल और गम्भीरतामें समुद्र थे, संघपति वह भट्टारक सत्यभूति, अयोध्यामें, मानो राजा दशरथको यही चेतावनी देने आये थे कि शिवपुरीके लिए चल ॥१-६॥

[५] उधररथनूपुरचक्रवालपुरमें भामंडल (सीताके वियोगमें) अपनी श्रेणीका राजपाट छोड़कर, सिद्धिके ध्यानमें रत मुनिकी तरह धूनी रमाये बैठा था। सीताके वियोगको किसी प्रकार सहन करते हुए उसके कामकी अवस्थाएँ प्रगट होने लगीं, उसे किसी भी विचारधाराकी इच्छा नहीं थी। वह भोजन पान सब कुछ छोड़ बैठा, न ठण्डा पानी, न चन्दन, न कमलोंकी सेज, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। वैद्य आते और देखकर चले जाते, वह दुःसहविरहसे पीड़ित हो रहा था, जो किसी भी दवासे नष्ट नहीं हो सकता था। लम्बी लम्बी साँसे छोड़ता हुआ वह थक कर ऐसा बैठा था, मानो सिंह ही बैठा हो। “मैं उस मानवीका बलपूर्वक अपहरण कर भोग करूँगा,” यह सोचकर वह सेनाके साथ तैयार होकर निकल पड़ा, परन्तु जैसे ही विदग्ध नगर पहुँचा, उसे देखते ही उसे जाति-स्मरण हो आया। पिछले जन्ममें मैं इसी नगरमें राजा था ॥१-६॥

[६] उस प्रदेशको देखकर वह मूर्छित हो गया। और फिर सब भवान्तरोंका स्मरण कर उसने तातसे श्रद्धापूर्वक कहा, “मैं पहले यहाँ कुण्डलमंडित नामका अत्यन्त अहंकारी राजा था। और एक

हउँ होन्तु एत्थु अखलिय-मरट्टु । पिङ्गलु णामेण कुवेर-भट्टु ॥ ३ ॥ ३ ॥  
 ससिकेउ-दुहिय अवहरँवि आउ । परिवसइ कुडीरएँ किर वराउ ॥ ४ ॥  
 उहालिउ मइँ तहों तं कलत्त । सों वि मरँवि सुरत्तणु कहि मि पत्तु ॥ ५ ॥  
 मुउ हउ मि विदेहहँ देहँ आउ । णिउ देवं जाणइ-जमल-जाउ ॥ ६ ॥  
 वणँ घत्तिउ कण्ठेण वि ण भिण्णु । पुप्फवइहँ पइँ सायरँण दिण्णु ॥ ७ ॥

## घत्ता

वद्धिउ तुमह घरँ जणु सयलु वि एँउ परियाणइ ।  
 जणउ जणेरु महु मायरि विदेह सस जाणइ' ॥ ८ ॥

[ ७ ]

वित्तन्तु कहेप्पिणु णिरवसेसु । गउ वन्दणहत्तिएँ तं पणसु ॥ १ ॥  
 जहिँ वसइ महारिसि सच्चभूइ । जहिँ जिणवर-ण्हवण-महाविभूइ ॥ २ ॥  
 वइरग-कालु जहिँ दसरहासु । जहिँ सीय-राम-लक्खण-विलासु ॥ ३ ॥  
 सत्तुहण-भरह जहिँ मिलिय वे वि । गउ तहिँ भामण्डलु जणणु लेवि ॥ ४ ॥  
 जिणु वन्दिउ मोक्ख-वलग्ग-जइ । पुणु गुरु-परिवाडिँ सवण-सङ्घु ॥ ५ ॥  
 पुणु किउ संभासणु समउतेहिँ । सत्तुहण-भरह-वल-लक्खणेहिँ ॥ ६ ॥  
 जाणाविउ सीयहँ भाइ जेम । जिह हरि-वल-साला सावलेव ॥ ७ ॥  
 सुउ परम-धम्मु सुह-भायणेण । तवचरणु लयउ चन्दायणेण ॥ ८ ॥

## घत्ता

दसरहु अण्ण-दिणँ किर रामहों रज्जु समप्पइ ।  
 केक्कय ताव मणँ उण्हालएँ धरणि व तप्पइ ॥ ९ ॥

पिंगल नामका कुबेरभट्ट था। वह राजा चन्द्रध्वजकी लड़कीका अपहरणकर एक कुटियामें रहता था। परन्तु मैंने उसकी पत्नीको छीन लिया। वह मरकर किसी प्रकार देव हुआ। मैं भी मरकर विदेह स्वर्गमें पहुँचा। वहाँसे आकर सीताके साथ जुड़वा भाई उत्पन्न हुआ। वनमें फेंके जाने पर भी मुझे एक कांटा तक नहीं लगा, और आपने आदरके साथ मुझे अपनी पत्नी पुष्पावतीको सौंप दिया। फिर आपके घरमें किस प्रकार बड़ा हुआ। यह सब लोग जानते हैं, जनक मेरे पिता, माँ विदेही और सीता बहन हैं ॥१-६॥

[७] (इस प्रकार) समस्त वृत्तान्तको कहकर वह (भामण्डल) उस प्रदेशकी वन्दना-भक्तिके लिए गया, जहाँ महाऋषि सत्यभूति रहते थे। जहाँ जिनवरके स्नान (अभिषेक) की महाविभूति हो रही थी। जहाँ महाराज दशरथका वैराग्य काल था। जहाँ सीता देवी, राम और लक्ष्मणका (लीला) विलास हो रहा था, और जहाँ शत्रुघ्न तथा भरतके मिलनेकी (संभावना) थी (ऐसे उस स्थानको) भामण्डल अपने पिता (चन्द्रगति) को लेकर गया। उसने (वहाँ) मोक्षके आधार-स्तम्भ जिनकी वंदना कर फिर गुरु और श्रमण-संघकी परिक्रमा दी, और उनके साथ संभाषण किया। (इसके बाद) शत्रुघ्न, भरत, राम और लक्ष्मणको उसने यह बताया कि किस प्रकार वह सीताका भाई और रामका अपराधी साला है। विद्याधर चन्द्रगतिने भी शुभभावसे परमधर्म सुनकर तपस्या अंगीकार कर ली ॥१-८॥

दूसरे दिन दशरथने जब रामके धराज्य अर्पित किया तो कैकेयी अपने मनमें वैसे ही संतुष्ट हो उठी जैसे प्रीति कालमें धरती तप उठती है ॥६॥



[ ८ ]

णरिन्दस्स सोऊण पव्वज्ज-यज्जं । स-रामाहिरामस्स रामस्स रज्जं ॥ १ ॥  
 ससा दोणरायस्य भग्गाणुराया । तुलाकोडि-कन्ती-लयालिद्ध-पाया ॥ २ ॥  
 स-पालम्ब-कञ्ची-पहा-भिण्ण-गुज्झा । थणुत्तुङ्ग-भारेण जा णित्त-मज्झा ॥ ३ ॥  
 णवासाय-वच्छच्छयाछाय-पाणी । वरालाविणी-कोड्डालाव-वाणी ॥ ४ ॥  
 महा-मोरपिच्छोह-संकास-केसा । अणङ्गस्स भल्ली व पच्छण्ण-वेसा ॥ ५ ॥  
 गया केक्कया जत्थ अत्थाण-मग्गो । णरिन्दो सुरिन्दो व पीढं वलग्गो ॥ ६ ॥  
 वरो मग्गिओ 'णाह सो एस्स कालो । महं णन्दणो ठाउ रज्जाणुपालो ॥ ७ ॥  
 पिण्णु होउ एत्तं तओ सावलेवो । समायारिओ लक्खणो रामएवो ॥ ८ ॥

घत्ता

‘जइ तुद्धं पुत्तु महु, तो एत्तिउ पेसणु किज्जइ ।

छत्तइँ वइसणउ, वसुमइ भरहहोँ अप्पिज्जइ ॥ ९ ॥

[ ९ ]

अहवइ भरहु वि आसण्ण-भव्वु । सो चिन्तइ अथिरु असारु सव्वु ॥ १ ॥  
 घरु परियणु जाविउ सरीरु वित्तु । अच्चइ तवचरण-णिहित्त-चित्तु ॥ २ ॥  
 तइँ मुएँवि तासु जइ दिण्णु रज्जु । तो लक्खणु लक्खइँ हणइ अज्जु ॥ ३ ॥  
 ण वि हउँ ण वि भरहु ण केक्कया वि । सत्तुहणु कुमारु ण सुप्पहा वि ॥ ४ ॥  
 तं णिसुणँवि पप्फुल्लिय-मुहेण । वोल्लिज्जइ दसरह-तणुरुहेण ॥ ५ ॥  
 ‘पुत्तहोँ पुत्तत्तणु एत्तिउं जे । जं कुलु ण चडाइ वसण-पुब्बे ॥ ६ ॥  
 जं णिय-जणणहोँ आणा-विहेउ । जं करइ विवक्खहोँ पाण-छेउ ॥ ७ ॥  
 किं पुत्तेँ पुणु पयपूरणेण । गुण-हीणेँ हियय-त्रिसूरणेण ॥ ८ ॥

[८] राजा दशरथके दीक्षायज्ञ और लक्ष्मीके अभिराम रामको राज्य (मिलनेकी) बात सुनकर द्रोणराजकी बहन कैकेयीका अनुराग भग्न हो उठा। नूपुरोंकी कांतिलतासे उसके चरण लिप्त हो रहे थे। उसका मध्य लम्बी करधनीके प्रभावसे उद्भिन्न हो रहा था। ऊँचे स्तनोंके भारसे कमर झुकी जा रही थी। उसके हाथ नव-अशोक वृक्षकी कान्ति समान आरक्त थे। वह कोयलके आलापकी तरह बहुत ही मधुर बोलती थी। श्रेष्ठ मोरके पंख समूहके सदृश उसकी केशराशि (अत्यन्त चमकीली) थी। प्रच्छन्न वेष, कामदेवकी भल्लिकाके समान थी वह। कैकेयी वहाँ गई जहाँ दरबारका मार्ग था, और राजा दशरथ, इन्द्रकी तरह सिंहासनपर बैठे हुए थे। उसने (उनसे) वर माँगा, “स्वामी यही वह समय है (कि जब) आप मेरे पुत्र (भरत) को राज्यपाल बनाएँ। तब दशरथने यह कहकर कि प्रिये तुम्हारी यह अपराधपूर्ण (बात) होगी, लक्ष्मण और रामको बुलाया ॥१-८॥

उन्होंने कहा, “यदि तुम मेरे पुत्र हो तो इस आज्ञाको मानां। छत्र सिंहासन और सारी धरती भरतको सौंप दो” ॥६॥

[९] अथवा भरत आसन्न भव्य है, वह समस्त संसार, घर-परिजन, जीवन शरीर और धनको असार समझता है। उसका मन तो तपश्चरणमें रखा है। यदि मैं तुम्हें छोड़कर उसे राज्य दे दूँ तो लक्ष्मण आज ही लाखोंको साफ़ कर देगा। तब न मैं, न न भरत, न कैकेयी, न कुमार शत्रुघ्न और न सुप्रभा, कोई भी उससे नहीं बचेगा।” यह सुनकर प्रफुल्ल मुखसे रामने कहा— “पुत्रका पुत्रत्व तो इसीमें है कि वह अपने कुलको संकटके मुखमें न डाले, और अपने पिताकी आज्ञा न टाले। शत्रुपक्षका संहार करे। अन्यथा, हृदयपीडक, गुणहीन, पुत्र शब्दकी पूर्ति करनेवाले

## घत्ता

लक्खणु ण वि हणइ तवु भावहोँ सच्चु पयासहोँ ।  
भुअउ भरहु महि हउँ जामि ताय वण-वासहोँ' ॥ ६ ॥

[ १० ]

हक्कारिउ भरहु णरेसरेण । पुणु वुच्चइ णेह-महाभरेण ॥ १ ॥  
'तउ वृत्तइँ तउ वइसणउ रज्जु । साहेवउ मइँ अप्पणउ कज्जु' ॥ २ ॥  
तं वयणु सुणोँवि दुम्मिय-मणेण । धिक्कारिउ केक्कय-णन्दणेण ॥ ३ ॥  
'तुहुँ ताय धिगत्यु धिगत्यु रज्जु । मायरि धिगत्यु सिरँ पडउ वज्जु ॥४॥  
णउ जाणहुँ महिलहँ को सहाउ । जोव्वण-मएणण गणन्ति पाउ ॥ ५ ॥  
णउ वुज्झहि तहुँ मि महा-मयन्धु । किंरामु मुएँवि महु पट्ट-वन्धु ॥ ६ ॥  
सप्पुरिस वि चञ्चल-चित्त होन्ति । मणँ जुत्ताजुत्त ण चिन्तवन्ति ॥ ७ ॥  
मा णिक्कु मुएँवि को लेइ कच्चु । कामन्धहोँ किर कहिँ तणउ सच्चु ॥ ८ ॥

## घत्ता

अच्छहु पुणु वि घरँ सत्तहणु रामु हउँ लक्खणु ।  
अलिउ म होहि तुहुँ महि भुअँ भडारा अप्पुणु' ॥ ९ ॥

[ ११ ]

सुय-वयण-विरमँ दससन्दणेण । नुच्चइ अणरण्होँ णन्दणेण ॥ १ ॥  
'केक्कयहँ रज्जु रामहोँ पवासु । पव्वज्ज मज्झु एउ जगँ पगासु ॥ २ ॥  
तुहुँ पालँ घरासउ परम-रम्मु । णउ आयहोँ पासिव को वि धम्मु ॥३॥  
दिज्जइ जइवरहुँ महप्पहाणु । सुअ - भेसह-अभयाहार-दाणु ॥ ४ ॥  
रक्खिज्जइ सीलु कुसीम-णासु । किज्जइ जिणु-पुज्ज महोववासु ॥ ५ ॥  
जिण-वन्दण वारापेक्ख-करणु । सल्लेहण-कालु समाहि-मरणु ॥ ६ ॥  
एहु सव्वहुँ धम्महुँ परम-धम्मु । जो पालइ तहोँ सुर-मणुय-जम्मु' ॥७॥  
तं वयणु सुणेवि सइत्तणेण । वुच्चइ सुहमइ-दोहित्तएण ॥ ८ ॥

पुत्रसे क्या लाभ ? हे तात ! लक्ष्मण भी घात नहीं करेगा । आप तप साधें और सत्यको प्रकाशित करें । भरत धरतीको भोगे, और मैं वनवासके लिए जाता हूँ ॥१-६॥

[१०] तब स्नेहसे भरे हुए राजाने भरतको बुलाकर कहा—  
 “यह छत्र सिंहासन और राज्य तुम्हारा है, अब मैं अपना काम साधूँगा । यह सुनते ही कैकेयीपुत्र भरतने धिक्कारते हुए कहा—  
 “पिताजी, तुम्हें और तुम्हारे राज्यको धिक्कार है । माँको धिक्कार है । उसके सिर पर वज्र क्यों नहीं गिर पड़ा ? पर क्या आप भी नहीं जानते, महिलाओंका क्या स्वभाव होता है ? यौवनके मदमें वे पाप नहीं गिनतीं । महामदान्ध तुम भी यह नहीं समझ सके कि रामको छोड़कर राज्यपट्ट मुझे बाँधा जायगा ? सज्जन पुरुष भी चञ्चलचित्त हो जाते हैं और उचित-अनुचितका विचार नहीं कर पाते ? माणिक्य छोड़कर काँच कौन लेगा, कामान्धके लिए सच कैसा ? अथवा आप घर पर ही रहें, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण और मैं वनको जाते हैं, आप धरतीका भोग करें, आपका वचन भी मूठा नहीं होगा ॥१-६॥

[११] भरतके कह चुकनेपर, अणरण्यके पुत्र दशरथ बोले,  
 “जगमें प्रकट है कि भरतको राज्य, रामको प्रवास और मुझे संन्यास मिलेगा । अतः घर रह कर तुम धरतीका पालन करो । इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं हो सकती । यतिवरोको बड़प्पन देना, शास्त्र, औषध, अभय और आहार दान करते रहना, अपना शील रखना, कुशीलका नाश करना, जिन पूजा उत्सव और उपवास करते रहना, जिन वंदनाके बाढ़ द्वार पर अतिथिकी बाट देखना, सल्लेखनाके समय समाधिभरण करना, बस, सब धर्मोंमें यही परम-धर्म है, जो इसका पालन करता है वह देव या मनुष्य योनिमें उत्पन्न होता है ।” यह वचन सुनकर सहृदय भरतने फिर कहा

घत्ता

‘जइ घर-वासँ सुहुँ एउ जँ ताय वडिवज्जहि ।  
तो तिण-समु गणँवि कजेण केण पव्वज्जहि’ ॥ ६ ॥

[ १२ ]

तो खेडु मुएँवि दसरहँण वुत्तु । ‘जइ सच्चड तुहुँ महु तणउ पुत्तु ॥ १ ॥  
तो किं पव्वज्जहँ करहि विग्घु । कुलवंस-धुरन्धरु होहि सिग्घु ॥ २ ॥  
केकयहँ सच्चु जं दिण्णु आसि । तं णिरिणु करहि गुण-रयण-रासि’ ॥ ३ ॥  
तो कोशल-दुहिया-दुल्लहेण । वोल्लिज्जइ सीया-वल्लहेण ॥ ४ ॥  
‘गुणु केवल्लु वसुहहँ भुत्तियाएँ । किं खणँ खणँ उत्त-पउत्तियाएँ ॥ ५ ॥  
पालिज्जउ तायहँ तणिय काय । लइ महु उवरोहँ पिहिवि भाय’ ॥ ६ ॥  
तो एम भणन्तँ राहवेण । णिव्वूढाणेय-महाहवेण ॥ ७ ॥  
खीरोवमइण्णव-णिम्मलेण । णिव्वाण-महागिरि-अविचलेण ॥ ८ ॥

घत्ता

पेक्खन्तहँ जणहँ सुरकरि-कर-पवर-पचण्डहँ ।  
पट्टु णिवद्धु सिरँ रहु-सुएँण स थं भुव-दण्णुहँ ॥ ६ ॥

●

[ २३. तेवीसमो संधि ]

तहिँ मुणि-सुव्वय-तित्थँ वुहयण-कण्ण-रसायणु ।  
रावण-रामहुँ जुञ्जु तं णिसुणहुँ रामायणु ॥

[ १ ]

णमिऊण भडारउ रिसह-जिणु । पुणु कव्वहँ उप्परि करमि मणु ॥ १ ॥  
जगँ लोयहुँ सुयणहुँ पण्डियहुँ । सद्धत्थ-सत्थ परिचड्डियहुँ ॥ २ ॥  
किं चित्तइँ गेण्हँवि सक्कियइँ । वासेण वि जाइँ ण रज्जियइँ ॥ ३ ॥

तात, आपने जो यह कहा कि घरमें रहनेमें सुख है, तो आप उसे तिनकेके समान छोड़कर संन्यास क्यों ग्रहण कर रहे हैं ? ॥१-६॥

[१२] इसपर अपनी खिन्नता दूर करते हुए दशरथने कहा, “यदि तू मेरा सच्चा पुत्र है, तो प्रव्रज्यामें विघ्न क्यों करता है। तुम अपने कुलवंशके धुरन्धर तुम सिंह बनो, कैकेयीको जो सच्चा वचन मैं दे चुका हूँ, उसे हे गुणरत्नराशि, तुम पूरा करो। तब (बीचमें टोककर) कोशल नरेशकी पुत्री अपराजिताके लिए दुर्लभ सीतापति रामने कहा, “अब तो धरतीका भोग करनेमें ही भलाई है, क्षण-क्षणमें उक्ति प्रति उक्तिसे क्या लाभ ? अपने पिताका वचन पालो, अच्छा भाई मेरे अनुरोधसे ही तुम यह पृथ्वी स्वीकार कर लो,” यह कहकर, अनेक महायुद्धोंको निपटानेवाले, क्षीरसागरकी तरह निर्मल, मंदराचलकी तरह अविचल, रघुसुत रामने लोगोंके देखते-देखते, अपने प्रचंड हाथों (ऐरावतकी सूँड़ की तरह विशाल) से भरतके सिरपर राजपट्ट बाँध दिया ॥१-६॥



## तेईसवीं संधि

इसके बाद, मुनिमुव्रत तीर्थकरके तीर्थ-कालमें राम और रावणका भयंकर युद्ध हुआ। अतः बुधजनोंके कानोंके लिए ‘रसायन स्वरूप’ उस रामायणको सुनो।

[१] भट्टरिक जिनको नमन करके मैं-काव्यके ऊपर अपना मन कर रहा हूँ। शब्दार्थ समूहसे अच्छी तरह परिचित, संसारमें जो सज्जन और पण्डित हैं, और जिनके चित्तका अनुरञ्जन व्यास भी नहीं कर पाते क्या वे इस काव्यको मनसे ग्रहण कर सकेंगे ? अथवा व्याकरण और आगमसे हीन हम जैसे लोगोंका [काव्यका]

तो कवणु गहणु अभहारिसँहिँ । वायरण-विहूणँहिँ आरिसँहिँ ॥४॥  
 कइ भत्थि अणेय भेय-भरिय । जे सुयण-सासँहिँ आयरिय ॥५॥  
 चकलएँहिँ कुलएँहिँ खन्दएँहिँ । पवणुदुअ-रासालुद्धएँहिँ ॥ ६ ॥  
 मञ्जरिय - विलासिणि - णक्कुडँहिँ । सुह-छन्दँहिँ सदेहिँ खडइडँहिँ ॥ ७ ॥  
 हउँ कि पि ण जाणमि मुक्खु मणँ । णिय बुद्धि पयासमि तो वि जणँ ॥८॥  
 जं सयलँ वि तिहुवणँ वित्थरिउ । आरम्भउ पुणु राहवचरिउ ॥ ९ ॥

## घत्ता

भरहहँ वद्धएँ पट्टँ तो णिव्वूढ-महाहउ ।

पट्टणु उज्झ सुएवि गउ वण-वासहँ राहउ ॥ १० ॥

[ २ ]

जं परिवद्धु पट्टु परिओसेँ । जय-मङ्गल-जय-तूर-णिघोसेँ ॥ १ ॥  
 दसरह-चरण-जुयलु जयकारँवि । दाइय-मच्छरु मणँ अवहारँवि ॥ २ ॥  
 सम्पय रिद्धि विद्धि अवगणँवि । तासहँ तणउ सच्चु परिमणँवि ॥ ३ ॥  
 णिग्गउ वलु वलु णाँ हरेप्पिणु । लक्खणो वि लक्खणइँ लएप्पिणु ॥ ४ ॥  
 संचल्लेहिँ तेहिँ विहाणउ । ठिउ हेट्टासुहु दसरहु राणउ ॥ ५ ॥  
 हियवएँ णाँ तिसूलँ सद्धिउ । 'राहउ किह वण-वासहँ घल्लिउ ॥ ६ ॥  
 धिगाधिनत्थु' जणएण पवोल्लिउ । 'लद्धिउ कुल-कमु वि सुमहल्लउ ॥ ७ ॥  
 अहवइ जइ मइँ सच्चु ण पालिउ । तो णिय-णामु गोत्तु मइँ मइल्लिउ ॥ ८ ॥  
 वरि गउ रामु ण सच्चु विणासिउ । सच्चु महन्तउ सव्वहँ पासिउ ॥ ९ ॥  
 सच्चँ अम्वरँ तवइ दिवायरु । सच्चँ समउ ण चुक्कइ सायरु ॥१०॥  
 सच्चँ वाउ वाइ महि पच्चइ । सच्चँ ओसहि खयहँ ण वच्चइ ॥११॥

ग्राहक कौन हो सकता है ? फिर कवियोंके अनेक भेद हैं और जो हजारों सज्जनों द्वारा आदरणीय हैं। जो चक्रलक, कुलक, स्कन्धक, पवनोद्धत, रासालुब्धक, मञ्जरीक, विलासिनी, नकुड, और खडहड शुभछन्द तथा शब्दमें निपुण हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, मनमें मूर्ख हूँ तो भी लोगोंके सम्मुख अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता हूँ। तीनों लोकोंमें जो प्रसिद्ध है मैं उस राघव-चरितको आरम्भ करता हूँ ॥१—६॥

भरतको राज्यपट्ट बाँधे जानेपर महायुद्धमें समर्थ राम अयोध्य। नगरी छोड़कर वनवासके लिए चले गये ॥१०॥

[२] जय मंगल और जय तूर्यके निर्घोषके साथ, रामने परितोषपूर्वक [भरतको] राजपट्ट बाँध दिया। अपने पिताके चरणोंकी जय बोल, मनमें दैव-मत्सर, और ऋद्धि-वृद्धिकी उपेक्षाकर, केवल अपने पिताके सत्य वचनको मानते हुए, राम अपने भवनसे निकल पड़े, उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। सब लक्ष्णोंसे युक्त लक्ष्मण भी उनके साथ ही लिया। उन दोनों भाइयोंके जाते ही, खिन्न दशरथ नीचा मुख करके रह गये। मानो किसीने उनके हृदयमें त्रिशूल ही छेद दिया हो। उन्होंने कहा, “रामको वनवास कैसे दे दिया धिक्कार—है।” दशरथने] महान् कुल परम्पराका उल्लंघन किया है। अथवा यदि मैं अपने सत्य वचनका पालन नहीं करता, तो अपने नाम और गोत्रको कलंक लगाता, अच्छा हुआ जो राम वनको चले गये, मेरा सत्य तो नष्ट नहीं हुआ। सबकी अपेक्षा सत्य ही महान् है। सत्यसे ही आकाशमें सूरज तपता है, सत्यसे ही समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। सत्यसे ही हवा चलती है और सत्यसे ही धरती सब कुछ सहन कर लेती है। जो मनुष्य सत्यका पालन



घत्ता

जो ण वि पालइ सच्चु मुहँ दाढियउ वहन्तउ ।

णिवडइ णरय-समुदे वसु जँम अलिउ चवन्तउ' ॥१२॥

[ ३ ]

चिन्तावणु णराहिउ जावँहिँ । बलु णिय-णिलउ पराइउ तावँहिँ ॥ १ ॥

दुम्मणु एन्तु णिहालिउ मायएँ । पुणु विहसेवि वुत्तु पिय-त्रायएँ ॥ २ ॥

'दिवँ दिवँ चडहि तुरङ्गम-णाएँहिँ । अज्जु काइँ अणुवाहणु पाएँहिँ ॥ ३ ॥

दिवँ दिवँ वन्दिण-विन्दँहिँ थुव्वहिँ । अज्जु काइँ थुव्वन्तु ण सुव्वहिँ ॥ ४ ॥

दिवँ दिवँ थुव्वहिँ चमर-सहासँहिँ । अज्जु काइँ तउ को बि ण पासँहिँ ॥ ५ ॥

दिवँ दिवँ लोयहिँ वुच्चहिँ राणउ । अज्जु काइँ दीसहिँ विद्दाणउ ॥ ६ ॥

तं णिसुणेवि वलेण पजम्पिउ । 'भरहहँ सयलु वि रज्जु समप्पिउ ॥ ७ ॥

जामि माएँ दिढ हियवएँ होज्जहिँ । जं दुम्मिय तं सब्बु खमेज्जहिँ' ॥ ८ ॥

घत्ता

जँ आउच्छिय माय 'हा हा पुत्त' भणन्तो ।

अपराइय महएवि महियलँ पडिय रुयन्ती ॥ ६ ॥

[ ४ ]

रामे जणणि जं जँ आउच्छिय । णिरु णिञ्जेयण तक्खणँ मुच्छिय ॥ १ ॥

लज्जियाहिँ 'हा माएँ' भणन्तिहिँ । हरियन्दणँण सित्त रोवन्तिहिँ ॥ २ ॥

चमरुखेवँहिँ किय पडिवायण । दुक्खु दुक्खु पुणु जाय स-चेयण ॥ ३ ॥

अज्जु वलन्ति समुट्ठिय राणी । सप्पि व दण्डाहय विद्दाणी ॥ ४ ॥

णोलक्खण णीरामुम्माहिय । पुणु वि सदुक्खउ मोल्लिय धाहिय ॥ ५ ॥

'हा हा काइँ वुत्तु पइँ हलहर । दसरह-वंस-दीव जग-सुन्दर ॥ ६ ॥

पइँ विणु को पल्लङ्गे सुवेसइ । पइँ विणु को अथाणँ वईसइ ॥ ७ ॥

पइँ विणु को हय-गयहुँ चडेसइ । पइँ पइँ विणु को मिन्दुएँण रमेसइ ॥८॥

नहीं करता वह मुँहमें दाढ़ी रखकर भी, नरक-समुद्रमें उसी प्रकार पड़ता है जिस प्रकार राजा वसुको मूठ बोलकर नरक जाना पड़ा था ॥१-१२॥

[ ३ ] इधर राजा दशरथ चिन्तातुर थे, और उधर राम अपने भवनमें पहुँचे। माँने दुर्मन आते हुए उन्हें देख लिया। फिर भी वह हँसकर प्रियवाणीमें बोली, “प्रति-दिन तुम घोड़ों और हाथियोंकी सवारीपर चढ़कर आते थे। परंतु आज पैदल ही कैसे आये? प्रतिदिन बंदीजन तुम्हारी स्तुति करते थे, परंतु आज तुम्हारी स्तुति क्यों नहीं सुन रही हूँ? प्रतिदिन तुम्हारे ऊपर सैकड़ों चमर डुलाये जाते थे; परंतु आज तुम्हारे निकट कोई भी नहीं है; प्रतिदिन लोग तुम्हें ‘राजा’ कहकर पुकारते थे; पर आज तुम्हारा मुख मलीन क्यों है?” यह सुनकर रामने कहा, “माँ! भरत को सब राज्य अर्पित कर दिया, मैं जा रहा हूँ। अपना हृदय दृढ़ कर लो और जो भी अविनय मुझसे हुई हो उसे क्षमा करो।” रामने जो यह पूछा उससे अपराजिता महादेवी “हा पुत्र हा पुत्र”—कहकर रोती हुई धरतीपर गिर पड़ी ॥१-६॥

[ ४ ] रामने माँसे जो पूछा, उससे वे तत्काल चेतनाहीन हो मूर्छित हो गईं। तब ‘हा माँ’ यह कहती हुई दासियोंने हरिचन्दनका उनपर लेप किया। चमरधारिणी स्त्रियोंके हवा करनेपर वह धीरे-धीरे बड़े दुखसे सचेतन हुईं। अपने अंगोंको मोड़ती हुईं, दंडाहत म्लान नागिनकी तरह रानी उठी। उसकी आंखें नीली और अश्रुजलसे डबडबाई हुई थीं। फिर वह दुखके आवेगसे डाढ़ मार कर रोने लगीं—हे बलभद्र, तुमने यह सब क्या कहा? दशरथकुलके दीपक, जगसुंदर राम! तुम्हारे बिना अब कौन पलंगपर सोयेगा। तुम्हारे बिना कौन अब दरबारमें बैठेगा। तुम्हारे बिना कौन अब हाथी-घोड़े पर

पइँ विणु रायलच्छि को माणइ । पइँ विणु को तम्बोलु समाणइ ॥ ९ ॥  
पइँ विणु को पर-वलु भञ्जेसइ । पइँ विणु को मइँ साहारेसइ' ॥ १० ॥

घत्ता

तं कूवारु सुणेवि अन्तेउरु मुह-वुण्णउ ।  
लक्खण-राम-विओणं धाह मुणुवि परुण्णउ ॥ ११ ॥

[ ५ ]

ता एत्थन्तरे असुर-विमहे । धीरिय णिय-जणेरि वलहहे ॥ १ ॥  
'धीरिय होहि माएँ किं रोवहि । लुहि लोयण अप्पाणु म सोयहि ॥ २ ॥  
जिह रवि-किरणेहिँ ससि ण पहावइ । तिह मइँ होन्ते भरहु ण भावइ ॥ ३ ॥  
ते कज्जे वण-वासँ वसेवउ । तायहोँ तणउ सच्चु पालेवउ ॥ ४ ॥  
दाहिण-देसेँ करेविणु थत्ति । तुम्हहँ पासँ एइ सोमित्ति' ॥ ५ ॥  
एम भणेप्पिणु चलिउ तुरन्तउ । सयलु वि परियणु आउच्छन्तउ ॥ ६ ॥  
धवल-कसण-णालुप्पल-सामेहिँ । घरु मुच्चन्तउ लक्खण-रामेहिँ ॥ ७ ॥  
सोह ण देइ ण चित्तहोँ भावइ । णहु णिच्चन्दाइच्चउ णावइ ॥ ८ ॥  
णं किय-उद्ध-हत्थु धाहावइ । वलहोँ कलत्त-हाणि णं दावइ ॥ ९ ॥  
भरह णरिन्दहोँ णं जाणावइ । 'हरि-वल जन्त णिवारहि णरवइ' ॥ १० ॥  
पुणु पाआर-भुञ्जउ पसरेप्पिणु । णाइँ णिवारइ आलिङ्गेप्पिणु ॥ ११ ॥

घत्ता

चाव - सिलोमुह - हत्थ वे वि समुण्णय - माणा ।  
तहोँ मन्दिरहोँ रुयन्तहोँ णाइँ विणिग्गय पाणा ॥ १२ ॥

[ ६ ]

तो एत्थन्तरे णयणाणन्दे । संचल्लन्ते राहवचन्दे ॥ १ ॥  
सीयाएविहेँ वयणु णिहालिउ । णं चित्तेण चित्तु संचालिउ ॥ २ ॥

चढ़ेगा ? तुम्हारे बिना गंड कौन खेलेगा ? तुम्हारे बिना राजलक्ष्मी को कौन मानेगा ? तुम्हारे बिना ताम्बूलका आनन्द कौन करेगा ? तुम्हारे बिना कौन शत्रुसेनाको परास्त करेगा ? तुम्हारे बिना अब कौन मुझे सहारा देगा, रानीका करुण क्रन्दन सुनकर अन्तःपुरका मुख म्लान हो गया । राम और लक्ष्मणके वियोगमें वह अन्तःपुर डाढ़ मारकर रो पड़ा ॥ १-११ ॥

[ ५ ] इसी बीच असुरसंहारक रामने अपनी माँको धीरज बँधाते हुए कहा, “मां, धीरज धारण करो । रोती क्यों हो ? आँखें लाल लालकर अपने आपको शोकमें मत डालो । सूर्यकी किरणोंके रहते जैसे चन्द्रमा शोभायुक्त नहीं हो पाता वैसे ही मेरे रहनेसे भरतकी शोभा नहीं होगी । केवल इसीलिए मैं वनवासके लिए जा रहा हूँ । मैं वहीं रहकर तातके वचनका पालन करूँगा । दक्षिण देशमें निवास बनाकर, लक्ष्मण तुम्हारे पास आ जायगा ।” यह कहकर राम तुरन्त, सब परिजनोंसे पूछकर चल पड़े । धवल और कृष्ण नील कमलकी तरह लक्ष्मण और रामके छोड़ते ही, घर न तो सोहता था और न मनको ही भाता था, वैसे ही जैसे सूर्य और चन्द्रसे रहित आकाश अच्छा नहीं लगता । वह भवन हाथ ऊपर उठाकर और डाढ़ मारकर चिल्लाता हुआ, मानो रामको उसकी पत्नीका हरण दिखा रहा था या नरेन्द्र भरतको यह जता रहा था कि जाती हुई रामकी सेनाको रोको । या फिर मानो अपनी प्राकाररूपी भुजाओंको फैलाये हुए, आलिंगन कर, उसका निवारण कर रहा था । धनुष-बाण हाथमें लेकर उन्नतमान वे दोनों उस रोते हुए राजभवनसे ऐसे चले गये मानो उसके प्राण ही चले गये हों ।” ॥१-१२॥

[ ६ ] इसी अंतर में, जाते समय, नयनप्रिय रामने सीताका मुख कमल देखा, मानो चित्तने चित्त ही को संचारित कर दिया

णिय-मन्दिरहों विणिगय जाणइ । णं हिमवन्तहों गङ्ग महा-णइ ॥ ३ ॥  
 णं छन्दहों णिगय गायत्ती । णं सहहों णीसरिय विहत्ती ॥ ४ ॥  
 णाई कित्ति सप्पुरिस-विमुक्की । णाई रम्भ णिय-थाणहों चुक्की ॥ ५ ॥  
 सुललिय-चलण-जुयल-मलहन्ती । णं गय-घड भड-थड विहडन्ती ॥ ६ ॥  
 णेउर-हार-डोर-गुप्पन्ती । बहु-तम्बोल-पङ्क खुप्पन्ती ॥ ७ ॥  
 हेट्टा-मुह कम-कमलु णियच्छेवि । अवराइय-सुमित्ति आउच्छेवि ॥ ८ ॥

## घत्ता

णिगय सीयाएवि सिय हरन्ति णित-भवणहों ।  
 रामहो दुक्खुप्पत्ति असणि णाई दहवयणहों ॥ ९ ॥

[ ७ ]

राय-वारु वलु वोलिउ जावैहिं । लक्खणु मणं आरोसिउ तावैहिं ॥ १ ॥  
 उट्टिउ धगधगन्तु जस-लुद्धउ । णाई घिण्ण सित्तु धूमद्धउ ॥ २ ॥  
 णाई मइन्दु महा-घण-गडिजणं । तिह सोमित्ति कुविउ गमं सज्जिणं ॥ ३ ॥  
 कें धरणिन्द-फणा-मणि तोडिउ । कें सुर-कुलिस-दण्डु भुएँ मोडिउ ॥ ४ ॥  
 कें पलयाणलं अप्पउ दोइउ । कें आरुट्टु सणि अवलोइउ ॥ ५ ॥  
 कें रयणायरु सोसँवि सक्किउ । कें आइच्चहों तेउ कलङ्किउ ॥ ६ ॥  
 कें महि-मण्डलु वाहहिं टालिउ । कें तइलोक-चक्क संचालिउ ॥ ७ ॥  
 कें जिउ कालु कियन्तु महाहवँ । को पहु अण्णु जियन्तएँ राहवँ ॥ ८ ॥

## घत्ता

अहवइ किं बहुण्ण भरहु धरेप्पिणु अज्जु ।  
 रामहो णीसावण्णु देमि सहत्थेँ रज्जु ॥ ९ ॥

[ ८ ]

तो फुरन्त-रत्तन्त-लोयणो । कलि कियन्त-कालो व भीसणो ॥ १ ॥

हो, वह भी अपने भवनसे वैसे ही निकल पड़ी, जैसे, हिमालय से गंगा, छंदसे गायत्री, शब्दसे विभक्ति, सत्पुत्रसे कीर्ति, या अपने स्थानसे चूककर अप्सरा रमा ही निकल पड़ी हो। वह सुललित अपने सुघर पैरोंसे ऐसी अल्हड़ चल रही थी—मानो गजवटा भटसमूहको पराजित कर रही हो। नूपुर और हार डोरसे व्याकुल, प्रचुर ताम्बूलोंकी लालीमें निमग्न अपना मुँह वह नीचे किये थी। अपराजिता और सुमित्राके पैर पड़कर और उनसे पूछकर सीता देवी भी घरसे निकल आई। अपने भवनकी शोभा का हरण करती हुई सीता देवी इस तरह निकल आई मानो वह रामके लिए दुख का उत्पत्ति और रावणके लिए वज्र थीं ॥१-६॥

[ ७ ] रामके राजाज्ञा सुनाते ही लक्ष्मणको मन ही मन असह्य वेदना हुई। यशका लोभी वह तमतमाता हुआ उठा, मानो किसने आगको घीसे सींच दिया हो। जैसे महामेघ गरजते हैं, वैसे ही लक्ष्मण जानेकी तैयारी करने लगा। उसने कहा, “किसने आज धरणेंद्रके फनसे मणिको तोड़ लिया है? देववज्रदंडको किसने हाथसे मोड़ दिया है? प्रलयकाल में कौन अपनेको बचा सका है, शनिको देखकर कौन उचित हो सका है, समुद्रका शोषण कौन कर सकता है? सूर्यको कौन कलंक लगा सकता है? कौन पृथ्वीमंडलको अपनी भुजाओंसे टाल सकता है, त्रिलोक चक्रको कौन चला सकता है, यमका काल पूरा हो चुकनेपर महायुद्धमें कौन बचा सकता है, ठीक इसी प्रकार रामके जीतेकी राजा दूसरा कौन हो सकता है? अथवा बहुत बकवादसे क्या, मैं ही आज भरतको पकड़ कर, अशेष राज्य अपने हाथसे रामको अर्पित किये देता हूँ।

[ ८ ] लक्ष्मणकी लाल-लाल आँखें फड़क रही थीं, वह कलि, यम

दुण्णिवारु दुब्बार-वारणो । सुउ चवन्तु जं एम लक्खणो ॥ २ ॥  
 भणइ रासु तइलोकक-सुन्दरो । 'पइँ विरुद्धेँ किं को वि दुद्धरो ॥ ३ ॥  
 जसु पडन्ति गिरि सिंह-णाएणं । कवणु गहणु वो भरह राएणं ॥ ४ ॥  
 कवणु चोज्जु जं दिवि दिवायरे । अमिउ चन्देँ जल-णिवहु सायरे ॥ ५ ॥  
 सोक्खु मोक्खेँ दय-धम्मु जिणवरे । विसु भुयङ्गेँ वर लील गयवरे ॥ ६ ॥  
 धणएँ रिद्धि सोहग्गु वम्महे । गइ मरालेँ जय-लच्छि महुमहे ॥ ७ ॥  
 पउरुसं च पइँ कुविएँ लक्खणे । भणवि एम करेँ धरिउ तक्खणे ॥ ८ ॥

घत्ता

'रज्जेँ किज्जइ काइँ तायहोँ सच्च-विणासेँ ।

सोलह वरिसइँ जाम वे वि वसहुँ वण-वासैँ' ॥ ९ ॥

[ ९ ]

एह वोह्ल णिम्माइय जावैँहिँ । दुक्कु भाणु अत्थवणहोँ तावैँहिँ ॥ १ ॥  
 जाइ सञ्ज्म आरत्त पदीसिय । णं गय-घड सिन्दूर-विहूसिय ॥ २ ॥  
 सूर - मंस - रुहिरालि - चच्चिय । णिसियरि व्व आणन्दु पणच्चिय ॥ ३ ॥  
 गलिय सञ्ज्म पुणु रयणि पराइय । जगु गिलेइ णं सुत्तु महाइय ॥ ४ ॥  
 कहि मि दिव्व दीवय-सय वोहिय । फणि-मणि व्व पजलन्त सु-सोहिय ॥ ५ ॥  
 तित्थु कालेँ णिरु णिच्चं दुग्गमेँ । णीसरन्ति रयणिहेँ चन्दुग्गमेँ ॥ ६ ॥  
 वासुएव - वलएव महव्वल । साहम्मिय साहम्मिय-वच्छल ॥ ७ ॥  
 रण - भर-णिव्वाहण णिव्वाहण । णिग्गय णीसाहण णीसाहण ॥ ८ ॥  
 विगयपओलि पवोल्लेँवि खाइय । सिद्धकूडु जिण-भवणु पराइय ॥ ९ ॥  
 जं पायार - वार - विष्फुरियउ । पोत्थासित्थ-गन्थ-वित्थरियउ ॥ १० ॥  
 गङ्ग - तरङ्गहँ रङ्गसमुज्जलु । हिमइरि-कुन्द-चन्द-जस-णिम्मलु ॥ ११ ॥

घत्ता

तहोँ भवणहोँ पासेहिँ विविह महा-दुम दिट्ठा ।

णं संसार-भएण जिणवर-सरणेँ पइट्ठा ॥ १२ ॥

और कालसे भी अधिक भयंकर हो रहा था। दुर्बार हाथीकी तरह दुर्बार, लक्ष्मणको ऐसा कहते सुनकर रामने कहा—“तुम्हारे विरुद्ध होनेपर भला क्या कोई दुर्द्धर हो सकता है, पहाड़ सिंह और हाथीतक गिर पड़ते हैं, तो फिर भरत राजाको पकड़नेमें क्या रक्खा है ? यदि सूर्यमें दीप्ति, चंद्रमामें अमृत, समुद्रमें जल का समूह, मोक्षमें सुख, जिनवरमें दया धर्म, साँपमें विष, गजवर में वरलीला, धनमें ऋद्धि, वामामें सौभाग्य, मरालमें गति, विष्णुमें जयलक्ष्मी, और कुपित होनेपर तुममें पौरुष रहता है, तो इसमें अचरजकी कोई बात नहीं”—यह कहकर रामने भाई लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया। वह बोले, “तातनाशक राज्यके करनेसे क्या ? चलो सोलह वर्षतक हम दोनों वनवासमें रहें” ॥१-६॥

[ ६ ] जब राम यह वचन कह ही रहे थे कि सूर्यका अस्त हो गया, आरक्त सन्ध्या ऐसी दिखाई दी मानो सिंदूरसे अलंकृत गजघटा हो या वीरके रक्तमांससे लिपटी हुई निशाचरी आनन्दसे नाच रही हो। सांझ बीती और रात आ गई मानो वरिष्ठ उसने सोते हुए विश्वको लील लिया हो। कहींपर सैकड़ों जलते हुए दीपक शेषनागके फणमणियोंकी तरह चमक रहे थे। रातके उस सतत दुर्गमकालमें जब चाँद उग आया, तो महाबली, युद्धभार उठानेमें समर्थ राम और लक्ष्मणने माताओं तथा स्नेहीजनोंसे विदा माँगी, और सबारी, शृङ्गार तथा प्रसाधनसे हीन वे नगरका मुख्यद्वार और खाई लौंघकर सिद्धवरकूट जिन-भवनमें पहुँचे। वह मंदिर परकोटा और द्वारोंसे शोभित, और पोथियों तथा ग्रन्थोंसे भरा था। गंगाकी तरंगोंके समान उज्ज्वल, तथा हिमगिरि कुंद पुष्प चन्द्रमा और यशकी तरह निर्मल था। उसके चारों ओर लगे, बड़े-बड़े पेड़ ऐसे मालूम होते थे मानो संसारके भयसे वे जिनकी शरणमें आ गये हों ॥१-१२॥



[१०]

तं गिँएवि भुवणु भुवणेसरहौं । पुणु किउ पणिवाउ जिणेसरहौं ॥ १ ॥  
 जय गय-भय राय-रोस-विलय । जय मयण-महण तिहुवण-तिलय ॥ २ ॥  
 जय खम-दम-तव-वय-णियम-करण । जय कलि-मल-कोह-कसाय-हरण ॥ ३ ॥  
 जय काम-कोह-अरि-दप्प-दलण । जय जाइ-जरा-मरणत्ति-हरण ॥ ४ ॥  
 जय जय तव-सूर तिलोय-हिय । जय मग-विचित्त-अरुणें सहिय ॥ ५ ॥  
 जय धम्म - महारह - वीढें ठिय । जय सिद्धि-वरङ्गण-रण-पिय ॥ ६ ॥  
 जय संजम - गिरि-सिहरुगमिय । जय इन्द-णरिन्द-चन्द-णमिय ॥ ७ ॥  
 जय सत्त - महाभय - हय-दमण । जय जिण-रवि णाणम्बर-गमण ॥ ८ ॥  
 जय दुक्किय - कम्म - कुमुय-डहण । जय चउ-गइ-रयणि-तिमिर-महण ॥ ९ ॥  
 जय इन्दिय - दुहम - दणु-दलण । जय जक्ख-महोरग-थुय-चलण ॥ १० ॥  
 जय केवल - किरणुज्जोय - कर । जय - भविय - रविन्दाणन्दयर ॥ ११ ॥  
 जय जय भुवणेक्क-चक्क-भमिय । जय-मोक्ख-महीहरँ अत्थमिय ॥ १२ ॥

घत्ता

भात्रें तिहि मि जणेहिँ वन्दण करँविँ जिणेसहौं ।

पयहिण देवि तिवार पुणु चलियइँ वण-वासहौं ॥ १३ ॥

[११]

रयणिहँ मज्झँ पयट्टइ राहवु । ताम णियच्छिउ परसु महाहवु ॥ १ ॥  
 कुद्धइँ विद्धइँ पुलय-विसट्टइँ । मिहुणइँ वलइँ जेम अब्भिभट्टइँ ॥ २ ॥  
 'वलु वलु' एकमेक्क कोकन्तइँ । 'मरु मरु पहरु पहरु' जम्पन्तइँ ॥ ३ ॥

[ १० ] भुवनेश्वरके उस भवनको देखकर, उन्होंने जिनेश्वर की वंदना शुरू की—“गतभय तथा राग और रोषको विलीन करने-वाले आपकी जय हो, कामका मथन करनेवाले त्रिभुवनतिलक आपकी जय हो, क्षमा दम तप व्रत और नियमोंका पालन करने-वाले आपकी जय हो, कलियुगके पाप क्रोध और कषायोंका हरण करनेवाले आपकी जय हो । काम क्रोधादि शत्रुओंका दर्प दलन करनेवाले आपकी जय हो, जन्म जरा और मरणके कष्टोंका हरण करनेवाले आपकी जय हो । त्रिलोक हितकर्ता और तपसूर्य आपकी जय हो । मनःपर्यय रूपी विचित्र सूर्यसे सहित आपकी जय हो । धर्मरूपी महारथकी पीठपर स्थित आपकी जय हो । सिद्धिरूपी बधूके अत्यन्त प्रिय आपकी जय हो । संयमरूपी गिरिके शिखरसे उदित आपकी जय हो । इन्द्र नरेन्द्र और चन्द्र द्वारा वंदनीय आपकी जय हो । सात महाभयरूपी अश्वोंका दमन करनेवाले आपकी जय हो । ज्ञानरूपी गगनमें विचरनेवाले जिन रवि आपको जय हो । पापरूप कुमुदोंके लिए दहनशील, और चतुर्गतिरूपी रातके तमको उच्छिन्न करनेवाले आपकी जय हो, इन्द्रियरूपी दुर्दम दानवोंका दलन करनेवाले आपकी जय हो । यक्ष और नागेश द्वारा स्तुत चरण आपकी जय हो । केवलज्ञानकी किरणसे प्रकाश करनेवाले और भव्यजन रूपी कमलोंको आनन्द देनेवाले आपकी जय हो । विश्वमें अद्वितीय धर्मचक्रके प्रवर्तक आपकी जय हो । मोक्षरूपी अस्ताचलमें अस्त होने वाले आपकी जय हो । इस प्रकार भावसे जिणेशकी वन्दना और तीन प्रदक्षिणा देकर वे तीनों पुनः वनवासके लिए चल पड़े ॥१-६॥

[ ११ ] रातके मध्यमें राम जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही उन्हें एक महायुद्ध दिखाई दिया । कुपित विद्व और रोमांच सहित जोड़े, सेनाकी तरह आपसमें लड़ रहे थे । ‘बल-बल’ कहकर एक

सर हुङ्कार - सार मेहन्तइँ । गरुभ - पहारह उरु उहुन्तइँ ॥ ४ ॥  
 खणँ ओवडियइँ अहर डसन्तइँ । खणँ किलिविण्डि हिण्डि दरिसन्तइँ ॥ ५ ॥  
 खणँ बहु वालालुञ्चि करन्तइँ । खणँ णिफ्फन्दइँ सेउ फुसन्तइँ ॥ ६ ॥  
 तं पेक्खेप्पिणु सुरय-महाहउ । सीयहँ वयणु पजोयइँ राहउ ॥ ७ ॥  
 पुणु वि हसन्तइँ केलि करन्तइँ । चलयइँ हट्ट-मग्गु जोयन्तइँ ॥ ८ ॥

घत्ता

जे वि रमन्ता आसि लक्खण-रामहुँ सङ्गवि ।

णावइँ सुरयासत्त आवण थिय मुहु ढङ्गेवि ॥ ६ ॥

[१२]

उज्झहे दाहिण-दिसणँ विणिग्गय । णाहँ णिरङ्गस मत्त महा-गय ॥ १ ॥  
 ण सहइँ पुरि वल-लक्खण-मुक्का । मुक्क कु-णारि व पेसण चुक्का ॥ २ ॥  
 पुणु थोवन्तरँ वित्थय-णामहँ । तरुवर णमिय सुभिच्च व रामहँ ॥ ३ ॥  
 उट्टिय विहय वमालु करन्ता । णं वन्दिण मङ्गलइँ पढन्ता ॥ ४ ॥  
 अद्ध-कोसु संपाइय जावँहिँ । विमल विहाणु चउदिसु तावँहिँ ॥ ५ ॥  
 णिसि-णिसियरिणँ आसि जं गिलियउ । णाहँ पढीवउ जउ उग्गिलियउ ॥ ६ ॥  
 रेहइँ सूर-विग्गु उग्गन्तउ । णावइँ सुकइँ-कव्वु पह-वन्तउ ॥ ७ ॥  
 पच्छणँ साहणु ताम पधाइउ । लहु हलहेइँहँ पासु पराइउ ॥ ८ ॥

घत्ता

सीय-सलक्खणु रामु पणमिउ णरवर-विन्देहिँ ।

णं वन्दिउ अहिसेणँ जिणु वत्तासहिँ इन्देहिँ ॥ ६ ॥

[१३]

हेसन्त - तुरङ्गम - वाहणेण । परियरिउ रामु णिय-साहणेण ॥ १ ॥  
 णं दिस-गउ लीलणँ पयइँ देन्तु । तं देसु पराइउ पारियत्तु ॥ २ ॥  
 अण्णु वि थोवन्तरु जाइ जाम । गम्भीर महाणइँ दिट्ठ ताम ॥ ३ ॥

दूसरोंको पुकार रहे थे । कभी 'मारो-मारो, प्रहार करो प्रहार करो' यह कह रहे थे । हुंकार करनेमें श्रेष्ठ वे कामोत्पादक शब्द कर रहे थे, गुरुप्रहारसे वे उसे उड़ा रहे थे, कभी क्षणमें गिर कर अधर काटने लगते, तो दूसरे ही क्षणमें किलकारी भरकर शरीरयुद्ध दिखाने लगते । क्षण भरमें बाल नोंचने लगते और क्षणभरमें ही निष्पन्द होकर प्रस्वेद पोंछने लगते, ऐसे उस काम-महायुद्धको देखकर रामने सीताके मुखकी ओर ताका और फिर हँसते क्रीड़ा करते बाजार-मार्ग देखते हुए वे चल पड़े । सुरतासक्त रमण करती हुई जितनी भी आपण स्त्रियाँ थीं, राम लक्ष्मणकी आशंकासे मानो वे मुँह ढक कर रह गईं ॥१-६॥

[ १२ ] निरंकुश महागजकी तरह वे लोग अयोध्यासे दक्षिण दिशाकी ओर निकले । परन्तु राम और लक्ष्मणसे मुक्त अयोध्या नगरी, सेवासे भ्रष्ट कुनारीकी तरह नहीं सोह रही थी । थोड़ी दूर चलनेपर प्रसिद्धनाम रामको पेड़ोंने, अच्छे अनुचरकी तरह नमस्कार किया । कलकल करते हुए पक्षी उसमेंसे ऐसे उठने लगे मानो बन्दीजन मंगलगान पढ़ रहे हों, जब वे लोग आधा कोश और चले तो चारों ओर सुंदर सबेरा फैल गया । रात रूपी निशाचरोंने जो सूरजको पहले निगल लिया था उसने अब उसे उगल दिया । बादमें रामकी सेना भी उनके पीछे दौड़ी और शीघ्र ही उनके पास जा पहुँची । नरवरोंके समूहने लक्ष्मण और सीता सहित रामको उसी प्रकार प्रणाम किया जिस प्रकार अभिषेकके समय बत्तीस तरहके इन्द्र जिनको नमन करते हैं ॥ १-६ ॥

[ १३ ] राम हँसते हुए घोड़ोंकी सवारीसे सहित अपनी सेनासे घिर गये । पर वह दिग्गजकी भाँति अलहड़तासे पैर रखते हुए पारियात्र देशमें पहुँचे । उससे आगे थोड़ा और चलनेपर

परिहच्छ - मच्छ - पुच्छुच्छलन्ति । फेणावलि - तोय-तुसार देन्ति ॥ ४ ॥  
 कारण्ड - डिम्भ - डुम्भय-सरोह । वर-कमल-करम्बिय-जलपओह ॥ ५ ॥  
 हंसावलि - पक्ख - समुलहसन्ति । कल्लोल - बोल - आवत्त दिन्ति ॥ ६ ॥  
 सोहइ बहु-वणगय-जूह-सहिय । डिण्डार-पिण्ड दरिसन्ति अहिय ॥ ७ ॥  
 उच्छलइ वलइ पडिखलइ धाइ । मलहन्ति महागय-लीलणाइँ ॥ ८ ॥

## घत्ता

ओहर-मयर-रउद् सा सरि णयण-कडक्खिय ।  
 दुत्तर-दुप्पइसार णं दुग्गइ दुप्पेक्खिय ॥ ९ ॥

[१४]

सरि गम्भीर णियच्छिय जाव्हिँ । सयलु वि सेणु णियत्तिउ ताव्हिँ ॥ १ ॥  
 'नुम्हँहिँ एव्हिँ आणवडिच्छा । भरहहँ भिच्च होइ हियइच्छा ॥ २ ॥  
 उज्जु मुण्पिणु दाहिणएसहँ । अम्हँहिँ जाणवउ वण-वासहँ ॥ ३ ॥  
 एम भणेपिणु समर-समत्था । सायर - वज्जावत्त - विहत्था ॥ ४ ॥  
 पइसरन्ति तहिँ सलिलँ भयङ्करँ । रामहँ चडिय सीय वामणँ करँ ॥ ५ ॥  
 सिय अरविन्दहँ उप्परि णावइ । णावइ णियय-कित्ति दरिसावइ ॥ ६ ॥  
 णं उज्जोउ करावइ गयणहँ । णाइँ पदरिसइ धण दहवयणहँ ॥ ७ ॥  
 लहु जलवाहिणि-पुलिणु पवण्णइँ । णं भवियइँ णरयहँ उत्तिण्णइँ ॥ ८ ॥

## घत्ता

वलिय पडीवा जोह जे पहु-पच्छलँ लगा ।  
 कु-मुणि कु-बुद्धि कु-सील णं पव्वज्जहँ भग्गा ॥ ९ ॥

[१५]

बलु बोलावेवि राय णियत्ता । णावइ सिद्धि कु-सिद्ध ण पत्ता ॥ १ ॥  
 वलिय के वि णीसासु मुअन्ता । खणँ खणँ 'हा हा राम' भणन्ता ॥ २ ॥

उन्हें गम्भीर नामको महानदी मिली । वेगशील मछलियोंकी पूँछें उसमें उछल रही थीं । फेनधारासे युक्त जलकण हिमकण उड़ा रहे थे, तरंगमाला गजशिशुओंसे आन्दोलित हो रही थी । जल-प्रवाह कमलोंके समूहसे भरा हुआ था । हंसमालाके पंख उसमें उल्लसित हो रहे थे । तरंगोंके प्रहारसे आवर्त पड़ रहे थे । वन-गजोंके बहुतसे भुण्डोंसे वह शोभित हो रही थी । फेनका समूह अधिक दिखाई पड़ रहा था, वह नदी, महागजकी तरह लीला करती हुई, गिरती-पड़ती उछलती-मुड़ती ढौड़ती हुई वह रही थी । ओहर और मगरोंसे भयंकर, और दुष्प्रवेश्य उस नदीको रामने ऐसे देखा मानो वह दुर्गति हो ॥१-६॥

[१४] रामने गम्भीर नदीको देखकर अपनी सेनाको लौटा दिया । वह बोले, “आज्ञापालक तुम लोग आजसे भरतके सैनिक बनो । हमलोग भी अयोध्या छोड़कर, वनवासके लिए दक्षिण देशकी ओर जाँयगे ।” यह कहकर, समरमें समर्थ रामने नदीके भयंकर जलमें प्रवेश किया । समुद्रावर्त और वज्रावर्त धनुष उनके हाथमें थे । तब सीता उनके बायें हाथ पर चढ़ गई, वह ऐसी जान पड़ रही थी मानो लक्ष्मी कमलपर बैठकर अपनी कीर्ति दिखा रही हों, या आकाशको आलोकित कर रही हों या राम ही अपनी धन्या सीता, रावणको दिखा रहे हों । शीघ्र ही वे नदीके दूसरे तटपर पहुँच गये मानो भव्यों ही को नरकसे किसीने तार दिया हो । रामके पीछे लगे योधा लोग भी अयोध्याके लिए उसी प्रकार लौट गये जिस प्रकार संन्यास ग्रहण करनेपर कुमति कुशील और कुबुद्धि भाग खड़ी होती है ॥१-६॥

[१५] रामको विदा देते हुए राजा लोग बहुत व्यथित हुए । ठीक उसी तरह जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त न होनेपर खोटे साधक दुखी होते हैं । कोई निश्वास छोड़ रहा था । कोई ‘हा राम’ कहता

के वि महन्तें दुक्खें लइया । लोउ करेवि के वि पव्वइया ॥ ३ ॥  
 के वि त्तिमुण्ड-धारि वम्भारिय । के वि तिकाल-जोइ वय-धारिय ॥ ४ ॥  
 के वि पवण-धुय-धवल-विसालएँ । गम्पिणु तहिँ हरिसेण-जिणालएँ ॥ ५ ॥  
 थिय पव्वज्ज लएप्पिणु णरवर । सढ - कढोर - वर - मेदु-महीहर ॥ ६ ॥  
 विजय-वियड्ढ-विओय-विमहण । धार - सुवार - सच्चे-पियवद्धण ॥ ७ ॥  
 पुङ्गम - पुण्डरीय - पुरिसुत्तम । विउल - विसाल-रणुम्मिय उत्तम ॥ ८ ॥

यत्ता

इय एक्केक-पहाण जिणवर-चलण णमंसँवि ।  
 संजम-णियम-गुणेहिँ अप्पउ थिय स इँ भू सँवि ॥ ९ ॥

●

## [ २४. चउवीसमो सन्धि ]

गएँ वण-वासहोँ रामँ उज्झ ण चित्तहोँ भावइ ।  
 थिय णासास मुअन्ति महि उण्हालएँ णावइ ॥

[ १ ]

सयलु वि जणु उम्माहिज्जन्तउ । खणु वि ण थक्कइ णामु लयन्तउ ॥ १ ॥  
 उव्वेस्सिज्जइ गिज्जइ लक्खणु । मुरव - वज्ज वाइज्जइ लक्खणु ॥ २ ॥  
 सुइ-सिद्धन्त-पुराणोँहिँ लक्खणु । ओङ्कारेण पढिज्जइ लक्खणु ॥ ३ ॥  
 अणु वि जं जं किं वि स-लक्खणु । लक्खण-णामेँ वुच्चइ लक्खणु ॥ ४ ॥  
 का वि णारि सारङ्गि व वुण्णी । वड्डी धाह मुएवि परुण्णी ॥ ५ ॥  
 का यि णारि जं लेइ पसाहणु । तं उल्हावइ जाणइ लक्खणु ॥ ६ ॥  
 का वि णारि जं परिहइ कङ्कणु । धरइ सु गाढउ जाणइ लक्खणु ॥ ७ ॥  
 का वि णारि जं जोयइ दप्पणु । अणु ण पेक्खइ मेल्लेवि लक्खणु ॥ ८ ॥  
 तो एत्थन्तरेँ पाणिय-हारिउ । पुरेँ वोल्लन्ति परोप्परु णारिउ ॥ ९ ॥  
 'सो पल्लङ्कु तं जेँ उबहाणउ । सेज्ज वि स जेँ तं जेँ पच्छाणउ ॥ १० ॥

कहता हुआ लौट रहा था। कोई घोर दुःख पाकर प्रव्रजित हो गये। कोई त्रिपुण्ड लगाकर सन्यासी हो गये। कोई व्रत धारण करनेवाले त्रिकाल योगी बन गये। कोई जाकर हरिषेण राजाके विशाल धवल जिनालयमें ठहर गये। वहाँ पर मेरु महीधर विजय वियर्द्ध वियोगविमर्दन धीर सुवीर सत्य प्रियवर्द्धन पुंगम पुण्डरीक पुरुषोत्तम विपुल विशाल और रणोन्मद और उत्तम प्रकृतिके राजाओंने दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार सभी राजाओंने जिन चरणोंकी वन्दनाकर अपने आपको संयम नियम और गुणोंकी साधनामें अर्पित कर दिया।



### चौबीसवीं सन्धि

रामके वन जानेपर, अयोध्या नगरी किसीको भी अच्छी नहीं लग रही थी। ग्रीष्मकी संतप्त धरतीकी भाँति, वह उच्छ्वास छोड़ती हुई जान पड़ रही थी।

[१] उन्मादग्रस्त सभी लोग रामका नाम लेकर भी क्षण भरको नहीं रह पा रहे थे। नृत्य और गानमें लक्ष्मण (लक्ष्मण-लक्षण) ही कहा जा रहा था। मृदंगमें भी लक्ष्मण बजाया जा रहा था। श्रुति सिद्धान्त और पुराणमें भी लक्ष्मणकी ही चर्चा थी। ओंकारके साथ भी लक्ष्मण पढ़ा जा रहा था। और जो भी लक्षण सहित था, वह लक्ष्मणके नामसे ही कहा जाता था। कोई नारी हरिनीकी तरह विषण्ण हो, डाढ़ मारकर रो रही थी। कोई नारी प्रसाधन करती हुई लक्ष्मण समझकर उल्लसित हो उठती। कोई स्त्री कंगन पहनते समय उसे ही लक्ष्मण समझकर उसे और मजबूतीसे पकड़ लेती। कोई नारी दर्पण देखती, पर उसमें लक्ष्मणके सिवा उसे और कुछ दीखता नहीं था। नगरमें पनहारिनें भी आपसमें यही चर्चा कर रही थीं कि वही पलंग वे ही उपधान वही सेज और वही प्रच्छादन (चादर), वही घर,



## घत्ता

तं घरु रयणहँ ताइ तं चित्तयम्मु स-लक्खणु ।  
णवर ण दीसइ माएँ रामु ससीय-सलक्खणु ॥ ११ ॥

[ २ ]

ताम पडु पडह डडिपहय पडु-पङ्गणे । गाइँ सुर-दुन्दुही दिण्ण गयणाङ्गणे ॥१॥  
रसिय सय सङ्ग जायं महा-गोन्दलं । टिविल-टण्टन्त-घुम्मन्त-वरमन्दलं ॥२॥  
ताल - कंसाल - कोलाहलं काहलं । गीय संगीय गिज्जन्त-वर-मङ्गलं ॥३॥  
ढमरु-तिरिडिक्किया-क्कल्लरी-रउरवं । भम्म-भम्मीस गम्भीर-भेरी-रवं ॥४॥  
घण्ट - जयघण्ट - संघट्ट - टङ्कारवं । घोल-उल्लोल-हलवोल-मुहलारवं ॥५॥  
तेण सद्देण रोमञ्ज-कञ्चुद्धआ । गोन्दलुदाम-वहु-वहल-अच्चम्भुआ ॥६॥  
सुहड-संघाय सव्वा य थिय पङ्गणे । मेरु-सिहरेसु णं अमर जिण-जम्मणे ॥७॥  
पणइ-फम्फाव-णड-छत्त-कइ वन्दणं । 'णन्द जय भद्दजय जयहि'वर सद्दणं ॥८॥

## घत्ता

लक्खण-रामहुँ वण्णु णिय-भिच्चहिँ परियरियउ ।  
जिण-अहिसेयहोँ कज्जे णं सुरवइ णीसरियउ ॥ ९ ॥

[ ३ ]

जं णीसरिउ राउ आणन्दे । वुत्तु णवेप्पिणु भरह-णरिन्देँ ॥ १ ॥  
'हउ मि देव पइँ सहुँ पच्चज्जमि । दुग्गइ-गामिउ रज्जु ण भुज्जमि ॥ २ ॥  
रज्जु असारु वारु संसारहोँ । रज्जु खणेण णेइ तम्वारहोँ ॥ ३ ॥  
रज्जु भयङ्करु इह-पर-लोयहोँ । रज्जेँ गम्मइ णिच्च- णिगोयहोँ ॥ ४ ॥  
रज्जेँ होउ होउ महु सारियउ । सुन्दरु तो किं पइँ परिहरियउ ॥ ५ ॥

वे ही रतन, लक्ष्मण सहित वही चित्रकारी सब कुछ वही है। हे माँ, केवल लक्ष्मण और सीता सहित राम नहीं दीख पड़ते ॥१-११॥

[२] इतने ही में राजा दशरथके आँगनमें नगाड़े बज उठे मानो गमनांगनमें देवोंकी दुंदुभि ही बज उठी हो। सैकड़ों शंख गूँज उठे। उससे खूब कोलाहल हुआ। टिविलकी टंकारसे मंद-राचल हिल उठा। ताल और कंसालका कोलाहल मच गया। उत्तम मंगलोंसे युक्त गीत और संगीत हो रहा था। डमरु तिरि-डिक्कि और भल्लरीसे भयंकर, भम्भ भम्भीस और गंभीर भेरीका शब्द गूँज उठा। घंट और जयघंटोंके संघर्षकी टंकार तथा घोल उल्लोल हलबोल और मुहलकी ध्वनि फैल गई। इस ध्वनिको सुनकर युद्धमें उत्कट पुलकित कवच पहने और अत्यंत आश्चर्यसे भरे हुए सभी सुभट-समूह राजाके आँगनमें आकर ऐसे एकत्र हो गये मानो जिनजन्मके समय, सुमेरु पर्वतके शिखरपर देवसमूह ही आ गये हों। प्रणत चारण नट छत्र कवि और वंदीजन कह रहे थे—“बढ़ो, जय हो, कल्याण हो, जय हो”। अपने अनुचरोंसे घिरे हुए राम लक्ष्मणके बाप (दशरथ) ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेंद्रका अभिषेक करनेके लिए इन्द्र ही निकल पड़ा हो ॥१-६॥

[३] राजा जैसे ही आनन्दपूर्वक निकलने को हुआ वैसे ही भरतने प्रणाम करके कहा, “हे देव, मैं भी आपके साथ संन्यास ग्रहण करूँगा। दुर्गतिमें ले जानेवाले इस राज्यका मैं भोग नहीं करूँगा। राज्य असार और संसारका कारण है। राज्य क्षणभरमें विनाशकी ओर ले जाता है। दोनों लोकमें राज्य भयंकर होता है। राज्यसे नित्य निगोदमें जाना पड़ता है। राज्य रहे। यदि यह सुन्दर और मधुकी तरह मीठा होता तो आप क्यों

रज्जु अकज्जु कहिउ मुणि - छेयहिँ । दुट्ट-कलत्तु व भुत्तु अणेयहिँ ॥ ६ ॥  
 दोसवन्तु मयलञ्छण - विम्बु व । बहु-दुक्खाउरु दुग्ग-कुडुम्बु व ॥ ७ ॥  
 तो वि जीउ पुणु रज्जहोँ कङ्कइ । अणुदिणु आउ गलन्तु ण लक्खइ ॥ ८ ॥

घत्ता

जिह महुविन्दुहँ कज्जे करहु ण पेक्खइ कक्करु ।  
 तिह जिउ विसयासत्तु रज्जेँ गउ सय- सक्करु ॥ ६ ॥

[ ४ ]

भरहु चवन्तु णिवारिउ राणं । 'अज्ज वि तुज्झु काइँ तव-वाणं ॥ १ ॥  
 अज्ज वि रज्जु करहि सुहु भुज्जहि । अज्ज वि विसय-सुक्खु अणुहुज्जहि ॥ २ ॥  
 अज्ज वि तुहुँ तम्बोलु समाणहि । अज्ज वि वर-उज्जाणइँ माणहि ॥ ३ ॥  
 अज्जु वि अङ्गु स-इच्छएँ मण्डहि । अज्ज वि वर-विलयउ अवरुण्डहि ॥ ४ ॥  
 अज्ज वि जोगुउ सव्वाहरणहोँ । अज्ज वि कवणु कालु तव-चरणहोँ ॥ ५ ॥  
 जिण-पव्वज्ज होइ अइ-दुसहिय । केँ वारवास परीसह विसहिय ॥ ६ ॥  
 केँ जिय चउ-कसाय-रिउ दुज्जय । केँ आयामिय पञ्च महव्वय ॥ ७ ॥  
 केँ किउ पञ्चहुँ विसयहुँ णिग्गहु । केँ परिसेसिउ सयलु परिग्गहु ॥ ८ ॥  
 को दुम-मूलँ वसिउ वरिसालएँ । को एक्कङ्गेँ थिउ सीयालएँ ॥ ९ ॥  
 केँ उण्हालएँ किउ अत्तावणु । एँउ तव-चरणु होइ भीसावणु ॥ १० ॥

घत्ता

भरह म वड्ढिउ वोस्सि तुहुँ सो अज्ज वि वालु ।  
 भुज्जहि विसय-सुहाइँ को पव्वज्जहँ कालु, ॥ ११ ॥

[ ५ ]

तं णिसुणेवि भरहु आरुट्टउ । मत्त - गइन्दु व चित्तेँ टुट्टउ ॥ १ ॥  
 विरुयउ ताव वयणु पइँ वुत्तउ । किं वालहोँ तव-चरणु ण जुत्तउ ॥ २ ॥

उसे छोड़ते, और फिर राज्य तो अन्तमें अनर्थकारी होता है । दुष्ट स्त्री की तरह अनेकोंने उसका भोग किया है । चन्द्रविम्बकी तरह वह दोषयुक्त है और दरिद्र कुटुम्बकी तरह बहुतसे दुखोंसे भरा है । फिर भी मनुष्य राज्यकी ही कामना करता है, प्रति दिन गलती हुई अपनी आयुको नहीं देखता । जिस तरह मधुकी वृद्धके लिए करभ कंकड़ नहीं देखता, उसी तरह जीव भी राज्यके कारण अपने सौ-सौ टुकड़े करवा डालता है ॥१-६॥

[४] तब दशरथ राजाने भरतको बोलतेमें ही टोककर कहा—“अभी तुम्हें तपकी बात करनेसे क्या ! अभी तुम राज्य और विषय-सुखका भोग करो । अभी तुम ताम्बूलका सम्मान करो । अभी अच्छे उद्यानोंको मानो । अभी अपनी इच्छासे शरीरको सजाओ । अभी, उत्तम बालाका आलिंगन करो । अभी तुम सभी तरहके अलंकार पहनने योग्य हो । अभी तुम्हारे तपका यह कौन-सा समय है । फिर यह जिन-दीक्षा अत्यंत कठिन है । बाईस परीपह कौन सहन कर सकता है ? चार कषाय रूपी अजेय शत्रुओंको कौन जीत सकता है ? पाँच महाव्रतोंका पालन करनेमें कौन समर्थ है ? पाँच इन्द्रिय विषयोंका निग्रह कौन कर सका है ? समस्त परिग्रहका त्याग करनेमें कौन समर्थ है ? वर्षा-कालमें कौन वृक्षके मूलमें निवास कर सकता है ? शीतकालमें कौन नग्न रह सकता है ? ग्रीष्मकालमें तप कौन साध सकता है ? यह तपश्चरण सचमुच भीषण है, भरत बढ़-चढ़कर मत बोलो, तुम अभी बच्चे हो ! अभी विषयसुखका आनन्द लो, यह संन्यास लेने का कौन-सा समय है ।” ॥१-१॥

[५] यह सुनकर, भरत रूठ गया, मत्तगजकी तरह उसका मन विकृत हो गया । वह बोला, “तात, आपने अत्यंत अशोभन

किं बालत्तणु सुहँहिँ ण मुच्चइ । किं बालहँ दय-धम्मु ण रुच्चइ ॥ ३ ॥  
 किं बालहँ पव्वज्ज म होओ । किं बालहँ दूसिउ पर-लोओ ॥ ४ ॥  
 किं बालहँ सम्मत्तु म होओ । किं बालहँ णउ इट्ट-विओओ ॥ ५ ॥  
 किं बालहँ जर-मरणु ण दुक्कइ । किं बालहँ जसु दिवसु वि चुक्कइ ॥ ६ ॥  
 तं णिसुणेवि भरहु णिब्भच्छिउ । 'तो किं पहिलउ पट्टु पडिच्छिउ ॥ ७ ॥  
 एवहिँ सयलु वि रज्जु करेवउ । पच्छलँ पुणु तव-चरणु चरेवउ' ॥ ८ ॥

धत्ता

एम भणेप्पिणु राउ सच्चु समप्पेवि भज्जहँ ।  
 भरहहँ वन्धेवि पट्टु दसरहु गउ पव्वज्जहँ ॥६॥

[ ६ ]

सुरवर - वन्दिएँ धवल - विसालएँ । गम्पिणु सिद्धकूडँ चइतालएँ ॥ १ ॥  
 दसरहु थिउ पव्वज्ज लएप्पिणु । पञ्च मुट्ठि सिरेँ लोउ करेप्पिणु ॥२॥  
 तेण समाणु सणेहँ लइयउ । चालीसोत्तरु सउ पव्वइयउ ॥ ३ ॥  
 कण्ठा - कडय - मउउ अवयारँवि । दुद्धर पञ्च महव्वय धारँवि ॥ ४ ॥  
 थिय णोसङ्ग णाग णं विसहर । अहवइ समय-वाल णं विसहर ॥ ५ ॥  
 णं केसरि गय - मासाहारिय । णं परदार-गमण परदारिय ॥ ६ ॥  
 केण वि कहिउ ताम भरहेसहँ । गय सोमिति-राम वण-वासहँ ॥ ७ ॥  
 तं णिसुणेवि वयणु धुय - वाहउ । पडिउ महीहरो व्व वजाहउ ॥ ८ ॥

धत्ता

जं मुच्छाविउ राउ सयलु वि जणु मुह-कायरु ।  
 पलयाणल-संतत्तु रसेँवि लग्गु णं सायरु ॥ ६ ॥

[ ७ ]

चन्देणेण पव्वालज्जन्तउ । चमरुक्खेवँहिँ विज्जिज्जन्तउ ॥ १ ॥

कहा, क्या बालकको तपस्या युक्त नहीं। क्या बालकपन सुखोंसे वंचित नहीं होता? क्या बालकको दया धर्म नहीं रुचता? क्या बालकको संन्यास नहीं होता? बालकका परलोक आप क्यों दूषित करते हैं? क्या बालकको सम्यग् दर्शन नहीं होता? क्या बालकको इष्ट-वियोग नहीं होता, क्या बालकके पास बुढ़ापा और मृत्यु नहीं फटकती, क्या उसे यमका दिन छोड़ देता है?" तब भरतको डाँटते हुए दशरथने कहा, "तो फिर तुमने पहले राज्य पदकी कामना क्यों की? इस समय समस्त राज्यको सम्हालो, तप फिर बादमें साध लेना!" यह कह, कैकेयीको वरदान दे, और भरत को राज्यपट्ट बाँधकर दशरथ दीक्षा लेनेके लिए चल दिये ॥१-६॥

[६] वह, देववन्दित, धवल विशाल सिद्धकूट चैत्यालयमें पहुँचे। और पञ्चमुष्टि केशलोंचकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। उनके प्रेमके वशीभूत होकर एक सौ चालीस दूसरे राजाओंने भी दीक्षा ग्रहण की। कंठहार, मुकुट और कटक उतारकर, पंच महाव्रत धारणकर वे तप साधने लगे। अनासंग वे मुनि नागकी तरह, विषधर (धर्म या विष धारण करनेवाले) थे, अथवा वर्षा-कालके समान विषधर (जलचर धर्मवाले) थे। सिंहकी तरह मांसाहारी (एक माहमें भोजन करनेवाले मासाहारी) थे। परदार-गामीकी तरह परदारगामी (मुक्तिगामी) थे। इतनेमें किसीने आकर भरतको यह खबर दी कि लक्ष्मण और राम वनको चले गये हैं। यह सुनते ही कांतशरीर भरत मूर्छित होकर, वज्राहत पहाड़की तरह गिर पड़े। उनके मूर्छित होते ही, सब लोगोंके मुख कातर हो उठे। मानो प्रलयकी आगसे संतप्त होकर समुद्र ही गरज उठा हो।"

[७] चन्दनका लेप और चामरधारिणी स्त्रीके हवा करनेपर,

दुक्खु दुक्खु आसासिउ राणउ । जरढ-मियङ्कु व थिउ विद्धानउ ॥ २ ॥  
 अविरल - अंसु-जलोह्लिय - णायणउ । एम पजम्पिउ गगार-वयणउ ॥ ३ ॥  
 गिवडिय अज्जु असणि आयासहोँ । अज्जु अमङ्गलु दसरह-वंसहो ॥ ४ ॥  
 अज्जु जाउ हउँ सूडिय-पक्खउ । दुह-भायणु पर-मुहहँ उवेक्खउ ॥ ५ ॥  
 अज्जु णयरु सिय-सम्पय - मेह्लिउ । अज्जु रज्जु पर-चक्केँ पेह्लिउ ॥ ६ ॥  
 एम पलाउ करेवि सहग्गएँ । राहव-जणणिहँ गउ ओलग्गएँ ॥ ७ ॥  
 केस - विसण्ठुल दिट्ट रुअन्ति । अंसु - पवाह धाह मेह्लन्ती ॥ ८ ॥

घत्ता

धीरिय भरह-णरिन्दे होउ माएँ महु रज्जेँ ।  
 आणमि लक्खण-राम रोवहि काहँ अकज्जेँ ॥ ९ ॥

[ ८ ]

एम भणेवि भरहु संचह्लिउ । तुरिउ गवेसहोँ हत्थुत्थह्लिउ ॥ १ ॥  
 दिण्णु सङ्खु जय-पडहु पवज्जिउ । णं चन्दुगमेँ उवहि पगज्जिउ ॥ २ ॥  
 पहु - मग्गेण णराहिउ लग्गउ । जीवहोँ कम्मु जेम अणुलग्गउ ॥ ३ ॥  
 छट्टएँ दिवसेँ पराइउ तेत्तहँ । सीय स-लक्खणु राहउ जेत्तहँ ॥ ४ ॥  
 छुडु छुडु सलिलु पिण्वि गिविट्टइँ । सरवर-तीरँ लयाहरँ दिट्टइँ ॥ ५ ॥  
 चलणेँहिँ पडिउ भरहु तग्गय - मणु । णाहँ जिणिन्दहोँ दससय-लोयणु ॥ ६ ॥  
 'थङ्कु देव मं जाहि पवासहोँ । होहि तरण्डउ दसरह-वंसहोँ ॥ ७ ॥  
 हउँ सत्तुहणु भिच्च तउ वे वि । लक्खणु मन्ति सीय महएवि ॥ ८ ॥

घत्ता

जिह णक्खत्तेँहिँ चन्दु इन्दु जेम सुर-लोएँ ।  
 तिह तुहँ भुअहि रज्जु परिमिउ वन्धव-लोएँ ॥ ९ ॥

राजा भरत बड़ी कठिनाईसे आश्वस्त हुए। परंतु वह राहु ग्रस्त चन्द्रमाकी तरह म्लान दीख पड़ रहे थे। नेत्रोंसे अविरल अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। गद्गद स्वरमें उन्होंने कहा, “आज आकाशसे वज्र टूट पड़ा है। आज दशरथ-कुलका अमंगल आ गया है। आज, अपने पक्षका नाश होनेसे मैं परमुखापेक्षी और दीन हो गया हूँ। आज इस नगरकी श्री और सम्पदा जाती रही। आज हमारे राज्य पर शत्रु-चक्र घूम गया है।” ऐसा प्रलाप कर वह शीघ्र ही रामकी माताकी सेवामें पहुँचे। उन्होंने देखा कि कौशल्याके बाल बिखरे हैं, आँसुओंकी धारा वह रही है। वह, डाढ़ मारकर रो रही हैं। उन्होंने धीरज बँधाते हुए कहा— “मां लो, मैं राज्य करनेसे रहा, अभी जाकर राम लक्ष्मणको ले आता हूँ। रोती किसलिए हो।” ॥१-६॥

[ ८ ] यह कहकर, भरतने ( अनुचरोंको ) आदेश दिया “शीघ्र खोजो।” वह स्वयं भी चल पड़ा। उसने शंख और जय-पटह बजवा दिये, मानो चन्द्रोदयमें समुद्र ही गरज उठा हो। राजा भरत प्रभु रामके मार्ग पर उसी तरह लग गये जैसे जीवके पीछे पीछे कर्म लगे रहते हैं। छठे दिन वह वहाँ पहुँच सके, जहाँ सीता और लक्ष्मणके साथ राम थे। सरोवरके किनारे पर लतागृहमें, शीघ्र ही पानी पीकर निवृत्त हुए उन्हें भरतने देखा। तल्लीन भरत दौड़कर प्रभु रामके चरणोंमें उसी तरह गिर पड़े जिस तरह इन्द्र जिनेन्द्रके चरणोंमें गिर पड़ता है। वह बोले, “देव, ठहरिये, प्रवासको मत जाइये, नहीं तो दशरथकुलका नाश हो जायगा, शत्रुघ्न और मैं आपके सेवक हैं, लक्ष्मण मंत्री, और सीता महादेवी! आप अपने बन्धुजनोंसे घिरे हुए उसी तरह राज्यका भोग करें, जैसे नक्षत्रोंसे चंद्र और सुरलोकसे घिरकर इन्द्र शासन करता है ॥१-६॥



[ ६ ]

तं वयणु सुणँवि दसरह - सुएण । अवगूढु भरहु हरिसिय-भुएण ॥ १ ॥  
 सच्चउ माया - पिय - परम - दासु । पइँ मेळ्ळेवि अण्हणँ विणउ कासु ॥२॥  
 अवरोप्परु ए आलाव जाम । तहिँ जुवइ-सयहिँ परियरिय ताम ॥३॥  
 लक्खिज्जइ भरहणँ तणिय माय । णं गय-घड भड भञ्जन्ति आय ॥ ४ ॥  
 णं तिलय - विहूसिय वच्छराइ । स- पओहर अम्बर-सोह णाइँ ॥ ५ ॥  
 णं भरहणँ सम्पय - रिद्धि - विद्धि । णं रामणँ गमणँ तणिय सिद्धि ॥६॥  
 णं भरहणँ सुन्दर - सोक्ख-खाणि । णं रामणँ इट्ठ-कलत्त - हाणि ॥ ७ ॥  
 जं भणइ भरहु 'तुहँ आउ आउ । वण-वासणँ राहउ जाउ जाउ' ॥ ८ ॥

घत्ता

सु-पय सु-सन्धि सु-णाम वयण-विहत्ति-विहूसिय ।  
 कह वायरणँ जेम केक्कय एन्ति पदीसिय ॥ ६ ॥

[ १० ]

सहुँ सीयँ दसरह - णन्दणेहिँ । जोक्कारिय राम - जण्हणेहिँ ॥ १ ॥  
 पुणु वुच्चइ सीर - प्पहरणेण । 'किं आणउ भरहु अकारणेण ॥ २ ॥  
 सुणु माँ महारउ परम - तच्चु । पालेवउ तायणँ तणउ सच्चु ॥ ३ ॥  
 णउ तुरँहिँ णउ रहवरँहिँ कज्जु । णउ सोलह वरिसइँ करमि रज्जु ॥४॥  
 जं दिण्णु सच्चु ताएँ ति - वार । तं मइ मि दिण्णु तुमह सय-वार' ॥५॥  
 एँउ वयणु भणेप्पिणु सुह - समिद्धु । सइँ हत्थे भरहणँ पट्टु वद्धु ॥ ६ ॥  
 आउच्छँवि पर - वल - मइय - वट्टु । वण-वासणँ राहउ पुणु पयट्टु ॥ ७ ॥  
 गउ भरहु गियत्तु सु - पुज्जमाणु । जिण-भवण पत्तु भिच्चँहिँ समाणु ॥८॥

[ ६ ] यह सुनकर दशरथ-पुत्र रामने अपनी प्रसन्न भुजाओंसे भरतको हृदयसे लगा लिया, और कहा, “भरत, तुम ही माता-पिताके सच्चे सेवक हो। भला इतनी विनय तुम्हें छोड़कर और किसमें हो सकती है ?” आपसमें उनकी इस तरह बातें हो ही रही थी कि इतनेमें उन्हें सैकड़ों स्त्रियोंने घेर लिया। उनके बीच आती हुई, भरतकी माँ ऐसी दीख पड़ी मानो भटसमूहको चीरती हुई गजघटा ही आ रही हो। या तिलक वृक्षसे विभूषित वृक्ष राजि हो। या सपयोधर (मेघ और स्तन) अम्बर, कपड़ा, आकाश, की शोभा हो। या मानो भरतकी रिद्धि और वृद्धि हो। या रामके वन-गमनकी सिद्धि हो। या भरतके सुन्दर सुखोंकी खान हो और रामके इष्ट तथा स्त्रीकी हानि हो। मानो वह कह रही थी—“भरत तुम आओ आओ और राम तुम बनवासको जाओ, जाओ।” रामने कैकेयीको व्याकरण-शास्त्रकी तरह जाते हुए देखा, वह, सुपद (पद और पैर) सुसंधि (अंगोंके जोड़ और शब्दोंका संधिसे युक्त) तथा वचन विभक्ति (तीन वचन, सात विभक्तियाँ, और वचन विभागसे) विभूषित थी ॥१-६॥

[ १० ] तब दशरथ-पुत्र जनार्दन रामने सीतासहित उसका अभिनन्दन किया। वह बोले, “माँ, भरत तुम्हें अकारण क्यों लाया। माँ, मेरा परमतत्त्व (सिद्धांत) सुनो। मैं पिताके वचनका पालन करूँगा। न तो भुके घोड़ोंसे काम है, और न श्रेष्ठ रथोंसे। तातने जो वचन तुम्हें तीन बार दिया है, उसे मैं सौ बार देता हूँ।” यह वचन कहकर, सुख और समृद्धिसे सपन्न उन्होंने राज पट्ट भरतके सिरपर बाँध दिया। तदनन्तर, शत्रु-बलनाशक राम, माँसे पूछकर वहाँसे आगे बढ़ गये। व्यथित मन भरत भी, अपने अनुचरोके साथ पूज्य जिन-चैत्यमें पहुँचा। भरत तथा

## घत्ता

विहुँ मुणि-धवलहुँ पासँ भरहँ लइउ अवगहु ।  
 'दिट्टएँ राहवचन्देँ महु णिवित्ति हय-रज्जहोँ' ॥१॥

[ ११ ]

एम चवँवि उञ्चलिउ महाइउ । राहव-जणणिहँ भवणु पराइउ ॥१॥  
 विणउ करेप्पिणु पासु पदुक्किउ । 'रामु माएँ मइँ धरँविण सक्किउ ॥२॥  
 हउँ तुम्हेवहिँ आणवडिच्छउ । पेसणयारउ चलण-णियच्छउ' ॥३॥  
 धारँवि एम जणणि दणु - दमणहोँ । भरहु णराहिउ गउ णिय-भवणहोँ ॥४॥  
 जाणइ हरि हलहरु विहरन्तइँ । तिण्णि मि तावस-वणु संपत्तइँ ॥५॥  
 तावस के वि दिट्ट जड - हारिय । कु-जण कु-गाम जेम जड-हारिय ॥६॥  
 के वि तिदण्डि के वि धाडीसर । कुविय णरिन्द जेम धाडीसर ॥७॥  
 के वि रुद रुदङ्कुस - हत्था । मेट्टु जेम रुदङ्कुस - हत्था ॥८॥

## घत्ता

तहिँ पइसन्ती सीय लक्खण-राम-विहूसिय ।  
 विहिँ पक्खेहिँ समाण पुण्णिम णाइँ पदासिय ॥१॥

[ १२ ]

अण्णु वि थोवन्तरु विहरन्तइँ । वणु धाणुक्कहँ पुणु संपत्तइँ ॥ १ ॥  
 जहिँ जणवउ मय-मत्थ - णियत्थउ । वरहिण-पिच्छ-पसाहिय-हत्थउ ॥२॥  
 कन्द - मूल- बहु- वणफल - भुञ्जउ । सिरँ-वड-माल वद्ध गलँ गुञ्जउ ॥३॥  
 जहिँ जुवइउ छुडु जाय विवाहउ । मयकरि-रय वलयङ्किय-वाहउ ॥ ४ ॥  
 मयकरि - कुम्भु करेप्पिणु उक्खलु । लेवि विसाण-मुसलु धवलुज्जलु ॥५॥  
 मोत्तिय - चाउल - दलणोवइयउ । चुम्बिय-वयणउ मयणब्भइयउ ॥६॥

शत्रुघ्न, दोनोंने धवल मुनिके पास जाकर यह प्रतिज्ञा ग्रहण की कि रामके देखनेपर (वनसे वापस आते ही ।) हय और राज्यसे निवृत्त हो जायँगे ।”

[ ११ ] (उक्त व्रत लेकर) भरतने वहाँसे प्रस्थान किया और वह सोधे रामकी माताके भवनमें पहुँचे । पास जाकर उन्होंने विनय की, “माँ, मैं रामको नहीं ला सका, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी, सेवक और चरणोंका दास हूँ ।” उन्हें इस तरह धीरज बँधाकर, भरत अपने भवनको चले गये । इधर राम जानकी और लक्ष्मण तीनों ही घूमते हुए तापस वनमें जा पहुँचे । उसमें तरह-तरहके तपस्वी थे । वहाँ पर कितने ही तपस्वी जटाधारी दिखाई दिये जो कुजन और खोटे गाँवकी तरह-जड़हारिय (मूर्ख और जटाधारी) थे । कोई त्रिदंड़ी और धाड़ीशचर थे जो कुपित राजाकी तरह धाड़ीसर (तीर्थ जानेवाले, जोरसे चिह्लानेवाले !!! ) कोई त्रिशूल हाथमें लिये रुद्र थे, जो महावतकी तरह रुद्राकुंश (अंकुश और त्रिशूल लिये थे । वहाँपर लक्ष्मण और रामसे विभूषित सीता इस प्रकार प्रतिष्ठित हो रही थी जिस प्रकार समान दोनों पक्षोंके मध्य पूर्णिमा प्रतिष्ठित हो ॥१-६॥

[ १२ ] थोड़ी दूर और आगे जानेपर उन्हें धानुष्क वन मिला, वहाँके लोग मृगचर्म और कांबलीसे अपनेको ढके हुए थे, उनके हाथ मोर पंखोंसे सजे थे । कंदमूल और बहुतसे वनफल ही उनका भोजन था, उनके सिरपर वटकी माला, और गलेमें गुञ्जे पड़े थे । वहाँ युवतियोंकी शादी छुटपनमें शीघ्र हो जाती थी । उनके हाथोंमें हाथीदाँतकी चूड़ियाँ थीं । वे हाथियोंके कुंभस्थलोंकी ओखलियोंमें हाथीदाँतके बने सफेद मूसलोंसे मोतीरूपी चावलोंको कूट रही थीं । कामसे उत्तेजित होकर वे शीघ्र मुँह

तं तेहउ वणु भिल्लहुँ केरउ । हरि-वलएवँहिँ किउ विवरेरउ ॥७॥

यत्ता

तं मेहँवि घरवारु लोयहिँ हरिसिय-देहँहिँ ।

छाइय लक्खण-राम चन्द्र-सूर जिम मेहँहिँ ॥८॥

[ १३ ]

स - हरि स-भज्जउ रामु धणुद्धरु । अण्णु वि जाम जाइ थोवन्तरु ॥१॥

दिट्ठ गोट्टय णाई सु - वेसई । णं णरवइ-मन्दिरई सु-वेसई ॥२॥

जुज्झन्तई देकार मुअन्तई । णलिणि-मुणाल-सण्ड तोडन्तई ॥३॥

कथइ वच्छ - हणई णीसङ्गई । पन्वइयाई व णिरु णीसङ्गई ॥४॥

कथइ जणवउ सिसिरें चच्चिउ । पढम-सूइ सिरें धरँवि पणच्चिउ ॥५॥

कथइ मन्था - मन्थिय - मन्थणि । कुणइ सहु सुरए व विलासिणि ॥६॥

कथइ णारि - णियम्बँ सुहासिउ । णावइ कुडउ कुणइ मुहवासिउ ॥७॥

कथइ डिम्भउ परियन्दिज्जइ । अम्भाहीरउ गेउ झुणिज्जइ ॥८॥

यत्ता

तं पेक्खेप्पिणु गोट्टु णारीयण-परियरियउ ।

णावइ तिहि मि जणेहिँ वालत्तणु संभरियउ ॥९॥

[ १४ ]

तं मेहँवेप्पिणु गोट्टु रवण्णउ । घुणु वणु पइसरन्ति आरण्णउ ॥ १ ॥

जं फल - पत्त - रिद्धि-संपण्णउ । तरल-तमाल - ताल - संछण्णउ ॥ २ ॥

वणं जिणालयं जहा स-चन्दणं । जिणिन्द-सासणं जहा स-सावयं ॥ ३ ॥

महा - रणङ्गणं जहा सवासणं । मह्न्द-कन्धरं जहा स-केसरं ॥ ४ ॥

णरिन्द - मन्दिरं जहा स-माउयं । सुसञ्च-णच्चियं जहा स-तालयं ॥ ५ ॥

चूम लेती थीं। भीलोंकी ऐसी उस बस्तीमें राम और लक्ष्मणने निवास किया। उन्हें देखकर भील बहुत प्रसन्न हुए, और पुलकित होकर उन्होंने उनकी कुटियाको ऐसे घेर लिया, मानो सूर्य और चन्द्रको मेघोंने घेर लिया हो ॥१-८॥

[ १३ ] भाई लक्ष्मण और पत्नी सीताके साथ थोड़ी दूर और जानेपर रामको सुवेश गोठ ऐसे दीख पड़े मानो शोभन द्वार और भंगपन सहित राजभवन ही हों। कहीं पशु ढेक्कार ध्वनि करके लड़ रहे थे। कहीं पर सींग रहित बछड़े ऐसे जान पड़ते थे मानो निसंग (परिग्रह रहित) नये दीक्षित साधु ही हों। कहीं लोग दधिसे अर्चित थे, कहीं नई धानोंके अंकुरको सिरपर रखकर नाच रहे थे। कहीं मट्टा बिलोनेवाली मथानो, विलासिनी स्त्रीकी सुरतिकी तरह मधुर ध्वनि कर रही थी, कहींपर नारी-नितम्ब ऐसे शोभित थे मानो मुख सुवासित नागवृक्ष ही हों। कहीं पालने में बच्चे भुलाये जा रहे थे। और उनकी सुंदर लोरियाँ सुनाई पड़ रही थीं। स्त्रियोंसे घिरे हुए उस गोठको देखकर, उन तीनोंको जैसे अपने बचपनकी याद आ गई ॥१-९॥

[ १४ ] उस गोठ स्थानको छोड़कर, भयानक वनके भीतर उन्होंने प्रवेश किया। वह वन फल और पत्तोंसे संपन्न था। तरला तमाल और तालके पेड़ोंसे आच्छन्न था। वह वन जिनालयके समान चंदन (चंदन और पीपल) से सहित था, जिनशासनकी तरह सावय (श्रावक और श्रापद—कुत्ता) से युक्त था। महायुद्धके आँगनकी तरह, वासन (मांस और वृक्षविशेष) से सहित था। सिंहके कंधेकी तरह, केशर (अयाल और एक वृक्ष लता) से युक्त था, राजभवनकी तरह माउय (मंजरी और वृक्ष विशेष) से सहित था, सुनिबद्ध नाट्यकी तरह, ताल (ताल और इस नामका

जिणोस - ण्हाणयं जहा महासरं । कु-तावसे तवं जहा मयासवं ॥ ६ ॥  
 मुणिन्द-जीवियं जहा स-मोक्खयं । महा-णहङ्गणं जहा स-सोमयं ॥ ७ ॥  
 मियङ्क - विम्बयं जहा मयासयं । विलासिणा-मुहं जहा महारसं ॥ ८ ॥

यत्ता

तं वणु मेत्तेवि ताई इन्द-दिसणु आसण्णई ।  
 मासँहिँ चउरद्धेहिँ चित्तकूडु वोलीणई ॥ ९ ॥

[ १५ ]

तं चित्तउडु मुणुवि तुरन्तई । दसउरपुर - सांमन्तरु पत्तई ॥ १ ॥  
 दिट्ट महासन कमल - करम्बिय । सारस-हंसावलि-वग-चुम्बिय ॥ २ ॥  
 उज्जाणई सोहन्ति सु - पत्तई । मुणिवर इव सु-हलाई सु-पत्तई ॥ ३ ॥  
 सालिवणई पणमन्ति सु - भत्तई । णं सावयई जिणोसर - भत्तई ॥ ४ ॥  
 उच्चुवणई दल - दाहर - गत्तई । गिय-वइ-लङ्गणई व दुकलत्तई ॥ ५ ॥  
 पङ्कय - णव - णालुप्पल - सामँहिँ । तहिँ पइसन्तेहिँ लक्खण-रामँहिँ ॥ ६ ॥  
 सीरकुडुम्बिउ मणुसु पदीसिउ । वुणु कुरङ्गु व वाहुत्तासिउ ॥ ७ ॥  
 हडहड-फुट्ट - सीसु चल - णयणउ । पाणकन्तु समुट्ठभड - वयणउ ॥ ८ ॥

यत्ता

सो णासन्तु कुमारेँ सुरवर-कार-चण्डेँहिँ ।  
 आणिउ रामहँ पासु धरँवि स इं भु व - दण्डेँहिँ ॥ ९ ॥



पेड़) से युक्त था। जिनेन्द्रके अभिषेककी तरह महासर (स्वर, और सरोवर) से सहित था। कुतापसके तपकी तरह, मदासव (मद्य और मृग) से युक्त था। मुनीन्द्रके वचनकी तरह, मोक्ष (मुक्ति और इस नामके वृक्ष) से सहित था। आकाशके आँगनकी तरह सोम (चंद्र और वृक्षविशेष) से सहित था। चंद्रबिम्बकी तरह मयासय (मद और मृग) से आश्रित था, विलासिनीके मुखकी तरह महारस (लावण्य और जल) से युक्त था। उस वनको इसी तरह छोड़ते हुए वे लोग इन्द्रकी दिशामें अपसर हुए और दो माहमें ही चित्रकूटमें पहुँच गये ॥१-६॥

[ १५ ] चित्रकूटको भी तुरत छोड़कर उन लोगोंने दसपुर नगरकी सीमाके भीतर प्रवेश किया। वहाँ उन्हें कमलोंसे भरा सरोवर मिला। वह सरोवर सारस हंसमाला और बगुलोंसे चुम्बित हो रहा था। उद्यान बढ़िया पत्तोंसे शोभित थे, मुनिवरोंकी तरह जो अच्छे फलों और पत्तोंवाले थे, सुविभाजित शालि उपवन सुभक्तकी तरह ऐसे प्रणाम कर रहे थे मानो जिन-भक्तिसे भरे हुए श्रावक हों। लम्बे आकारवाले ईखके वन खोटी स्त्रीकी तरह, णियवइ (पति और वाटिका) का उल्लंघन कर रहे थे। कमल और नव नीलोत्पलके समान राम और लक्ष्मणने उसमें प्रवेश करते हुए एक सीरकुटुम्बिक नामके आदमीको देखा। वह शिकारीसे भयभीत हिरनकी तरह विपन्न था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आँखें चंचल। उसके प्राण सहमे-से थे और चेहरा विद्रूप था। कुमार लक्ष्मण, सँडके समान प्रचंड अपने हाथों पर, मरते हुए उसे उठाकर रामके पास ले आये ॥१६॥





## २५. पञ्चवीसमो संधि

धणुहर-हत्थेण दुब्बार-वइरि-आयामे ।  
सीरकुडुम्विउ मम्भीसेवि पुच्छिउ रामे ॥ १ ॥

[ १ ]

दुद्धम-दाणविन्द-महण-महाहवेण ।  
भो भो किं पिसन्थुलो वुत्तु राहवेण ॥ १ ॥

तं गिसुणेवि पजम्पिउ गहवइ । वज्जयण्णु णामेण सु-णरवइ ॥ २ ॥  
सीहीयरहो भिच्चु हियइच्छिउ । भरहु व रिसहहो आणवडिच्छिउ ॥३॥  
दसउर - णाहु जिणेसर - भत्तउ । पियवद्धणह पास उवसन्तउ ॥४॥  
जिणवर - पडिमङ्गुट्टे लेप्पिणु । अण्णहो णवइ ण णाहु मुएप्पिणु ॥५॥  
ताम कु-मन्तिहिं कहिउ णरिन्दहो । “पइँ अवगण्णेवि णवइ जिणन्दहो” ॥६॥  
तं गिसुणेवि वयणु पहु कुद्धउ । णं खय-काले कियन्तु विरुद्धउ ॥७॥  
कोवाणल - पलित्तु सीहीयरु । णं गिरि-सिहरे मइन्द-किसोयरु ॥८॥  
'जो मइँ मुएँवि अण्णु जयकारइ । सो किं हय गय रज्जु ण हारइ ॥९॥

यत्ता

अह किं वहुएँण कल्लएँ दिणयरँ अत्थन्तएँ ।  
जइ ण वि मारमि तो पइसमि जलणँ जलन्तएँ ॥१०॥

[ २ ]

पइज करेवि जाम पहु आहवे अभङ्गो ।  
ताम पइट्टु चोरु णामेण विज्जुलङ्गो ॥ १ ॥

पइसन्ते रयणिहँ मज्झयाले । अलिउल-कज्जल-सण्णिह-तमाले ॥२॥  
ते दिट्टु णराहिउ विप्फुरन्तु । पलयाणलो व्व धगधगधगम्भु ॥ ३ ॥

## २५. पचीसवीं सन्धि

दुर्वार वैरीके लिए समर्थ, हाथमें धनुष लिये हुए रामने, अभय देकर सीरकुटुम्बिकसे पूछा ।

[ १ ] दुर्दम दानवेंद्रका मर्दन करनेवाले महायोधा रामने उससे पूछा, “तुम विपन्न क्यों हो ?” यह सुनकर वह गृहपति बोला—“वज्रकर्ण नामका एक अच्छा राजा है, वह सिंहोदरका उसी तरह अधीन अनुचर है जिस तरह भरत ऋषभ जिनका आज्ञाकारी था । “दशपुरका वह शासक जिनेन्द्र-भक्त है । एक बार उसने प्रियवर्धन मुनिके पास, जिन-प्रतिमाका अंगूरी छूकर यह प्रतिज्ञा की कि मैं जिनवरको छोड़कर किसी दूसरेको प्रणाम नहीं करूँगा । यह बात किसी (चुगलखोर) कुमन्त्रीने जाकर राजा सिंहोदरसे जड़ दी कि वज्रकर्ण आपकी अवहेलना करके केवल जिनको ही नमस्कार करता है ।” यह सुनकर राजा सिंहोदर क्रोधकी आगसे ऐसे उबल पड़ा मानो किसी पर्वतकी चोटीपर कोई सिंह-शावक ही गरजा हो । उसने कहा, “जो मुझे छोड़कर किसी दूसरेकी जय करता है, उसे अपने हय गय राज्यसे क्यों न वंचित किया जाय । अधिक कहनेसे कोई लाभ नहीं । यदि कल सूर्यास्त होनेके पहले मैं उसे न मार पाया तो (निश्चय) ही आगमें प्रवेश-कर लूँगा ।” ॥१-१०॥

[ २ ] युद्धमें अन्त सिंहोदर जब यह प्रतिज्ञा कर ही रहा था कि विद्युदंग नामका चोर (उसके महलमें) घुस आया । भ्रमर-समूह या काजलकी तरह अत्यंत काली उस मध्य निशामें प्रवेश करते हुए विद्युदंगने राजा सिंहोदरको प्रलयाग्निकी तरह धधकते

रोमञ्च - कञ्चु - कञ्चुइय - देहु । जल-गविभणु णं गज्जन्तु मेहु ॥ ४ ॥  
 सण्णद्ध - वद्ध - परियर - णिवन्धु । रण-भर-धुर-धोरिउ दिण्ण-खन्धु ॥५॥  
 वलिवण्ड-मण्ड - णिडुरिय - णयणु । दट्टोदु सुट्टु-विप्फुरिय - वयणु ॥ ६ ॥  
 “भारेवड रिउ” जम्पन्तु एम । खय-काले सणिच्छरु कुविउ जेम ॥७॥  
 “तं पेक्खेवि चिन्तइ भुअ - विसालु । “किं मारमि णं णं सामिसालु ॥८॥  
 साहम्मिय - वच्छलु किं करेमि । सव्वायरेण गम्पिणु कहेमि” ॥ ९ ॥  
 गउ एम भणेवि कण्टइय - गत्तु । णिविसद्धे दसउर-णयरु पत्तु ॥ १० ॥

घत्ता

खुडु अरुणुग्गमे सो विज्जुलङ्गु धावन्तउ ।  
 दिट्टु णरिन्देण जस-पुञ्जु णाड्डे आवन्तउ ॥११॥

[ ३ ]

पुच्छिउ वज्जयण्णेण हसेवि विज्जुलङ्गो ।  
 “भो भो कहिं पयट्टु वहु-वहल-पुलइयङ्गो” ॥१॥

तं णिसुणेरिपणु वयण - विसाले । बुच्चइ वज्जयणु कुसुमाले ॥ २ ॥  
 “कामलेह - णामेण विलासिणि । तुङ्ग-पओहर जण-मण-भाविणि ॥३॥  
 तहे आसत्तउ अत्थ - विवज्जउ । कारणे मणि-कुण्डलहे विसज्जिउ ॥४॥  
 पुणु विज्जाहर - करणु करेप्पिणु । गउ सत्त वि पायार कमेप्पिणु ॥५॥  
 किर वर - भवणु पईसमि जावेहिं । पइज करन्तु राउ सुउ तावेहिं ॥६॥  
 हउ वयणेण तेण आदण्णउ । वट्टइ वज्जयणु उच्छण्णउ ॥ ७ ॥  
 साहम्मिउ जिण - सासण - दीवउ । एम भणेप्पिणु वलिउ पडीवउ ॥८॥  
 पुणु वि वियउ - पय-ओहेहिं धाइउ । णिविसे तुम्हड्डे पासु पराइउ ॥ ९ ॥

घत्ता

किं ओलग्गए जाणन्तु वि राय म मुज्झहि ।  
 पाण लएप्पिणु जेम णासहि रणे जुज्झहि ॥ १० ॥

हुए उद्दीप्त देखा। उसका शरीर रोमांचसे कटीला हो रहा था। वह इस प्रकार गरज रहा था मानो सजल मेघ ही गरज रहा हो। अत्यंत समर्थ उसने समूचा परिकर बाँध रखा था। युद्धकी सामग्रीसे सजी हुई सेना तैयार खड़ी थी। उसके नेत्र (सचमुच) बलशाली जबर्दस्त और डरावने थे। वह अपने होंठ चबा रहा था। उसका चेहरा तमतमा रहा था। त्रय कालके शनि देवता की तरह अत्यन्त क्रुद्ध वह कह रहा था कि शत्रु को मारो। तब विद्युदंगने सोचा कि मैं इसे मार दूँ। नहीं नहीं, यह श्रेष्ठ स्वामी है, पर वज्रकर्ण भी मेरा साधर्मी भाई है। तब क्या करना चाहिए। क्या फौरन जाकर उसे बता दूँ। यह विचार कर पुलकित शरीर वह चल पड़ा। आधे ही पलमें दशपुर पहुँच गया। सूर्योदय बेलामें राजा वज्रकर्णने देखा कि विद्युदंग इस तरह दौड़ता हुआ आ रहा है, मानो उसका यशपुंज ही हो ॥१-११॥

[३] वज्रकर्णने हँसकर उससे पूछा “इतने अधिक प्रसन्न और पुलकित कहाँसे आ रहे हो”। यह सुनकर, विशालमुख विद्युदंग चोर ने कहा, “तुंग पयोधरा और जनमनको लुभानेनाली, कामलेखा नाम की एक वेश्या है। मैं उस पर आसक्त हूँ। पर धनके अभाव में जब मैं उसके लिए मणिकुंडल नहीं बनवा सका तो उसने मुझे ठुकरा दिया। तब मैं मन्त्रका प्रयोग कर, सातों ही परकोटोंको लांघता (राजा सिंहोदर) के महलमें घुस गया। घुसते ही राजा सिंहोदरकी प्रतिज्ञा सुनकर मैं विकल हो उठा। (मैं समझ गया) कि अब वज्रकर्णका अन्त होने वाला है। यह सोचकर कि तुम साधर्मी और जिनधर्मके दीपक हो, मैं (यह कहनेके लिए) लौट पड़ा। और परक्षोभसे दौड़कर पलमात्रमें तुम्हारे पास आया हूँ। उसकी सेवामें क्या रक्खा है। यह समझ लो और उससे ऐसा युद्ध करो कि वह समाप्त ही हो जाय ॥१-१०॥

[ ४ ]

अहवइ काइँ वहु जस्पिण राया ।

पर-वल्ले पेक्खु पेक्खु उट्टन्ति धूलि-छाया ॥१॥

पेक्खु पेक्खु आवन्तउ साहणु । गलगज्जन्तु महागय - वाहणु ॥ २ ॥

पेक्खु पेक्खु हिंसन्ति गुरङ्गम । णहयल्ले विउल्ले भमन्ति विहङ्गम ॥३॥

पेक्खु पेक्खु चिन्धइँ धुम्बन्तइँ । रह-चक्कइँ महियल्ले खुप्पन्तइँ ॥ ४ ॥

पेक्खु पेक्खु वज्जन्तइँ तूरइँ । णाणाविह-णिणाय - गर्भारइँ ॥ ५ ॥

पेक्खु पेक्खु सय सङ्ग रसन्ता । णाइँ सदुक्खुउ सयण रुअन्ता ॥६॥

पेक्खु पेक्खु पचलन्तउ णरवइ । गह-णक्खत्त-मज्जे सणि णावइँ ॥७॥

दसउर - णाहु णिहालइ जावँहिँ । पर-वल्लु सयल्लु विहावइ तावँहिँ ॥८॥

“साहु साहु” तो एम भणेप्पिणु । विज्जुल्लु णिउ आलिङ्गेप्पिणु ॥ ९ ॥

थिउ रण-भूमि पसाहँवि जावँहिँ । सयल्लु वि सेणु पराइउ तावँहिँ ॥१०॥

घत्ता

अमरिस-कुद्धँहिँ चउपासँहिँ णरवर-विन्दहिँ ।

वेड्डिउ पट्टणु जिम महियल्लु चउहिँ समुद्धँहिँ ॥ ११ ॥

[ ५ ]

किय जय सारि-सज्ज पक्खरिय वर-तुरङ्गा ।

कवय-णिवद्ध जोह अब्भिट्ट पुलइयङ्गा ॥ १ ॥

अब्भिट्टु जुज्जु विण्ह वि वलाहँ । अवरोप्परु वड्डय-कलयलाहँ ॥ २ ॥

वज्जन्त - तूर - कोलाहलाहँ । उवसोह-चडाविय-मयगलाहँ ॥ ३ ॥

मुक्केकमेक - सर - सव्वलाहँ । भुअ-छिण्ण-भिण्ण-वच्छत्थलाहँ ॥४॥

लोटाविय - धय - मालाउलाहँ । पडिपहर - विदुर-विहल्लुलाहँ ॥५॥

णिडुरिय - णयण - डसियाहराहँ । असि-अस-सर-सत्ति-पहरण-धराहँ ॥६॥

सुपमाण - चाव - कड्डिय - कराहँ । गुण-दिट्ठि-मुट्ठि-सन्धिय-सराहँ ॥७॥

दुग्घोट - थट्ट - लोटावणाहँ । कायर - णर-मण-संतावणाहँ ॥ ८ ॥

[४] अथवा इस तरह बहुत कहनेसे क्या लाभ ? देखो देखो, राजन, शत्रु-सेनाकी धूलि-छाया उठ रही है । देखो देखो, सेना आ रही है । महागजोंके बाहन गरज रहे हैं । देखो, देखो, घोड़े हींस रहे हैं और पक्षी आकाशमें उड़ रहे हैं । देखो देखो, पताकाएँ उड़ रही हैं और रथ-चक्र धरतीमें गड़े जा रहे हैं । देखो देखो, नाना स्वरोसे गंभीर तूर बाजे बज रहे हैं और सैकड़ों शंखोंकी ध्वनि हो रही है मानो दुखी स्वजन ही रो रहे हों । देखो देखो, नरपति ऐसे चला आ रहा है, मानो ग्रह और नक्षत्रोंके बीचमें शनि ही हो ।” दशपुर-स्वामी वज्रकर्णने ज्यों ही मुड़ा, तो उसे शत्रु सेना आती हुई दिखाई दी । “साधु-साधु” कहकर उसने विद्युदंग को अपने हृदयसे लगा लिया । सज्जित होकर जैसे ही वह रणक्षेत्रमें पहुँचा वैसे ही समस्त सेना आ पहुँची । अमर्ष और क्रोधसे भर राजाओंने नगरको चारों ओरसे वैसे ही घेर लिया जैसे समुद्र धरती को घेरे हुए हैं ॥ १-११ ॥

[ ५ ] अम्बारीसे सजे हाथी और कवच पहने घोड़े तैयार थे । सनद्ध योधा पुलकित होकर भिड़ गये । दोनों दलोंमें लड़ाई ठन गई । बजते हुए नगाड़ोंका कोलाहल होने लगा । हाथी फूलोंसे सजे हुए थे । वे एक दूसरे पर सञ्चल और वाण फेंक रहे थे; हाथोंसे वृक्षःस्थल छिन्न-भिन्न हो रहे थे । पताकाओंकी पंक्तियाँ लोट-पोट हो रही थीं । प्रहार और प्रति प्रहारोंसे सैनिक खिन्न और विकलांग हो रहे थे । दोनोंके नेत्र भयंकर थे । उनके आँठ काँप रहे थे । तलवार भ्रम सर और शक्ति आदि आयुधोंसे दोनों ही लैस थे । वे डोरी खींचे हुए और तलवार निकाले हुए थे । उनकी दृष्टि डोरी मुट्टी और तीरोंके संधान पर थी । गजघटाओंको लोट-पोट कर देनेवाले वे कायरोंके मनको अधिक सताने वाले थे ।

जयकारहों कारणें दुद्धराहँ । रणु वज्जयण्ण - सीहोयराहँ ॥ ६ ॥

घत्ता

विहि मि भिडन्तहिँ समरङ्गणं दुन्दुहि वज्जइ ।  
विहि मि णरिन्दहँ रणँ एक्कु वि जिणइ ण जिजइ ॥ १० ॥

[ ६ ]

“हणु हणु [ हणु ]” भणन्ति हम्मन्ति आहणन्ति ।

पउ वि ण ओसरन्ति मारन्ति रणँ मरन्ति ॥ १ ॥

उहय-वल्लेहिँ पडियग्गिम - खन्धइँ । उहय-वल्लेहिँ णञ्चन्ति कवन्धइँ ॥२॥

उहय-वल्लेहिँ मुसुमूरिय धयवड । उहय-वल्लेहिँ लोटाविय भड-थड ॥३॥

उहय-वल्लेहिँ हय गय विणिवाइय । उहय-वल्लेहिँ रुहिरोह पघाइय ॥४॥

उहय-वल्लेहिँ गित्तंसिय खग्गइँ । उहय वल्लेहिँ डेवन्ति विहङ्गइँ ॥ ५ ॥

उहय-वल्लेहिँ णीसहइँ तूरइँ । उहय-वल्लेहिँ पहरण-खर-विहुरइँ ॥६॥

उहय-वल्लेहिँ गय-दन्तेहिँ भिण्णइँ । उहय-वल्लेहिँ रण-भूमि-णिसण्णइँ ॥७॥

उहय-वल्लेहिँ रुहिरोल्लिय - गत्तइँ । हक्क-डक्क-लल्लक्क मुअन्तइँ ॥ ८ ॥

एम पक्खु वट्टइ संझामहों । अक्खइ सीरकुडुम्बिउ रामहों ॥९॥

घत्ता

तं णिसुणेप्पिणु मणि-मरणय-किरण-फुरन्तउ ।

दिण्णु ज-हत्थेण कण्ठउ कडउ कडिसुत्तउ ॥ १० ॥

[ ७ ]

पुणु संचल्ल वे वि वलएव-वासुएवा ।

जाणइ-करिणि-सहिय गय गिल्ल-गण्ड जेवा ॥ १ ॥

चाव-विहत्थ महत्थ महाइय । सहसकूडु जिणभवणु पराइय ॥२॥

जं इट्ठाल - धवल - झुह - पङ्किउ । सज्जण-हियउ जेम अकलङ्किउ ॥३॥

जं उत्तुङ्ग - सिंहरु सुर - कित्तिउ । वण्ण-विचित्त-चित्त-चिर-चित्तिउ ॥४॥

वज्रकर्ण और सिंहोदर दोनोंका विजयके लिए अत्यन्त कठोर युद्ध हो रहा था। युद्ध छिड़ने पर दोनोंकी दुंदुभि बज रही थी। उन दोनों राजाओंमें से एक भी न तो जीत रहा था और न जीता जा रहा था ॥ १-१० ॥

[ ६ ] योधा 'मारो मारो' कहकर, मरते और मारते, परन्तु वे एक भी कदम पीछे नहीं हटाते थे, भले ही युद्धमें मारते-मारते मरते जा रहे थे। दोनों ही दल आगे बढ़ते हुए धड़ोंको नचा रहे थे। दोनों दलोंने एक दूसरेके ध्वजपटोंको मसल दिया। भट-समूह को गिरा दिया, और अश्व-गजोंको भूमिसात् कर दिया। रक्तकी धारा प्रवाहित हो उठी। दोनों दलोंने अपनी अपनी तोखी तलवारें निकाल लीं, दोनोंने पक्षियोंको कँपा दिया। दोनों दलोंने अपने तीखे प्रहारोंसे दुंदुभियोंको छिन्न-भिन्न कर, निःशब्द कर दिया। हाथियोंके दंतप्रहारसे दोनों छिन्न-भिन्न हो गये। दोनों दल युद्ध-भूमिमें सो-से गये। दोनों दल रक्तरंजित शरीर थे। दोनों दल, एक दूसरे पर हुंकारते ललकारते और चुनौती देते हुए मरने लगे।" सीरकुटुम्बिकने रामसे कहा, "इस प्रकार युद्ध होते-होते एक पखवाड़ा हो गया है।" कि यह सुनकर रामने उसे अपने हाथ से मणि और हीरोंकी किरणोंसे जगमगाता हुआ कंठहार तथा कटक और कटिसूत्र दिया ॥१-१०॥

[ ७ ] फिर वे दोनों ( वासुदेव और बलभद्र ) सीताको साथ लेकर उसी प्रकार चले जिस प्रकार मत्तगज हथिनीको साथ लेकर चलता है। हाथमें धनुष लिये, परम आदरणीय राम सहस्रकूट जिन-भवनमें पहुँचे, वह जिन-भवन ईंटों और सफेद चूनासे निर्मित, सज्जनके हृदयके समान निष्कलंक था। उसकी शिखरें देवोंकी कीर्तिकी तरह ऊँची थीं। विविध और चित्र-विचित्र



तं जिणभवणु णियवि परितुइइँ । पयहिण देवि ति-वार वइइइँ ॥५॥  
 तहिँ चन्दप्पह-विम्बु णिहालिउ । जं सुरवरतरु-कुसुमोमालिउ ॥ ६ ॥  
 जं णागेन्द्र - सुरेन्द्र - णरिन्द्रहिँ । वन्दिउ मुणि-विजाहर-विन्द्रहिँ ॥७॥  
 दिट्ठु सु-सोहिउ सोम्म सु-दंसणु । अण्णु मि सेय-चमरु सिंहासणु ॥८॥  
 छत्त-त्तउ असोउ भा-मण्डलु । लच्छि-विहूसिउ वियड-उरत्थलु ॥९॥

धत्ता

किं बहु ( एं )-चविण्ण जगँ को पडिविम्बु ठविज्जइ ।  
 पुणु वि पडावउ जइ णाहँ णाहुवमिज्जइ ॥ १० ॥

[ ८ ]

जं जग - णाहु दिट्ठु वल - सीय - लक्खणेहिँ ।

तिहि मि जणेहिँ वन्दिओ विविह - वन्दणेहिँ ॥ १ ॥

‘जय रिसह दुसह - परिसह-सहण । जय अजिय अजिय-वम्मह-महण ॥२॥  
 जय संभव संभव - णिइलण । जय अहिणन्दण णन्दिय - चलण ॥३॥  
 जय सुमइ - भडारा सुमइ - कर । पउमप्पह पउमप्पह - पवर ॥ ४ ॥  
 जय सामि सुपास सु - पास - हण । चन्दम्पह पुण्ण-चन्द्र - वयण ॥ ५ ॥  
 जय जय पुप्फयन्त पुप्फच्चिय । जय सीयल सीयल-सुह-संचिय ॥६॥  
 जय सेयङ्कर सेयंस - जिण । जय वासुपुज्ज पुज्जिय-चलण ॥ ७ ॥  
 जय विमल - भडारा विमल - मुह । जय सामि अणन्त अणन्त-सुह ॥८॥  
 जय धम्म - जिणेसर धम्म - धर । जय सन्ति-भडारा सन्ति-कर ॥ ९ ॥  
 जय कुन्थु महत्थुइ - थुअ - चलण । जय अर-अरहन्त महन्त-गुण ॥१०॥  
 जय मल्लि महल्ल - मल्ल - मलण । मुणि सुव्वय सु-व्वय सुद्ध-मण’ ॥११॥

रंगोसे चित्रित उस जिन-भवनको देखकर, राम बहुत संतुष्ट हुए । वह तीन प्रदक्षिणा देकर बैठ गये । वहाँ उन्होंने चन्द्रप्रभुकी अत्यंत शोभित दर्शनीय और सौम्य प्रतिमाके दर्शन किये । वह प्रतिमा कल्पवृक्षके फूलोंसे अर्चित और नागेन्द्र सुरेन्द्र नरेन्द्र मुनि तथा विद्याधरों-द्वारा वंदित थी । और भी उन्होंने वहाँ, सफेद चमर, सिंहासन, छत्र, अशोकवृक्ष तथा विस्तीर्ण शोभासे अंकित भामंडल देखा । बहुत कहनेसे क्या, जगमें कैसी भी प्रतिमा स्थापित हो जाय, फिर भी भगवान्‌से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती ॥ १-१० ॥

[ ८ ] राम लक्ष्मण और सीताने जगन्नाथ-जिनके दर्शन कर विविध वंदनाओंसे उनकी भक्ति प्रारम्भ की, “दुःसह परिषहोंको सहन करने वाले ऋषभ, आपकी जय हो । अजेय कामका दलन करने वाले अजितनाथकी जय हो । जन्मनाशक संभवनाथकी जय हो । नंदितचरण अभिनंदनकी जय हो । सुमतिदाता भट्टारक सुमतिकी जय हो । पद्मकी तरह कीर्तिवाले पद्मनाथकी जय हो । बंधन काटने वाले सुपार्श्वनाथकी जय हो । पूर्णचन्द्रकी तरह मुख वाले चंद्रप्रभुकी जय हों । फूलोंसे अर्चित, पुष्पदन्तकी जय हो, शीतलसुखसे अर्चित शीतलनाथकी जय हो । कल्याणकर्ता श्रेयांसनाथकी जय हो । पूज्यचरण वासुपूज्यकी जय हो । पवित्रमुख भट्टारक विमलकी जय हों । अनंतसुखनिकेतन अनंतनाथकी जय हो । धर्मधारी धर्मनाथकी जय हो । शांतिदाता भट्टारक शांतिनाथकी जय हो । महास्तुतियोंसे वंदित-चरण कुंथुनाथकी जय हो । महागुणोंसे संपन्न अरहनाथकी जय हो । बड़े-बड़े योधाओंको पछाड़ने वाले मल्लिनाथकी जय हो । सुव्रती और शुद्धमन मुनि-सुव्रतकी जय हो । इस प्रकार बीस जिनवरोंकी वंदना करके

घत्ता

वीस वि जिणवर वन्देप्पिणु रामु वईसइ ।

जहिँ सीहोयरु तं णिलउ कुमारु पईसइ ॥ १२ ॥

[ ६ ]

ताम णरिन्द - वारे थिर थोर - वाहु - जुअलो ।

सो पडिहारु दिट्ठु सद्धत्थ - देसि - कुसलो ॥ १ ॥

पइसन्तु सुहडु तं धरिउ केम । णिय-समएं लवणसमुद्दु जेम ॥२॥

तं कुविउ वीरु विप्फुरिय - वयणु । विहुणन्तु हत्थ णिडुरिय-णयणु ॥३॥

मणं चिन्तइ वइरि - समुद्द - महणु । 'किं मारमि णं णं कवणु गहणु' ॥४॥

गउ एम भणँवि भुद्द - दण्ड-चण्डु । णं मत्त-महागउ गिल्ल-गण्डु ॥ ५ ॥

तं दसउर - णयरु पइट्ठु केम । जण-मण-मोहन्तु अणङ्गु जेम ॥ ६ ॥

दुव्वार - वइरि - सय - पाण-चोरु । णीसरिउ णाईं केसरि-किसोरु ॥७॥

जं लक्खणु लक्खिउ राय - वारँ । पडिहारु वुत्तु 'मं मं णिवारँ' ॥८॥

तं वयणु सुणँवि पइट्ठु वीरु । चक्कवइ-लच्छि-लच्छिय - सरीरु ॥९॥

घत्ता

दसउर - णाहण लक्खिज्जइ एन्तउ लक्खणु ।

रिसह - जिणिन्देण णं धम्म अहिंसा - लक्खणु ॥१०॥

[ १० ]

हरिसिउ वज्जयणु दिट्ठेण लक्खणेणं ।

पुणु पुणु णेह - णिब्भरो चविउ तक्खणेणं ॥ १ ॥

'किं देमि हत्थि रह पुरय - थट्ट । विच्छुरिय-फुरिय-मणि-मउड-पट्ट ॥२॥

किं वत्थेहिँ किं रयणेहिँ कज्जु । किं णरवर-परिमिउ देमि रज्जु ॥३॥

किं देमि स - विब्भमु पिण्डवासु । किं स-सुउ स-कन्तउ होमि दासु' ॥४॥

तं वयणु सुणँवि हरिसिय - मणेण । पडिवुत्तु णराहिउ लक्खणेण ॥ ५ ॥

राम वहीं बैठ गये । परन्तु लक्ष्मण उस भवनमें घुसे जहाँ सिंहोदर था ॥ १-१२ ॥

[ ६ ] इतनेमें राजाके द्वारपर एक प्रतिहार दिखाई दिया । स्थिर और स्थूल बाहुओं वाला वह शब्द अर्थ और देशी बोलीमें बड़ा कुशल था । आते हुए इस सुभटको उसने उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह लवण-समुद्रको उसकी वेला ग्रहण करती है । इससे वह कुपित होकर तमतमा उठा । वह हाथ हिलाने लगा । उसके नेत्र भयानक हो उठे । शत्रु-समुद्रका मथन करनेवाला वह ( लक्ष्मण ) मनमें सोचने लगा, “क्या मार दूँ, नहीं, नहीं इससे क्या मिलेगा ?” यही विचारकर बाहुओंसे प्रचंड, वह भीतर ऐसे चला गया मानो भरते गंडस्थल वाला मत्त महागज हो ।” इसके बाद लक्ष्मणने दशपुर-नगरमें वैसे ही प्रवेश किया जैसे, कामदेव आते ही जन-मन मुग्ध कर देते हैं । दुर्वार सैकड़ों शत्रुओं के प्राणोंको चुराने वाला वह सिंहके बच्चेकी तरह निकल पड़ा । जैसे ही लक्ष्मणको राजद्वारपर देखा, प्रतिहारने कहा, “मत रोको, आने दो ।” यह वचन सुनकर, चक्रवर्तीकी लक्ष्मीसे लांछित शरीर लक्ष्मण प्रविष्ट हुआ । दशपुर-नरेश वज्रकर्णने लक्ष्मणको आते हुए उसी तरह देखा जैसे ऋषभ जिनने अहिंसा धर्मको देखा था ॥ १-१० ॥

[ १० ] लक्ष्मणको देखकर वज्रकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ । बार-बार स्नेहसे वह उसी क्षण बोला—“क्या दूँ, हाथी, रथ और घोड़ोंका समूह या चमकते हुए मणियोंका मुकुटपट्ट ? क्या आपको वस्त्रों और रत्नोंसे काम है ? क्या आपको श्रेष्ठ मनुष्योंसे युक्त राज्य दूँ ? क्या सम्भ्रात सेवक दूँ ? या पुत्र तथा पत्नी सहित मैं ही तुम्हारा सेवक बन जाऊँ ।” ये

‘कहिँ मुणिवरु कहिँ संसार-सोवखु । कहिँ पाव-पिण्डु कहिँ परम-मोक्खु ॥६॥  
 कहिँ पायउ केथु कुडुक्क - वयण् । कहिँ कमल-सण्डु कहिँ विउलु गयण् ॥७॥  
 कहिँ मयगल्ले हलु कहिँ उट्टे घण्ट । कहिँ पन्थिउ कहिँ रह-तुरय-थट्ट ॥८॥  
 तं बोझहि जं ण घडइ कलाएँ । अहइँ वाहिय मुक्खएँ खलाएँ ॥९॥

घत्ता

तुहँ साहम्मिउ दय - धम्मु करन्तु ण थक्कहि ।  
 भोयणु मग्गिउ तिहँ जणहुँ देहि जइ सकहि’ ॥ ११ ॥

[ ११ ]

बुच्चइ वजयण्णं सजल - लोयणेणं ।  
 ‘मग्गिउ देमि रज्जु किं गहणु भोयणेणं’ ॥१॥

एम भणेप्पिणु अणुच्चाइउ । णिविसं रामहोँ पासु पराइउ ॥ २ ॥  
 खणँ कच्चोल थाल ओयारिय । परियल-सिप्पि-सङ्ग विथारिय ॥३॥  
 बहुविह - खण्ड - पयारँहिँ वड्डिउ । उच्चु-वणं पिव मुह-रसियड्डिउ ॥४॥  
 उजाणं पिव सुट्टु सुअन्धउ । सिद्धहोँ सिद्धि-सुहं पिव सिद्धउ ॥५॥  
 रेहइ असण-वेल बलहदहोँ । णाँ विणिग्गय अमय-समुदहोँ ॥६॥  
 धवल - प्पउर-कूर - फेणुजल । पेजावत्त दिन्ति चल चञ्चल ॥७॥  
 घिय-कल्लोल-वोल पवहन्ती । तिम्मण - तोय - तुसार मुअन्ती ॥८॥  
 सालण-सय-सेवाल-करम्बिय । हरि-हलहर - जलयर-परिचुम्बिय ॥९॥

घत्ता

किं बहु-चविण्णं सच्छाउ सलोणु स-विञ्जणु ।  
 इट्ट-कलसु व तं भुत्त जाहिच्छएँ भोयणु ॥१०॥

वचन सुनकर प्रसन्नचित लक्ष्मणने राजासे कहा, “कहाँ मुनिवर  
कहाँ संसारसुख, कहाँ पापपिंड और कहाँ परम मोक्षसुख !  
कहाँ प्राकृत और कहाँ कुडुक-कौतुक वचन ! कहाँ कमलोंका  
समूह और कहाँ व्यापक आकाश ! कहाँ मदमाते हाथीकी  
घंटी और कहाँ ऊँटका घंटा । कहाँ पथिक और कहाँ रथ-घोड़ोंका  
समूह । वह बात कहिए जो एक भी कलासे कम न हो, हमलोग  
दुष्ट लुधासे बाधित हो रहे हैं । तुम-सा धर्माजन ही दयाधर्म करने  
से नहीं चूकते । भोजन माँगता हूँ यदि हो सके तो तीन आदमियों-  
का भोजन दो ॥१-१० ॥

[ ११ ] तब वज्रकर्णने सजल नेत्रोंसे कहा, “भोजन ग्रहण  
करनेकी क्या बात ? माँगो तो राज्य भी दे सकता हूँ ।” यह  
कह कर अन्न ( भोजन ) लेकर वह पल भर में रामके निकट जा  
पहुँचा । एक क्षणमें उसने कटोरे और थाल रख दिये । अन्न-  
भांड और तृणके बने आसन बिछा दिये । सब प्रकारके व्यंजनों  
से वह भोजन उत्तम था । वह ईख वनकी तरह मधुर रससे भरा  
था, उद्यानकी तरह अत्यन्त सुगन्धित था, और सिद्धोंके सिद्धिसुख  
की तरह सिद्ध था । बलभद्र रामकी भोजन-बेला ऐसी सोह रही थी  
मानो वह अमृतसमुद्रसे ही निकली हो । वह, धवलपूर और कूरके  
फेनसे उज्ज्वल थी । उसमें पेयोंके चंचल आवर्त उठ रहे थे । घीकी  
लहरोंका समूह बह रहा था । कढ़ीका जल और तुषार प्रकट हो  
रहा था । सालनरूपी सैकड़ों शैवालोंसे वह अंचित थी । और वह  
हरि तथा हलधर ( राम और लक्ष्मण ) रूपी जलचरोंसे चुम्बित हो  
रही थी । अधिक कहनेसे क्या, उन्होंने, इष्टकलत्रके समान,  
सच्छाय ( सुन्दर कान्तिवाला ), सलोण ( सुन्दरता और नमक )  
सव्यंजन ( पकवान और अलंकार ) सुन्दर भोजन यथेच्छ-  
स्त्राया ॥१-१०॥

[ १२ ]

भुञ्जैवि रामचन्देणं पभणिओ कुमारो ।

‘भोयणु ण होइ ँउ उवयार-गरुअ-भारो ॥१॥

पडिउवयारु किं पि विण्णासहि । उभय-वल्लहि अप्पाणु पगासहि ॥२॥  
 तं सीहोयरु गम्पि णिवारहि । अद्धं रज्जहोँ सन्धि समारहि ॥३॥  
 बुच्चइ भरहें दूउ विसज्जिउ । दुज्जउ वज्जयणु अपरज्जिउ ॥४॥  
 तेण समाणु कवणु किर विग्गहु । जें आयामिउ समरें परिग्गहु’ ॥५॥  
 तं णिसुणेवि वयणु रिउ-मद्दणु । रामहोँ चल्लोँहिँ पडिउ जणद्दणु ॥६॥  
 ‘अज्जु कियत्थु अज्जु हउँ धण्णउ । जं आएसु देव पइँ दिण्णउ’ ॥७॥  
 एम भणेवि पयट्टु महाइउ । गउ सीहोयर-भवणु पराइउ ॥८॥  
 मत्त-गइन्दु जेम गलगज्जैवि । तं पडिहारु करगोँ तज्जैवि ॥९॥

घत्ता

तिण-समु मण्णेवि अत्थाणु सयलु अवगण्णेवि ।

पइठु भयाणणु गय-जूहें जेम पञ्चाणणु ॥१०॥

[ १३ ]

अमरिस-कुद्धएण बहु-भरिय-मच्छरेणं ।

सीहोयरु पलोइओ जिह सणिच्छरेणं ॥१॥

कोवाणल - सय - जाल - जलन्ते । पुण पुणु जोइउ णाईँ कयन्ते ॥२॥  
 जउ जउ लक्खणु लक्खइ संमुहु । तउ तउ सिमिरु थाइ हेट्ठा-मुहु ॥३॥  
 चिन्तिउ ‘को वि महा-वलु दीसइ । णउ पणिवाउ करइणउ वइसइ’ ॥४॥  
 तं जि णिमित्तु लएवि कुमारें । वुत्तु राउ ‘किं बहु-वित्थारें ॥५॥  
 एम विसज्जिउ भरह-णरिन्दें । करइ केलि को समउ मइन्दें ॥६॥  
 को सुर-करि-विसाण उप्पाडइ । मन्दरसेल-सिङ्ग को पाडइ ॥७॥  
 कोऽमयवाहु करगोँ ढङ्गइ । वज्जयणु को मारैँवि सकइ ॥८॥  
 सन्धि करहोँ परिभुज्जहोँ मेइणि । हियय-सुहइरि जिह वर-कामिणि ॥९॥

[ १२ ] भोजन करनेके उपरान्त रामने लक्ष्मणसे कहा—  
 “यह भोजन नहीं किन्तु तुम्हारे ऊपर उपकारका बहुत भारी  
 भार है, इनका कोई प्रत्युपकार करो । ( न हो तो ) दोनों सेनाओं-  
 में अपने आपको प्रकट करो । जाकर सिंहोदरको रोको और  
 आधे राज्यकी शर्तपर उससे संधि कर लो, फौरन दूत भेजकर  
 उससे कहो कि वज्रकर्ण दुर्जेय और अपराजित है । उसके साथ  
 युद्ध कैसा ? जो तुमने युद्धके इतने साधन जुटाये हैं ।” यह  
 सुनकर शत्रुका दमन करनेवाला जनार्दन लक्ष्मण रामके पैरोंपर  
 गिरकर बोला—“आपका आदेश पाकर आज मैं धन्य और कृतार्थ  
 हूँ ।” यह कहकर आदरणीय वह सीधा सिंहोदरके भवनमें गया ।  
 हाथीकी तरह गरजकर तथा प्रतिहारको तर्जनीसे डाँटकर भयंकर  
 मुख वह समूचे दरबारको तिनकेके समान समझता हुआ उसी  
 तरह भीतर प्रविष्ट हुआ जैसे गजघटाके बीचमें सिंह प्रवेश  
 करता है ॥ १-१० ॥

[ १३ ] तब अमर्षसे भरे और क्रुद्ध लक्ष्मणने सिंहोदरको  
 ऐसे देखा—जैसे शनिने ही देखा हो । वह जिस ओर देखता  
 वहीं सैनिक नीचा मुख करके रह जाता । सिंहोदर मन ही मन  
 सोच रहा था कि यह कोई महाबली होना चाहिए । न तो यह  
 प्रणाम करता है और न बैठता ही है, इतनेमें मौका पाकर कुमार  
 लक्ष्मणने सिंहोदरसे कहा—“बहुत विस्तारकर कहनेसे क्या, मुझे  
 राजा भरतने यह कहनेके लिए भेजा है कि सिंहके साथ क्रीड़ा  
 कौन करता है, कौन ऐरावतका दांत उखाड़ सकता है, कौन  
 मंदराचक्षुकी शिखर गिरा सकता है, और कौन चन्द्रको हाथसे  
 रोक सकता है । कौन वज्रकर्णको मार सकता है ? अतः उसके  
 साथ संधि कर, सुन्दर स्त्रीकी तरह हृदयसे तुम इस धरतीको



## घत्ता

अहवइ णरवइ जइ रज्जहों अद्धु ण इच्छहि ।  
तो समरङ्गणं सर-धोरणि एन्ति पडिच्छहि, ॥१०॥

[ १४ ]

लक्खण-वयण-दूसिओ अहर-विप्फुरन्तो ।

‘मरु मरु मारि मारि हणु हणु’ भणन्तो ॥१॥

उट्ठिउ पहु करवाल-विहत्थउ । ‘अच्छउ ताम भरहु वीसत्थउ ॥२॥  
दूवहों दूवत्तणु दरिसावहों । छिन्दहों णासु सीसु मुण्डावहों ॥३॥  
लुणहों हत्थ विच्छारँवि धाडहों । गइहँ चडियउ णयरँ भमाडहों’ ॥४॥  
तं णिसुणेवि समुट्ठिय णरवर । गलगज्जन्त णाइँ णव जलहर ॥५॥  
‘हणु हणु हणु’ भणन्त बहु-मच्छर । णं कलि-काल-कियन्त-सणिच्छर ॥६॥  
णं णिय - समय-चुक्क रयणायर । णं उम्मेट्ट पघाइय कुञ्जर ॥७॥  
करँ करवालु को वि उग्गामइ । भीसण को वि गयासणि भामइ ॥८॥  
को वि भयङ्करु चाउ चडावइ । सामिहँ भिच्चत्तणु दरिसावइ ॥९॥

एव णरिन्देहिँ फुरियाहर-भिउडि-करालेहिँ ।

वेडिउ लक्खणु पञ्चाणु जेम सियालेहिँ ॥१०॥

[ १५ ]

सूरु व जलहरेहिँ जं वेडिओ कुमारो ।

उट्ठिउ धर दलन्तु दुव्वार-वइरि-वारो ॥ १ ॥

रोक्कइ वलइ धाइ रिउ रुम्भइ । णं केसरि-किसोरु पवियम्भइ ॥ २ ॥  
णं सुरवर-गइन्दु मय-विम्भलु । सिर-कमलइँ तोडन्तु महा-वलु ॥३॥  
दरमलन्तु मणि-मउड णरिन्दहुँ । सीहु पडुक्किउ जेम गइन्दहुँ ॥४॥  
को वि मुसुमूरिउ चूरीउ पाएँहिँ । को वि णिसुम्भिउ टकर-घाएँहिँ ॥५॥

भोगो । और यदि राजन्, आधे राज्यको नहीं चाहते तो कल समरांगणमें आती हुई बाणोंकी बौछारको मेलनेके लिए तैयार रहो ।” ॥ १-१० ॥

[ १४ ] लक्ष्मणके इन शब्दोंसे सिंहोदर कुपित हो उठा, उसके अधर फरकने लगे, वह बोला, “मरो मरो, मारो मारो हनो हनो ।” तलवार हाथमें लेकर उठते हुए वह बोला, “अच्छा जरा ठहरो, भरतने भेजा है न ।” उसने फिर आदेश दिया, “इस दूतको दूतपन दिखला दो, नाक काट लो, सिर मूँड़ लो । हाथ काट लो और फिर गधेपर चढ़ाकर खूब चिल्लाकर नगर में घुमाओ । यह सुनते ही नरवर उठे, मानो नये जलधर गरज उठे हों, वे मत्सरसे भरकर, ‘मारो मारो’ कहने लगे, मानो वे कलिकाल यम और शनि हों या फिर समुद्रने अपनी मर्यादा छोड़ दी हो, या उन्मत्त कुंजर ही दौड़ पड़े हों । कोई हाथमें तलवार उठा रहा था, तो कोई भीषण चक्र और गदा धुमा रहा था । कोई भयंकर धनुष चढ़ा रहा था । इस प्रकार वे स्वामीके प्रति अपनी वफादारी ( दासता ) दिखा रहे थे । कंपित-अधर और विकराल भौंहों वाले उन्होंने लक्ष्मणको वैसे ही घेर लिया जैसे गीदड़ सिंहको घेर लेते हैं ॥ १-१० ॥

[ १५ ] कुमार लक्ष्मणको वैसे ही घेर लिया जैसे मेघ सूर्यको घेर लेता है, तब वह वीर शत्रुओंका दलन करता हुआ उठा । कभी वह रुकता, कभी मुड़ता, कभी दौड़ता और शत्रुपर धौंस जमाता । वह ऐसा जान पड़ता मानो सिंहशावक ही उल्लल रहा हो । महाबली वह, मदविह्वल पुरावत हाथीकी तरह, (शत्रुओं) के सिर-कमलोंको तोड़ने लगा । और मणिमुकुटोंको चूर-चूर करता हुआ वह राजाओंके निकट जा पहुँचा । वैसे ही जैसे सिंह हाथीके

को वि करगोहिँ गयणँ भमाडिउ । को वि रसन्तु महीयलँ पाडिउ ॥६॥  
 को वि जुजभविउ मेस-भडकएँ । को वि कडुवाविउ हक-दडकएँ ॥७॥  
 गयवर - लगण - खभुप्पाडँवि । गयण-मगँ पुणु भुअहिँ भमाडँवि ॥८॥  
 णाई जमेण दण्डु पम्मुकउ । वहरिहिँ णं खय-कालु पडुकउ ॥९॥

घत्ता

आलण-खग्भेण भामन्तेँ पुहइ भमाडिय ।  
 तेण पडन्तेण दस सहस णरिन्दहुँ पाडिय ॥ १० ॥

[ १६ ]

जं पडिवक्खु सयलु णिदल्लिउ लक्खणेणं ।  
 गयवरँ पट्टवन्धणे चडिउ तक्खणेणं ॥ १ ॥

अहिमुहु सीहोयरु संचल्लिउ । पलय-समुद्दु णाई उत्थल्लिउ ॥२॥  
 सेण्णावत्त निन्तु गज्जन्तउ । पहरण - तोय - तुसार-मुअन्तउ ॥३॥  
 तुङ्ग - तुरङ्ग - तरङ्ग - समाउलु । मत्त - महागय - घड-वेलाउलु ॥४॥  
 उट्ठिभय - धवल - छत्त - फेणुज्जलु । धय - कल्लोल - चलन्त-महावलु ॥५॥  
 रिउ-समुद्दु जं दिट्ठु भयङ्करु । लक्खणु दुक्खु णाई गिरि मन्दरु ॥६॥  
 चलइ वलइ परिभमइ सु-पच्चलु । णाई विलासिणि-गणु चलु चञ्चलु ॥७॥  
 गेण्हँवि पहउ णरिन्दु णरिन्देँ । तुरणं तुरउ गइन्दु गइन्देँ ॥८॥  
 रहिणं रहिउ रहङ्गु रहङ्गेँ । छत्तेँ छत्तु धयग्गु धयग्गेँ ॥९॥

घत्ता

चउ जउ लक्खणु परिसकइ भिउडि-भयङ्करु ।  
 तउ तउ दीसइ महि-मण्डलु रुण्ड-णिरन्तरु ॥ १० ॥

[ १७ ]

जं रिउ-उअहि महिउ सोमिति-मन्दरेणं ।  
 सीहोयरु पधाइओ समउ कुञ्जरेणं ॥ १ ॥

निकट पहुँच जाता है। उसने किसीको मसलकर पैरसे कुचल दिया, किसीको टक्करकी मारसे ध्वस्त कर दिया, किसीको अंगुली से आकाशमें नचा दिया। कोई चिल्लाता हुआ आकाशसे धरती पर गिर पड़ा। कोई मेष की तरह झडक्कसे जूझ गया। कोई हुंकारकी चपेटमें ही कराह उठा। हाथी बाँधनेके—आलान स्तंभों को उखाड़, और आकाशमें घुमाकर वह ऐसे छोड़ देता था, मानो यमने ही अपना दंड फेंका हो, या बैरियोंका क्षयकाल ही आ गया हो। आलान-स्तंभके घुमानेसे धरती ही हिल उठी, और उसके गिरते ही दस हजार राजा धराशायी हो गये ॥ १-१० ॥

[ १६ ] जब लक्ष्मणने समस्त शत्रुपक्षका दलन कर दिया तो वह पट्टबंधन नामके उत्तम गजपर चढ़ गया। तब सिंहोदर भी सम्मुख युद्धके लिए चला। लक्ष्मणने सामने शत्रुसेना रूपी भयंकर समुद्रको उछलते हुए देखा। सेनाका आवर्त ही उसका गरजना था, हथियाररूपी जल और तुषार-कण छोड़ता हुआ, ऊँचे ऊँचे अश्वोंकी लहरोंसे आकुल, मदमाते हाथियोंके भुंडरूपी तटोंसे व्याप्त, ऊपर उठे हुए सफेद छत्रोंके फेनसे उज्ज्वल और ध्वजारूपी तरंगोंसे चंचल और जलचरोंसे सहित था। उसे देखते ही लक्ष्मण सुमेरु पर्वतकी तरह उसके पास जा पहुँचा। कभी वह चलता मुड़ता, और सहसा ऐसा घूम जाता, मानो वेश्यागण—ही चंचल हो उठा हो, द्रुंद्र युद्ध शुरू हो गया। राजासे राजा, घोड़ेसे घोड़ा, हाथीसे हाथी, रथसे रथ, चक्रसे चक्र, छत्रसे छत्र, और ध्वजाग्रसे ध्वजाग्र पराजित हो गये। लक्ष्मण जिस ओर अपनी भयंकर भौहोंको फैलाता उसी ओर उसे धरती-मंडल रुंडों से पटा हुआ दिखाई देता ॥ १-१० ॥

[ १७ ] मंदराचलकी भाँति लक्ष्मणने नष्ट शत्रुसेनारूपी समुद्र को मथ डाला। तब महागजकी भाँति सिंहोदर उसपर दौड़ा।

भन्मिदु जुज्जु विणि वि जणाहँ । उज्जेणि - णराहिव - लक्खणाहँ ॥२॥  
 दुव्वार - वइरि - गेण्हण - मणाहँ । उग्गामिय - भामिय - पहरणाहँ ॥३॥  
 मयमत्त - गइन्दु द्वारणाहँ । पडिक्ख - पक्ख - संघारणाहँ ॥४॥  
 सुरवहुअ - सत्थ - तोसावणाहँ । सीहोयर - लक्खण - णरवराहँ ॥५॥  
 । भुअ-दण्ड-चण्ड-हरिसिय- मणाहँ ॥६॥

एत्थन्तरँ सीहोयर - धरेण । उरँ पेत्थिउ लक्खणु गयवरेण ॥७॥  
 रहसुब्भदु पुलय - विसट्ट - देहु । णं सुक्कं खीलित्त स-जलु मेहु ॥८॥  
 तँ लेवि भुअग्गं थरहरन्त । उप्पाडिय दन्तिहँ वे वि दन्त ॥९॥  
 कडुआविउ मयगलु मण्ण तट्टु । विवरस्सुहु पाण लणुवि णट्टु ॥१०॥

घत्ता

ताम कुमारँण विजाहर-करणु करेप्पिणु ।  
 धरिउ णराहिउ गय-मत्थएँ पाउ थवेप्पिणु ॥ ११ ॥

[ १८ ]

णरवइ जीव-गाहि जं धरिउ लक्खणेणं ।  
 केण वि वज्जयण्णहो कहिउ तक्खणेणं ॥ १ ॥

हे णरणाह - णाह अच्छरियउ । पर-वलु पेक्खु केम जज्जरियउ ॥२॥  
 रुण्ड णिरन्तरु सोणिय-चच्चिउ । णाणाविह - विहङ्ग - परियच्चिउ ॥३॥  
 को वि पयण्ड-वीरु वलवन्तउ । भमइ कियन्तु व रिउ-जगडन्तउ ॥४॥  
 गय-घड भड-थड सुहड वहन्तउ । करि-सिर-कमल-सण्ड तोडन्तउ ॥५॥  
 रोकइ कोकइ दुक्कइ थक्कइ । णं खय-कालु समरँ परिसक्कइ ॥६॥  
 भिउडि-भयङ्करु कुरुडु समच्छरु । थिउ अवलोयणँ गाइँ सणिच्छरु ॥७॥  
 णउ जाणहुँ किं गणु किं गन्धवु । किं पच्छणु को वि तउ वन्धवु ॥८॥  
 किण्णरु किं मारुवु विजाहरु । किं वम्भाणु भाणु हरि हलहरु ॥९॥  
 तेण महाहवँ माण-मइन्दहँ । विणिवाइय दस सहस णरिन्दहँ ॥१०॥  
 अण्णु वि दुज्जउ मच्छर-भरियउ । जीव-गाहि सीहोयरु धरियउ ॥११॥

उज्जैननरेश सिंहोदर और कुमार लक्ष्मणमें द्वंद्व शुरू हुआ। दोनों दुर्वार बैरीको पकड़ना चाह रहे थे, दोनों हथियार उठाकर घुमा रहे थे। दोनों मत्तगजकी तरह दारुण और प्रतिपक्षका संहार करने वाले और देवबालाओंको सुख देनेवाले थे। दोनोंकी भुजाएँ प्रचंड और मन प्रसन्न था। इतनेमें सिंहोदरने लक्ष्मणकी छाती पर हाथी दौड़ाया, वह ऐसा लगता था मानो हर्षसे उद्भिन्न रोमांचित शरीर सजल मेघ शुक्र तारासे क्रीड़ा कर रहे हों ॥ १-८ ॥

तब लक्ष्मणने अपने हाथसे थर्राते हुए उस हाथीके दोनों दाँत उखाड़ लिये। पीड़ित होकर, रुष्टानन खोखले मुखका वह हाथी जब तक अपने प्राण छोड़े, इसके पहले ही, लक्ष्मणने उसके मस्तक पर पैर रख, और हाथ खींचकर सिंहोदरको पकड़ लिया ॥ १-११ ॥

[ १८ ] जब लक्ष्मणने उसे जीवित ही पकड़ लिया तो किसीने तत्काल वज्रकर्णसे जाकर कहा, “हे राजराज, देखिए शत्रुपक्ष किस तरह जर्जर हो गया है। धड़ निरंतर खूनसे लथपथ हो रहे हैं। तरह-तरहके पक्षी उनपर बैठे हुए हैं। कोई प्रचंड वीर कृतान्तकी तरह भगड़ता हुआ घूम रहा है। गजघटा, भटोंके समूह और सुमटोंको खदेड़ता, हाथियोंके सिरकमलोंके समूहको तोड़ता, रोकता बोलता, पहुँचता और ठहरता हुआ वह ऐसा लगता है मानो युद्ध-भूमिमें क्षयकाल ही घूम रहा हो। भयंकर भौहोंवाला मत्सरभरा कठोर वह, देखनेमें ऐसा लगता है मानो शनि हो, मैं नहीं जानता, वह कौन है? कोई गंधर्व या प्रच्छन्न कोई आपका भाई। किन्नर है मारुत, विद्याधर है! ब्रह्मा है या भानु? हरि है या हलधर। दस हजार राजाओंको युद्धमें मार गिराया है। और भी मत्सरसे भरे दुर्जेय उससे सिंहोदरकी जीवित ही पकड़ लिया है।

घत्ता

एकं होन्तण वलु सयलु वि आहिन्दोलिउ ।  
मन्दर-वीढण णं सायर-सलिलु विरोलिउ ॥ १२ ॥

[ १६ ]

तं णिसुणेवि को वि परितोसिओ मणेणं ।  
को वि णिएहुँ लग्गु उद्धेण जम्पणेणं ॥ १ ॥

को वि पजम्पिउ मच्छर-भरियउ । 'चङ्गउ जं सीहोयरु धरियउ ॥२॥  
जो मारेवउ वहरि स-हत्थेँ । सो परिवद्धु पाउ पर-हत्थेँ ॥३॥  
वन्धव-सयणहिँ परिमिउ अज्जु । बज्जयण्णु अणुहुअउ रज्जु' ॥४॥  
को वि विरुद्धु पुणु पुणु णिन्दइ । 'धम्मु मुएवि पाउ किं णन्दइ' ॥५॥  
को वि भणइ 'जेँ मग्गिउ भोयणु । दीसइ सो ज्जेँ णाईँ एहुँ वम्भणु' ॥६॥  
ताम कुमारेँ रिउ उक्खन्धेँवि । चोरु व राउलेण णिउ वन्धेँवि ॥७॥  
सालङ्कारु स-दोरु स - णेउरु । दुम्मणु दीण-वयणु अन्तेउरु ॥८॥  
धाइउ अंसु-जलोस्त्रिय - णयणउ । हिम-हय-कमलवणु व कोमाणउ ॥९॥

घत्ता

केस-विसन्धुलु मुह-कायरु करुणु रुअन्तउ ।  
थिउ चउपासैँहिँ भत्तार-भिक्षु मग्गन्तउ ॥ १० ॥

[ २० ]

ताम मणेण सङ्किया राहवस्स घरिणी ।  
णं भय-भीय काणणे वुण्णुयण्ण हरिणी ॥ १ ॥

'पेक्खु पेक्खु वलु वलु आवन्तउ । सायर-सलिलु जेम गज्जन्तउ ॥२॥  
लइ धणुहरु म अच्छि णिच्चिन्तउ । मब्बुहु लक्खणु रणेँ अत्थन्तउ' ॥३॥  
तं णिसुणेँवि णिव्वूढ - महाहवु । जाम चाउ किरि गिण्हइ राहवु ॥४॥  
ताम कुमारु दिट्ठु सहुँ णारिहिँ । परिमिउ हत्थि जेम गणियारिहिँ ॥५॥

अकेले होते हुए भी उसने सेनामें हलचल मचा दी है । ठीक वैसे ही जैसे मंदराचलकी पीठ समुद्रके जलको मथ देती है ॥१-१२॥

[ १६ ] यह सुनकर किसीका मन सन्तुष्ट हो उठा तो कोई ऊपर मुख उठाकर कहने वालेका मुख देखने लगा । कोई ईर्ष्यासे भरकर कह उठा, “अच्छा हुआ कि सिंहोदर पकड़ा गया, जैसे वह अपने हाथसे शत्रुको मारता था, वैसे ही वह भी दूसरेके हाथसे पकड़ा गया, अतः वज्रकर्ण तुम सैकड़ों परिजनोंके साथ अपने राज्यका भोग करो । तब कोई विरुद्ध होकर, बार-बार ऐसा कहने वालेकी निन्दा करते हुए बोला, “अरे धर्म छोड़कर पापसे आनंदित क्यों हो रहे हो ।” तब किसी एकने कहा, “अरे भोजन माँगने वाले ये ब्राह्मण नहीं हैं ।” इतनेमें कुमार लक्ष्मण शत्रुको अपने कंधेपर टाँगकर ले आया वैसे ही जैसे राजकुल चोरको बाँधकर ले आता है । सिंहोदरका अन्तःपुर, अलंकार डोर और नूपुरों सहित भी दीन मुख और अनमना हो उठा । हिमसे आहत, और मुरझाये हुए कमलवनकी तरह डबडबाये नेत्रोंसे यह उसके पीछे दौड़ा । उस ( अन्तःपुर ) के बाल बिखरे हुए थे और मुँह कातर था । चारों ओरसे घेरकर उसने लक्ष्मणसे अपने पतिकी भीख माँगी ॥१-१०॥

[ २० ] परन्तु इधर सहसा, रामको पत्नी सीता आशंकित हो उठी, मानो वनकी भोली हिरनी ही भयभीत हो उठी हो, वह बोली,—“देखिए देखिए, समुद्रजलकी तरह गरजती हुई सेना आ रही है, निश्चल मत बैठे रहो, धनुष हाथमें ले लो, शायद युद्धमें लक्ष्मणका अंत हो गया है ।” यह सुनकर, महायुद्धमें समर्थ राम जबतक हाथमें धनुष लेनेको हुए कि तबतक स्त्रियोंके साथ लक्ष्मण, आता हुआ ऐसा दिखाई दिया मानो हथिनियोंसे घिरा



तं पेक्खेप्पिणु सुहड-णिसामें । भीय सीय मम्भीसिय रामें ॥६॥  
 'पेक्खु केम सीहोयरु वद्धउ । सीहेण व सियालु उट्टुद्धउ' ॥७॥  
 एव वोल्ल किर वट्टइ जाव्हिँ । लक्खणु पासु पराइउ ताव्हिँ ॥८॥  
 चलण्हिँ पडिउ वियावड-मत्थउ । भविउ व जिणहों कियञ्जलि-हत्थउ ॥९॥

घत्ता

'साहु' भणन्तेण सुरभवन-विणिग्गय-णामें ।

स इँ भु अ-फल्लिहँहिँ अवरुण्डिउ लक्खणु रामें ॥ १० ॥



## २६. छवीसमो संधि

लक्खण-रामहुँ धवलुज्जल-कसण-सरारइँ ।

एक्कहिँ मिलियइँ णं गङ्गा-जउणहँ णारइँ ॥

[ १ ]

अवरोप्परु गज्जोल्लिय - गत्तेहिँ । सरहसु साइउ देवि तुरन्तेहिँ ॥१॥  
 सीहोयरु णमन्तु वइसारिउ । तक्खणें वज्जयणु हक्कारिउ ॥२॥  
 सहुँ णरवर-जणेण णीसरियउ । णाइँ पुरन्दरु सुर-परियरियउ ॥३॥  
 रेहइ विज्जुलङ्कु अणुपच्छएँ । पडिवा-इन्दु व सूरहों पच्छएँ ॥४॥  
 तं इट्ठाल - धूलि - धुअ-धवलउ । सहसकूडु गय पत्त जिणालउ ॥५॥  
 चउदिसु पयहिण देवि तिवारएँ । पुणु अहिवन्दण करइ भडारएँ ॥६॥  
 तं पियवद्धण-मुणि पणवेप्पिणु । वलहों पासं थिउ कुसलु भणेप्पिणु ॥७॥  
 दसउर - पुर - परमेसरु रामें । साहुक्कारिउ सुहड-णिसामें ॥८॥

हाथी ही आ रहा हो। उसे देखकर, सुभटश्रेष्ठ रामने डरी हुई सीताको अभय वचन देते हुए कहा, "देखो सिंहोदर कैसा बँधा हुआ है, सिंहने शृगालको मानो ऊपर उठा लिया है।" वह ऐसा कह ही रहे थे कि कुमार लक्ष्मण एकदम निकट आ पहुँचा, उन्होंने अपना विकट माथा रामके चरणोंमें ऐसे ही रख दिया मानो जिनके सम्मुख हाथ जोड़कर भव्य ही खड़ा हो ॥१-६॥

तब देवभवनोंमें विख्यात नाम रामने 'साधु' कहकर अपनी विशाल भुजाओंमें लक्ष्मणको भर लिया ॥१०॥



### छब्बीसवीं सन्धि

लक्ष्मण और रामके गोरे काले शरीर एकत्र मिले हुए ऐसे मालूम होते थे मानो गंगा और यमुनाके जलका संगम हो।

[ १ ] पुलकितशरीर उन दोनोंने तुरत एक दूसरेका आलिंगन किया। तदनन्तर, रामने, प्रणाम करते हुए सिंहोदरको बैठाया। और तत्काल उन्होंने वज्रकर्णको भी बुलवा लिया। वह अपने उत्तम मनुष्योंके साथ इस प्रकार निकला मानो देवताओंको लेकर इन्द्र ही निकला हो। प्रतिपदाके चन्द्रके पीछे जैसे सूरज रहता है वैसे ही विद्युदंग चोर भी उस (वज्रकर्ण) के पीछे-पीछे आ रहा था। तब वे लोग चूना और ईटसे निर्मित सहस्रकूट जिनालयमें पहुँचे। उन्होंने उसकी तीन बार प्रदक्षिणा की। भट्टारक रामने उनका अभिवादन किया। वज्रकर्ण भी प्रियवर्धन मुनिको नमस्कार कर रामको कुशल पूछ उनके पास बैठ गया ॥१-७॥

तब सुभट श्रेष्ठ रामने दशपुर-नरेश वज्रकर्णको साधुवाद

## घत्ता

‘सच्चउ णरवइ मिच्छत्त-सरेहिं णउ भिज्जहि ।  
दिढ-सम्मत्तण पर तुज्जु जँ तुहुँ उवमिज्जहि ॥ ६ ॥

## [ २ ]

तं णिसुणेवि पयम्पिउ राएँ । ‘एउ सच्चु महु तुम्ह पसाएँ’ ॥१॥  
पुणु वि तिलोय-विणिग्गय-णामेँ । विज्जुलङ्गु पोमाइउ रामेँ ॥२॥  
‘भो दिढ-कढिण-वियड-वच्छत्थल । साहु साहु साहम्मिय-वच्छल ॥३॥  
सुन्दरु किउ जं णरवइ रक्खिउ । रेँ अच्छन्तु ण पइँ उच्चेक्खिउ’ ॥४॥  
तो एत्थन्तरेँ वुत्तु कुमारेँ । ‘जम्पिणु किं वहु - वित्थारेँ ॥५॥  
हे दसउर-णरिन्द विसगइ-सुअ । जिणवर-चलण - कमल-फुल्लन्धुअ ॥६॥  
जो खलु खुद्दु पिसुणुमच्छरियउ । अच्छइ एँहु सीहोयरु धरियउ ॥७॥  
किं मारमि किं अप्पणु मारहि । णं तो दय करि सन्धि समारहि ॥८॥

## घत्ता

आण-वडिच्छउ एँहु एवहिं भिच्चु तुहारउ ।  
रिसह-जिणिन्दहोँ सेयंसु व पेसणयारउ’ ॥ ६ ॥

## [ ३ ]

पभणइ वज्जयणु वहु-जाणउ । ‘हउँ पाइक्कु पुणु वि एँहु राणउ ॥१॥  
णवर एक्कु वउ भइँ पालेवउ । जिणु मेल्लेवि अणु ण णमेवउ’ ॥२॥  
तं णिसुणेविणु लक्खण-रामेँहिं । सुरवर-भवण - विणिग्गय-णामेँहिं ॥३॥  
दसउरपुर - उज्जेणि - पहाणा । वज्जयण - सीहोयर - राणा ॥४॥  
वेणि वि हत्थेँ हत्थु धराविय । सरहसु कण्ठग्गहणु कराविय ॥५॥  
अद्धोअद्धिँ महि भुञ्जाविय । अणु वि जिणवर-धम्मु सुणाविय ॥६॥  
कामिणि कामलेह कोक्काविय । विज्जुलअङ्गहोँ करयलेँ लाविय ॥७॥  
दिण्णइँ मणि-कुण्डलइँ फुरन्तइँ । चन्दाइच्चहुँ तेउ हरन्तइँ ॥८॥  
ताम कुमारु वुत्तु विक्खाएँहिं । वज्जयण- सीहोयर - राएँहिं ॥९॥

दिया और कहा—“जैसे मिथ्यात्वके बाणोंसे सत्यका भेदन नहीं किया जा सकता, वैसे ही दृढ़ सम्यक्त्वमें तुम्हारी उपमा केवल तुम्हींसे दी जा सकती है ।” ॥८-६॥

[ २ ] यह सुनकर वज्रकर्णने निवेदन किया,—“यह सब आपके प्रसादका फल है ।” तदनन्तर रामने त्रिलोक विख्यात, विद्युदंग चोरकी प्रशंसा की—“तुम्हारा वक्षस्थल कठोर विशाल और विकट है । तुम्हारा साधर्मी-प्रेम स्तुत्य है, तुमने राजाकी रक्षा कर बहुत बढ़िया काम किया । युद्धमें होते हुए भी तुमने इसकी उपेक्षा नहीं की” । तब इसी बीचमें कुमार लक्ष्मण बोल उठे, “बहुत कहना व्यर्थ है, हे विश्वमति-नृपसुत जिनवर-चरण-कमल-भ्रमर ! यह क्षुद्र ईर्ष्यालु राजा पकड़ लिया गया है, क्या इसे मार डालूँ ? या चाहे आप ही मारें अथवा दयाकर इससे संधि कर लें ।” इस पर रामने कहा,—“आजसे यह तुम्हारा आज्ञापालक अनुचर होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह राजा श्रेयांस; ऋषभ जिनका अनुचर था ॥१-६॥

[ ३ ] तब बहुविज्ञ वज्रकर्णने कहा, “यह राजा है और मैं साधारण आदमी । मैं तो केवल इसी व्रतका पालन करना चाहता हूँ कि जिनको छोड़कर मैं किसी औरको नमन नहीं करूँगा” यह सुनकर देवलोकमें प्रसिद्ध नाम राम और लक्ष्मणने उन दोनोंका ( सिंहोदर और वज्रकर्ण ) का हाथ पर हाथ रखवा कर एक दूसरेका हर्षपूर्वक मिलाप करवा दिया । धरती आधी-आधी बाँट दी । तथा उन दोनोंको जिनधर्मका भी उपदेश दिया । कामिनी काम-लेखाको बुलाकर, रामने उसे विद्युदंगके लिए सौंप दिया । और उसे, सूर्य तथा चन्द्रमाका भी तेज हरण करनेवाले, मणिकुंडल दे दिये । तब प्रसिद्ध राजा वज्रकर्ण और सिंहोदरने कुमार लक्ष्मणसे

'णव-कुवलय-दल - दीहर-णयणहुँ । मयगल-गइ-गमणहुँ ससि-वयणहुँ ॥१०॥  
 उच्च - णिलाढालङ्किय - तिलयहुँ । वहु-सोहग्ग-भोग्ग-गुण-णिलयहुँ ॥११॥  
 विब्भम - भाउब्भिण्ण - सर्रीरहुँ । तणु-मज्झहुँ थण-हर-गम्भीरहुँ ॥१२॥

घत्ता

अहिणव-रूवहुँ लायण्ण-वण्ण-संपुण्णहुँ ।  
 लइ भो लक्खण वर तिण्णि सयइँ तुहुँ कण्णहुँ ॥ १३ ॥

[ ४ ]

तं णिसुणेप्पिणु दसरह - णन्दणु । एम पजम्पिउ हसेवि जणइणु ॥१॥  
 'अच्छउ ति-यणु ताम विलवन्तउ । भिसिणि-णिहाउ वरवियर-छित्तउ ॥२॥  
 मइँ जाएवउ दाहिण - देसहोँ । कोङ्कण - मलय - पण्डि- उहेसहोँ ॥३॥  
 तहिँ वलहइहोँ णिलउ गवेसमि । पच्छएँ पाणिग्गहण करेसमि' ॥४॥  
 एम कुमारु पजम्पिउ जं जे । मणेँ विसण्णु कण्णायणु तं जे ॥५॥  
 दड्ढु हिमेण वणलिणि-समुच्चउ । मुहँ-मुहँ णाइँ दिण्णुमसि-कुच्चउ ॥६॥  
 जाम ताम तूरहिँ वज्जन्तेहिँ । विविहेहिँ मङ्गलेहिँ गिज्जन्तेहिँ ॥७॥  
 वन्दिणेहिँ 'जय जय' पभणन्तेहिँ । खुज्जय - वामणेहिँ णच्चन्तेहिँ ॥८॥  
 सीय स-लक्खणु वलु पइसारिउ । वीया - इन्दु व जयजयकारिउ ॥९॥  
 तहिँ णिवसेप्पिणु णयरँ रवण्णएँ । अद्धरत्ति-अवसरँ पडिवण्णएँ ॥१०॥

घत्ता

वल-णारायण गय दसउरु मुएँवि महाइय ।  
 चेत्तहोँ मासहोँ तं कुव्वर-णयरु पराइय ॥ ११ ॥

[ ५ ]

कुव्वर-णयरु पराइय जावँहिँ । फग्गुण-मासु पवोलिउ तावँहिँ ॥१॥  
 पइठु वसन्तु - राउ आणन्देँ । कोइल - कलयल - मङ्गल-सहेँ ॥२॥  
 अलि-मिहुणेहिँ वन्दिणेहिँ पढन्तेहिँ । वरहिण - वावणेहिँ णच्चन्तेहिँ ॥३॥

विनय करते हुए कहा,—“रंग और सुंदरतामें पूर्ण, अभिनव रूप-व्रती इन तीन सौ कन्याओंको ग्रहण करें। इनके नेत्र नवकमल दलकी तरह विशाल हैं। मुख चन्द्रमाके समान है, चाल मत्त गजकी भाँति है और इनके ऊँचे ऊँचे भाल पर तिलककी शोभा है। ये प्रचुर भाग्य और भोगके गुणोंकी निकेतन हैं, विलास और भावोंसे पूर्ण शरीर उनका मध्यभाग क्षीण और स्तन गंभीर है।” ॥१-१३॥

[ ४ ] यह सुनकर लक्ष्मणने हँसते हुए कहा “अच्छा. ये तब तक उसी प्रकार विलाप करें जिस प्रकार कमलिनियाँ रविके किरण-जालके लिए विलाप करती हैं। अभी मुझे दक्षिण देश जाना है, जहाँ कोकणमलय और पुंड्र आदि देश हैं वहाँ बलभद्र रामके लिए आवासकी व्यवस्था करना है। बादमें मैं इनका पाणिग्रहण कर सकता हूँ। कुमारके इस कथनसे उन कुमारियोंका मन खिन्न हो उठा। मानो कमलिनी-समूहको पाला मार गया हो, या मानो किसीने सबके मुँहपर स्याहीकी कूँची फेर दी हो। इसके अनंतर लक्ष्मण और सीताके साथ, रामने विविध मंगलगीतोंके बीच, नगरमें प्रवेश किया। बंदीजन जय-जयकार कर रहे थे। कुब्ज वामन नाच रहे थे। दूसरे इन्द्रकी तरह उनका सबने जय जय-कार किया। उस सुन्दर नगरमें निवास कर, आधी रात होनेपर आदरणीय वे तीनों (वलभद्र राम, नारायण लक्ष्मण और सीतादेवी) दशपुर नगर छोड़कर चले गये। चलकर वे चैतके माहमें नलकूबर नगरमें पहुँचे ॥ १-११ ॥

[ ५ ] उस नगरमें उनके पहुँचते-पहुँचते फाल्गुनका महीना बोल चुका था और वसंत राजा कोयलके कलकल मंगलके साथ आनन्दपूर्वक प्रवेश कर रहे थे। भ्रमररूपी बंदीजन मंगलपाठ पढ़ रहे थे, और मोर रूपी कुब्जवामन नाच रहे थे। इस तरह अनेक

अन्दोला - सय - तोरण - वारँहिँ । कुक्कु वसन्तु अणेय-पयारँहिँ ॥ ४ ॥  
 कथइ चूभ - वणइँ पल्लवियइँ । णव-किसलय-फल-फुल्लवभहियइँ ॥५॥  
 कथइ गिरि - सिरहइँ विच्छायइँ । खल-मुहइँ व मसि-वणइँ णायइँ ॥६॥  
 कथइ माहव - मासहँ मेइणि । पिय-विरहेण व सूसइ कामिणि ॥७॥  
 कथइ गिजइ वज्जइ मन्दलु । णर-मिहुणेहि पणच्चिउ गोन्दलु ॥८॥  
 तं तहँ णयरहँ उत्तर - पासँहिँ । जण-मणहरु जोयण-उहेसँहिँ ॥ ९ ॥  
 दिट्ठु वसन्ततिलउ उज्जाणउ । सज्जण-हियर जेम अ-पमाणउ ॥१०॥

घत्ता

सुहलु सुयन्धउ डोल्लन्तु वियावड - मत्थउ ।

अगाँ रामहँ णं थिउ कुसुमञ्जलि - हत्थउ ॥११॥

[ ६ ]

तहिँ उववणँ पइसँवि विणु खेवँ । पभणिउ वासुएवु वलएवँ ॥ १ ॥  
 'भो असुरारि - वइरि - मुसुमूरण । दसरह-वंस - मणोरह - पूरण ॥ २ ॥  
 लक्खण कहि मि गवेसहि तं जलु । सज्जण-हियउ जेम जं णिम्मलु ॥३॥  
 दूरागमणँ सीय तिसाइय । हिम-हय-णव-णलिणि व विच्छाइय ॥४॥  
 तं णिसुणँवि वड-दुम - सोवाणँहिँ । चडिउ महारिसि व्व गुणथाणँहिँ ॥५॥  
 ताव महासरु दिट्ठु रवणणउ । णाणाविह-तरुवर - संछणणउ ॥ ६ ॥  
 सारस - हंस-कुञ्ज - वग - चुम्बिउ । णव-कुवलय-दल-कमल-करम्बिउ ॥७॥  
 तं पेक्खेवि कुमारु पधाइउ । णिविसँ तं सर-तीर पराइउ ॥ ८ ॥

घत्ता

पइठु महावलु जलँ कमल - सण्डु तोडन्तउ ।

माणस - सरवरँ णं - गइन्दु कीलन्तउ ॥ ९ ॥

[ ७ ]

लक्खणु जलु भाडोहइ जावँहिँ । कुब्बर-णयर-णराहिउ तावँहिँ ॥ १ ॥

प्रकारके हिलते-डुलते तोरण-द्वारोंके साथ वसंत राजा आ पहुँचा । कहीं आमके पेड़ोंमें नये किसलय फल-फूलोंसे लद रहे थे । कहीं कांतिरहित पहाड़ोंके शिखर काले रंगवाले दुष्ट मुखोंकी तरह दिखाई दे रहे थे । कहीं-कहीं वैशाख माहकी गर्मीसे सूखी हुई धरती ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रिय-वियोगसे पीड़ित कामिनी हो । कहीं गीत हो रहा था, और कहीं मृदंग बज रहा था । कहीं मनुष्योंके जोड़े रति कर रहे थे । उन लोगोंने नगरके उत्तरकी ओर, वसंततिलक नामका, जन मन-हर, एक योजन विस्तृत उद्यान देखा । वह उद्यान सज्जनके हृदयकी तरह अप्रमेय था । सुफल सुगंधित और नतमस्तक वह मानो हाथमें कुसुमांजलि लेकर रामके आगे स्वागतके लिए स्थित हो गया था ॥ १-११ ॥

[ ६ ] बिना किसी देरीके उस वनमें प्रवेश करके रामने लक्ष्मणसे कहा, “अरे असुर और शत्रुओंको मसलनेवाले और दशरथकुलके इच्छापूरक लक्ष्मण, कहीं पानी खोजो, जो सज्जनके हृदयकी तरह निर्मल हो । बहुत दूरसे चलकर आनेके कारण सोताको प्यास लग आई है । वह हिमाहत कमलिनीकी तरह कांतिहीन हो रही है ।” यह सुनते ही लक्ष्मण वटवृक्ष रूपी सोपान पर चढ़ गये, उसी तरह जैसे महामुनि गुणस्थानों पर चढ़ते हैं । वहाँसे उसे सुंदर और तरह तरहके पेड़ोंसे आच्छन्न एक सरोवर देख पड़ा । सारस हंस क्रौञ्च और बगुला पक्षियोंसे चुम्बित, उसे देखकर, कुमार ( उतरकर ) दौड़ा और पलभरमें उसके किनारे पहुँच गया । कमल-समूहको तोड़ते हुए, महावली कुमार उसके जलमें ऐसे ही घुसा मानो ऐरावत हाथी क्रीड़ा करता हुआ मान-सरोवरमें घुसा हो ॥ १-६ ॥

[ ७ ] जिस समय लक्ष्मण सरोवरके पानीको विलोडित कर



छुडु छुडु वण - कीलए णीसरियउ । मयण-दिवसे णरवर-परियरियउ ॥२॥  
 तरुवरें तरुवरें मञ्चु णिवद्धउ । मञ्चें मञ्चें थिउ जणु समलद्धउ ॥३॥  
 मञ्चें मञ्चें आरूढ णरेसर । मेरु-णियग्गे णाई विज्जाहर ॥ ४ ॥  
 मञ्चें मञ्चें आलावणि वज्जइ । महु पिज्जइ हिन्दोलउ गिज्जइ ॥५॥  
 मञ्चें मञ्चें जणु रसय - विहत्थउ । घुम्मइ घुलइ वियावड-मत्थउ ॥६॥  
 मञ्चें मञ्चें कीलन्ति सु - मिहुणइ । णव-मिहुणइ कहिं णेह-विहुणइ ॥७॥  
 मञ्चें मञ्चें अन्दोलइ जणवउ । कोइल वासइ भज्जइ दमणउ ॥ ८ ॥

## घत्ता

कुम्बर - णाहेंण किउ मञ्जारोहणु जाव्हिं ।  
 सूरु व चन्देण लक्खिज्जइ लक्खणु ताव्हिं ॥ ६ ॥

[ ८ ]

लक्खिउ लक्खणु लक्खण - भरियउ । णं पच्चक्खु मयणु अवयरिउ ॥ १ ॥  
 रूउ णिएँवि सुर - भवणाणन्दहो । मणु उल्लोहेंहिं जाइ णरिन्दहो ॥२॥  
 मयण - सरासणि धरेंवि ण सक्किउ । वम्महु दस-थाणेहिं पदुक्किउ ॥ ३ ॥  
 पहिलएँ कहोँ वि समाणु ण वोल्लइ । वीयएँ गुरु णीसासु पमेल्लइ ॥ ४ ॥  
 तइयएँ सयलु अङ्गु परितप्पइ । चउथएँ णं करवत्तेंहिं कप्पइ ॥ ५ ॥  
 पच्चमँ पुणु पुणु पासेइज्जइ । छट्टएँ वारवार मुच्छिज्जइ ॥ ६ ॥  
 सत्तमँ जलु वि जलइ ण भावइ । अट्टमँ मरण-लील दरिसावइ ॥ ७ ॥  
 णवमएँ पाण पढन्त ण वेयइ । दसमएँ सिरु छिज्जन्तु ज चेयइ ॥८॥

रहे थे उसी समय, अनेक श्रेष्ठ मनुष्योंसे घिरा हुआ, नलकूबर नगरका राजा कामदेवके दिन ( वसंतपंचमीको ) वनक्रीड़ाके लिए वहाँ आया । प्रत्येक पेड़पर ऊँचे ऊँचे मंच ( मंचान ) बनवा दिये गये । और प्रत्येक मंचपर एक-एक आदमी नियुक्त कर दिया गया । एक एक मंच पर एक एक राजा ऐसे बैठ गया, मानो मेरुपर्वतके शिखर पर विद्याधर बैठे हों । मंच-मंचपर आलापिनी ( वीणा ) बज रही थी, लोग मधु पी रहे थे । और हिन्ताल गीत गा रहे थे । मंच-मंचपर लोगोंके हाथमें मधु-प्याला था, मस्तक हिलाकर, वे उसे हिला-डुला रहे थे, मंच-मंचपर मिथुन क्रीड़ा कर रहे थे । नये जोड़े ( दम्पति ) स्नेह हीन भला कहाँ होते हैं ? मंच-मंचपर लोग मूम रहे थे, और कोयल शीघ्र अपने आवासको भागा जा रहा था ॥ १-८ ॥

नलकूबर नरेशने मंच पर चढ़ते ही लक्ष्मणको ऐसे देखा मानो चंद्रने सूरको देखा हो ॥ ६ ॥

[ ८ ] अनेक लक्षणोंसे युक्त लक्ष्मणको देखकर उसे लगा मानो कामदेव ही अवतरित हुआ हो । स्वर्गलोकके लिए भी आनंद-दायक लक्ष्मणके रूपको देखकर, राजाके मनमें हलचल होने लगी । कामके बाणोंसे वह अपनेको बचा नहीं सका, शीघ्र ही वह कामकी दस अवस्थाओं ( वेगों ) में पहुँच गया । पहले वेगमें वह किसीसे बात नहीं करता था, दूसरेमें लम्बे-लम्बे निश्वास छोड़ने लगा, तीसरेमें उसके शरीरमें तपन होने लगी । चौथेमें करपत्रसे मानो काटा जाने लगा । पाचवेंमें, बारबार पसीना आता, छठेमें रह-रहकर मूर्छा आने लगी । सातवेंमें जल और गीली वस्तुसे अरुचि होने लगी । आठवेंमें मौनकी चेष्टाएँ दिखने लगीं । नवेंमें जाते हुए प्राणोंका ज्ञान नहीं हो रहा था । दसवेंमें सिर फटने लगा और

घत्ता

एम वियम्भिउ कुसुमाउहु दसहि मि थाण्हि ।  
तं अच्छरियउ जं मुक्कु कुमारु ण पाण्हि ॥ ६ ॥

[ ६ ]

जं कण्ठ-ट्टिउ जीवु कुमारहो । सण्णए वुत्तु 'पहिउ हकारहो' ॥१॥  
पहु आणए पाइक्क पधाइय । णिविसइ तहो पासु पराइय ॥२॥  
पणववि वुत्तु ति-खण्ड-पहाणउ । 'तुम्हहँ काइ मि कोक्कइ राणउ' ॥३॥  
तं णिसुणवि उच्चलिउ जणहणु । तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दणु ॥४॥  
वियण पओह देन्तु णं केसरि । कन्दइ भारकन्त वसुन्धरि ॥५॥  
दिट्ठ कुमारु कुमारे एन्तउ । मयणु जेम जण-मण-मोहन्तउ ॥६॥  
खणं कल्लाणमालु रोमच्चिउ । णडु जिह हरिस-विसाएहिणच्चिउ ॥७॥  
पुणु वइसारिउ हरि अद्धासणं । भविउ जेम थिउ दिहु जिण-सासणं ॥८॥

घत्ता

वइट्टु जणहणु आलीढए मच्चै रवणणए ।  
णव-वरइत्तु व पच्छणु मिलिउ सहुँ कण्णाए ॥६॥

[ १० ]

वे वि वइट्टु वीर एक्कासणं । चन्द्राइच्च जेम गयणङ्गणं ॥१॥  
एक्कु पचण्डु तिखण्ड-पहाणउ । अण्णेक्कु वि कुब्बर-पुर-राणउ ॥२॥  
एक्कहो चलण-जुअलु कुम्मुणउ । अण्णेक्कहो रत्तप्पल-वणणउ ॥३॥  
एक्कहो ऊरु (?) -जुअलु सु-वित्थरु । अण्णेक्कहो सुकुमारु सु-मच्छरु ॥४॥  
पञ्चाणण-कडि-मण्डलु एक्कहो । णारि-णियम्ब-विम्बु अण्णेक्कहो ॥५॥  
एक्कहो सुललिउ सुन्दरु अङ्गउ । अण्णेक्कहो तणु-तिवलि-तरङ्गउ ॥६॥

चेतना गायत्र हो चली । इसी तरह दसों दौरमें कामदेव अत्यधिक फैल गया । केवल अचरज इस बातका हो रहा था कि किसी तरह कुमारके प्राण नहीं निकले ॥ १-६ ॥

[ ६ ] कुमारका जीव कंठमें अटका था, होश आनेपर उसने इतना ही कहा, “पथिकको बुलाओ” । प्रभुकी आज्ञासे अनुचर दौड़े गये, और पलभरमें लक्ष्मणके पास जा पहुँचे । उन्होंने प्रणाम करके तीनों खंडके प्रधानसे कहा,—“किसी कामसे राजाने आपको बुलाया है” यह सुनकर त्रिभुवन जनके मन और नेत्रोंको आनंद देनेवाले जनार्दन लक्ष्मण चल पड़े, मानो सिंह ही अपने विकट पैर रखता हुआ जा रहा हो, धरती उसके भारसे काँप-सी उठी । ‘कामदेवकी तरह जन-मनको मोहते हुए कुमारको आते देखकर कल्याणमाला ( राजा ) वैसे ही पुलकित हो गई, जैसे हर्ष और विषादमें मग्न नाचता हुआ नट मग्न हो जाता है । फिर उसने लक्ष्मणको अपने आधे आसनपर बैठाया । वह भी जिन-शासनमें दृढ़ भव्यकी तरह स्थित हो गया । सटे हुए सुन्दर मंच-पर कुमार लक्ष्मण ऐसे बैठ गये मानो कन्याके साथ मिलकर प्रच्छन्न नया वर ही बैठा हो ॥ १-६ ॥

[ १० ] आकाशके आँगनमें सूर्य और चन्द्रकी तरह वे दोनों वीर एक ही आसनपर बैठ गये । उनमें एक अत्यन्त प्रचण्ड और तीनों लोकोंका प्रधान था । जब कि दूसरा केवल नलकूबर नगरका राजा था । एकके चरण-कमल कूर्मकी तरह उन्नत थे जब कि दूसरेके पैर रक्तकमलके रंगके थे । एकका वक्षःस्थल विस्तृत था जब कि दूसरेका सुकुमार और नवनीतकी तरह था । एकका मध्य-भाग सिंहकी तरह कृश था । जबकि दूसरेका नारी-नितम्बोंकी तरह था । एकके अंग सुललित और सुन्दर थे जब कि दूसरेका

एकहोँ सोहइ वियडु उरत्थलु । अण्णेकहोँ जोव्वणु थण-चक्कलु ॥७॥  
 एकहोँ वाहउ दीह-विसालउ । अण्णेकहोँ णं मालइ-मालउ ॥८॥  
 वयण-कमलु पप्फुल्लिउ एकहोँ । पुण्णिम-चन्द-रुन्दु अण्णेकहोँ ॥९॥  
 एकहोँ गो-कमलइँ वित्थरियइँ । अण्णेकहोँ वहु-विब्भम-भरियइँ ॥१०॥  
 एकहोँ सिरु वर-कुसुमँहिँ वासिउ । अण्णेकहोँ वर-मउड-विहूसिउ ॥११॥

घत्ता

एक्कु स-लक्खण लक्खिज्जइ जणँण असेसँ ।  
 अण्णेक्कु वि पुणु पच्छण्ण णारि णर-वेसँ ॥१२॥

[ ११ ]

दणु - दुग्गाह - गाह - अवगाहँ । पुणु पुणरुत्तँहिँ कुव्वर-णाहँ ॥१॥  
 णयण-कडक्खिउ लक्खण-सरवरु । जो सुर-सुन्दरि-णलिणि-सुहङ्करु ॥२॥  
 जो कत्थूरिय - पङ्कप्पङ्किउ । जो अरि-करिहिँ ण डोहँवि सक्किउ ॥३॥  
 जो सुर-सउण-सहासँहिँ मण्डिउ । जो कामिणि-थण-चक्कँहिँ चड्ढिउ ॥४॥  
 तँहिँ तेहँ सँ सेय-जलोल्लिउ । लक्खण-वयण-कमलु पप्फुल्लिउ ॥५॥  
 कण्ठ - मणोहर - दीहर - णालउ । वर - रोमञ्च-कञ्चु - कण्ठालउ ॥६॥  
 दसण-सकेसरु अहर-महादलु । वय - मयरन्दउ कण्णावत्तलु ॥७॥  
 लोयण - फुल्लन्धुय - परिचुम्बिउ । कुडिल-वाल-सेवाल - करम्बिउ ॥८॥

घत्ता

लक्खण-सरवरु हउ भुक्ख-महाहिम-वाणं ।  
 तं मुह-पङ्कउ लक्खिज्जइ कुव्वर-राणं ॥९॥

[ १२ ]

जं मुह-कमलु दिट्ठु ओहुल्लिउ । वालिखिन्न - तणणु पवोल्लिउ ॥१॥  
 'हे णरणाह - णाह भुवणाहिव । भोयणु भुज्जहु सु-कलत्तं पिव ॥२॥

शरीर त्रिबलिसे तरंगित था। एकका वक्षःस्थल विकट था और दूसरेका यौवन और स्तनचक्रसे सहित था। एककी भुजाएँ विशाल थीं तो दूसरेकी मालतीमालाकी तरह सुकोमल। एकका मुखकमल खिला हुआ था जबकि दूसरेका पूर्ण चंद्रके समान सुन्दर था। एकके नेत्रकमल बिखरे हुए थे जबकि दूसरेके नेत्र विभ्रम और विलाससे भरे हुए थे। एकका सिर उत्तम फूलोंसे सुवासित था तो दूसरेका सिर सुन्दर मुकुटसे अलंकृत। सभी लोगोंने समझ लिया कि एक लक्ष्मणयुक्त लक्ष्मण हैं और दूसरी नरवेशमें छिपी हुई नारी ॥ १-६ ॥

[ ११ ] दानवरूपी दुष्ट ग्रहोंके भी ग्रह लक्ष्मणको पानेकी आशासे नलकूबर नरेश कल्याणमालाने देवबाला रूपी नलिनियों के लिए शुभंकर लक्ष्मणरूपी सरोवरको बार-बार तीखे कटाक्षोंसे देखा। वह लक्ष्मणरूपी सरोवर कस्तूरीके पंकसे भरा था, शत्रु-रूपी हाथी उसे विलोडित करनेमें असमर्थ थे। हजारों देवतुल्य स्वगुणरूपी पक्षियोंसे मंडित और जो स्त्रियोंके स्तनरूपी चक्रपर चढ़ चुका था उस वैसे लक्ष्मणरूपी सरोवरमें प्रस्वेदरूपी जलसे उल्लसित लक्ष्मणका मुख-कमल खिला हुआ था। सुन्दर कंठ ही उसकी लम्बी मृणाल थी। सुन्दर रोमांच-समूह, काँटे, दांत, पराग। अधर पंखुड़ियाँ, और कान पत्ते थे। वह नेत्ररूपी भ्रमरोंसे चुंबित टेढ़े-मेढ़े बालोंके शैवालसे चिह्नित हो रहा था। नलकूबर नरेशने लक्ष्मणरूपी सरोवरके उस मुखकमलको देखकर समझ लिया कि वह भूखकी महाहिम वातसे आहत है ॥ १-६ ॥

[ १२ ] उसका मुखकमल नीचा देखकर, बालिखिल्यकी लड़की कल्याणमालाने कहा—“हे भुवनाधिप नरनाथ ! भोजन कर लीजिए। यह भोजन सुखीकी तरह, सगुलु ( मधुर ?? और

स-गुलु स-लोगउ सरसु स-इच्छउ । महुरु सुअन्धु स-णेहु सु-पच्छउ ॥३॥  
 तं भुञ्ज्पिणु पढम-पियासणु । पच्छल्लं किं पि करहु संभासणु ॥४॥  
 तं णिसुणेवि पजम्पिउ लवखणु । अमर - वरङ्गण-णयण-कडक्खणु ॥५॥  
 'उहु जो दीसइ रुक्खु रवणणउ । पत्तल - वहल-डाल - संछणणउ ॥६॥  
 आयहो विउल्लं मूल्लं दणु-दारउ । अच्छइ सामिसालु अम्हारउ' ॥७॥

घत्ता

लक्खण-वयण्हिं वलु कोक्किउ चलिउ स-कन्तउ ।  
 करिणि-विहूमिउ णं वण-गइन्दु मलहन्तउ ॥८॥

[ १३ ]

गुलुगुलन्तु हलहेइ महग्गउ । तरुवर-गिरि-कन्दरहो विणिग्णउ ॥९॥  
 सेय - पवाह - गलिय - गण्डत्थलु । तोणा-जुयल-विउल-कुम्भत्थलु ॥१०॥  
 पिच्छावलि-अलिउल - परिमालिउ । किङ्किणि - गेजा - मालोमालिउ ॥११॥  
 वित्थिय - वाण - विसाण - भयङ्करु । थोर-पलम्ब-वाहु-लम्बिय - करु ॥१२॥  
 धणुवर - लग्गणखम्भुम्मूलणु । दुट्टारुट्ट - मेट्ट - पडिक्कलणु ॥१३॥  
 सर-सिक्कार करन्तु महावलु । तिस-भुक्खण्णं खलन्तु विहलङ्गलु ॥१४॥  
 छाहिहो वेज्जइ देन्तु विरुद्धउ । जिणवर-वयणङ्कुसेण णिरुद्धउ ॥१५॥  
 जाणइ - वर - गाणियारि-विहूसिउ । तं पेक्खवि जणवउ उद्धसिउ ॥१६॥

घत्ता

मञ्जारुहणहो उत्तिण्णु असेसु वि राय-गणु (?) ।  
 मेरु-णियम्बहो णं णिवडिउ गह-तारायणु ॥१७॥

[ १४ ]

हरि - कल्लागमाल दणु-दलण्हिं । पडिय वे वि वलपुवहो चलणेहिं ॥१८॥  
 'अच्छहुं ताव देव जल-कीलण्णं । पच्छण्णं भोयणु भुञ्जहुं लीलण्णं' ॥१९॥

गुड़ ), सलवण ( सुन्दरता और नमक ) सरस (रस, जल), सइच्छ ( ईच्छा और ईख ) से सहित है तथा मधुर, सुगंधित, घृतमय और सुपथ्य है । पहले आप यह प्रिय भोजन ग्रहण कर लें, फिर बादमें संभाषण करना ।” यह सुनकर, देवबालाओंके कटाक्षोंसे देखे गये लक्ष्मणने कहा, “वह जो सामने आप बड़े-बड़े पत्तों और डालोंसे आच्छन्न बड़ा पेड़ देख रही हैं उसके विशाल तलमें हमारे श्रेष्ठ स्वामी हैं ।” लक्ष्मणके वचन सुनकर उसने अपनी सेनाको पुकार लिया और कांतके साथ ऐसे चल पड़ी मानो हथिनीसे विभूषित वन गजेन्द्रही मल्लता हुआ जा रहा हो ॥ १-६ ॥

[ १३ ] इतनेमें गरजता हुआ रामरूपी महागज, उस विशाल वृक्षकी गिरि-कंदरासे निकल आया । दो तूणीर ही उसका विपुल कुंभस्थल था । पुंखावली रूपी भ्रमरमालासे वह व्याप्त हो रहा था । करधनीकी घंटियोंसे भंकृत हो रहा था । विशाल बाणों रूपी दाँतोंसे वह भयंकर था । स्थूल और लम्बे बाहु ही उसकी विशाल सँड थी । वह धनुषरूपी आलानखंभके उन्मूलनमें समर्थ, और रुष्ट दुष्ट शत्रु रूपी महावतके लिए प्रतिकूल था । ऐसा वह महाबली राम-महागज शब्दरूपी सीकर छोड़ रहा था, विह्वलांग वह भूख-प्याससे खालित हो रहा था । अपनी ही छायाके विरुद्ध आघात करने वाला वह केवल जिन-वचनरूपी अंकुशसे रोका जा सकता था । जानकी रूपी हथिनीसे वह विभूषित था । उसे देखकर लोग हर्षित हो उठे ॥ १-८ ॥

तत्र शेष राज-समूह भी मचानसे उतर पड़ा । मानो मेरुके नितम्बसे ग्रहताग समूह ही टूट पड़ा हो ॥ ६ ॥

[ १४ ] राक्षस-संहारक लक्ष्मण और कल्याणमाला दोनों ही रामके चरणोंमें गिर पड़े । “पहले देव, जल-क्रीड़ा हो ले तब बादमें



एम भणेप्पिणु दिण्णइँ तूरइँ । ऋल्लरि तुणव-पणव-दडि-पहरइँ ॥३॥  
 पइठ स - साहण सरवर-णहयल्ले । फुल्लन्धुअ - भमन्त-गहमण्डले ॥४॥  
 धवल - कवल - णक्खत्त-विहूसिएँ । मीण-मयर-कक्कडएँ पदीसिएँ ॥५॥  
 उत्थल्लन्त - सफरि - चल - विज्जुल्ले । णाणाविह - विहङ्ग - घण-सङ्कुल्ले ॥६॥  
 कुवलय - दल - तमोह- दरिसावणँ । सीयर-णियर-वरिस-वरिसावणँ ॥७॥  
 जल - तरङ्ग - सुरचावारम्भिएँ । वल-जोइसिय-चक्क-पवियम्भिएँ ॥८॥

### घत्ता

तहिँ सर णहयल्ले स-कलत्त वे वि हरि-हलहर ।  
 रोहिणि-रणाहिँ णं परिमिय चन्द-दिवायर ॥६॥

[ १५ ]

तहिँ तेहएँ सरेँ सलिलेँ तरन्तइँ । संचरन्ति चामीयर - जन्तइँ ॥१॥  
 णाइँ विमाणइँ सग्गहोँ पडियइँ । वण्ण-विचित्त - रयण-वेयडियइँ ॥२॥  
 णत्थि रयणु जहिँ जन्तु ण घडियउ । णत्थि जन्तु जहिँ मिहुणु ण चडियउ ।३।  
 णत्थि मिहुणु जहिँ णेहु ण वड्डिउ । णत्थि णेहु जो णउ सुरयड्डिउ ॥४॥  
 तहिँ णर-णारि - जुवइ जल-कीलएँ । कीलन्ताइँ णहन्ति सुर-लीलएँ ॥५॥  
 सलिलु करग्गेहिँ अफ्फालन्तइँ । मुरव-वज-घायइँ दरिसन्तइँ ॥६॥  
 खल्लिएँ हिँ वल्लिएँहिँ अहिणव-गेएँहिँ । वन्धहिँ सुरयक्खत्तिय - भेएँ हिँ ॥७॥  
 छन्देहिँ ताल्लेहिँ वहु - लय - भङ्गहिँ । करणुच्छित्तहिँ णाणा - भङ्गहिँ ॥८॥

### घत्ता

चोक्खु स-रागउ सिङ्गार-हार-दरिसावणु ।  
 पुक्खर-जुज्जु व तं जल-कीलणउ स-लक्खणु ॥६॥

लीलापूर्वक भोजन करें।” यह कहकर उन्होंने तूर्य बजा दिया, भल्लरि तुणव, प्रणव और दडि भी आहत हो उठे। सेनासहित वे सरोवर रूपी महाआकाशमें वुस गये। भ्रमर ही मानो उसमें घूमते हुए ग्रहमंडल थे। वह धवल कमलके नक्षत्रोंसे विभूषित, मीन-मकर आदिकी राशियोंसे युक्त उछलती हुई मछलियोंकी चंचल बिजली से शोभित, और नानाविध विहंगरूपी मेघोंसे व्याप्त था। कुवलय-दल जिसमें अंधकारके समूहकी भाँति था। जलकणोंके समूह ही वर्षाकी बौछारें थीं, जलतरंगें इन्द्रधनुषकी भाँति मालूम हो रही थीं और सेना तारामंडलके समान फैली हुई थी। उस सरोवर-रूपी नभस्तलमें स्त्रियोंसहित, राम और लक्ष्मण दोनों ऐसे मालूम होते थे मानो रोहिणी और रत्नाके साथ चंद्र और सूर्य हों ॥१-६॥

[ १५ ] उस सरोवरके जलमें वे तैरने लगे, उसमें सोनेके यंत्र चल रहे थे, जो ऐसे लगते थे मानो रंगविरंगे रत्नोंसे निर्मित देवविमान ही स्वर्गतलसे गिर पड़े हों, उनमें एक भी रत्न ऐसा नहीं था जिसमें यंत्र न लगा हो, और यंत्र भी ऐसा नहीं था जिसमें एक मिथुन ( युगल ) न चढ़ा हो। मिथुन भी ऐसा नहीं था जिसमें स्नेह न बढ़ रहा हो, और स्नेह भी ऐसा नहीं था जिसमें सुरति न हो। उस सरोवरमें युवक-युवतियोंका समूह देवलीला-पूर्वक जलक्रीडामें रत होकर स्नान कर रहा था। कोई अंगुलीसे पानी उछालता, कोई मृदंगपर अपना हाथ दिग्वा रहा था। स्वलित होकर, मुड़कर, अभिनव गीतों, सुरति-भेदों, बंधों, विविध ताल, लय और भंगों करणुच्छित्तियों ??? नाना भंगिमाओंसे आश्चर्यपूर्ण रागपूर्ण, अहंकारको दिखानेवाली लक्षण-सहित पुष्कर युद्धकी तरह जलक्रीडाका ( आनन्द ले रहे थे ? )। उसमें सराग नेत्र और अंगहार दिखाई दे रहे थे। सलक्षण ( लक्ष्मण और लक्षण सहित ) मानो वह जल-क्रीडा पुष्कर युद्धकी तरह थी ॥ १-६ ॥

[ १६ ]

जल्ले जय - जय - सहें ण्हाय णर । पुणु णिग्गय हल-सारङ्ग - धर ॥१॥  
 पत्थन्तरेँ समरेँ समत्थएँण । सिर-णमिय-कयञ्जलि-हत्थएँण ॥२॥  
 तणु - लुहणइँ देवि पहाणएँण । पुणु तिण्णि वि कुच्चर-राणएँण ॥३॥  
 पच्छण्णेँ भवणेँ पइसारियइँ । चामियर - वीढेँ वइसारियइँ ॥४॥  
 वित्थारिउ वित्थरु भोयणउ । सुकलत्तु व इच्छ ण भञ्जणउ ॥५॥  
 रउजं पिव पट्ट - विहूसियउ । तूरं पिव थालालङ्कियउ ॥६॥  
 सुरयं पिव स-रसु स - तिम्मणउ । वायरणु व सहइ स-विज्जणउ ॥७॥  
 तं भुत्तु सइच्छएँ भोयणउ । णं किउ जग-णाहेँ पारणउ ॥८॥

घत्ता

दिण्णु विलेवणु दिण्णइँ देवङ्गइँ वत्थइँ ।  
 सालङ्करइँ णं सुकइ-कियइँ सुइ-सत्थइँ ॥९॥

[ १७ ]

तीहि मि परिहियाइँ देवङ्गइँ । उवहि-जलाइँ व वहल-तरङ्गइँ ॥१॥  
 दुल्लह-लम्भइँ जिण-वयणाइँ व । पसरिय-पट्टइँ उच्छ-वणाइँ व ॥२॥  
 दीहर - छेयइँ अत्थाणाइँ व । फुल्लिय-डालइँ उज्जाणाइँ व ॥३॥  
 णिच्छिइँ कइ-कच्च-पयाइँ व । हलुवइँ चारण-जण-वयणाइँ व ॥४॥  
 लण्हइँ कामिणि-सुह-कमलाइँ व । वड्डइँ जिणवर-धम्म-फलाइँ व ॥५॥  
 समसुत्तइँ किण्णर - मिहुणाइँ व । अह - संमत्तइँ वायरणाइँ व ॥६॥  
 तो पत्थन्तरेँ कुच्चर - सारेँ । ओयारिउ सण्णाहु कुमारेँ ॥७॥  
 सुरवर - कुलिस - मउक - तणु-अङ्गेँ । णावइ कच्चुउ मुक्कु भुअङ्गेँ ॥८॥

घत्ता

तिहुअण णाहेँण सुरजण-मण-णयणाणन्देँ ।  
 मोक्खहोँ कारणेँ संसारु व मुक्कु जिणिन्देँ ॥९॥

[ १६ ] 'जय जय' शब्द पूर्वक लोगोंने जलमें स्नान किया, फिर राम और लक्ष्मण बाहर निकले । उसी बीचमें युद्धमें समर्थ, नलकूबर नगरका राजा कल्याणमालाने हाथोंकी अंजली बाँधकर नमस्कार किया और उनका शरीर पोंछा । बादमें अपने भवनमें ले जाकर सोनेके आसन-पीठपर उन्हें बैठाया और खूब भोजन परसा । वह, सुकलत्रकी तरह इच्छित और भोग्य था । राज्यकी तरह पट्टविभूषित था । तूरको समान थालसे अलंकृत सुरतिके समान सरस और सतिम्मण ( आर्द्र और कढ़ी सहित ) था, व्याकरणकी तरह वह व्यञ्जनों ( व्यञ्जनवर्ण और पकवान ) से शोभित था । उन्होंने इच्छाभर भोजन किया, मानो जगन्नाथ ऋषभने ही पारणा की हो । फिर उसने विलेप करके दिव्यदेवांग वस्त्र दिये । वे वस्त्र, मानो सुकवि कृत शास्त्रके समान सालंकार थे ॥१-६॥

[ १७ ] जैसे समुद्रजल अपनी ही बहुल लहरोंको धारण करता है, वैसे ही उन्होंने वे दिव्य देवांग वस्त्र पहन लिये । जिन-वचनोंकी तरह अत्यंत दुर्लभ, ईश्वरकी तरह विशालय ( जलसारिणी और कपड़ा ) वाले सभाभवनकी तरह दीर्घछेद ( सीमा और छेद ) वाले, उद्यानकी तरह फूल शाखा ( और पत्तियों ) से सहित, कवि-वरके काव्यपदोंकी तरह दोषरहित, चारणोंके वचनोंकी तरह हलके, कामिनीके मुख-कमलकी तरह सुंदर, जिनधर्मके श्रेष्ठ फलकी तरह भारी, किन्नरोंके जोड़ेकी तरह अच्छी तरह ग्रथित, व्याकरण की तरह अत्यंत परिपूर्ण थे । इतनेमें, इन्द्रके वज्रकी तरह क्षीण मध्यभाग वाले, नलकूबर नगरके श्रेष्ठ उस कुमारने अपना कवच उतार दिया । मानो साँपने अपनी केंचुली ही उतार दी हो, या मानो सुरजनोंके मन और नेत्रोंको आनंद देनेवाले, त्रिभुवननाथ जिनेन्द्रने मोक्षके लिए संसारका त्याग कर दिया हो ॥१-६॥

[ १८ ]

तहिँ एक्कन्त - भवणें पच्छणणएँ । जं अप्पाणु पगासिउ कण्णएँ ॥१॥  
 पुच्छिय राहवेण परिओसेँ । 'अक्खु काइँ तुहुँ धियणर-वेसेँ' ॥२॥  
 तं णिसुणेप्पिणु पगलिय - णयणी । एम पजम्पिय गगिर-वयणी ॥३॥  
 'रुद्धभुत्ति - णामेण पहाणउ । दुज्जउ विक्क-महीहर-राणउ ॥४॥  
 तेण धरेप्पिणु कुव्वर - सारउ । वालिखिल्लु णिउ जणणु महारउ ॥५॥  
 तें कञ्जेँ धिय हउँ णर - वेसेँ । जिहणमुणिज्जमि जणें असेसेँ' ॥६॥  
 तं णिसुणेवि वयणु हरि कुद्धउ । णं पञ्जाणणु आमिस-लुद्धउ ॥७॥  
 अच्चन्तन्त - णेत्तु फुरियाहरु । एम पजम्पिउ कुरुडु समच्छरु ॥८॥

घत्ता

'जइ समरङ्गणें तं रुद्धभुत्ति णउ मारमि ।

तो सहुँ सीयएँ सीराउहु णउ जयकारमि' ॥९॥

[ १९ ]

जं कल्लाणमाल मग्गीसिय । लहु णर-वेसु लइउ आसासिय ॥१॥  
 ताव दिवायरु गउ अत्थवणहों । लोउ पटुक्कउ णिय-णिय-भवणहों ॥२॥  
 णिसि-णिसियरि दस-दिसहिँ पधाइय । महि-गयणोट्ट डसेवि संपाइय ॥३॥  
 गह - णक्खत्त - दन्त - उदन्तुर । उवहि-जीह-गिरि-दाढा-भासुर ॥४॥  
 घण-लोयण - ससि - तिलय-विहूसिय । सक्का-लोहिय - दित्त-पदीसिय ॥५॥  
 तिहुयण - वयण - कमलु दरिसेप्पिणु । सुत्तणाइँ रवि-मडउ गिलेप्पिण ॥६॥  
 ताव महावल - वलु विण्णासवि । तालवत्तं णिय-णामु पगाविसेँ ॥७॥  
 सीयएँ सहुँ वल-कण्ह विणिग्गय । णित्तरङ्ग णीसन्दण णिग्गय ॥८॥

घत्ता

ताव विहाणउ रवि उट्टिउ रयणि-विणासउ ।

गउ अच्चन्ति व णं दिणयरु आउ गवेसउ ॥९॥

[ २० ]

उट्टेवि कुव्वरपुर - परमेसरु । जाव स-हत्थें वायइ अक्खरु ॥१॥

[ १८ ] एकान्त भवनमें उस कन्याने जब अपने आपको प्रकट किया, तब रामने परितोषके साथ पूछा, “बताइये, आप नरवेशमें क्यों रहती थीं” । यह सुनकर गलितनेत्र वह, गद्गदवाणीमें बोली, “विंध्याचलका रुद्रभूति नामक दुर्जेय राजा है । उसने मेरे पिता नलकूबर नगरके राजा वालिखिल्यको बंदी बना लिया है । इसी कारण मैं नरवेशमें रह रही हूँ, कि कोई मुझे पहचान न ले । यह सुनते ही लक्ष्मण आमिष-लोभी सिंहकी भाँति क्रुद्ध हो उठा । मत्सरसे भरकर, आरक्तनेत्र, कंपिताधर, क्रूर वह बोला, “यदि मैं उस रुद्रभूतिको समर-प्रांगणमें नहीं मार सका तो सीता सहित रामकी जय नहीं बोलूँगा ॥ १-६ ॥

[ १९ ] अभयदान और आश्वासन पाकर कल्याणमालाने नरवेश हमेशाके लिए त्याग दिया । सूरज डूब चुका था । लोग अपने-अपने घर चले गये । निशारूपी निशाचरी चारों ओर दौड़ पड़ी । धरती आकाश सब कुछ उसने लील लिया । ग्रह नक्षत्र उसके लंबे और नुकीले दाँत थे, समुद्र जीभ, पर्वत भयंकर दाढ़, मेघ नेत्र और चन्द्रमा उस निशा-निशाचरीका तिलक था । सांभकी अरुणिमासे वह ऐसी उद्दीप्त हो रही थी मानो वह सूर्य शव !!! को त्रिभुवनके मुख कमलके लिए दिखाकर लीलकर सो गई हो । इसी बीच महाबली वे अपनी तैयारीकर और तालपत्रपर अपना नाम अंकितकर, सीता देवीके साथ, बिना किसी रथ अश्व के चल दिये । सवेरे निशाका अन्त करनेवाले सूर्यका उदय हुआ । वह मानो यही खोजता हुआ आ रहा था कि क्या वे लोग चले गये ॥ १-६ ॥

[ २० ] नलकूबरका राजा—कल्याणमालाने सवेरे उठकर उस तालपत्र-लेखको पढ़ा और जब उसने त्रिलोकमें अतुल प्रतापी, देव-

ताव तिलोयहौँ अतुल - पयावइँ । सुरवर-भवण - त्रिणिगय-णायइँ ॥२॥  
 दुइम - दाणवेन्द - आयामइँ । दिट्टइँ लक्खण-रामहुँ णावइँ ॥३॥  
 खणें कल्लणमाल मुच्छंगय । णिवडिय केलि व खर-पवणाहय ॥४॥  
 दुक्खु दुक्खु आसासिय जावँहिँ । हाहाकारु पमेल्लिउ तावँहिँ ॥५॥  
 'हा हा राम राम जग-सुन्दर । लक्खण लक्खणलक्ख - सुहङ्कर ॥६॥  
 हा हा सीणँ सीणँ उप्पेक्खमि । तिहि मि जणहुँ एक्कं पि ण पेक्खमि' ॥७॥  
 एम पलाउ करन्ति ण थक्कइ । खणें णीससइ ससइ खणें कोक्कइ ॥८॥

धत्ता

खणें खणें जोयइ चउदिसु लोयणेंहिँ विसालँहिँ ।  
 खणें खणें पहणइ सिर-कमलु स इं भु व-डालँहिँ ॥९॥



## २७. सत्तवीसमो संधि

तो सायर-वज्जावत्त-धर सुर-डामर असुर-विणासयर ।  
 णारायण-राहव रणें अजय णं मत्त मह्हागय विब्भु गय ॥

[ १ ]

ताणन्तरेँ णम्मय दिट्ट सरि । सरि जण-मण - णयणाणन्द - करि ॥१॥  
 करि - मयर - कराहय - उहय-तड । तडयड पडन्ति णं वज्ज-भुड ॥२॥  
 भुड - भीम - णिणाणं गीढ-भय । भय - भीय - समुट्टिय - चक्कहय ॥३॥  
 हय - हिंसिय - गज्जिय - मत्त - गय । गयवर - अणवरय - विसट्ट - मय ॥४॥  
 मय - मुक्क - करन्विय वहइ महु । महुयर रुण्टन्ति मिलन्ति तहु ॥५॥  
 तहौँ धाइय गन्धव - पवह - गण । गण - भरिय-करञ्जलि तुट्ट-मण ॥६॥

लोकमें विख्यात, दुष्ट दानव-राजोंको बशमें करनेवाले राम-लक्ष्मण को नहीं देखा तो उसी क्षण वह पवनाहत कदली वृक्षकी भौँति मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनतासे जैसे-तैसे उसे जब चेतना आई तो उसने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, “हे राम ! हे जगसुन्दर राम, लाखों लक्ष्णोंसे अलंकृत हे लक्ष्मण ! हे सीता ! मैं ऊपर देखती हूँ, पर तीनोंमेंसे एकको भी नहीं देख पाती।” इस प्रकार प्रलाप करती हुई वह, एक पल भी विश्राम नहीं ले पा रही थी। एक क्षणमें उच्छ्वास लेती और फिर उन्हें पुकारने लगती। क्षण-क्षणमें वह चारों ओर देखती अपनी बड़ी बड़ी आँखोंसे। ( और उन्हें न पाकर ) अपने ही हाथों अपना शिर-कमल धुनने लगती ॥१-६॥



### सत्ताईसवीं संधि

समुद्रावर्त और वज्रावर्त धनुष धारण करनेवाले, असुर संहारक, रणमें अजेय, राम और लक्ष्मण, महागजकी भौँति विन्ध्याचलकी ओर गये।

[ १ ] मार्गमें उन्हें जनोंके मन और नेत्रोंको आनन्द देनेवाली नर्वदा नदी मिली। हाथी और मगरोंसे आहत उसके दोनों तट ऐसे लगते थे मानो तड़तड़ करके घातक चोट ही पड़ रही हो। उस आघातकी ध्वनिसे अत्यधिक भय उत्पन्न हो रहा था। चकोर उड़कर वहाँसे भाग रहे थे। अश्रु हींस रहे थे और गज चिंघाड़ भर रहे थे। उत्तम गजोंसे बढ़िया मदजल भर रहा था। कस्तूरी मिश्रित मधुजल बह रहा था। भ्रमर उसका पान करनेके लिए गुञ्जन करते हुए उड़ रहे थे। गन्धर्व देवता दौड़ रहे थे। संतुष्टमन उनकी अञ्जलियाँ भरी हुई थीं। बैल सुन्दर



मणहर ढेकार मुअन्ति वल । वल-कमल - करम्बिय सङ्ग-दल ॥७॥  
दल्ले भमर परिद्विय केसरहोँ । केसरु णिउ णवर जिणेसरहोँ ॥८॥

घत्ता

तो सीराउह-सारङ्गधर सहुँ सीयणँ सलिलँ पइट्ट णर ।  
उवयारु करेप्पिणु रेवयणँ णं तारिय सासण-देवयणँ ॥९॥

[ २ ]

थोवन्तरँ महिहर भुअण - सिरि । सिरिवच्छेँ दीसइ विम्भइरि ॥१॥  
इरिणप्पहु ससिपहु कण्णपहु । पिहुलप्पहु णिप्पहु भाणपहु ॥२॥  
मुरवो व्व स-तालु स - वंसहरु । विसहो व्व स-सिङ्गु महन्त-डरु ॥३॥  
मयणो व्व महाणल - दद्ध - तणु । जलउ व्व स-वारि भडु व्व स-वणु ॥४॥  
तहिँ तेहणँ सेल्ले अहिद्वियइँ । दुणिमित्तइँ ताव समुद्वियइँ ॥५॥  
फेकारइ सिव वायसु रसइ । भासावणु भण्डणु अहिलसइ ॥६॥  
सरु सुणेवि पकम्पिय जणय-सुअ । थिय विहि मि धरेप्पिणु भुणँ हिँ भुअ ॥७॥  
'किं ण सुउ चवन्तु वि को वि णरु । जिह सउणउ माणिउ देइ वरु' ॥८॥

घत्ता

तं णिसुणेँवि असुर-विमद्वणेँण मग्ग्भासिय सीय जणद्वणेँण ।  
'सिय लक्खणु वल्लु पच्चक्खु जहिँ कउ सउण-विसउणेँहिँ गण्ण तहिँ ॥९॥

[ ३ ]

एत्थन्तरँ रहस - समुच्छलिउ । आहेडणँ रुद्धुत्ति चलिउ ॥१॥  
ति - सहासैँहिँ रहवर - गयवरैँहिँ । तद्दूण - तुङ्गहिँ णरवरैँहिँ ॥२॥

रँभा रहे थे । भ्रमर कमलदलोंके परागमें घुस रहे थे । केशर जिनेश्वरकी तरह शोभित हो रही थी ॥१-न॥

तब राम लक्ष्मण और सीतादेवीको लेकर उसके जलमें घुसे । रेवाने भी, मानो शासन देवीकी भाँति उपकार करनेके लिए उन्हें उस पार कर दिया ( तार दिया ) ॥६॥

[२] ( गौतम गणधरने कहा ) हे राजन् ( श्रेणिक ) थोड़ी देर के अनन्तर रामको पृथ्वीका सौन्दर्य विन्ध्याचल पर्वत दीख पड़ा । उस पर्वतराजके निकट ही ईरणप्रभ, शशिप्रभ, कृष्णप्रभ, निष्प्रभ, क्षीणप्रभ पहाड़ थे । वह विन्ध्याचल मृदङ्गकी तरह, ताल ( ताल वृत्त और सङ्गीतका ताल ) से सहित सुवंशधर ( उत्तम बाँस धारण करनेवाला ), बैलकी तरह सशृङ्ग ( सींग और शिखरवाला ) तथा भयानक था । कामदेवके समान महानल ( दावानल व शिवके तीसरे नेत्रकी आग ) से उसका शरीर जल रहा था । मेघकी तरह सजल, और योधाकी तरह व्रणसहित ( घाव और जङ्गल ) था । परन्तु उस ऐसे पर्वतमें अधिष्ठित होते ही रामको कुछ अपशकुन हुए । सियार फेक्कार कर रहे थे । कौवा ( काँव २ ) बोल रहा था और भीषण मांस चाह रहा था । उसके स्वरको सुनकर जनकसुता सीता काँप उठीं । अपने दोनों हाथसे रामको पकड़कर बोलीं—“क्या आपने नहीं सुना, जैसे कोई सोता हुआ आदमी बड़बड़ाता है, वैसे ही इसे समझिए ।” यह सुनकर असुर-संहारक जनार्दन राम सीताको अभय देते हुए बोले—“जहाँ लक्ष्मणके समान शक्तिशाली व्यक्ति स्पष्टरूपसे हमारे साथ है, तब यहाँ तुम्हें शकुन और अपशकुनकी चिन्ता कैसी ?” ॥१-६॥

[ ३ ] ठीक इस अवसरपर, हर्षसे मूलता हुआ रुद्रभूति रिंकारके लिए निकला । वह तीन हजार हाथी, श्रेष्ठ रथों और

संचल्ले विष्म - पहाणएण । लक्खिज्जइ जाणइ राणएण ॥३॥  
 पप्फुल्लिय - धवल - कमल-वयण । इन्दीवर - दल - दीहर - णयण ॥४॥  
 तणु मज्जे णियम्वे वच्छे गरुभ । जं णयण-कडक्खिय जणय-सुभ ॥५॥  
 उम्मायण - मयणे हिं मोहणे हिं । वाणे हिं संदीवण - सोसणे हिं ॥६॥  
 आयल्लिउ सल्लिउ मुच्छियउ । पुणु दुक्खु दुक्खु ओमुच्छियउ ॥७॥  
 कर मोडइ अङ्गु वलइ हसइ । ऊससइ ससइ पुणु णीससइ ॥८॥

## घत्ता

मयरद्धय-सर-जजरिय-तणु पट्टु एम पजम्पिउ कुइय-मणु ।  
 'वल्लिमण्डए वणवसि वणवसहुँ उद्दाले वि आणहोँ पासु महु' ॥९॥

[ ४ ]

तं वयणु सुणेप्पिणु णर-णियरु । उत्थरिउ णाइँ णव-अम्बुहरु ॥१॥  
 गज्जन्त - महागय - घण - पवलु । तिक्खग्ग - खग्ग - विज्जुल-चवलु ॥२॥  
 हय-पडह - पगज्जिय - गयणयलु । सर-धारा - धोरणि - जल-वहलु ॥३॥  
 धुअ - धवल - छत्त - डिण्डीर-वरु । मण्डलिय - चाव - सुरचाव - करु ॥४॥  
 सय - सन्दण - वीढ - भयावहुलु । सिय-चमर-वलाय - पन्ति-विउलु ॥५॥  
 ओरसिय - सङ्ग - ददुदुर - पउरु । तोणोर - मोर - णच्चण - गहिरु ॥६॥  
 तं पेक्खेवि गुब्ज-पुब्ज-णयणु । दट्टोदु - रुट्ट - रोसिय - वयणु ॥७॥  
 आवद्ध-तोणु घणुहरु अभउ । धाइउ लक्खणु लहु लद्ध-जउ ॥८॥

## घत्ता

तं रिउ-कङ्काल-विणासयरु हलहेइहेँ भायरु सीय-वरु ।  
 जण-मण-कम्पावणु स-पवणु हेमन्तु पट्टुक्किउ महुमहणु ॥९॥

इनसे दूने अश्वोंसे सहित था। उसने सीताको देखा। उसका मुख खिले हुए सफेद कमलके समान था। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी, मध्यभाग दुबला-पतला तथा नितम्ब और स्तन विशाल थे। सीता को देखते ही वह उन्मादक कामके मोहक, सन्दीपक और शोषक तीरोंसे पीड़ित हो उठा। वेदनासे मूर्छित उसे बड़ी कठिनाईसे चेतना आई। कभी वह हाथ मोड़ता, कभी अङ्ग हिलाता, उच्छ्वास भरता और निःश्वास छोड़ता। तब कामसे जर्जर शरीर उस राजा ने कहा—“उस वनवासिनी ( सीताको ) उन वन-वासियोंसे छीनकर ले आओ” ॥१-६॥

[ ४ ] यह शब्द सुनते ही मनुष्योंका दल उछल पड़ा। मानो नये जलधर ही उमड़ आये हों। गरजते हुए महागज रूपी मेघोंसे प्रबल, तीखी तलवारोंकी बिजलीसे चपल, आहत नगाड़ोंकी गर्जनासे आकाशको गुंजाता हुआ, तीरकी पंक्तियोंकी जलधारासे व्याप्त, कंपित श्वेत छत्र रूपी इन्द्रधनुषको, हाथमें लिये हुए, सैकड़ों रथपीठोंसे भयावह, सफेद चमररूपी बगुलोंकी कतारसे विपुल, बजते हुए शङ्खोंके मेंढकोंसे प्रचुर, तूणीर रूपी मोरके नृत्यसे गंभीर, मनुष्योंके उस दलको देखकर जयशील, निडर, लक्ष्मण धनुष लेकर दौड़ा। ओठोंको चबाते हुए उसका चेहरा क्रोधसे तमतमा रहा था। उनके नेत्र मृगसमूहकी तरह आरक्त थे। उनकी पीठपर तरकस बँधा हुआ था। इस प्रकार हेमंत बनकर लक्ष्मण उसके ( भिल्लराजके ) पास जा पहुँचे। शत्रु रूपी वर्षाके संहारक वह; हलहेति ( कृपक और रामके भाई ) सीतावर ( टंडीहवासे युक्त और सीताके लिए उत्तम ) जनमनको कम्पित कर देनेवाले, वाणरूपी पवनसे युक्त थे ॥१-६॥

[ ५ ]

अफ्फालिउ महुमहणेण धणु । धणु-सहें समुट्टिउ खर-पवणु ॥१॥  
 खर-पवण-पहय जलयर रडिय । रडियागमे वज्जासणि पडिय ॥२॥  
 पडिया गिरि सिहर समुच्छलिय । उच्छलिय चलिय महि णिइलिय ॥३॥  
 णिइलिय भुअङ्ग विसग्गि मुक्क । मुक्कन्त णवर सायरहुँ दुक्क ॥४॥  
 दुक्कन्तेहिँ वहल फुलिङ्ग घित्त । घण सिप्पि-सङ्ख-संपुड पलित्त ॥५॥  
 धगधगधगन्ति मुत्ताहलाइँ । कढकढकढन्ति सायर-जलाइँ ॥६॥  
 हसहसहसन्ति पुलिगन्तराइँ । जलजलजलन्ति भुअणन्तराइँ ॥७॥  
 तेँ धणुहर-सहें णिट्ठुरेण । रिउ मुक्क पयाव-मडप्फरेण ॥८॥

घत्ता

भय-भीय विसण्ठुल णर पवर लोट्टाविय हय गय धय चमर ।  
 धणुहर टङ्कार-पवण-पहय रिउ-तरुवर णं सय-खण्ड गय ॥९॥

[ ६ ]

एत्थन्तरेँ तो विञ्झाहिवइ । सहुँ मन्तिहिँ रुद्धभुत्ति चवइ ॥१॥  
 'इमु काइँ होज्ज तइल्लोक्क-भउ । किं मेरु-सिहरु सय-खण्ड गउ ॥२॥  
 किं दुन्दुहि हय सुरवर-जणैण । किं गज्जउ पलय-महाघणैण ॥३॥  
 किं गयण-मग्गं तडि तडयडिय । किं महिहरेँ वज्जासणि पडिय ॥४॥  
 किं कालु कयन्त-मित्तु हसिउ । किं वलयामुहु समुद्दु रसिउ ॥५॥  
 किं इन्दहोँ इन्दत्तणु टलिउ । खय-रक्खसेण किं जगु गिलिउ ॥६॥  
 किं गउ पायालहोँ भुवणयलु । दम्भण्डु फुट्टु किं गयणयलु ॥७॥  
 किं खय-मारुउ टाणहोँ चलिउ । किं असणि-णिहाउ समुच्छलिउ ॥८॥

[ ५ ] लक्ष्मणने पहुँचते ही धनुषकी टंकार की। उसकी ध्वनिसे पवनका प्रचण्ड वेग उठा। उस वेगसे आहत मेघ गरज उठे। उसके गर्जनसे वज्र गिरने लगे। वज्रपातसे पर्वतोंकी चोटियाँ उछलने लगीं। उनके उछलनेसे कम्पमान धरती चरमराने लगी। उसकी चरमराहटसे सर्प विषकी ज्वाला उगलने लगे। उनकी उगली हुई आग समुद्र तक जा पहुँची। वहाँ तक पहुँची हुई आगकी चिनगारियोंसे सीप और शंखाँके सम्पुट जल उठे। मोती धकधक करके जल उठे। समुद्रका जल कड़कड़ाने लगा। किनारोंके अन्तर हस-हस करके धसने लगे। इस प्रकार विश्वका अन्तराल जल उठा। उस धनुषके कठोर शब्दने शत्रुका अहङ्कार और प्रताप चूर-चूर कर दिया। भयभीत श्रेष्ठ योधा अस्त-व्यस्त हो उठे। गज, अश्व, ध्वज, चमर सब लोट-पोट हो गये। धनुषकी टंकारकी हवासे आहत होकर शत्रुरूपी महावृक्ष मानो सौ-सौ खण्डोंमें खण्डित हो उठा ॥१-६॥

[ ६ ] तब, विन्ध्याचल नरेश रुद्र-भूतिने अपने मन्त्रियोंसे कहा, “आखिर तीनों लोकोंमें इस तरहका भय क्यों हो रहा है ? क्या मेरु पर्वतके शिखरके शत-शत खण्ड हो गये हैं ? क्या इन्द्रने अपना नगाड़ा बजवा दिया है ? क्या प्रलयके महामेघ गरज उठे हैं ? या आकाश-मार्गमें तड़तड़ बिजली चमक रही है या पहाड़पर वज्र टूट पड़ा है, या यमका मित्र काल अट्टहास कर रहा है या गोलाकार समुद्र हँस उठा है ? या किसीने इन्द्रके इन्द्रत्वका अतिक्रमण कर दिया है, या फिर विनाशके गद्गसने ही समूचे संसारको निगल लिया है। क्या भुवनतल पाताल लोकमें चला गया है। या कि ब्रह्माण्ड ही फूट गया है। या आकाशतल ही फट गया है। क्या क्षयपवन ही अपने स्थानसे

## घत्ता

किं सयल स-सायर चलिय महि किं दिसि-गय किं गजिय उवहि ।  
एँउ अक्खु महन्तउ अच्छरिउ कहों सहेँ तिहुअणु थरहरिउ ॥६॥

[ ७ ]

जं णरवइ एव चवन्तु सुउ । पभणइ सुभुत्ति कण्टइय-भुउ ॥१॥  
‘सुणि अक्खमि जं तइलोक-भउ । णउ मेरु-सिहरु सय-खण्ड गउ ॥२॥  
णउ दुन्दुहि हय सुरवर-जणैण । णउ गजिउ पलय-महाघणैण ॥३॥  
णउ गयण-मग्गं तडि तडयडिय । णउ महिहरँ वज्जासणि पडिय ॥४॥  
णउ कालु कियन्त-मित्तु हसिउ । णउ वलयामुहु समुद्दु रसिउ ॥५॥  
णउ इन्दहों इन्दत्तणु टलिउ । खय-रक्खसेण णउ जगु गिलिउ ॥६॥  
णउ गउ पायालहों भुवणयलु । वम्भण्डु फुट्ठु णउ गयणयलु ॥७॥  
णउ खय-मारुउ थाणहों चलिउ । णउ असणि-णिहाउ समुच्छलिउ ॥८॥  
णउ सयल स-सायर चलिय महि । णउ दिसि-गय णउ गजिय उवहि ॥९॥

## घत्ता

सिय-लक्खण-वल-गुण-वन्तएँण णीसेसु वि जउ धवलन्तएँण ।  
सु-कलत्तेँ जिम जण-मणहरैँण एँउ गजिउ लक्खण धणुहरैँण ॥१०॥

[ ८ ]

सुणैँ णरवइ असुर-परायणहँ । जं चिण्हइँ वल-णारायणहँ ॥१॥  
तं अत्थि असेसु वि वणवसहँ । सुरभुवणुच्छलिय - महाजसहँ ॥२॥  
एक्कहों ससि-णिम्मल-धवलु तणु । अण्णेक्कहों कुवलय-घण-कसणु ॥३॥  
एक्कहों महि-माणदण्ड चलण । अण्णेक्कहों दुइम-दणु-दलण ॥४॥  
एक्कहों तणु मज्झु पदीसियउ । अण्णेक्कहों कमल-विहूसियउ ॥५॥

चल पड़ा है, या कि समुद्रसहित समूची धरती ही चलायमान हो गई है ? या दिग्गज दहाड़ रहे हैं या समुद्र गरज रहा है ? आखिर यह किसके शब्दसे सारा संसार थर्रा उठा है ? वताओ यह क्या है ? मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है” ॥१-६॥

[ ७ ] राजाको यह कहते हुए सुनकर, सुभुक्ति नामके मन्त्रीने पुलकसे भरकर कहा—“सुनिये मैं बताता हूँ, क्यों तीनों लोकोंमें इतना भय उत्पन्न हो रहा है । न तो मेरुपर्वतके सौ टुकड़े हुए हैं और न इन्द्रका नगाड़ा ही बजा है । न प्रलयकालके मेघ गरजे हैं और न आकाशमार्गमें बिजली गरजी है । न पहाड़पर वज्रपात हुआ है और न यमका मित्र काल ही हँसा है । न तो बलयाकार समुद्र हँसा है और न इन्द्रका इन्द्रत्व ही अतिक्रान्त हुआ है । न तो क्षयके राक्षसने संसारको निगला है और न ब्रह्माण्ड या गगन तल ही फूटा है, न क्षयमारुत ही अपने स्थानसे चलित हुआ है । न तो वज्रका आघात हो उड़ला है और न समुद्र सहित धरती ही उड़ली है । न तो दिग्गज दहाड़ा और न समुद्र ही गरजा । प्रत्युत यह धनुर्धारी लक्ष्मणकी हुंकार है । वह सीता और रामके साथ हैं और अपने गुणोंसे समूची धरतीको उन्होंने धवल कर दिया है । वह सुकलत्रकी तरह जनमनके लिए सुन्दर लगते हैं ॥१-१०॥

[ ८ ] असुरोंको परास्त करनेवाले बलभद्र और नारायणके जो चिह्न हमने सुने हैं, वे सब, इन, स्वर्ग तकमें प्रसिद्ध वनवासियोंमें मिलते हैं । उनमेंसे एक शशिकी तरह गौर वर्ण है और दूसरा इन्दीवर या मेघकी तरह श्याम वर्ण है । एकके चरण मानो धरतीके मानदण्ड हैं, और दूसरेके दुर्दम शत्रुओंके संहारक । एक का शरीर मध्यमें कृश है, और दूसरेका शरीर कमलोंसे अंचित है ।



एकहों वच्छत्थलु सिय-सहिउ । अण्णेकहों सीयाणुग्गहिउ ॥६॥  
 एकहों भीसावणु हेइ हलु । अण्णेकहों धणुहरु अतुल-वलु ॥७॥  
 एकहों मुहु ससिकुन्दुज्जलउ । अण्णेकहों णव-घण-सामलउ' ॥८॥

घत्ता

तं वयणु सुणेप्पिणु विगय-मउ णासन्दणु णिग्गउ णित्तुरउ ।  
 वलएवहों चलण्हिं पडिउ किह अहिसेएँ जिणिन्दहों इन्दु जिह ॥९॥

[ ९ ]

जं रुद्धभुत्ति चलण्हिं पडिउ । तं लक्खणु कोवाणलें चडिउ ॥१॥  
 धगधगधगन्तु । थरथरथरन्तु ॥२॥  
 'हणु हणु' भणन्तु । णं कलि कियन्तु ॥३॥  
 करयल धुणन्तु । महि णिहलन्तु ॥४॥  
 विप्फुरिय - वयणु । णिडुरिय - णयणु ॥५॥  
 महि - माणदण्डु । परवल - पचण्डु ॥६॥  
 सो चविउ एव । 'रिउ मेत्थि देव ॥७॥  
 जं पइज एण । पुज्जइ हएण' ॥८॥

घत्ता

तं वयणु सुणेप्पिणु अतुल-वलु 'सुणु लक्खण' पचविउ एव वलु ।  
 मुक्काउहु जो चलण्हिं पडइ तें णिहएं को जसु णिव्वडइ' ॥९॥

[ १० ]

थिउ लक्खणु वलेण णिवारियउ । णं वर-गइन्दु कण्णारियउ ॥१॥  
 णं सायरु मज्जायएँ धरिउ । पुणु पुणु वि चविउ मच्छर-भरिउ ॥२॥  
 'खल खुट्ट पिसुण तउ सिर-कमलु । एत्तडेण चुक्कु जं णविउ वलु ॥३॥  
 वरि वालिखिल्लु मुएँ वन्दि लहु । णं तो जावन्तु ण जाहि महु' ॥४॥  
 तं गिसुण्हिं णिविसें मुक्कु पहु । णं जिणवरेण संसार-पहु ॥५॥  
 णं गह-कल्लोलें अमिय-तणु । णं गरुड-विहङ्गे उरगमणु ॥६॥

एकका वक्षःस्थल शोभासे सहित है दूसरेका वक्षःस्थल सीताको अनुगृहीत करनेवाला है। एकका भीषण आयुध है हल, और दूसरेका अतुल बल धनुष है। एकका मुख शशि और कुन्दकी तरह उज्ज्वल है और दूसरेका मुख नव घनकी तरह श्यामल।” यह वचन सुनकर रुद्रभूतिका मद उतर गया और निरुत्तर होकर विना रथके ही चल पड़ा। जाकर वह रामके चरणोंमें वैसे ही गिर पड़ा जैसे अभिषेकके समय इन्द्र जिनेन्द्रके चरणोंमें गिर पड़ता है ॥१-६॥

[ ६ ] यद्यपि रुद्रभूति रामके चरणोंमें नत था, तो भी लक्ष्मण क्रोधसे तमतमा रहा था। वह कलि या यमकी तरह “मारो मारो” चिल्लाता, हाथ धुनता, धरती रौंदता हुआ, भयङ्कर-नेत्र, शत्रुके लिए प्रचंड, पृथ्वीका मानदण्ड, लक्ष्मण बोला, “देव, शत्रुको छोड़ दीजिए। इसे मारकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा।” यह सुनकर अतुलबल बलभद्र रामने कहा, “सुनो लक्ष्मण, जो शस्त्र छोड़कर अपने चरणोंमें पड़ा हो उसे मारकर तुम्हें क्या यश प्राप्त होगा” ॥१-६॥

[ १० ] यह कहकर रामने लक्ष्मण को उसी प्रकार रोक दिया जिस तरह महावत उत्तम गजको रोक देता है। या मानो उन्होंने समुद्रको पुनः मर्यादित कर दिया हो। परन्तु फिर भी रोपसे प्रदीप्त लक्ष्मण बोला, “रे खल क्षुद्र पिशुन, तेरा सिर केवल इसलिए बच सका क्योंकि तू रामके चरणोंमें नत है। अच्छा अब तुम बालिखिल्यको तत्काल मुक्त कर दो। नहीं तो तुम्हें मैं किसी भी तरह जीवित नहीं छोड़ सकता।” यह सुनकर बालिखिल्य को रुद्रभूतिने ऐसे छोड़ दिया, मानो जिनने संसारको छोड़ दिया हो या राहुने चन्द्रको, गरुड़ने साँपको छोड़ दिया हो। बालिखिल्य

णं मुक्कु सुअणु दुज्जण-जणहों । णं वारणु वारि-णिवन्धणहों ॥७॥  
 णं मुक्कु भविउ भव-सायरहों । तिह वालिखिल्लु दुक्खोयरहों ॥८॥

घत्ता

ते रुद्धुत्ति-वल-महुमहण सहुँ कुव्वर-णिवेण चयारि जण ।  
 थिय जाणइ तेहिँ समाणु किह चउ-सायर-परिमिय पुहइ जिह ॥९॥

[ ११ ]

तो वालिखिल्ल-विब्भाहिवइ । अदरोप्परु णेह-णिवद्ध-मइ ॥१॥  
 कम-कमल्लेहिँ णिवडिय हलहरहों । णमि-विणमि जेम चिरु जिणवरहों ॥२॥  
 सइँ हत्थे वल्लेण समुट्टविय । उवहि व समएहिँ परिट्टविय ॥३॥  
 भरहहों पाइक्क वे वि थविय । लहु णिय-णिय-णिलयहुँ पट्टविय ॥४॥  
 उत्तिण्णइँ तिण्णि वि महिहरहों । णं भवियइँ भव-दुक्खोयरहों ॥५॥  
 णं मेरु-णियम्बहों किण्णरइँ । णं सग्गहों चवियइँ सुरवरइँ ॥६॥  
 विणु खेवें तावि पराइयइँ । किर सलिलु पियन्ति तिसाइयइँ ॥७॥  
 णवरुण्हउ रवियर-तावियउ । सु-कुडुम्बु व खल-संतावियउ ॥८॥

घत्ता

दिणयर-वर-किरण-करम्बियउ जलु लेवि भुएँ हिँ परि-चुम्बियउ ।  
 पइसन्तु ण भावइ सुहहों किह अण्णाणहों जिणवर-वयणु जिह ॥९॥

[ १२ ]

पुणु तावि तरेप्पिणु णिग्गयइँ । णं तिण्ण मि विज्झ-महागयइँ ॥१॥  
 वइदेहिँ पजम्पिय हरिवलहों । सुरवर-करि-कर - थिर-करयलहों ॥२॥  
 'जलु कहि मि गवेसहों णिम्मलउ । जं तिस-हरु हिम-ससि-सीयलउ ॥३॥  
 तं इच्छमि भविउ व जिण-वयणु । णिहि णिद्धणु जञ्चन्धु व णयणु' ॥४॥

भी रुद्रभूतिसे उसी प्रकार मुक्त हो गया जिस प्रकार सज्जन दुर्जनसे, गज आलान-स्तम्भसे, और भव्य जीव सांसारिक दुःखसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रुद्रभूति, राम, लक्ष्मण और बालिखिल्य चारों मिलकर एक हो गये, उनके साथ सीतादेवी ऐसी जान पड़ती थीं मानो चारों समुद्रोंसे वेष्टित धरती ही हो ॥१-६॥

[ ११ ] रुद्रभूति और बालिखिल्य, एक दूसरेके प्रति स्नेहकी वृद्धि रखकर, श्रीरामके चरणोंमें नत हो गये। ठीक उसी तरह जिस प्रकार नमि और विनमि ऋषभ जिनके चरणोंमें नत हुए थे। तब अपने हाथों उन्हें उठाते हुए रामने, उन्हें समुद्रकी तरह अपनी मर्यादामें स्थापित किया। उन दोनोंको रामने राजा भरतकी प्रजा बनाकर अपने-अपने घर भेज दिया। फिर उन तीनोंने पर्वतराज विंध्याचलको उसी प्रकार पार किया जिस प्रकार भव्यजीव भव-दुख-सागरको पार करते हैं। या किन्नर मेरु-शिखरको। या सुरवर देवलोकको पार करते हैं। अविलम्ब वे तीनों ताम्री नदीके तटपर जा पहुँचे। प्यास ( लगनेपर ) वे उसका पानी पीने लगे। सूर्यसे संतप्त वह पानी, दुष्टसे पीड़ित कुटुम्बकी तरह उष्ण था। सूर्य किरणोंसे मिश्रित उस जलको यद्यपि उन लोगोंने हाथमें लेकर पिया, परन्तु वह उन्हें उसी प्रकार अच्छा नहीं लगा जिस प्रकार अज्ञानीको जिनवरके वचन अच्छे नहीं लगते ॥१-६॥

[ १२ ] ताम्री नदी पारकर वे तीनों विंध्याचलसे दूर निकल आये। तब वैदेही सीताने गजसुण्डवाले विशालबाहु रामसे पूछा, “कहीं हिमशीतल और शशि की तरह स्वच्छ जलकी खोज कीजिये जो प्यासको बुझानेवाला हो? मुझे जल पीनेकी इच्छा इस प्रकार हो रही है जिस प्रकार भव्यजन जिन वचनकी, निर्धन व्यक्ति धनकी, और अन्धा व्यक्ति नेत्रोंकी इच्छा करता है।” तब

वलु धीरइ 'धीरी होहि धणें । मं कायरु मुहु करि मिगणयणें' ॥५॥  
 थोवन्तरु पुणु विहरन्तएँ हिँ । मल्हन्तँहिँ पउ पउ देन्तएँ हिँ ॥६॥  
 लक्खिज्जइ अरुणगामु पुरउ । वय-वन्ध-विहूसिउ जिह मुरउ ॥७॥  
 कप्पदुमो व्व चउदिसु सुहलु । णट्टावउ व्व णाडय-कुसलु ॥८॥

घत्ता

तं अरुणगामु संपाइयइँ मुणिवर इव मोक्ख-तिसाइयइँ ।  
 सो णउ जणु जेण ण दिट्टाइँ घरु कविलहों गम्पि पइट्टाइँ ॥६॥

[ १३ ]

णिज्झाइउ तं घरु दियवरहों । णं परम-थाणु थिंरु जिणवरहों ॥१॥  
 णिरवेक्खु णिरक्खरु केवलउ । णिग्माणु णिरञ्जणु णिम्मलउ ॥२॥  
 णिव्वत्थु णिरत्थु णिराहरणु । णिद्धणु णिब्भत्तउ णिम्महणु ॥३॥  
 तहिँ तेहएँ भवणें पइट्टाइँ । छुडु छुडु जलु पिँएँवि णिविट्टाइँ ॥४॥  
 कुब्जर इव गुहें आवासियइँ । हरिणा इव वाहुत्तासियइँ ॥५॥  
 अच्छन्ति ताव तहिँ एक्कु खणु । दिउ ताव पराइउ कुइय-मणु ॥६॥  
 'मरु मरु णीसरु णीसरु' भणन्तु । धूमद्धउ व्व धगधगधगन्तु ॥७॥  
 भय-भांसणु कुरुडु सणिच्छरु व्व । बहु उवविस विण्णउ विसहरु व्व ॥८॥

घत्ता

'किं कालु कियन्तु मित्त वरिउ किं केसरि केसरगों धरिउ ।  
 को जम-मुह-कुहरहों णीसरिउ जो भवणें महारएँ पइसरिउ' ॥६॥

बलभद्र रामने सीतादेवीको धीरज बँधाते हुए कहा—“देवी ! धैर्य रक्खो । कातर मुख न बनो ।” इस प्रकार विहार करते और अल्हड़तासे आगे पग बढ़ाते हुए रामको थोड़ी दूर चलनेपर बुधजनोंसे घिरा हुआ अरुण नामका एक गाँव मिला । वह गाँव उन्हें ऐसा लगा मानो वह वयवन्ध ( चमड़ा और बगीचा ) से विभूषित-हो कल्पवृक्षकी तरह चारों ओरसे शोभित वह नटकी भाँतिमें कुशल था । मोक्षपिपासासे व्याकुल मुनियोंकी भाँति वे सब उस अरुण गाँवमें पहुँचे । वहाँ एक भी आदमीको न पाकर वे लोग किसी कपिल नामके ब्राह्मणके घरमें घुस पड़े ॥१-६॥

[ १३ ] द्विजवरका वह घर ( वास्तवमें ) जिनवरके परम स्थान मोक्षकी तरह दीख पड़ा । निर्वाणकी तरह एकदम निरपेक्ष, अक्षररहित तथा केवल ( केवलज्ञानसे रहित और पास पड़ौससे रहित ) निर्मान ( अहंकार और गौरवसे शून्य ) निरंजन ( पाप और अलिंजरसे रहित ) निर्मल ( कर्म और धूलिसे हीन ) निर्भक्त ( भक्ति और भोजनसे हीन ) था । उस घरमें घुसकर शीघ्रतासे पानी पीकर वे लोग उसी प्रकार निपटे जैसे सिंहकी चपेटसे मस्त गज गुफामें पहुँचकर निवृत्ति प्राप्त करता है । वे उस घरमें क्षणभर ही ठहरे थे कि क्रुद्धमन कपिल ( महोदय ) वहाँ आ धमके । आगकी तरह धधकता हुआ वह बोला “मरो मरो, निकलो निकलो । शनिकी तरह अत्यन्त कठोर, भयभीषण और विषाक्त सर्पकी तरह वह ब्राह्मण अत्यन्त खिन्न मनका हो रहा था । उसने कहा, “क्या तुमने ( आज ) काल या कृतान्तको अपना मित्र चुना है या सिंहकी अयालके अग्रिम बालोंका पकड़ा है । यमकी मुख-गुफासे कौन निकल सका है, तुमने ( फिर ) मेरे घरमें कैसे प्रवेश किया” ॥१-६॥

[ १४ ]

तं वयणु सुणेप्पिणु महुमहणु । आरुट्ठु समर-भर-उच्चहणु ॥१॥  
 णं धाइउ करि थिर-थोर-करु । उम्मूलिउ दियवरु जेम तरु ॥२॥  
 उग्गामेँवि भामेँवि गयणयलेँ । किर धिवइ पडाँवउ धरणियलेँ ॥३॥  
 करेँ धरिउ ताव हलपहरणेँण । 'मुएँ मुएँ मा हणहि अकारणेँण ॥४॥  
 दिय-वाल-गोल - पसु-तवसि-तिय । छ्खि वि परिहरु मेलेँ वि माण-किय' ॥५॥  
 तं णिसुणेँवि दियवरु लक्खणेँण । णं मुक्कु अलक्खणु लक्खणेँण ॥६॥  
 ओसरिउ वीरु पच्छामुहउ । अङ्कस-णिरुद्धु णं मत्त-गउ ॥७॥  
 पुणु हियएँ विसूरइ खणं जेँ खणं । 'सय-खण्ड-खण्डु वरि हूउ रणेँ ॥८॥

घत्ता

वरि पहरिउ वरि किउ तवचरणु वरि विसु हालाहलु वरि मरणु ।  
 वरि अच्छिउ गम्पिणु गुहिल-वणेँ णवि णिविसु वि णिवसिउ अबुहयणेँ ॥९॥

[ १५ ]

तो तिण्णि वि एम चवन्ताइँ । उम्माहउ जगहोँ जणन्ताइँ ॥१॥  
 दिण-पच्छिम-पहरेँ विणिग्गयाइँ । कुञ्जर इव विउल-वणहोँ गयाइँ ॥२॥  
 वित्थिण्णु रण्णु पइसन्ति जाव । णग्गोहु महादुमु दिट्ठु ताव ॥३॥  
 गुरु-वेसु करेँवि सुन्दर-सराइँ । णं विहय पढावइ अक्खराइँ ॥४॥  
 बुक्कण-किसलय क-क्का रवन्ति । वाउलि-विहङ्ग कि-क्का भणन्ति ॥५॥  
 वण-कुक्कुड कु-क्कू आयरन्ति । अण्णु वि कलावि के-क्कइ चवन्ति ॥६॥  
 पियमाहवियउ को-क्कउ लवन्ति । कं-का वप्पाह समुल्लवन्ति ॥७॥  
 सो तरुवरु गुरु-गणहर-समाणु । फल-पत्त-वन्तु अक्खर-णिहाणु ॥८॥

घत्ता

पइसन्तेँहिँ असुर-विमहणेँहिँ सिरु णामेँविँ राम-जणहणेँहिँ ।  
 परिअञ्जेँ वि दुमु दसरह-सुएँहिँ अहिणन्दिउ मुणि व स इं भु एँहिँ ॥९॥



[ १४ ] यह सुनते ही समरभार उठानेमें समर्थ लक्ष्मण एक-दम क्रुद्ध हो उठा और उस द्विजपर उसी प्रकार भपटा जिस प्रकार स्थूलशुण्ड गज पेड़ उखाड़ने दौड़ता है। वह उसे उठाकर और आकाशमें घुमाकर पटक देता, परन्तु रामने उसे शान्त करते हुए कहा, “छिः छिः व्यर्थ ही उसे मत मारो। नीति है कि मनुष्योंको इन छःकी हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण, बालक, गाय, पशु, तपस्वी और स्त्री।” यह सुनकर लक्ष्मणने उस द्विजवरको कुलक्षणकी भाँति छोड़ दिया। अंकुशसे निरुद्ध, महागजकी भाँति वह अपना मुँह मोड़कर पीछे हट गया। तब वे अपने मनमें बार-बार यह सोचकर पछताने लगे, “युद्धमें सौ-सौ खण्ड हो जाना अच्छा, प्रहार करना अच्छा, तपस्या करने चला जाना अच्छा, विष या हलाहल पीकर मर जाना अच्छा, एकान्त वनमें चला जाना अच्छा पर मूर्खोंके बीच पलभर ठहरना भी ठीक नहीं” ॥१-६॥

[ १५ ] यह गुनते हुए उन तीनोंने लोगोंके मार्ग दर्शन करने पर, दोपहरके बाद उसी प्रकार कूच कर दिया जिस प्रकार गज दुर्गम वनकी ओर चल देता है। तब एक विस्तीर्ण वनमें प्रवेश करते ही, उन्हें बटका एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वह बट-वृक्ष मानो शिक्तकका रूप धारणकर पत्तिरूपी शिष्योंको सुन्दर स्वर और व्यञ्जनके पाठ पढ़ा रहा था। कौआ कक्का कह रहे थे, बाउल त्रिहंग किककी बोल रहे थे। मयूर केक्कई कह रहे थे, कोकिल कोक्कउ और पपीहा कंकाका उच्चारण कर रहे थे। वह महावृक्ष मानो गुरु गणधरकी भाँति फल-पत्रसहित नाना अक्षरोंका निधान था। उस महाबटके निकट जाकर असुरसंहारक दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मणने उसकी परिक्रमा की तथा माथा झुकाकर उसका अभिनन्दन किया ॥१-६॥



## [ २८. अट्ठावीसमो सन्धि ]

सीय स-लक्खणु दासरहि तरुवर-मूळं परिट्टिय जावेंहिं ।  
पसरइ सु-कइहें कच्चु जिह मेह-जालु गयणङ्गणें तावेंहिं ॥

[ १ ]

पसरइ मेह-विन्दु गयणङ्गणें । पसरइ जेम सेणु समरङ्गणें ॥१॥  
पसरइ जेम तिमिरु अण्णाणहों । पसरइ जेम बुद्धि बहु-जाणहों ॥२॥  
पसरइ जेम पाउ पाविट्टहों । पसरइ जेम धम्मु धम्मिट्टहों ॥३॥  
पसरइ जेम जोण्ह मयवाहहों । पसरइ जेम कित्त जगणाहहों ॥४॥  
पसरइ जेम चिन्त धण-हाणहों । पसरइ जेम कित्त सुकुर्लाणहों ॥५॥  
पसरइ जेम सद्दु सुर-तूरहों । पसरइ जेम रासि णहें सूरहों ॥६॥  
पसरइ जेम दवगि वणन्तरें । पसरइ जेह-जालु तिह अम्बरें ॥७॥  
तडि डतयडइ पडइ घणु गज्जइ । जाणइ रामहों सरणु पवज्जइ ॥८॥

घत्ता

अमर-महाधणु-गहिय-करु मेह-गइन्दें चडेंवि जस-लुद्धउ ।  
उप्परि गिम्भ-णराहिवहों पाउस-राउ णाईं सण्णद्धउ ॥९॥

[ २ ]

जं पाउस-णरिन्दु गलगज्जिउ । धूली-रउ गिम्भेण विसज्जिउ ॥१॥  
गग्गिणु मेह-विन्दें आलगउ । तडि-करवाल-पहारेंहिं भग्गउ ॥२॥  
जं विवरम्मुहु चलिउ विसालउ । उट्टिउ 'हणु' भणन्तु उण्हालउ ॥३॥  
धगधगधगधगन्तु उद्धाइउ । हसहसहसहसन्तु संपाइउ ॥४॥  
जलजलजलजलजल पचलन्तउ । जालावलि-फुलिङ्ग मेल्लन्तउ ॥५॥  
धूमावलि-धयदण्डुब्भेप्पिणु । वर-वाउल्लि-खग्गु कड्डुप्पिणु ॥६॥  
ऋडऋडऋडऋडन्तु पहरन्तउ । तरुवर-रिउ-भड-थड भजन्तउ ॥७॥  
मेह-महागय-घड विहडन्तउ । जं उण्हालउ दिट्ठु भिडन्तउ ॥८॥

घत्ता

धणु अप्फालिउ पाउसैण तडि-टङ्कार-फार दरिसन्तें ।  
चोएँवि जलहर-हत्थि हड णीर-सरासणि मुक्क तुरन्तें ॥९॥

## अट्टाईसवीं संधि

राम लक्ष्मण और सीतादेवीके साथ जैसे ही उस तरुवरके नीचे बैठे वैसे ही, सुकविके काव्यकी तरह, आकाशमें मेघजाल फैलने लगा।

[ १ ] जैसे समराङ्गणमें सेना फैलती है, अज्ञानीमें अन्धकार फैलता है, बहुज्ञानीमें बुद्धि फैलती है, पापिष्ठमें पाप फैलता है, धर्मिष्ठमें धर्म फैलता है, चन्द्रमाकी चाँदनी फैलती है, धनहीनकी चिन्ता फैलती है और जैसे सुकुलीनकी कीर्ति फैलती है, जैसे नगाड़ेका शब्द फैलता है, जैसे सूर्यकी किरणें फैलती हैं, और वनमें दावानल फैलता है, वैसे ही आकाशमें मेघजाल फैलने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो पावस राजा यशकी कामनासे मेघ महागजपर बैठकर, इन्द्रधनुष हाथमें लेकर, ग्रीष्म नराधिपपर चढ़ाई करनेके लिए सन्नद्ध हो रहा हो ॥१-६॥

[ २ ] जब पावस राजाने गर्जना की तो ग्रीष्म राजाने धूलिका वेग छोड़ा, वह जाकर मेघ-समूहसे चिपट गया। परन्तु पावस राजाने बिजलीकी तलवारोंके प्रहारसे उसे भगा दिया। जब वह धूलिवेग ( बघण्डर ) उलटे मुँह लौट आया, तो ग्रीष्मवेग पुनः उठा। धकधकाता और हस हस करता हुआ वह वहाँ पहुँचकर जल-जलकर प्रदीप्त हो उठा। उससे चिनगारियाँ छूटने लगीं। उसने धूमावलिके ध्वजदण्ड उखाड़कर तूफानकी तलवारसे झड़झड़ कर प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया। तरुवररूपी शत्रु-समूह भग्न होने लगे। मेघघटा विघटित हो उठी। इस प्रकार ग्रीष्मराजा, पावसराजासे भिड़ गया तब पावसने बिजलीकी टंकार करके इन्द्र-धनुष पर डोरी चढ़ा ली। जलधरकी गजघटाको प्रेरित किया, और बूदोंके तीरोंकी बौछार शुरू कर दी ॥१-६॥

[ ३ ]

जल-वाणासणि-घायहिँ घाइउ । गिम्भ-णराहिउ रणें विणिवाइउ ॥१॥  
 दद्दुर रडें वि लग्ग णं सज्जण । णं णच्चन्ति मोर खल दुज्जण ॥२॥  
 णं पूरन्ति सरिउ अक्कन्दें । णं कइ किलकिलन्ति आणन्दें ॥३॥  
 णं परहुय विमुक्क उग्घोसैं । णं वरहिण लवन्ति परिओसैं ॥४॥  
 णं सरवर बहु-अंसु-जलोल्लिय । णं गिरिवर हरिसैं गओल्लिय ॥५॥  
 णं उण्हविअ दवग्गि विओएँ । णं णच्चिय महि विविह-विणोएँ ॥६॥  
 णं अत्थमिउ निवायरु दुक्खें । णं पइसरइ रयणि सइँ सुक्खें ॥७॥  
 रत्त-पत्त तरु पवणाकम्पिय । 'केण वि वहिउ गिम्भु' णं जम्पिय ॥८॥

घत्ता

तेहएँ कालें भयाउरएँ वेणिण मि वासुएव-वलएव ।  
 तरुवर-मूलें स-सीय थिय जोगु लएविणु मुणिवर जेम ॥९॥

[ ४ ]

हरि-वल रुक्ख-मूलें थिय जावेहिँ । गयमुहु जक्खु पणासैंवि तावैहिँ ॥१॥  
 गउ णिय-णिवहों पासु वेवन्तउ । 'देव देव परिताहि' भणन्तउ ॥२॥  
 'णउ जाणहुँ किं सुरवर किं णर । किं विजाहर-गण किं किण्णर ॥३॥  
 धणुधर धार चडायउ उव्वेवि । सुत्त महारउ णिलउ णिरुम्भेवि' ॥४॥  
 तं णिसुणेविणु वयणु महाइउ । पूवणु मम्भासन्तु पधाइउ ॥५॥  
 विज्झ-महीहर-सिहरहों आइउ । तक्खणें तं उद्देसु पराइउ ॥६॥  
 ताम णिहालिय वेणिण वि दुद्धर । सायर-वज्जावत्त-धणुद्धर ॥७॥  
 अवही-णाणु पउब्जइ जावैहिँ । लक्खण-राम मुणिय मणें तावैहिँ ॥८॥

[ ३ ] जलके वाणोंसे आहत होकर ग्रीष्म राजा धरतीपर गिर पड़ा। उसके पतनको देखकर मेंढक सज्जनोंकी भाँति रोने लगे। और दुष्टजनोंकी तरह मयूर नाचने लगे। आकन्द्रनसे ऐसे नदियाँ भर उठी, मानो कवि आनन्दसे किलकिला उठा हो, मानो कोयल कूक उठी हो, मानो मयूर परितोषसे नाच उठा हो, मानो सरोवरका जल अत्यधिक परिस्रावित हो उठा हो, मानो गिरिवर हर्षसे रोमांचित हो उठा हो, मानो वियोगका दावानल नष्ट हो गया हो। मानो धरावधू विविध विनोदोंसे नाच उठी हो, मानो दुःखके अतिरेकसे सूर्यका अस्त हो गया हो। मानो सुखसे रजनी फैल गई हो। हवामें हिलते-डुलते लाल कांपलवाले वृक्ष मानो इस बातकी घोषणा कर रहे थे कि ग्रीष्मराजाका वध किसने कर दिया। उस घोर समयमें राम, लक्ष्मण और सीता उस वट महावृक्षके नीचे इस प्रकार बैठे हुए थे मानो योग साधक महामुनि ही बैठे हों ॥१-६॥

[ ४ ] इतनेमें एक यक्ष, वर्षासे क्षतविक्षत होकर, टिटुरता हुआ अपने राजाके पास गया और ( यक्षराज से ) बोला,—“देव देव, मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं, सुरवर हैं कि नरवर, विद्याधर हैं या कि किन्नर। दोनों ही वीर धनुष चढ़ाकर हमारे घर वटवृक्षको घेरकर सो रहे हैं।” यह सुनकर, उस यक्षको अभयदान देकर, वह यक्षराज दौड़ा और शीघ्र ही पर्वत की उस शिखर पहुँचा जहाँ, वज्रावर्त और सागरावर्त धनुष लिये हुए वे दोनों (राम लक्ष्मण) बैठे हुए थे। अवधिज्ञानके प्रयोगसे उस यक्षराजने फौरन जान लिया कि ये राम और लक्ष्मण हैं। बलभद्र और

## घत्ता

पेक्खेंवि हरि-वल वे वि जण पूवण-जक्खें जय-जस-लुद्धें ।  
मणि-कञ्चण-धण-जण-पउरु पट्टणु किउ णिमिसद्धहों अद्धें ॥६॥

[ ५ ]

पुणु रामउरि पघोसिय लोए' । णं णारिहँ अणुहरिय णिओणं ॥१॥  
दीहर - पन्थ - पसारिय-चलणी । कुसुम - णियत्थ - वत्थ-साहरणी ॥२॥  
खाइय-तिवलि-तरङ्ग - विहूसिय । गोउर-थणहर - सिहर - पर्दासिय ॥३॥  
विउलाराम - रोम - रोमञ्चिय । इन्दगोव - सय - कुङ्कुम - अञ्चिय ॥४॥  
गिरिवर-सरिय - पसारिय-वाही । जल - फेणावलि - वलय-सणार्ही ॥५॥  
सरवर-णयण - घणञ्जण-अञ्जिय । सुरधणु-भउह - पर्दासिय-पञ्जिय ॥६॥  
देउल-वयण-कमलु दरिसेप्पिणु । वर-मयलञ्जण-तिलउ छुहेप्पिणु ॥७॥  
णाइँ णिहालइ दिणयर-दप्पणु । एम विणिम्मउ सयलु वि पट्टणु ॥८॥  
वइसँवि वलहों पासँ वासत्थउ । आलावइ आलावणि-हत्थउ ॥९॥

## घत्ता

एक्कवीस-वर-मुच्छणउ सत्त वि सर ति-गाम दरिसन्तउ ।  
'बुज्झि भडारा दासरहि सुप्पहाउ तउ' एव भणन्तउ ॥१०॥

[ ६ ]

सुप्पहाउ उच्चारिउ जावेंहि । रामें वलेंवि पलोइउ तावेंहि ॥१॥  
दिट्ठु णयरु जं जक्ख-समारिउ । णाइँ णहङ्गणु सूर-विहूसिउ ॥२॥  
स-घणु स-कुम्भु स-सवणु स-सङ्कउ । स-बुहु स-तारउ स-गुरु-ससङ्कउ ॥३॥  
पुणु वि पढीवउ णयरु णिहालिउ । णाइँ महावणु कुसुमोमालिउ ॥४॥

नारायण दोनोंको एक साथ देखकर, जयशील और यशोलुप उस यक्षराजने पलभरमें एक नगरी खड़ी कर दी, जो मणि-माणिक्य और धन-धान्यसे पूरित थी ॥१-६॥

[ ५ ] लोगोंने उसका नाम ही रामपुरी रख दिया । रचना और आकार-प्रकारमें वह नगरी नारीकी तरह प्रतीत होती थी । लम्बे-लम्बे पथ उसके पैर थे । फूलों के ही उसके वस्त्र और अलङ्कार थे । खाईकी तरङ्गित त्रिवलीसे वह विभूषित थी । उसके गोपुर स्तनोंके अग्रभागकी तरह जान पड़ते थे । विशाल उद्यानोंके रोमोंसे पुलकित, और सैकड़ों वीर-वधूटियोंके केशरसे अश्रित थी । पहाड़ और सरिताएँ मानो उस नगरीरूपी नारीकी फैली हुई भुजाएँ थीं । जल और फेनावलि उसकी चूड़ियाँ और नाभि थीं । सरोवर नेत्र थे, मेघ काजल थे और इन्द्रधनुष भौहें । मानो वह नगरीरूपी नव-वधू चन्द्रमाका तिलक लगाकर दिनकर-रूपी दर्पण में अपना देवकुल रूपी मुख देख रही थी । इस प्रकार उस यक्षने क्षणभरमें समूची नगरीका निर्माण कर दिया । विश्रब्ध होकर, रामके पास बैठकर और अपने हाथमें वीणा लेकर बजाने लगा । इक्कीस मूर्च्छनाओं, सात स्वर और तीन ग्रामोंका प्रदर्शन करते हुए अपने गीतमें उस यक्षराजने कहा, “हे राम, यह सब आपका ही सुप्पहाव ( सुप्रभाव और सुप्रभात ) है ॥ १-१० ॥

[ ६ ] सुप्रभात शब्द सुनते ही, रामने जो मुड़कर देखा तो उन्हें यक्षोंसे भरा हुआ नगर दीख पड़ा । मानो सूर्यसे आलोकित गगनांगन ही हो । गगनांगनमें धन, कुंभ, श्रवण, चन्द्रमा, बुध, तारक, गुरु और जल होता है । उस नगरमें धन घड़ा श्रमण पंडित उपाध्याय और मार्ग थे । रामने फिर घूमकर देखा तो वह उन्हें कुसुमोंसे व्याप्त महावनकी तरह लगा । वह नगर सुकविके काव्यकी

णाहँ सुकइहँ कव्वु पयइत्तिउ । णाहँ णरिन्द-चित्तु बहु-चित्तउ ॥५॥  
 णाहँ सेण्णु रहवरहँ अमुक्कउ । णाहँ विवाह-गेहु स-चउक्कउ ॥६॥  
 णाहँ सुरउ चच्चरि-चरियालउ । णावइ डिम्भउ भहिय-सुभालउ ॥७॥  
 अह किं वणिण्ण खणँ जे खणँ । तिहुअणँ णत्थि जं पि तं पट्टणँ ॥८॥

घत्ता

तं पेक्खेप्पिणु रामउरि भुअण-सहास-विणिग्गय-णामहँ ।  
 मन्हुडु उज्झाउरि-णयरु जाय महन्त भन्ति मणँ रामहँ ॥६॥

[ ७ ]

जं किउ विम्भउ सासय-लक्खँ । वुत्तु णवेप्पिणु पुअण-जक्खँ ॥१॥  
 'तुम्हारउ वण-वसणु गिण्णु । किउ मइँ पट्टणु भाउ धरेप्पिणु' ॥२॥  
 एम भणेवि सुवित्थय-णामहँ । दिण्ण सुघोस वीण तँ रामहँ ॥३॥  
 दिण्णु मउडु साहरणु विलेवणु । मणि-कुण्डल कडिसुत्तउ कङ्कणु ॥४॥  
 पुणु वि पजम्पिउ जक्ख-पहाणउ । 'हउँ तउ भिच्चु देव तुहुँ राणउ' ॥५॥  
 एव वोञ्जु णिम्माइय जावँहिँ । कविलें णयरु णिहालिउ तावँहिँ ॥६॥  
 जण-मणहरु सुर-सग्ग-समाणउ । वासवपुरहँ वि खण्डइ माणउ ॥७॥  
 तं पेक्खँ वि आसङ्किउ वम्भणु । कहिँ वित्थिण्णु रण्णु कहिँ पट्टणु' ॥८॥

घत्ता

थहरन्तु भय-मारुणँ समिहउ धिवँवि सणासइ जावँहिँ ।  
 मर्भासन्ति मियङ्कमुहि पुरउ स-माय जक्खि थिय तावँहिँ ॥६॥

तरह पद ( पद और—प्रजा ) से सहित तथा नरेन्द्रके चित्तकी तरह बहुत ही चित्र-विचित्र था । सेनाकी तरह रथश्रेष्ठोंसे सहित, विवाहके घरकी तरह, चौक ( चौमुहानी और भूमिमंडन ) से सहित था । सुरतिके समान वक्र चेष्टाओंसे युक्त, बच्चेकी तरह अत्यधिक लुधित, ( भूखा और चूनेसे पुता हुआ ) जान पड़ता था । अथवा अधिक कहनेसे क्या, संसारमें एक भी ऐसा नगर नहीं था जिसकी उससे तुलना की जा सके । हजारों भुवनोंमें विख्यात नाम रामको उस नगरको देखकर यह भ्रांति हो गई कि कहीं यह दूसरी ही अयोध्या न हो ॥ १-६ ॥

[ ७ ] ( इसके अनन्तर ) यह सब आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले—अपलक नेत्र उस यज्ञने प्रणामपूर्वक रामसे निवेदन किया, “आपके वनवासकी बात जानकर ही मैंने सद्भावनासे इस नगरका निर्माण किया है ।” यह कहकर उसने रामको सुघोष नामकी वीणा प्रदान की तथा दूसरी, मुकुट, आभरण, विलेप, मणि, कुंडल, कटिसूत्र और कंगन आदि चीजें दीं । तदनन्तर यज्ञोंके प्रमुख उसने कहा, “मैं आपका अनुचर हूँ, और आप मेरे स्वामी ।” वह इस प्रकार निवेदन कर ही रहा था कि इतनेमें उस कपिल ब्राह्मणने इस नगरको देखा । जनमन हारी, देवोंके स्वर्गके समान सुन्दर उस नगरको देखकर उसने समझा कि यह अमरावती का ही एक खंड है । यह सब ( कौतुक ) देखकर वह सोचने लगा, “कहाँ वह घना जंगल और कहाँ यह सुन्दर नगरी । भय रूपी हवासे वह काँप गया । लकड़ियोंका गट्टर फेंककर वह मूर्छित होनेको ही था कि चन्द्रमुखी नामकी यक्षिणी उसके सम्मुख आई और ‘डरो मत’ कहकर माताके समान उसके आगे बैठ गई ॥ १-६ ॥



[ ८ ]

'हे दियवर चउवेय-पहाणा । किण्ण मुणहि रामउरि अयाणा ॥१॥  
 जण-मण-वल्लहु राहव-राणउ । मत्त-गइन्दु व पगलिय-दाणउ ॥२॥  
 तक्कव-भमर-सएहिँ ण मुच्चइ । देइ असेसु वि जं जसु रुच्चइ ॥३॥  
 जोयइ (?) जिणवर-णामु लएइ । तहो कट्ठेप्पिणु पाणइँ देइ ॥४॥  
 एँ जं वासव-दिसएँ विसालउ । दीसइ तिहुअण-तिलउ-जिणालउ ॥५॥  
 तहिँ जो गम्पि करइ जयकारु । पट्टणँ णवरि तासु पइसारु' ॥६॥  
 तं णिसुणेप्पिणु दियवरु धाइउ । णिविसँ जिणवर-भवणु पराइउ ॥७॥  
 तं चारित्तसूरु मुणि वन्देवि । विणउ करँवि अप्पाणउ णिन्दँवि ॥८॥

घत्ता

पुच्छिउ मुणिवरु दियवरँण 'दाणहँ कारणँ विणु सम्मत्तँ ।  
 धम्मँ लइएँ कवणु फलु एउ देव महु अक्खि पयत्तँ ॥९॥

[ ९ ]

मुणिवरु कहँ वि लग्गु 'विउलाइँ । किं जणँ ण णियहि धम्मफलाइँ ॥१॥  
 धम्मँ भड-थड हय गय सन्दण । पावँ मरण-विओयक्कन्दण ॥२॥  
 धम्मँ सग्गु भोग्गु सोहग्गु । पावँ रोग्गु सोग्गु दोहग्गु ॥३॥  
 धम्मँ रिद्धि विद्धि सिय संपय । पावँ अत्थ-हाँण णर विद्दय ॥४॥  
 धम्मँ कडय-मउड-कडिसुत्ता । पावँ णर दालिहँ भुत्ता ॥५॥  
 धम्मँ रउजु करन्ति णिरुत्ता । पावँ पर - पेसण-संजुत्ता ॥६॥  
 धम्मँ वर - पल्लङ्गँ सुत्ता । पावँ तिण-संथारँ विभुत्ता ॥७॥  
 धम्मँ णर देवत्तणु वत्ता । पावँ णरय-घोरँ संकन्ता ॥८॥

[ ८ ] वह बोली, “अरे अजान द्विजवर, चारों वेदोंमें विद्वान् होकर तुम यह नहीं जानते कि यह रामपुरी है। और इसमें जनमनके प्रिय राजा राघव हैं। मत्तगजकी तरह वह शीघ्र ही दान ( मद्दजल, दान ) देनेवाले हैं। सैकड़ों याचकजन उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, जिसे जो अच्छा लगता है, वह उसे वही दे डालते हैं। जिनवरका नाम लेकर जो भी उनसे माँगता है उसके लिए वे अपने प्राण तक उत्सर्ग कर देते हैं। यह जो इन्द्रकी दिशामें त्रिभुवन श्रेष्ठ जिनालय देख पड़ रहा है। पहले तुम उसमें प्रवेश करो नहीं तो नगरमें प्रवेश नहीं मिल सकता।” यह सुनकर वह ब्राह्मण दौड़कर गया और एक पलमें ही उस जिनालयमें पहुँच गया। उसने वहाँ चारित्रसूर्य यतिकी वन्दना की। उनकी विनय करनेके बाद वह अपनी निन्दा करने लगा। फिर उस ब्राह्मणने उनसे पूछा, “सम्यक्त्वके बिना, दानके लिए धर्म-परिवर्तन करनेका क्या फल है। हे देव, मुझे यह बताइए” ॥ १-६ ॥

[ ९ ] यह सुनकर मुनिवर बोले, “क्या तुम लोकमें धर्मोंके नाना फल नहीं देखते। धर्मसे भटसमूह, हय, गज और रथ मिलते हैं। पापसे मरण, वियोग और आक्रन्दन मिलता है। धर्मसे स्वर्ग-भोग और सौभाग्य होता है। पापसे रोग, शोक और अभाग्य। धर्मसे ऋद्धि-सिद्धि-वृद्धि श्री और सम्पदा मिलती है। पापसे मनुष्य धनहीन और दयाविहीन होता है। धर्मसे कटक, मुकुट और मणिसूत्र मिलते हैं और पापसे मनुष्य दरिद्रताका भोग करता है। धर्मसे जीव निश्चय ही राज्य करता है और पापसे दूसरोंकी सेवा करता है। धर्मसे वह उत्तम पलंगपर शयन करता है और पापसे तिनकोंकी सेजपर सोता है। धर्मसे नर देवत्व पाता है, और घोर पापसे नरकमें जाता है। धर्मसे

मण्ड धरेवि करेण करगएँ । गम्पि धित्तु वलएवहोँ अगएँ ॥८॥  
 दुक्खु दुक्खु अप्पाणउ धीरँवि । सयलु महम्मउ मगँ अवहेरँवि ॥९॥  
 दुइम - दाणविन्द - वल-मइहोँ । पुणु आसीस दिण्ण वलहइहोँ ॥१०॥

घत्ता

‘जेम समुद्दु महाजल्लेण जेम जिणेसरु सुक्किय-कम्मं ।  
 चन्द-कुन्द-जस-णिम्मल्लेण तिह तुहुँ वद्धु णराहिव धम्मं’ ॥११॥

[ १२ ]

ता एत्थन्तरेँ पर-वल-मइणु । कहकह-सइँ हसिउ जणइणु ॥१॥  
 भवणँ पइइ तुहारएँ जइयहुँ । पइँ अवगणँवि घल्लिय तइयहुँ ॥२॥  
 एत्थु कालँ पुणु दियवरु काँसा । विणउ करँवि पुणु दिण्ण असीसा ॥३॥  
 तं णिसुणेवि भणइ वेयायरु । अत्थहोँ को ण वि करइ महायरु ॥४॥  
 जिह आणन्दु जणइ सीयालएँ । एत्थु ण हरिसु विसाउ करेवउ ॥५॥  
 काल-बसेण कालु वि सहेवउ । एत्थु ण हरिसु विसाउ करेवउ ॥६॥  
 अत्थु विलासिणि-जण-मण-वल्लहु । अत्थ-विहूणउ वुच्चइ घल्लहु ॥७॥  
 अत्थु वियइहु अत्थु गुणवन्तउ । अत्थ-विहूणु भमइ मगन्तउ ॥८॥  
 अत्थु अणङ्गु अत्थु जगँ सूहउ । अत्थ-विहूणु दीणु णरु दूहउ ॥९॥  
 अत्थु सइच्छिउ भुञ्जइ रज्जु । अत्थ विहूणँ किं पि ण कज्जु’ ॥१०॥

घत्ता

‘साहु’ भणन्तेँ राहवेँण इन्दणील-मणि-कञ्चण-खण्डेँहिँ ।  
 कडय-मउड-कडिसुत्तयहिँ पुज्जिउ कविलु स इं भु व-दण्डेँहिँ ॥११॥



अपने हाथसे उसकी अंगुली पकड़कर लक्ष्मणने उसे लाकर रामके सम्मुख डाल दिया। जैसे तैसे अपने आपको धीरज बँधा, और मनसे समस्त भयको दूर कर उस कपिल द्विजवरने दुर्दम दान-वेन्द्रोंके संहारक रामको आशीर्वाद दिया—“जिस प्रकार समुद्र महाजलसे बढ़ते हैं, जिनेश्वर पुण्य कर्मसे बढ़ते हैं, उसी प्रकार आपका भी यश चन्द्र और कुन्द पुष्पके समान बढ़ता रहे” ॥१-११॥

[ १२ ] तब पर-बलसंहारक लक्ष्मण कहकहा लगाकर हँस पड़ा। और बोला,—“जब हम तुम्हारे घरमें घुसे थे तब तो तुमने अवहेलनाके साथ निकाल दिया। और अब आप, कैसे द्विजवर हैं जो इस तरह विनय पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं ?” यह सुनकर उस ब्राह्मणने कहा, “अर्थका महान् आदर कौन नहीं करता। सूर्य जिस प्रकार शीतकालमें आनन्द देता है, उसी प्रकार क्या उष्णकालमें अच्छा नहीं लगता। समयके अधीन होकर हमें ( जीवन में ) सब कुछ सहन करना पड़ता है। अतः इसमें हर्ष विषाद की क्या बात है। विलासिनी स्त्रियोंको अर्थ बहुत ही प्रिय लगता है। अर्थहीन नरको वे छोड़ देती हैं। ( संसार में ) अर्थ ही विदग्ध है और अर्थ ही गुणवान् है। अर्थ विहीन भीख माँगता हुआ फिरता है। अर्थ ही कामदेव है, अर्थ ही जगमें शुभ है, अर्थहीन नर दीन और दुर्भग है। अर्थसे ही इच्छित राजभोग मिलता है। अर्थहीनसे कुछ काम-काज नहीं होता।” तब रामने साधु-साधु कहकर उस ब्राह्मण देवता को, इन्द्रनील मणियों और सुवर्णसे बने कटक मुकुट और कटिसूत्र देकर अपने हाथसे स्वयं उसका खूब आदर-सत्कार किया ॥१-११॥



## [ २६. एगुणतीसमो संधि ]

सुरडामर-रिउ-डमरकर कोवण्ड-धर सहुँ सीयएँ चलिय महाइय ।  
वल-णारायण वे वि जण परितुट्ट-मण जीवन्त-णयरु संपाइय ॥

[ १ ]

पट्टण तिहि मि तेहिँ आवज्जिउ । दिणयर-विम्बु व दोस-विवज्जिउ ॥१॥

णवर होइ जइ कम्पु धएसु । हउ तुरएसु जुञ्जु सुरएसु ॥२॥

घाउ मुरखेसु भङ्गु चिहुरेसु ॥३॥

जड रुहेसु मलिणु चन्देसु ॥४॥

खलु खेत्तेसु दण्डु छत्तेसु ॥५॥

(वहु-)कर गहणेसु पहरु दिवसेसु ॥६॥

धणु दाणेसु चिन्तु ऋणेसु ॥७॥

सुर सग्गेसु सीहु रण्णेसु ॥८॥

कलहु गण्णसु अङ्गु कव्वेसु ॥९॥

डरु वसहेसु वेलु गयणेसु ॥१०॥

वणु रुक्खेसु ऋणु मुक्खेसु ॥११॥

अहवइ कित्तिउ णिव वणिज्जइ । जइ पर तं जि तासु उवमिज्जइ ॥१२॥

घत्ता

तहोँ णयरहोँ अवरुत्तरेण कोसन्तरेण उववणु णामेण पसत्थउ ।

णाइँ कुमारहोँ एन्ताहोँ पइसन्ताहोँ थिउ णव-कुसुमज्जलि-हत्थउ ॥१३॥

[ २ ]

तहिँ उववणे थिय हरि-वल जावेहिँ । भरहेँ लेहु विसज्जिउ तावेहिँ ॥१॥

अग्गएँ धित्तु णरेण णरिन्दहोँ । भविउ वचलणेँ हिँ पडिउ जिणिन्दहोँ ॥२॥

लइउ महीहरेण सइँ हत्थेँ । जिणवर-धम्मु व मुणिवर-सत्थेँ ॥३॥

वारि-णिवन्धहोँ मुक्कु गइन्दु व । दिट्ठ अङ्गु तहिँ णहयलेँ चन्दु व ॥४॥

## उनतीसवीं सन्धि

देवों के लिए भयंकर शत्रुओंके संहारक और धनुर्धारी राम और लक्ष्मण घूमते हुए जीवंत नगर पहुँचे ।

[ १ ] उन तीनोंने उस नगरको सूर्यबिम्ब की तरह दोष ( अवगुण और रात ) से रहित देखा । उस नगरमें कम्पन केवल पताकाओं में था, हत ( घाव ) अश्वोंमें, द्वन्द्व सुरति में, आघात मृदंगमें, भंग केशोंमें, जड़ता रुद्रमें, मलिनता चन्द्रमें, खल खेतोंमें, दण्ड छत्रोंमें, बहुल कर ग्रहण करनेका अवसर ( कर = टैक्स और दान ) प्रहर दिनमें, धन दानमें, चिन्ता ध्यानमें, सुर ( स्वर और शराब ) संगीतमें, सिंह अरण्यमें, कलह गजोंमें, अंक काव्योंमें, भय बैलोंमें, बेल ( बातूल और मूर्ख ) आकाशमें, वन ( व्रण, वेत ) जंगल में, और ध्यान मुक्त नरोंमें था । इनके लिए दूसरी जगह नहीं थीं । ( गौतम गणधरने कहा ) अथवा हे राजन् ( श्रेणिक ) उस नगर का वर्णन करना सम्भव नहीं, उस नगरकी उपमा केवल उसी नगरसे दी जा सकती है । उस नगरके उत्तरमें प्रशस्त नामक एक उपवन था, वह ऐसा लगता था मानो आते और प्रवेश करते हुए कुमारोंके स्वागतमें हाथमें अंजलि लेकर खड़ा हो ॥१-१२॥

[ २ ] जब राम और लक्ष्मण उस उपवन में ठहरे, तभी उस नगरके राजाके पास भरतका लेखपत्र पहुँचा । पत्रवाहकने वह पत्र राजाके सम्मुख वैसे ही डाल दिया जैसे जीव जिनेन्द्रके चरणोंके आगे पड़ जाते हैं और जैसे मुनिवर जिनधर्मको ग्रहण करते हैं वैसे ही राजाने उस पत्रको अपने हाथ में ले लिया । वह पत्र उसे ऐसा दीख पड़ा मानो वारी बन्धनसे मुक्त हाथी ही हो । उसके अक्षर आकाशमें उगे चन्द्रमा की तरह जान पड़ रहे थे । उस

‘रज्जु मुएवि वे वि रिउ-महण । गय वण-वासहों राम-जणइण ॥५॥  
 को जाणइ हरि कइउ आवइ । तहों वणमाल देज जसु भावइ’ ॥६॥  
 लेहु धिवेप्पिणु णरवइ महिहरु । णाईँ दवेण दड्ढु थिउ महिहरु ॥७॥  
 णाईँ मियङ्को कमिउ विडप्पें । तिह महिहरु णरिन्दु माहप्पें ॥८॥

### घत्ता

जाय चिन्त मणँ दुद्धरहों धरणीधरहों सिहि-गल-तमाल-घण-वण्णहों ।  
 ‘लक्खणु लक्खण-लक्ख-धरु तं मुएँ विवरु मइँ दिण्ण कण्ण किं अण्णहों’ ॥९॥

[ ३ ]

तो एत्थन्तरेँ णयण-विसालएँ । एह वत्त जं सुय वणमालएँ ॥१॥  
 आउलिहुय हियणुण विसूरइ । दुक्खं महणइ व्व आऊरइ ॥२॥  
 सिरें पासेउ चडइ मुहु सूसइ । कर विहुणइ पुणु दइवहों रूसइ ॥३॥  
 मणु धुगुधुगइ देहु परितप्पइ । वम्महो णं करवत्तेँ कप्पइ ॥४॥  
 ताव णहङ्गणेण घणु गज्जिउ । णाईँ कुमारें दूउ विसज्जिउ ॥५॥  
 घोरी होहि माएँ णं भासिउ । ‘उहु लक्खणु उववणँ आवासिउ’ ॥६॥  
 गरहिउ मेहु तो वि तणु-अङ्गिणँ । दांस वि गुण हवन्ति संसग्गिणँ ॥७॥  
 ‘तुहुँ किर जण-मण णयणाणन्दणु । महु पुणु जलहर णाईँ हुआसणु ॥८॥

### घत्ता

तुज्झु ण दोसु दोसु कुलहों हय-दुह-कुलहों जलें जलणें पवणें जं जायउ ।  
 तं पासेउ दाहु करहु णासासु महु तिण्णि वि दक्खवणहों आयउ ॥९॥

पत्रमें यह लिखा था, “राज्य छोड़कर शत्रुसंहारक राम और लक्ष्मण दोनों वनवासके लिए गये हैं। क्या पता वे कब तक लौटें ? इसलिए जिसको ठीक समझो उसको वनमाला दे दो।” लेख पढ़कर राजा सन्न रह गया। वह वैसे ही गौरवहीन हो उठा जैसे दावानलसे भस्मीभूत पहाड़ या राहु से ग्रस्त चन्द्रमा गौरव रहित हो जाता है। मयूरकण्ठके समान श्याम वर्ण उस राजाको अब यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि मैं, अपनी कन्या वनमाला, अनेक लक्ष्मणोंसे युक्त लक्ष्मणको छोड़कर, और किसे दूँ ॥१-६॥

[ ३ ] इतनेमें यह बात विशालनयना, वनमालाके कानों तक पहुँची। यह सुनते ही वह आकुल होकर मन ही मन विसूरने लगी। महानदीकी तरह वह दुखसे भर उठी। सिरमें पसीना हो आया। मुख सूख गया। हाथ मलती हुई वह अपने भाग्यको कोसने लगी। मन धुक-धुक कर रहा था। देह जल रही थी। मानो कामदेव ही करपत्रसे उसे काट रहा हो। उसी समय आकाशके आंगनमें मेघ ऐसा गरज उठा, मानो कुमार लक्ष्मणने दूत ही भेजा हो, और जो मानो यह कह रहा था,—“माँ धीरज धरो, वह कुमार लक्ष्मण उपवनमें ठहरा हुआ है।” तब भी उस तन्वंगीने मेघकी निन्दा ही की, ठीक भी है क्योंकि संसर्ग से, गुण भी दोष हो जाते हैं। उसने कहा,—“मेघ, तुम भले ही जनकोंके मन और नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हो, परन्तु मेरे लिए तो दावानलकी तरह हो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तुम्हारे हत और दुखद कुलका है। तुम जल आग और हवासे उत्पन्न जो हुए हो, उसीसे पसीना और जलन उत्पन्न करते हो और निःश्वास देते हो। तुमने मुझे तीनों ही चीजें दिखा दीं” ॥१-६॥



[ ४ ]

दोच्छिउ मेहु पणट्टु णहङ्गणें । पुणु वणमालएँ चिन्तिउ णिय-मणें ॥१॥  
 'किं पइसरमि वलन्तें हुआसणें । किं समुहें किं रणें सु-भीसणें ॥२॥  
 किं विसु भुञ्जमि किं अहि चप्पमि । किं अप्पउ करवत्तें कप्पमि ॥३॥  
 किं करिवर-दन्तहिँ उर भिन्दमि । किं करवाल्लहिँ तिलु तिलु छिन्दमि ॥४॥  
 किं दिस लङ्गमि किं पव्वज्जमि । कहों अक्खमि कहों सरणु पव्वज्जमि ॥५॥  
 अहवइ एण काइँ गमु सज्जमि । तरुवर-डालएँ पाण विसज्जमि' ॥६॥  
 एम भणेप्पिणु चलिय तुरन्ती । कङ्केली-थड उग्घोसन्ती ॥७॥  
 गन्ध-धूव-वलि - पुप्फ - विहत्थी । लीलएँ चिक्कमन्ति वीसत्थी ॥८॥

घत्ता

चउविह-सेणें परियरिय धण णीसरिय 'को विहिँ आलिङ्गणु देसइ' ।  
 एम चवन्ति पइट्टु वणें रवि-अत्थवणें 'कहिँ लक्खणु' णाइँ गवेसइ ॥९॥

[ ५ ]

दिट्टु असोयवच्छु परिअञ्चिउ । जिणवरो व्व सब्भावें अञ्चिउ ॥१॥  
 पुणु परिवायणु कियउ असोयहों । 'अण्णु ण इह-लोयहों पर-लोयहो ॥२॥  
 जम्मों जम्मों मुअ-मुअहें स-लक्खणु । पिय-भत्तारु होज्ज महु लक्खणु' ॥३॥  
 पुणु पुणु एम णमंसइ जावेंहिँ । रयणिहें वे पहरा हुय तावेंहिँ ॥४॥  
 सयलु वि साहणु णिहोणल्लउ । णावइ मोहण-जालें पेल्लिउ ॥५॥  
 णिग्गय पुणु वणमाल तुरन्ती । हार-डोर-णेउरेंहिँ खलन्ती ॥६॥  
 हरि-विरहम्बु-पूरें उव्वन्ती । वुण्ण-कुरङ्गि व चित्तुव्वन्ती ॥७॥

[ ४ ] अपनी भर्त्सना सुनकर मेघ आकाशमें ही नष्ट हो गया । तब फिर वनमाला अपने मनमें सोचने लगी,—“क्या मैं जलती आगमें कूद पड़ूँ या समुद्र या वनमें घुस जाऊँ, क्या विषपान कर लूँ या साँपको चाँप दूँ ? क्या अपनेको करपत्रसे काट लूँ ? क्या हाथीके दाँतसे छाती फाड़ लूँ या करवालसे तिल-तिल छेद दूँ ? क्या दिशा लाँघ जाऊँ या संन्यास ग्रहण कर लूँ ? किससे कहूँ और किसकी शरण जाऊँ ? अथवा इस सबसे क्या काम बनेगा ? तरुवरकी डालसे टंगकर मैं ही अपने प्राण छोड़े देती हूँ ।” मनमें यह सोचकर, और अशोक वनके लिए जानेकी घोषणा करके वह तुरन्त घरसे चल पड़ी । उसके हाथमें गन्ध, दीप, धूप और पूजाके फूल थे । वह चमकती-दमकती, लीला पूर्वक चली जा रही थी । चारों ओर सैनिकोंसे घिरी हुई वह धन्या अपने मनमें यह सोचती हुई, अपने घरसे निकल पड़ी कि देखूँ, दोनों ( अशोक वृक्ष और लक्ष्मण ) मेंसे कौन मुझे आलिंगन देता है । सूर्यास्त होते-होते वह वनमें प्रविष्ट हुई । वह मानो यह खोज रही थी कि लक्ष्मण कहाँ हैं ॥१-६॥

[ ५ ] वनमालाके लिए अशोक वृक्ष ऐसा लगा मानो सद्भावोंसे अंचित जिनेन्द्र ही हों । फिर उसने अशोक वृक्षसे निवेदन करते हुए कहा,—“इस जन्ममें और दूसरे जन्ममें, मेरा दूसरा नहीं है । सुलक्षण लक्ष्मण ही जन्म-जन्मान्तरमें बार-बार मेरा पति हो ।” इस प्रकार आत्म-निवेदन करते हुए उसे रातके दो प्रहर बीत गये । सारे सैनिक नींदके भोकोंमें ऊँघकर ऐसे लोट-पोट होने लगे मानो मोह-जालमें फँस गये हों । तब वनमाला बाहर निकली । हार डोर और नूपुरसे वह खलित हो रही थी । प्रियके विरहाश्रुओंसे भरी हुई वह; विपन्न हरिणीकी भाँति उद्भ्रान्त मन हो रही थी । एक ही पलमें वह वटके पेड़ पर चढ़ गई ।

णिविसद्धेँ णग्गोहँ वलग्गी । रमण-चवल णं गोह-वलग्गी ॥८॥

घत्ता

रेहइ दुमँ वणमाल किह घणँ विज्जु जिह पहवन्ती लक्खण-कङ्खणि ।  
किलिकिलन्ति जोड्ढावणिय भीसावणिय पच्चक्ख णाइँ वड-जक्खणि ॥९॥

[ ६ ]

तहिँ वालएँ कलुणु पकन्दियउ । वण-डिम्भउ णं परिअन्दियउ ॥१॥  
'आयण्णहोँ वयणु वणस्सइहोँ । गङ्गाणइ - जउण - सरस्सइहोँ ॥२॥  
गह-भूय-पिसायहोँ विन्तरहोँ । वण-जक्खहोँ रक्खहोँ खेयरहोँ ॥३॥  
गय-वग्घहोँ सिद्धहोँ सम्बरहो । रयणायर - गिरिवर - जलयरहोँ ॥४॥  
गण-गन्धव्वहोँ विज्जाहरहोँ । सुर - सिद्ध - महोरग-किण्णरहोँ ॥५॥  
जम - खन्द - कुवेर - पुरन्दरहोँ । बुह - भेसइ - सुक्क - सणिच्छरहोँ ॥६॥  
हरिणङ्कहोँ अक्कहोँ जोइसहोँ । वेयाल - दइच्चहोँ रक्खसहोँ ॥७॥  
वइसाणर - वरुण - पहञ्जणहोँ । तहोँ एम कहिज्जहोँ लक्खणहोँ ॥८॥

घत्ता

वुच्चइ धीय महीहरहोँ दीहर-करहोँ वणमाल-णाम भय-वज्जिय ।  
लक्खण-पइ सुमरन्तियएँ कन्दन्तियएँ वड-पायवँ पाण विसज्जिय' ॥९॥

[ ७ ]

एम भणेप्पिणु णयण-विसालएँ । अंसुअ-पासउ किउ वणमालएँ ॥१॥  
सो ज्जेँ णाइँ सइँ मम्भीसावइ । णाइँ विवाह-लील दरिसावइ ॥२॥  
णं दियवरु दाणहोँ हक्कारिउ । णाइँ कुमारें हत्थु पसारिउ ॥३॥  
गल्लेँ लाएँवि हल्लावइ जावँहिँ । कण्ठेँ धरियालिङ्गेँवि तावँहिँ ॥४॥  
- एम पजग्गिउ मम्भीसन्तउ । 'हउँ सो लक्खणु लक्खणवन्तउ ॥५॥  
दसरह-तणउ सुमित्तिएँ जायउ । रामें सहुँ वणवासहोँ आयउ' ॥६॥  
तं णिसुणें वि विम्भाविय णिय-मणें । 'कहिँ लक्खणु कहिँ अच्छिउ उववणें' ॥७॥  
ताम हलाउहु कोक्कइ लगउ । 'भो भो लक्खण आउ कहिँ गउ' ॥८॥

वैसे ही जैसे कोई चपल रमणी, अपने जारके निकट लग जाती है ? लक्ष्मणको चाहने वाली क्रांतिमती वह वटके पेड़पर ऐसी मालूम हो रही थी मानो घनमें बिजली चमक रही हो या, वनमें किलकती, कौतुक करती हुई सक्षात् भयंकर यत्तिणो हो ॥१-६॥

[ ६ ] ( आत्मघातके पूर्व ) उसने अपना विलाप ऐसे शुरू किया, मानो वनगज-शिशु ही चीख उठा हो । उसने कहा, “वन-स्पति, गंगा नदी, जमुना, सरस्वती, ग्रह, भूत, पिशाच, व्यंतर, वनयज्ञ, राक्षस, खेचर, गज, बाघ, सिंह, संबर, रत्नाकर, गिरिवर, जलधर, गण, गंधर्व, विद्याधर, सुर, सिद्ध, महोरग, किन्नर, कार्तिकेय, कुबेर, पुरन्दर, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, चन्द्र, सूर्य, ज्योतिष, वैताल, दैत्य, राक्षस, अग्नि, वरुण और प्रभंजन ! मेरे वचनोंको सुनो, तुम्हें यदि कहीं लक्ष्मण मिलें तो यह कह देना कि विशालबाहु राजा महीधरकी वनमाला नामकी लड़की, निडर हो, अपने पति लक्ष्मणके ध्यानमें रोती कल्पती, हुई, गिरकर मर गई” ॥१-६॥

[ ७ ] यह कह कर विशालनयना वनमालाने कपड़ेका फन्दा बना लिया, स्वयं नहीं डरती हुई, वह मानो विवाह-लीलाका प्रदर्शन कर रही थी । मानो द्विजवरने कन्यादानके लिए उसे पुकारा हो और कुमार ( वर ) ने हाथ फैला दिया हो । वह, गलेमें फन्दा लगा ही रही थी कि इतनेमें कुमार लक्ष्मणने गलेसे पकड़कर उसका आलिंगन कर लिया और यह कहा, “डरो मत ! मैं ही वह सुलक्षण लक्ष्मण हूँ ! दशरथका सुमित्रासे उत्पन्न पुत्र मैं, रामके साथ वनवासके लिए आया हूँ ।” यह सुनकर आश्चर्यचकित हो वनमाला अपने मनमें सोचने लगी, “अरे लक्ष्मण कहाँ, वह तो उपवनमें है ।” इतनेमें, रामने पुकारा,—“ओ लक्ष्मण, इधर आओ,

## घत्ता

तं णिसुणेंवि महिहर-सुअणं पुलइय-भुअणं णडु जिह णच्चाविउ णिय-मणु ।  
‘सहल मणोरह अज्जु महु परिहूउ सुहु(?) भत्तारु लद्धु जं लक्खणु’ ॥६॥

[ ८ ]

तो एत्थन्तरें भुवणाणन्दें । दिट्ठु जणदणु राहवचन्दें ॥१॥  
णावइ तमु दीवय-सिह-सहियउ । णावइ जलहरु विज्जु-पगहियउ ॥२॥  
णावइ करि करिणिहें आसत्तउ । चललेंहिं पडिउ वलहोंस-कलत्तउ ॥३॥  
‘चारु चारु भो णयणाणन्दण । कहिं पइँ कण्ण लद्ध रिउमदण’ ॥४॥  
वुत्तु कुमारें ‘विज्ज व सगुणिय । धरणीधरहों धीय किं ण मुणिय ॥५॥  
जा महु पुव्वयण्ण-उवदिट्ठी । सा वणमाल एह वणें दिट्ठी’ ॥६॥  
हरि अप्फालइ जाव कहाणउ । ताम रत्ति गय विमलु विहाणउ ॥७॥  
सुहड विउद्ध कुद्ध जस-लुद्धा । ‘केण वि लइय कण्ण’ सण्णद्धा ॥८॥

## घत्ता

ताव णिहालिय दुज्जणं हिं पुणु रह-गएँ हिं चाउदिसु चवल-तुरङ्गहिं ।  
वेढिय रणउहें वे वि जण वल-महुमहण पञ्जाणण जेम कुरङ्गहिं ॥६॥

[ ९ ]

अडिभट्ठु सेणु कलयलु करन्तु । ‘जिह लइय कण्ण तिह हणु’ भणन्तु ॥१॥  
तं वयणु सुणेप्पिणु हरि पलित्तु । उद्धाइउ सिहि णं घिणं सित्तु ॥२॥  
एक्कल्लउ लक्खणु वलु अणन्तु । आलगु तो वि तिण-समु गणन्तु ॥३॥  
परिसक्कइ थक्कइ चलइ वलइ । तरुवर उम्मूलेंवि सेणु दलइ ॥४॥

कहाँ चले गये ?” । यह सुनकर महीधर राजाकी पुत्री, पुलकित बाहु वनमालाने नटकी तरह अपना मन नचाते हुए कहा,—“आज मेरे सभी मनोरथ सफल हो गये, कि जो मुझे लक्ष्मण जैसा पति मिल गया ॥१-६॥

[ ८ ] तदनन्तर, भुवनानंददायक राघवचन्द्रने लक्ष्मणको वनमालाके साथ आते हुए देखा । वह ऐसा लग रहा था मानो दीपशिखा तमके साथ हो, या विजली मेघके, या हथिनीमें आसक्त गजराज हो । अपनी पत्नी वनमालासहित वह रामके चरणोंमें गिर पड़ा । रामने तब उससे पूछा, अरे प्रिय लक्ष्मण,...सुन्दर-सुन्दर यह कन्यारत्न तुमने कहाँ प्राप्त किया ।” ( यह सुनकर ) कुमारने उत्तर दिया—“क्या आप महीधर राजाकी गुणवती पुत्री विद्याधरी वनमालाको नहीं जानते” । वह मुझे पहले ही निर्दिष्ट कर दी गई थी । वही मुझे ( अचानक ) इस वनमें दीख गई ।” इस प्रकार कुमार लक्ष्मणके पूरी कहानी बताते-बताते ही ( पहले ही ) रात्रि समाप्त हो गई और निर्मल प्रभात हो गया । उधर ( उपवनमें ) कन्याको न पाकर, यशोलुप रक्षक सैनिक विरुद्ध हो उठे । वे कहने लगे “कन्याका हरण किसने किया ।” तब रणमें दुर्जेय सैनिकोंने चपल अश्व, रथ और गजोंसे युद्ध क्षेत्रमें दोनों ( राम लक्ष्मण ) को इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार हरिण सिंहको घेर लें ॥१-६॥

[ ९ ] कलकल करती हुई सेना उठी, और यह चिल्लाने लगी, “जिसने कन्या ली हो उसे मारो” यह सुनकर लक्ष्मण प्रदीप्त हो उठा । मानो धी पड़नेसे आग ही भड़क उठी हो । सेना असंख्य थी और लक्ष्मण अकेला । तब भी उसे तिनकेके समान समझकर वह भिड़ गया । वह ठहरता, चलता, मुड़ता, पेड़ उखाड़

उव्वडइ भिडइ पाडइ तुरङ्ग । महि कमइ भमइ भामइ रहङ्ग ॥५॥  
 भवगाहइ साहइ धरइ जोह । दलवट्टइ लोट्टइ गयवरोह ॥६॥  
 विणिवाइय घाइय सुहड-थट्ट । कडुआविय विवरासुह पयट्ट ॥७॥  
 णासन्ति के वि जे समरें चुक्क । कायर-णर-कर-पहरणइँ मुक्क ॥८॥

घत्ता

गम्पिणु कहिउ महीहरहों 'एक्कहों णरहों आवट्टु सेणु भुव-दण्डएँ ।  
 जिम णासहि जिम भिडु समरें विहिँ एक्कु करें वणमाल लइय वलिमण्डएँ' ॥९॥

[ १० ]

तं वयणु सुणेप्पिणु थरहरन्तु । धरणीधरु धाइउ विप्फुरन्तु ॥१॥  
 आरूढु महारहें दिणु सङ्खु । सण्णद्धु कुद्धु जय-लच्छि-कङ्खु ॥२॥  
 तो दुज्जय दुद्धर दुण्णिवार । 'हणु हणु' भणन्त णिग्गय कुमार ॥३॥  
 वणमाल - कुसुम - कल्लाणमाल । जयमाल - सुमाल - सुवण्णमाल ॥४॥  
 गोपाल-पाल इय अट्ट भाइ । सहुँ राएँ णव गह कुइय णाइँ ॥५॥  
 एत्थन्तरें रणें वहु-मच्छरेण । हक्कारिउ लक्खणु महिहरेण ॥६॥  
 'वलु वलु समरङ्गणें देहि जुज्झु । णिय-णामु गोत्तु कहें कवणु तुज्झु' ॥७॥  
 तं णिसुणें वि वोल्लिउ लच्छि-गेहु । 'कुल-णामहों अवसरु कवणु एहु ॥८॥

घत्ता

पहरु पहरु जं पइँ गुणितु किण्ण वि मुणितु जसु भाइ महन्तउ रामु ।  
 रहुकुल-णन्दणु लच्छि-हरु तउ जीवहरु णरवइ महु लक्खणु णामु' ॥९॥

[ ११ ]

कुलु णामु कहिउ जं सिरिहरेण । धणु घत्तवि महिहें महीहरेण ॥१॥

कर शत्रुओंका दलन करता, उल्ललता, भिड़ता, घोड़ोंको गिराता, धरतीको चाँपता, चक्रको घुमाता, अवगाहन करता, सहता, योधाओंको पकड़ता, गजसमूहको दलकर लोट पोट करता हुआ (दीख पड़ा)। आघातसे उसने सुभट-समूहको गिरा दिया। पीड़ित होकर वे पराङ्मुख हो गये। कितने ही मारे गये, और कितने ही कायर योधा चूककर, उसके खर-प्रहारसे बच गये। तब किसीने राजा महीधरसे जाकर कहा,—“एक नरने अपने भुजदण्डसे समूची सेनाको रोक लिया है, जिस तरह हो युद्धमें भिड़कर उसे नष्ट कीजिये। भाग्यसे वह एक हाथमें बलपूर्वक वनमालाको लिये है” ॥ १-६ ॥

[ १० ] यह सुनकर राजा महीधर क्रोधसे थर्रा उठा। वह तमतमाता हुआ दौड़ा। महारथ पर आरूढ़ होकर उसने शंख बजवा दिया, इस प्रकार क्रुद्ध और विजय-लक्ष्मीका आकांक्षी वह संनद्ध हो गया। तब उसके दुर्जेय दुर्बार कुमार भी “मारो-मारो” कहते हुए निकल पड़े। इस तरह, वनमाल कुसुम कल्याणमाल जयमाल सुकुमाल सुवर्णमाल गोपाल और पाल ये आठ भाई तथा राजा, कुल मिलाकर नौ ही लोग क्रुद्ध हो उठे। ईर्ष्यासे भरकर महीधरने लक्ष्मणको ललकारते हुए कहा,—“मुड़ो मुड़ो, युद्धमें लड़ो, बताओ तुम्हारा नाम गोत्र क्या है।” इसपर लक्ष्मणने उत्तर दिया, “कुल नाम पूछनेका यह कौन अवसर है। प्रहार करो जो तुमने सोचा है। कुछ भी समझ सकते हैं मुझे। जिसका राम सा महान् भाई है। मैं रघुकुलका पुत्र लक्ष्मीका धारक और तुम्हारा अन्त करनेवाला हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है” ॥ १-६ ॥

[ ११ ] लक्ष्मणके अपने कुल गोत्रका नाम बताते ही महीधरने धनुष-बाण फेंककर स्नेहोचित अपने विशाल बाहुओंमें (गजशुण्डकी



सुरकरि-कर-सम - भुअ - पञ्चरेण । अवरुण्डिउ णेह-महाभरेण ॥२॥  
 हवि सक्खिक्खेवि अपरायणासु । सइँ दिण्ण कण्ण णारायणासु ॥३॥  
 आरूढु महीहरु एक्क-रहँ । अट्टु वि कुमार अण्णेक्क-रहँ ॥४॥  
 वणमाल स-लक्खण एक्करहँ । थिय स-वल सीय अण्णेक्क-रहँ ॥५॥  
 पड्डु - पडह - सङ्ग - वद्धावणेहिँ । णच्चन्तेहिँ खुज्जय-वामणेहिँ ॥६॥  
 उच्छाहँ हिँ धवल्लेहिँ मङ्गलेहिँ । कंसालेहिँ तालेहिँ महल्लेहिँ ॥७॥  
 आणन्दे णयरँ पइटाइँ । लीलएँ अत्थाणेँ वइटाइँ ॥८॥

### घत्ता

सहुँ वणमालएँ महुमहणु परितुट्ट-मणु जं वेइहँ जन्तु पर्दासिउ ।  
 लोएँहिँ मङ्गलु गन्तएँहिँ णच्चन्तएँहिँ जिणु जम्मणेँ जिह स इँ भू सिउ ॥९॥



## [ ३०. तीसमो संधि ]

तहिँ अवसरँ आणन्द-भरँ उच्छाह-करँ जयकारहँ कारणेँ णिक्किउ ।  
 भरहहँ उप्परि उच्चलिउ रहमुच्छलिउ णरु णन्दावत्त-णराहिउ ॥

[ १ ]

जो भरहहँ दूउ विसज्जियउ । आइउ सन्माण-विवज्जयउ ॥१॥  
 लहु णन्दावत्त-णराहिवहँ । वज्जरिउ अणन्तवीर-णिवहँ ॥२॥  
 'हउँ पेक्खु केम विच्छारियउ । सिरु मुण्डेँ वि कह वि ण मारियउ ॥३॥  
 सो भरहु ण इच्छइ सन्धि रणेँ । जं जाणहँ तं चिन्तवहँ मणेँ ॥४॥  
 अण्णु वि उक्खन्धेँ आइयउ । सहुँ सेण्णेँ विञ्जु पराइयउ ॥५॥  
 तहिँ णरवइ वालिखिल्लु वलिउ । सीहोयरु वज्जयण्णु मिलिउ ॥६॥

तरह प्रचण्ड ) ( भरकर ) उसे गलेसे लगा लिया । उसने अग्निकी साक्षी ( मानकर ) अपनी कन्या वनमाला अपराजितकुमार लक्ष्मणको अर्पित कर दी । बादमें राजा महीधर एक रथपर बैठ गया । वनमाला और लक्ष्मण एक रथ पर और सीता और राम दूसरे पर । चलकर जब उन्होंने नगरमें प्रवेश किया तो पट-पटह शंख तथा तरह-तरहके वाद्य बज उठे । कुब्ज ब्राह्मण नाच रहे थे । कंसाल ताल और मर्दल की उत्साह और मंगलपूर्ण ध्वनि हो रही थी । वे लोग लीला पूर्वक दरबारमें जा बैठे ॥१-८॥

वनमालाके साथ वेदीपर जाता हुआ संतुष्ट मन लक्ष्मण ऐसा मालूम हो रहा था मानो जन्मके अवसर पर, लोगोंने गाते, बजाते हुए, जिनको विभूषित कर दिया हो ॥६॥



### तीसवीं संधि

आनन्द और उत्साहसे परिपूर्ण इसी अवसरपर, निर्दय नन्दावर्तके राजा अनन्तवीर्यने, हर्षसे भरकर जय पानेके लिए राजा भरतके ऊपर चढ़ाई कर दी ।

[ १ ] उसने भरतके पास जो अपना दूत भेजा था वह अपमानित होकर वापस आ गया । शीघ्र उसने नन्दावर्तके राजा अनन्तवीर्यसे कहा—“देखिये मेरी कैसी दुर्गति की, मेरा सिर मुड़वा दिया, किसी तरह मारा भर नहीं है, वह भरत राजा युद्धमें सन्धि नहीं चाहता, अब जो जानो वह मनमें सोच लो, एक और आपका बैरी आया है वह सेनाके साथ विंध्याचल तक पहुँच गया है । वहाँ नरपति बालिखिल्य सिंहोदर

तहिँ रुदुभुत्ति सिरिवच्छु-धरु । मरुभुत्ति सुभुत्ति विभुत्ति-करु ॥७॥  
 अवरेहि मि समउ समावडिउ । पेक्खेसहि कल्लएँ अबिभडिउ' ॥८॥

### घत्ता

ताम अणन्तवीरु खुहिउ पइजारुहिउ 'जइ कल्लएँ भरहु ण मारमि ।  
 तो अरहन्त-भडाराहँ सुर-साराहँ णउ चलण-जुवलु जयकारमि' ॥९॥

### [ २ ]

पइजारूदु णराहिउ जावँहिँ । साहणु मिलिउ असेसु वि तावँहिँ ॥१॥  
 लेहु लिहेप्पिणु जग-विक्खायहँ । तुरिउ विसज्जिउ महिहर-रायहँ ॥२॥  
 अग्गएँ घित्तु वद्धु लम्पिक्कु व । हरिणक्खरहिँ लीणु णण्डिक्कु व ॥३॥  
 सुन्दरु पत्तवन्तु वर-साहु व । णाव-वहुलु सरि-गङ्ग-पवाहु व ॥४॥  
 दिट्ठ राय तहिँ आय अणन्त वि । सल्ल-विसल्ल - सीहविकन्त वि ॥५॥  
 दुज्जय-अजय-विजय - जय-जयमुह । णरसद्दूल - विउल-गय - गयमुह ॥६॥  
 रुदुवच्छ - महिवच्छ - महद्धय । चन्दण - चन्दोयर - गरुडद्धय ॥७॥  
 केसरि - मारिचण्डु - जमघण्टा । कोङ्कण - मलय - पण्डियाण्टा ॥८॥  
 गुज्जर - गङ्ग - वङ्ग - मङ्गाला । पइविय - पारियत्त - पञ्चाला ॥९॥  
 सिन्धव - कामरूव - गम्भीरा । तज्जिय - पारसीय - परतीरा ॥१०॥  
 मरु-कण्णाड - लाड - जालन्धर । टक्काहीर - कीर - खस - वव्वर ॥११॥  
 अवर वि जे एक्केक-पहाणा । केण गणेप्पिणु सक्किय राणा ॥१२॥

और वज्रकर्ण भी मिल गये हैं। रुद्रभूति श्रीवत्सधर भरुभूति सुभुक्ति विभुक्तिकर आदि दूसरे राजा भी आकर उससे मिल गये हैं। अब समय आ गया है, देखिएगा ही युद्ध होगा।” यह सुनकर अनन्तवीर्य एकदम लुब्ध हो गया, और उसने प्रतिज्ञा की “यदि मैं कल तक भरतका हनन न करूँ तो सुरश्रेष्ठ भट्टारक अरहंतके चरण-कमलकी जय न बोलूँ” ॥१-६॥

[ २ ] इस प्रकार अनन्तवीर्य जब प्रतिज्ञा कर रहा था तभी अशेष सेना उससे आ मिली। तब उसने तुरन्त ही एक लेखपत्र लिखवाकर विश्वविख्यात राजा महीधरके पास भी भेजा। वाहकने वह पत्र लाकर महीधरके सम्मुख डाल दिया। वह लेखपत्र चोर की तरह बँधा हुआ, ब्याधकी तरह वाडिक्क (चितकबरे मृगचर्म और चितकबरे अक्षरों) से सहित, उत्तम साधुके समान सुन्दर पत्र वाला (पात्रता और पत्ता), गंगाके प्रवाह की भाँति ( नाम और नावोंसे सहित ) नावालङ्ग था। उस लेखपत्रको पढ़ते ही, बहुतसे राजा अनन्तवीर्यके यहाँ पहुँचने लगे। शल्य, विशल्य, सिंहविक्रान्त, दुर्जय, अज, विजय, नरशार्दूल, विपुलगज, गजमुख, रुद्रवत्स, महिवत्स, महाध्वज, चन्दन, चन्द्रोदर, गरुडध्वज, केशरी, मारिचण्ड, यमघण्ट, कोंकण, मलय, आनर्त, गुर्जर, गंग, बंग, मंगाल, पइवई ? पारियात्र, पांचाल, सैधव, कामरूप, गंभीर, तर्जित, पारसीक, परतीर, मरु, कर्णाटक, लाट, जालंधर, टक्क, आभीर, कीरखस, बर्बर, आदि ( के ) राजा, उनमेंसे प्रमुख थे। और भी जो दूसरे एकाकी प्रमुख राजा थे उन्हें कौन गिना सकता है। तब श्यामवर्ण राजा महीधर सहसा उन्मन हो उठा। मानो उसके सिरपर वज्र गिर पड़ा हो। उसके सिरपर यह चिन्ता सवार

## घत्ता

ताम णराहिउ कसण-तणु थिउ विमण-मणु णं पडिउ सिरत्थलें वज्जु ।  
 'किह सामिय-सम्माण-भरु विसहिउ दुद्धरु किह भरहहों पहरिउ अज्जु' ॥१३॥

[ ३ ]

जं णरवइ मणें चिन्तावियउ । हलहरु एकन्त-पक्खें थियउ ॥१॥  
 अट्टु वि कुमार कोक्किय खणेंण । वइदेहि आय सहुँ लक्खणेंण ॥२॥  
 मेल्लेप्पिणु मन्तिउ मन्तणउ । वलु भणइ 'म दरिसहों अप्पणउ ॥३॥  
 रह-तुरय-महागय परिहरें वि । तिय-चारण-गायण-वेसु करें वि ॥४॥  
 तं रिउ-अत्थाणु पईसरहों । णच्चन्त अणन्तवीरु धरहों' ॥५॥  
 तं वयणु मुणेंवि परितुट्ट-मण । थिय कामिणि-वेस कियाहिरण ॥६॥  
 वलएवें जोइउ पिय-वयणु । किं होइ ण होइ वेस-गहणु ॥७॥  
 'लइ सुन्दरि ताव तिट्ट णयरें । अम्हेंहिं पुणु जुज्जेवउ समरें' ॥८॥

## घत्ता

लग्ग कडच्छएँ जणय-सुय कण्टइय-भुय 'लहु णरवर-णाह ण एसहि ।  
 मइँ मेल्लें वि भासुरएँ रण-सासुरएँ मा कित्ति-वहुअ परिणैसहि' ॥९॥

[ ४ ]

खेड्डु करें वि संचल्ल महाइय । णिविसें णन्दावत्तु पराइय ॥१॥  
 दिट्ठु जिणालउ खणें परिअञ्चें वि । अग्गएँ गाएँ वि वाएँ वि णञ्चें वि ॥२॥  
 सीय ठवें वि पइट्ट पुर-सरवरें । रहवर - तुरय-महागय - जलयरें ॥३॥  
 देउल - वहल - धवल-कमलायरें । णन्दणवण - घण-तीर - लयाहरें ॥४॥  
 चारु-विलासिणि-णलिणि-करम्बिणएँ । छप्पणय-छप्पय - परिचुम्बिणएँ ॥५॥

थी कि मैं अब स्वामीके सम्मान-भारको कैसे निभाऊँ और राजा भरतकी किस प्रकार रक्षा करूँ ॥१-१३॥

[ ३ ] राजा महीधरको मन ही मन चिन्तित देखकर राम एकांतमें जाकर बैठ गये । एक ही क्षणमें उन्होंने महीधरके आठों कुमारोंको बुलवा लिया । लक्ष्मण सहित सीता देवी भी आ गई । तब मन्त्रियों और मन्त्रणाको छोड़कर रामने कहा—“अपने आपको प्रकट मत करो । गज, अश्व और महागजको छोड़कर, स्त्री भाट और गायकका वेष बनाकर शत्रुके दरबारमें घुस पड़ो और नाचते हुए अनन्तवीर्यको पकड़ लो ।” यह वचन सुनकर संतुष्ट मन उन लोगोंने स्त्रीका वेष बना लिया और गहने पहन लिये । तब रामने सीता देवीसे कहा, “शायद तुमसे यह रूप धारण करते बने या न बने, इसलिए तुम तब तक इसी नगरमें रहना, हम युद्ध में जाकर लड़ेंगे ।” परन्तु पुलकितबाहु सीतादेवी कुछ तिरछी देखकर उनके साथ हो लीं । वह बोली—“हे नरनाथ ! तुम शीघ्र नहीं लौटोगे, क्या पता कहीं तुम युद्ध रूपी ससुरालमें चमक-दमक वाली कीर्ति-वधूसे विवाह न कर लो” ॥१-६॥

[ ४ ] तब महनीय वे लोग खेल करते हुए चले और पल भरमें ही नन्दावर्त नगरमें पहुँच गये । उन्हें ( पहले ) एक जिनालय दीख पड़ा । तब उसके सम्मुख गा वजा और नाचकर उन लोगोंने उसी मन्दिरकी परिक्रमा दी । फिर सीतादेवीको वहीं छोड़ राम लक्ष्मण आदिने नगरमें प्रवेश किया । उस नगर रूप सरोवरमें प्रचुर देवकुल रूपी कमलाकर थे । रथ श्रेष्ठ अश्व और गजरूपी जलचर भरे थे । नन्दन वन ही, उसके तटवर्ती घने लतागृह थे । सुन्दर विलासिनीरूपी कमलिनियोंसे वह नगर सरोवर अंचित था । और विटरूपी भ्रमरोंसे चुम्बित । उसमें जनरूपी निर्मल जल

सज्जण-णिम्मल - सलिलालङ्किएँ । पिसुण-वयण-घण - पङ्कुप्पङ्किएँ ॥६॥  
 कामिणि-चल-मण - मच्छुत्थल्लिएँ । णरवर-हंस-सएँहिँ अमेल्लिएँ ॥७॥  
 तहिँ तेहएँ पुर-सरवरें दुज्जय । लीलएँ णाँ पइठ दिसागय ॥८॥

घत्ता

कामिणि-वेस कियाहरण विहसिय-वयण गय पत्त तेत्थु पडिहारु ।  
 वुच्चइ 'आयइँ चारणाँ भरहहों तणइँ जिव कहें जिव देइ पइसारु' ॥९॥

[ ५ ]

तं वयणु सुणेवि पडिहारु गउ । विण्णत्तु णराहिउ रणेँ अजउ ॥१॥  
 'पहु एत्तइँ गायण आयाँ । फुडु माणुस-मेत्तेण जायाँ ॥२॥  
 णउ जाणहुँ किं विजाहरइँ । किं गन्धव्वइँ किं किण्णरइँ ॥३॥  
 अइ-सुसरइँ जण-मण-मोहणइँ । मुणिवरहु मि मण-संखोहणइँ ॥४॥  
 तं वयणु सुणेवि णराहिँवण । 'दे दे पइसारु' वुत्तु णिवेण ॥५॥  
 पडिहारु पधाइउ तुट्ट-मणु । 'पइसरहों' भणन्तु कण्टइय-तणु ॥६॥  
 तं वयणु सुणेवि समुच्चलिय । णं दस दिसि-वह एक्कहिँ मिलिय ॥७॥

घत्ता

पइठ णरिन्दत्थाण-वणेँ रिउ-रुक्ख-घणेँ सिंहासण-गिरिवर-मण्डिएँ ।  
 पोढ-विलासिणि-लय-वहलें वर-वेत्तलहलें अइ-वीर-सीह-परिचड्डिएँ ॥८॥

[ ६ ]

तहिँ तेहएँ रिउ-अत्थाण-वणेँ । पञ्जाणण जेम पइठु खणेँ ॥१॥  
 णन्दिउड-णराहिउ दिट्ठु किह । णक्खत्तहँ मउम्भ मियङ्कु जिह ॥२॥

भरा था, और जो चुगलखोरोंकी वाणीरूपी कीचड़से पंकिल था। कामिनियोंकी चञ्चल मनरूपी मछलियाँ उसमें उथल-पुथल कर रही थीं। उत्तम नररूपी हंस उस नगर-सरोवरका कभी भी त्याग नहीं करते थे। इस प्रकारके उस अजेय नगररूपी सरोवरमें, दिग्गजोंकी भाँति लीला करते हुए उन लोगोंने प्रवेश किया ॥१-८॥

स्त्रीका वेष बनाकर और आभरण पहनकर, हँसी मजाक करते जब वे चले तो (पहले) उन्हें प्रतिहार मिला। उनमेंसे एकने कहा,—“हम राजा भरतके चारण हैं, अपने राजासे इस तरह कहो कि जिससे हमें (दरबार) में प्रवेश मिल जाय” ॥ ६ ॥

[ ५ ] यह वचन सुनकर प्रतिहार गया। और उसने अजेय राजा प्रतिहारसे निवेदन किया, “प्रभु ! कुछ गाने-बजानेवाले आये हैं। वैसे तो वे मनुष्य रूपमें हैं, पर मैं नहीं कह सकता कि वे गंधर्व हैं या किन्नर, या विद्याधर। जन-मन-मोहक उनके स्वर अत्यन्त सुन्दर मुनियोंके मनको भी चुब्ध करनेवाले हैं।” यह सुनकर राजाने कहा,—“शीघ्र भीतर ले आओ।” तब तुष्टमन प्रतिहार दौड़ा-दौड़ा बाहर गया और पुलकित होकर उनसे बोला, “चलिए भीतर।” उसके वचन सुनकर वे लोग भीतर गये। मानो दशों दिशापथ एक ही में मिल गये हों। वे उस दरबार रूपी वनमें प्रविष्ट हुए। वह शत्रुरूपी वृक्षोंसे सघन, सिंहासनरूपी पहाड़ोंसे मण्डित और प्रौढ़ विलासिनीरूपी लताओंसे प्रचुर, अनन्तवीर्य-रूपी बेलफलसे युक्त, और अतिवीररूपी सिंहोंसे चित्रित था ॥ १-८ ॥

[ ६ ] उस शत्रुके दरबाररूपी वनमें वे लोग सिंहकी भाँति घुसे। नन्दावर्तका राजा अनन्तवीर्य उन्हें ऐसा दीख पड़ा, मानो तारोंसे सहित चन्द्र हो। उसके आगे उन्होंने अपना प्रदर्शन



आरम्भिउ अगएँ पेक्खणउ । सुकलत्तु व सवलु सलक्खणउ ॥३॥  
 सुरयं पिव वन्ध-करण-पवरु । कव्वं पिव छन्द-सद्-गहिरु ॥४॥  
 रण्णं पिव वंस-ताल-सहिउ । जुज्झं पिव राय-सेय-सहिउ ॥५॥  
 जिह जिह उव्वेल्लइ हल-वहणु । तिह तिह अप्पाणु णवेइ जणु ॥६॥  
 मयरद्धय - सर - संखोहियउ । मिग-णिवहु व गेएँ मोहियउ ॥७॥  
 वलु पढइ अणन्तवीरु सुणइ । 'को सीहें समउ केलि कुणइ ॥८॥

### घत्ता

जाम ण रणमुहें उत्थरइ पहरणु धरइ पइँ जीवगाहु सहुँ राएँहिँ ।  
 ताम अयाण मुएवि छलु परिहरें वि वलु पडु भरह-गरिन्दहों पाएँहिँ ॥९॥

### [ ७ ]

राहवचन्दु मणेण ण कम्पिउ । पुणु पुणरुत्तेंहिँ एव पजम्पिउ ॥१॥  
 'भो भो णरवइ भरहु णमन्तहुँ । कवणु पराहउ किर अणुणन्तहुँ ॥२॥  
 जो पर-वल समुहें महणायइ । जो पर-वल-मियङ्कें गहणायइ ॥३॥  
 जो पर-वल-गयणेंहिँ चन्दायइ । जो पर-वल-गइन्दें सीहायइ ॥४॥  
 जो पर-वल-रयणिहिँ हंसायइ । जो पर-वल-तुरङ्कें महिसायइ ॥५॥  
 जो पर-वल-भुयङ्कें गरुडायइ । जो पर-वल-वणोहें जलणायइ ॥६॥  
 जो पर-वल-घणोहें पवणायइ । जो पर-वल-पवणोहें धरायइ ॥७॥  
 । जो पर-वल-धरोहें वज्जायइ ॥८॥

प्रारम्भ कर दिया । उनका वह प्रदर्शन, अच्छी स्त्रीकी तरह सबल ( अंगबल, और रामसे सहित ) और सलक्खन [ लक्षण और लक्ष्मण सहित ] था । सुरतिके समान बंधकरणमें प्रबल, काव्यकी तरह छन्द और शब्दोंमें गंभीर, अरण्यकी तरह [ वंश और ताल ] से भरपूर, युद्धकी तरह [ राजा और प्रस्वेद, तथा कुंकुम और प्रस्वेद ] से युक्त था । राम जैसे-जैसे उद्वेलित होते, श्रोता लोग वैसे-वैसे झुकते जाते । कामके बाणोंसे लुब्ध होकर मृगसमूहकी तरह, वे गानसे मुग्ध हो उठे । तब अनन्तवीर्यने रामको यह गाते हुए सुना, “सिंहके साथ क्रीड़ा कौन कर सकता है, जब तक वह (भरत) रणमुखमें नहीं उछलता, आयुध नहीं उठाता और दूसरे राजाओंके साथ तुम्हें जीवित नहीं पकड़ता, तब तक हे मूर्ख, सब छल प्रपंच छोड़कर और अपनी सेना हटाकर भरत राजाके चरणोंमें गिर जा” ॥१-६॥

[ ७ ] रामचन्द्र जरा भी नहीं काँपे, बार-बार वह यही दुहरा रहे थे, “अरे राजन्, भरतको राजा मानकर, उनकी आज्ञा माननेमें तुम्हारा क्या पराभव है ? वह भरत शत्रुरूपी सेनासमुद्रके लिए मेरुमंथनकी तरह है । जो शत्रु सेनारूपी चन्द्रके लिए राहुके समान है, जो शत्रुसेनारूपी आकाशमें चन्द्रमाकी भाँति चमकता है, जो शत्रुरूपी गजराजके लिए सिंह है, शत्रुबलरूपी निशाके लिए सूर्यहै, शत्रुबलरूपी वनके लिए दावानल है । परबलरूपी अश्वके लिए महिषके समान है । परबलरूपी सर्पके लिए जो गरुड़ है । परबलरूपी मेघसमूहके लिए पवनका आघात है । परबलरूपी पवनसमूहके लिए पर्वत है । और परबलरूपी पर्वतसमूहके लिए वज्रकी तरह है ।” यह सुनकर अनन्त

घत्ता

तं णिसुणेवि विरुद्धएँण मग्गे कुद्धएँण अइवीरे अहर-फुरन्ते ।  
रत्तुप्पल-दल-लोयणेण जग-भोयणेण णं किउ अवलोउ कियन्ते ॥६॥

[ ८ ]

भय-भीसणु अमरिस-कुइय-देहु । गज्जन्तु समुट्ठिउ जेम मेहु ॥१॥  
कर्रे असिवरु लेइ ण लेइ जाम । णहे उड्डेवि रामे धरिउ ताम ॥२॥  
सिरे पाउ देवि चोरु व णिवद्धु । णं वारणु वारि-णिवन्धे झुद्धु ॥३॥  
रिउ चग्गेवि पर-वल-मइयवट्टु । जिण-भवणहो सम्मुहु वलु पयट्टु ॥४॥  
एत्थन्तरे महुमहणेण वुत्त । 'जो दुक्कइ तं मारमि णिरुत्तु' ॥५॥  
तं सुणेवि परोप्परु रिउ चवन्ति । 'किं एय परक्कम तियहँ होन्ति' ॥६॥  
एत्तडिय वोत्तल पडिवक्खे जाम । णर दस वि जिणालउ पत्त ताम ॥७॥  
जे गिलिय आसि पुर-रक्खसेण । णं मुक्क पडीवा भय-वसेण ॥८॥

घत्ता

तावन्तेउरु विमण-मणु गय-गइ-गमणु बहु-हार-दोर-खुप्पन्तउ ।  
आयउ पासु जियाहवहो तहो राहवहो 'दे दइय-भिक्ष' मग्गन्तउ ॥६॥

[ ९ ]

जं एव वुत्तु वणियायणेण । पहु पभणिउ दसरह-णन्दणेण ॥१॥  
'जइ भरहहो होहि सुभिच्चु अज्जु । तो अज्जु वि लइ अप्पणउ रज्जु' ॥२॥  
तं वयणु सुणेवि परलोय-भीरु । विहसेप्पिणु भणइ अणन्तवीरु ॥३॥  
'पाडेवउ जो चलणेहिं णिच्चु । तहो केम पडीवउ होमि भिच्चु ॥४॥  
वल्लिमण्डए तव-चरणेण जो वि । पाडेवउ पायहिं भरहु तो वि' ॥५॥  
तं वयणु सुणेप्पिणु तुट्टु रामु । 'सच्चउ जे तुज्जु अइवीरु णामु ॥६॥  
पुणरुत्तेहिं वुच्चइ 'साहु साहु' । हक्कारिउ तहो सुउ सहसवाहु ॥७॥

वीर्य अपने मनमें भड़क उठा। अपने ओंठ चबाने लगा। उसने लाल-लाल आँखोंसे ऐसे देखा मानो जगसंहारक कृतान्तने ही देखा हो ॥१-६॥

[ ८ ] भयभीषण और अमर्षसे क्रुद्ध कलेवर वह मेघकी भाँति गरज उठा। वह अपनी तलवार हाथमें ले या न ले, इतनेमें रामने उछलकर ( आकाशमें ) उसे पकड़ लिया। उसके सिरपर पैर रखकर चोरकी तरह ऐसे बाँध लिया मानो हाथीकी पाली बनाकर जलको बाँध लिया हो। तब शत्रुसेना-संहारक राम अनन्त-वीर्यको बाँधकर जिन-मन्दिर पहुँचे। लक्ष्मणने इतनेमें कहा, “जो इधर आयगा निश्चय ही मैं उसे मारूँगा।” यह सुनकर शत्रु लोग आपसमें बात करने लगे, “क्या स्त्रियोंमें इतना पराक्रम हो सकता है”। इस तरहकी बातें उनमें हो ही रही थीं कि शेष जन भी उस जिन-मंदिरमें, ऐसे आ पहुँचे मानो पहले जिन्हें पुररक्तकने पकड़ लिया था परन्तु बादमें मारे डरके छोड़ दिया हो। इसी बीच अनन्तवीर्यका अन्तःपुर युद्धविजेता रामके पास आया। विमन, गजगामी वह प्रचुर हार डोरसे स्वलित हो रहा था। वह यह याचना कर रहा था कि “पतिकी भीख दो” ॥१-६॥

[ ९ ] स्त्रीजनकी इस प्रार्थनापर दशरथपुत्र रामने कहा, “यदि यह भरतका अनुचर बन जाय तो वह आज ही अपना राज्य पा सकता है।” यह सुनकर परलोकभीरु अनन्तवीर्य बोला, “अरे जो जिन सदैव अपने चरणोंमें डाले रहेगा उसे छोड़कर मैं और किसका अनुचर बनूँ। प्रत्युत मैं तपश्चरण कर, भरतको ही बलपूर्वक अपने पैरों पर झुकाऊँगा।” यह सुनकर रामने कहा “सचमुच तुम्हारा अनन्तवीर्य नाम सच है। उन्होंने यही दुहराया, “साधु साधु”। बादमें उसके पुत्र सहस्रबाहुको बुला उसे

सो णिय संताणहों रइउ राउ । अण्णु वि भरहहों पाइक्कु जाउ ॥८॥

घत्ता

रिउ मेत्तेप्पिणु दस वि जण गय तुट्ट-मण णिय-णयरु पराइय जावेंहि ।  
गन्दावत्त-णराहिवइ जिणें करेवि मइ दिक्खहँ समुट्टिउ तावेंहि ॥९॥

[ १० ]

एत्थन्तरेँ पुर-परमेसराहँ । दिक्खाएँ समुट्टिउ सउ णराहँ ॥१॥  
सद्दूल - त्रिउल - वरवीरभइ । मुणिभइ - सुभइ - समन्तभइ ॥२॥  
गरुडद्धय - मयरद्धय - पच्चण्ड । चन्दण - चन्दोयर - मारिचण्ड ॥३॥  
जयघण्ट - महद्धय - चन्द - सूर । जय विजय-अजय-दुज्जय-कुकूर ॥४॥  
इय एत्तिय पट्टु पव्वइय तेत्थु । लाहण-पव्वएँ जय-णन्दि जेत्थु ॥५॥  
थिय पच्च मुट्टि सिरें लोउ देवि । सइँ वाहहिँ आहरणइँ मुएवि ॥६॥  
णीसङ्ग वि थिय रिसि-सङ्ग-सहिय । संसार वि भव-संसार-रहिय ॥७॥  
णिग्गण वि जीव-सयहँ समाण । णिग्गन्थ वि गन्थ-पयत्थ-जाण ॥८॥

घत्ता

इय एक्केक्क-पहाण रिसि भव-तिमिर-ससि तव-सूर महावय-धारा ।  
छट्टट्टम-दस-वारसेँ हिँ वहु-उववसेँ हिँ अप्पाणु खवन्ति भडारा ॥९॥

[ ११ ]

तव-चरणेँ परिट्टिउ जं जि राउ । तहों वन्दण-हत्तिएँ भरहु आउ ॥१॥  
तेँ दिट्ठु भडारउ तेय-पिण्डु । जो मोह-महीहरेँ वज्ज-दण्डु ॥२॥  
जो कोह-हुवासणेँ जल-णिहाउ । जो मयण-महाघणेँ पलय-वाउ ॥३॥  
जो दप्प-गइन्देँ महा-मइन्दु । जो माण-भुअङ्गमेँ वर-खगिन्दु ॥४॥  
सो मुणिवर दसरह-णन्दणेण । वन्दिउ णिय-गरहण-णिन्दणेण ॥५॥  
भो साहु साहु गम्भीर धीर । पइँ पूरिय पइजाणन्तवीर ॥६॥  
जं पाडिउ हउँ चलणेहिँ देव । तं तिहुअणु कारावियउ सेव ॥७॥

समस्त राज्य दे दिया। इस प्रकार भरतका एक और अनुचर बढ़ गया। शत्रुको इस प्रकार मुक्त कर, वे सब अपने नगर वापस आ गये। उधर राजा महीधरने अपनी सारी आस्था जिनमें केन्द्रितकर दीक्षाके लिए कूच कर दिया ॥१-६॥

[ १० ] पुरपरमेश्वर महीधरके साथ और भी दूसरे राजा दीक्षाके लिए प्रस्तुत हो गये। शार्दूल, विपुल, वीरभद्र, मुनिभद्र, सुभद्र, समंतभद्र, गरुडध्वज, मकरध्वज, प्रचण्ड, चन्दन, चन्द्रोदर, मारिचण्ड, जयघण्ट, महाध्वज, चन्द्र, सूर, जय, विजय, अजय, दुर्जय और कुकरने भी उसी पर्वतपर जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली जहाँ आचार्य जयनन्दी दीक्षा दान कर रहे थे। अपनी पाँच मुट्टियोंसे केश लोंचकर सवारियोंके साथ आभूषणोंका त्याग कर, अनासंग वे सब मुनिसंघके साथ हो लिये। वे मुनिजन मानरहित होकर भी जीवोंके मानके साथ थे। और निर्ग्रन्थ होकर भी ग्रन्थोंके प्रशस्त जानकार थे। उस संघमें प्रत्येक ऋषि मुख्य थे। जो भवरूपी अन्धकारके लिए चन्द्र; तपःसूर और महाव्रतोंका धारण करनेवाले थे। वे छह, आठ और बारह तक उपवास करके अपने आपको खपाने लगे ॥१-६॥

[ ११ ] जब राजा अनन्तवीर्य तप साधने चला गया तो भरत राजा भी वहाँ उसकी वन्दना-भक्तिके लिए गया। उसने तेजके पिंड भट्टारक अनन्तवीर्यको देखा। वह, मोहरूपी महीधरके लिए प्रचण्डवज्र, क्रोधाग्निके लिए मेघसमूह, काम-महा-घनके लिए प्रलय वात, दर्पगजके लिए सिंह, मानसूर्यके लिए गरुड थे। मनमें अपनी निंदा करते हुए भरत वन्दनापूर्वक बोला, “साधु ! धीर वीर अनन्तवीर्य, तुमने, सचमुच अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लो तुमने आखिर मुझे अपने चरणोंमें नत कर ही लिया। और

गउ एम पसंसाँव भरहु राउ । णिय-णयरु पत्तु साहण-सहाउ ॥८॥

घत्ता

हरि-वल पइठ जयन्तपुरँ धण-कण-पउरँ जय-मङ्गल-तूर-वमालँहिँ ।  
लक्खणु लक्खणवन्तियँ णिय-पत्तियँ अवगूढु स इं भु व-डालँहिँ ॥९॥



### [ ३१. एकतीसमो संधि ]

धण-धण-समिद्धहँ पुहइ-पसिद्धहँ जण-मण-णयणाणन्दणहँ ।  
वण-वासहँ जन्तेहिँ रामाणन्तेहिँ किउ उम्माहउ पट्टणहो ॥

[ १ ]

खुडु खुडु उहय समागम-लुद्धइँ । रिसि-कुलइँ व परमागम-लुद्धइँ ॥१॥  
खुडु खुडु अवरोप्परु अणुरत्तइँ । सळ्ळ-दिवायरइँ व अणुरत्तइँ ॥२॥  
खुडु खुडु अहिणव-वहु-वरइत्तइँ । सोम-पहा इव सुन्दर-चित्तइँ ॥३॥  
खुडु खुडु चुम्बिय-तामरसाइ । फुल्लन्धुय इव लुद्ध-रसाइँ ॥४॥  
ताम कुमारँ णयण-विसाला । जन्तेँ आउच्छिय वणमाला ॥५॥  
'हे मालूर-पवर-पीवर-थणँ । कुवलय-दल - पण्फुल्लिय-लोअणँ ॥६॥  
हंस-गमणँ गय-लील-विलासिणि । चन्द-वयणँ णिय-णाम-पगासिणि ॥७॥  
जामि कन्तेँ हउँ दाहिण-देसहँ । गिरि-किक्किन्ध - णयर - उद्देसहँ ॥८॥

घत्ता

सुरवर-वरइत्तेँ णव-वरइत्तेँ जं आउच्छिय णियय धण ।  
ओहुल्लिय-वयणी पगलिय-णयणी थिय हेट्टामुह विमण-मण ॥९॥

त्रिभुवनसे अपनी सेवा करा ली ।” इस प्रकार उसकी प्रशंसा कर, राजा भरत सेनासहित अपने नगरको चला गया । राम और लक्ष्मणने भी जयमंगल और तूर्यध्वनिके साथ, धनकनसे भरपूर जयंतपुर नगरमें प्रवेश किया । तब लक्ष्मणकी सुलक्षणा पत्नीने अपनी भुजारूपी डालोंसे उसका आलिङ्गन किया ॥१-६॥



### इकतीसवीं संधि

कुछ समयके उपरांत राम और लक्ष्मण, धन-धान्यसे सम्पन्न पृथ्वीमें सुप्रसिद्ध, जनोंके मन और नेत्रोंको आनन्ददायक, उस नगरको छोड़कर वनवासके लिए कूच कर गये ।

[ १ ] इस अवसरपर लक्ष्मण वनमालासे मिलनेके लिए एकदम आतुर हो उठे । क्योंकि वे दोनों—मुनिकुलकी तरह परमागम लुब्ध ( परमशास्त्र और दूसरेके आगमके लोभी ) थे । एक दूसरे पर आसक्त वे दोनों एक दूसरे पर अनुरक्त हो उठे । वैसे ही जैसे सूर्य और चन्द्र अनुरक्त हो उठते हैं । वे दोनों अभिनव वर-वधू चन्द्र और उसकी प्रभाकी तरह, सुन्दर चित्त थे । रक्तकमलका चुम्बन करनेवाले भ्रमरकी तरह वे दोनों रसलुब्ध हो रहे थे । जाते समय कुमार लक्ष्मणने विशालनयना वनमालासे कहा, हे हंस-गामिनी गजलीला विलासिनी चन्द्रमुखी, स्वयं अपना नाम प्रसिद्ध करनेवाली वनमाले ! मैं किष्किंध नगरको लक्ष्य बनाकर दक्षिण देशके लिए जा रहा हूँ” । पूतन यज्ञसे वर प्राप्त करनेवाले कुमार लक्ष्मणके यह कहने पर ( पूछने पर ) विमना गलितनेत्र म्लानमुख, वह अपना मुख नीचा करके रह गई ॥१-६॥



[ २ ]

कज्जल - वहलुप्पील - सणाहें । महि पव्वालिय अंसु-पवाहें ॥१॥  
 'एत्तिउ विरुवउ माणुस-लोउ । जं जर-जम्मण - मरण - विओउ' ॥२॥  
 धीरिय लक्खणेण एत्थन्तरे । 'रामहो णिलउ करेवि वणन्तरे ॥३॥  
 कइहि मि दिणें हिँ पडीवउ आवमि । सयल स-सायर महि भुञ्जावमि ॥४॥  
 जइ पुणु कहवि तुल-लग्गे णायउ । हउँ ण होमि सोमिन्तिँ जायउ ॥५॥  
 अण्णु वि रयणिँहँ जो भुञ्जन्तउ । मंस-भक्खि महु मज्जु पियन्तउ ॥६॥  
 जीव वहन्तउ अलिउ चवन्तउ । पर-धणेँ पर-कलत्तेँ अणुरत्तउ ॥७॥  
 जो णरु आएँहिँ वसणेँहिँ भुत्तउ । हउँ पावेण तेण संजुत्तउ ॥८॥

घत्ता

जइ एम वि णावमि वयणु ण दावमि तो णिव्वूढ-महाहवहोँ ।  
 णव-कमल-सुकोमल णह-पह-उज्जल छित्त पाय मइँ राहवहोँ' ॥९॥

[ ३ ]

वणमाल णियत्तेवि भग्गमाण । गय लक्खण-राम सुपुज्जमाण ॥१॥  
 थोवन्तरे मच्छुत्थल्ल देन्ति । गोला-णइ दिट्ठ समुव्वहन्ति ॥२॥  
 सुंसुअर - धोर - धुरुधुरुहुरन्ति । करि - मयरड्डोहिय - डुहुडुहन्ति ॥३॥  
 डिण्डीर-सण्ड-मण्डलिउ देन्ति । ददुदुरय - रडिय - दुरुदुरुदुरन्ति ॥४॥  
 कल्लोलुल्लोलहिँ उव्वहन्ति । उग्घोस - घोस - घवघवघवन्ति ॥५॥  
 पडिखलण-वलण-खलखलखलन्ति । खलखलिय-खलक्क-भडक्क देन्ति ॥६॥  
 ससि-सङ्ग-कुन्द - धवलोउभरेण । कारणुडुडुविय - डम्बरेण ॥७॥

घत्ता

फेणावलि-वङ्किय वलयालङ्किय णं महि-कुलवहुअहँ तणिय ।  
 जलणिहि-भत्तारहोँ मोत्तिय-हारहोँ वाह पसारिय दाहिणिय ॥८॥

[ २ ] काजल मिश्रित अश्रुधारासे वह धरतीको प्लावित करने लगी । तब लक्ष्मणने धीरज बँधाते हुए कहा—“संसारमें यही बात तो बुरी है कि यह बुढ़ापा, जन्म, मरण और वियोग होता है । किसी अन्य वनमें रामका आश्रय बनाकर मैं कुछ ही दिनोंमें वापस आ जाऊँगा, और फिर तुम्हारे साथ धरतीका भोग करूँगा । यह कहकर भी, यदि मैं तुलालग्नमें वापस नहीं आया तो सुमित्राका बेटा नहीं, और भी, निशाभोजन, मांसभक्षण, मधु और मद्यका पान, जीव-हत्या, मूठ बोलना, परधन और परस्त्रीमें अनुरक्त होना इत्यादि व्यसनोंमें जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे । यदि मैं लौटकर न आऊँ, या अपना मुँह न दिखाऊँ । मैं महायुद्धमें समर्थ, श्रीरामके नव कमलकी तरह कोमल, और नव प्रभासे उज्ज्वल रामके चरण छूकर कह रहा हूँ” ॥१-६॥

[ ३ ] इस प्रकार भग्न वनमालाको समझा-बुझाकर, सुपूज्य राम और लक्ष्मणने वहाँसे प्रस्थान किया । थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गोदावरी नदी मिली । उसमें मछलियाँ उछल-कूद मचा रही थीं । शिशुमारोंमें घोर घुरघुराती हुई, गज और मगरोंके आलोड़नसे डुहडुहाती हुई, फेन-समूहके मण्डल बनाती हुई, मेंढकोंकी ध्वनिसे टरती हुई; तरङ्गोंके उद्वेलसे बहती हुई, उद्गोषके शब्दसे छप-छप करती हुई, वह गोदावरी नदी शशि, शंख और कुन्द-कुसुमोंसे धवल हो रही थी । कारंडवके उड्डयनसे भयङ्कर, जलप्रपातोंके खलन और मोड़से खल-खल करती हुई और चट्टानों पर सर-सराती हुई वह बह रही थी । वलय ( आवर्त और चूड़ी ) से अंकित, वह मानो धरती रूपी नव-वधूकी कुल पुत्री ही हो जो अपने प्रिय समुद्रके आगे मुक्ताहारके लिए अपना दाँया हाथ पसार रही थी ॥१-७॥

[ ४ ]

थोवन्तरँ वल-णारायणेहिँ । खेमञ्जलि-पट्टणु दिट्ठु तेहिँ ॥१॥  
 अरिदमणु णराहिउ वसइ जेत्यु । अइचण्डु पयण्डु ण को वि तेत्थु ॥२॥  
 रज्जेसरु जो सब्बहँ वरिट्ठु । सो पहु पहियाह मि मूलँ दिट्ठु ॥३॥  
 णह-भासुरु जो लङ्गूल-दीहु । सो मायङ्गेहि मि लइउ सीहु ॥४॥  
 जो दुहम-दाणव - सिमिर-चूरु । सो तिय-मुहयन्दहों तसइ सूरु ॥५॥  
 जं रायहँ तं छत्तह मि छित्तु । जं सुहडहँ तं कुड्डह मि चित्तु ॥६॥  
 तहों णयरहों थिउ अवरुत्तरेण । उज्जाणु अद्ध - कोसन्तरेण ॥७॥  
 सुरसेहरु णामें जगें पयासु । णं अग्घ-विहत्थउ थिउ वलासु ॥८॥

घत्ता

तहिँ तेहएँ उववणें णव-तरुवर-घणें जहिँ अमरिन्दु रइ करइ ।  
 नहिँ णिलउ करेप्पिणु वे वि थवेप्पिणु लक्खणु णयरें पईसरइ ॥९॥

[ ५ ]

पइसन्तें पुर-वाहिरें करालु । भड-मडय-पुञ्जु दीसइ विसालु ॥१॥  
 ससि-सङ्ख-कुन्द-हिम-दुद्ध - धवलु । हरहार - हंस - सरयब्भ-विमलु ॥२॥  
 तं पेक्खेंवि लहु हरिसिय-मणेण । गोवाल पपुच्छिय लक्खणेण ॥३॥  
 'इउ दीसइ काइँ महा-पयण्डु । णं णिम्मलु हिमगिरि-सिहर-खण्डु' ॥४॥  
 तं णिसुणेंवि गोवहिँ वुत्तु एम । 'किं एह वत्त पइँ ण सुअ देव ॥५॥  
 अरिदमण-धीय जियपउम-णाम । भड-थड-संघारणि जिह दुणाम ॥६॥

[ ४ ] थोड़ी दूरपर राम-लक्ष्मणको क्षेमंजली नगर दीख पड़ा। उसमें अरिदमन नामक राजा रहता था। उसके समान प्रचण्ड वहाँ दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। वह राजेश्वर, सबमें श्रेष्ठ था। रास्तागीरों तककी बात भाँप लेनेमें वह समर्थ था। वह सिंहकी तरह, नखोंसे भास्वर, लंगूलदीहु ( लम्बी पूँछ और हथियार विशेषसे सहित ) था। सिंह मातंगों ( हाथियोंसे ) अग्राह्य होता है, पर वह राजा मातंग ( लक्ष्मीके अंगों ) से ग्राह्य था। अर्थात् लक्ष्मी उसे प्राप्त थी। पर दुर्दम दानव-समूहको चूरनेवाला वह स्त्रियोंके मुख-चन्द्रको सतानेके लिये सूर्य था। जैसे वह राजाओंसे, वैसे ही छत्रोंसे स्पृष्ट था। और जैसे सुभटोंसे वैसे ही उड्डु ( गहना विशेष ) से भूषित था। उस नगरसे, वायव्य कोणमें आधे कोसकी दूरी पर, सुरशेखर नामसे जगत्में प्रसिद्ध एक उद्यान था, मानो वह उद्यान बलभद्र रामके लिए हाथोंमें अर्घ्य लेकर खड़ा था। नये वृक्षोंसे सघन उस उपवनमें देवेन्द्र क्रीड़ा करता था। लक्ष्मणने वहीं घर बनाया। और राम-सीताको वहीं ठहराकर उसने उस नगरमें प्रवेश किया ॥१-६॥

[ ५ ] घुसते ही उसे नगरके बाहर भटोंका भयङ्कर और विशाल, शव-समूह मिला। वह ढेर शशि, शंख, कुन्द, हिम तथा दूधकी तगह सफेद; हर, हार, हंस और शरद् मेघकी तरह स्वच्छ था। उसे देखकर, हर्षितमन होकर लक्ष्मणने एक गोपालसे पूछा, “यह महाप्रचण्ड क्या दिखाई दे रहा है ? यह ऐसा लगता है मानो हिमालयके निर्मल शिखर हों।” यह सुनकर गोपालने उत्तर दिया, “देव, क्या आपने यह नहीं सुना, यहाँके राजा अरिदमनकी जित-पद्मा नामकी एक लड़की है, वह, महाभट समूहोंका नाश करने वाली, मानो साक्षात् डाकिनी है। वह आज भी वर-कुमारी है,

सा अज्ज वि अच्छइ वर-कुमारि । पञ्चक्ख णाइँ आइय कु-मारि ॥७॥  
तहँ कारणँ जो जो मरइ जोहु । सो घिप्पइ तं हङ्गइरि एहु ॥८॥

घत्ता

जो घइँ अवगणँ वि तिण-समु मणँ वि पञ्च वि सत्तिउ धरइ णरु ।  
पडिक्ख-विमद्दणु णयणाणन्दणु सो पर होसइ ताहँ वरु' ॥६॥

[ ६ ]

तं वयणु सुणेप्पिणु दुण्णिवारु । रोमञ्चिउ खणँ लक्खण-कुमारु ॥१॥  
वियड-प्पय-छोहँ हिँ पुणु पयट्ठु । णं केसरि मयगल-मइय-वट्ठु ॥२॥  
कथइ कप्पहुम दिट्ठ तेण । णं पन्थिय थिय णयरासएण ॥३॥  
कथइ मालइ कुसुमइँ खिवन्ति । सीस व सुकइहँ जसु विक्खिरन्ति ॥४॥  
कथइ लक्खइ सरवर विचित्त । अवगाहिय सीयल जिह सुमित्त ॥५॥  
कथइ गोरसु सव्वहँ रसाहुँ । णं णिगउ माणु हरेवि ताहुँ ॥७॥  
कथइ आवाह डउम्भन्ति केम । दुज्जण-दुव्वयणँ हिँ सुयण जेम ॥७॥  
कथइ अरहट्ट भमन्ति केम । संसारिय भव-संसारँ जेम ॥८॥  
णं धउ हक्कारइ 'एहि एहि । भो लक्खण लहु जियपउम लेहि' ॥६॥

घत्ता

वारुभड-वयणँ दीहिय-णयणँ देउल-दाढा-भासुरँण ।  
णं गिलिउ जणद्दणु असुर-विमद्दणु एन्तउ णयर-णिसायरँण ॥१०॥

[ ७ ]

पायार-भुएँहिँ पुरणाइँ तेण । अवरुण्डिउ लक्खणु णाइँ तेण ॥१॥  
कथइ कुम्भा सहु णाडएहिँ । णं णड णाणाविह णाडएहिँ ॥२॥

मानो वह धरती पर प्रत्यक्ष मौत बनकर ही आई है । जो योधा उसके लिए अपनी जान गँवाता है, उसे इस हड्डियोंके पहाड़में डाल देते हैं । जो सुभट अपनी उपेक्षा करते हुए, प्राणोंको तिनकेके बराबर समझकर, पाँचों ही शक्तियोंको धारण कर लेगा, शत्रु-संहारक और नेत्रोंके लिए आनन्ददायक वह, उसका वर होगा” ॥ १-६ ॥

[ ६ ] यह वचन सुनकर दुर्निवार लक्ष्मणको एक क्षणमें रोमांच हो आया । विकट क्षोभसे भरकर वह नगरमें ऐसे प्रविष्ट हुआ मानो मत्तगजके संहारक सिंहने ही प्रवेश किया हो । कहीं उसने कल्प वृक्षोंको इस तरह देखा मानो नगरकी आशासे पथिक ही ठहर गये हों । कहीं मालतीसे फूल भड़ रहे थे, मानो शिष्य ही सुकविका यश फैला रहे थे । कहीं पर विचित्र सरोवर दीख पड़ रहे थे । जो अवगाहन करनेमें अच्छे मित्रकी तरह शीतल थे । कहीं पर सब रसोंका गोरस था मानो वह उनका मान हरण करते ही निकल आया हो । कहीं पर ईखके खेत ऐसे जलाये जा रहे थे मानो दुर्जन सज्जनको सता रहा हो । कहीं पर अरहट ऐसे घूम रहे थे जैसे जीव भवरूपी चक्रमें घूमते रहते हैं । हिलती डुलती पताका मानो लक्ष्मणसे कह रही थी,—“हे लक्ष्मण, आओ आओ और शीघ्र ही जितपद्माको ले लो”, आते हुए असुरसंहारक लक्ष्मणको नगररूपी निशाचरने मानो लील लिया । द्वारही उसका विकट मुख था, वापिकाएँ नेत्र थीं, और देवकुलरूपी डाढोंसे वह भयङ्कर था ॥ १-६ ॥

[ ७ ] अथवा उस नगररूपी कोतवालने अपनी प्राकार की भुजाओंसे लक्ष्मणको रोक लिया । ( अर्थात् उसने नगरके परकोटेके भीतर प्रवेश किया ) । कहीं पर रस्सियोंके साथ घड़े थे, कहीं मानो नाना नाटकोंके साथ नट थे । कहीं पर विशुद्ध वंशवाले

कथइ वंसारि समुद्ध-वंस । णाइव सु-कुर्लीण विशुद्ध-वंस ॥३॥  
 कथइ धय-वड णच्चन्ति एम । वरि अग्नि सुरायर सगँ जेम ॥४॥  
 कथइ लोहारँहिँ लोहखण्डु । पिट्टिज्जइ णरँ व पावपिण्डु ॥५॥  
 तं हट्टमग्गु मेल्लँ वि कुमारु । णिविसेण पराइउ रायवारु ॥६॥  
 पडिहारु वुत्तु 'कहि गम्पि एम । वरु वुच्चइ आइउ एक्कु देव ॥७॥  
 जियपउमहँ माण-मरट्ट-दलणु । पर-वल-मसक्कु दरियारि-दमणु ॥८॥  
 रिउ-संघायहँ संघाय-करणु । सहँ सत्तिहिँ तुज्झु वि सत्ति-हरणु ॥९॥

### घत्ता

(अह) किं बहुएँ जम्पिँण णिप्फल-चविँण एम भणहि तं अरिदमणु ।  
 दस-वीस ण पुच्छइ सउ वि पडिच्छइ पञ्चहँ सत्तिहिँ को गहणु' ॥१०॥

[ ८ ]

तं णिसुणेवि गउ पडिहारु तेत्थु । सह-मण्डवँ सो अरिदमणु जेत्थु ॥१॥  
 पणवेप्पिणु वुच्चइ तेण राउ । 'परमेसर विण्णत्तिँ पसाउ ॥२॥  
 भडु कालँ चोइउ आउ इक्कु । ण सुणहुँ किं अक्कु मियक्कु सकु ॥३॥  
 किं कुसुमाउहु अतुलिय-पयाउ । पर पञ्च वाण णउ एक्कु चाउ ॥४॥  
 तहँ णरहँ णवल्ली भङ्गि का वि । फिट्टइ ण लच्छि अङ्गहँ कयावि ॥५॥  
 सो चवइ एम जियपउम लेमि । किं पञ्चहिँ दस सत्तिउ धरेमि ॥६॥  
 तं णिसुणँवि पभणइ सत्तुदमणु । 'पेक्खमि कोक्कहि वरइत्तु कवणु' ॥७॥  
 पडिहारँ सहिउ आउ कणहु । जयलच्छि-पसाहिउ जुज्झ-तणहु ॥८॥

### घत्ता

अच्चुट्टभड-वयणँहिँ दीहर-णयणँहिँ णरवइ-विन्दहिँ तुज्जएहिँ ।  
 लक्खिज्जइ लक्खणु एन्त स-लक्खणु जेम मइन्दु महागएँहिँ ॥९॥

सुकुलीनोंकी भाँति उत्तम वंशके हाथी थे । कहीं पर ध्वज-पताकाएँ ऐसी फहरा रही थीं मानो वे स्वर्गके देव-समूहकी तरह अपनेको भी ऊपर समझ रही हों । कहीं पर लोहार लोहखंडको उसी प्रकार पीट रहे थे जिस प्रकार पापी नरकमें पीटे जाते हैं । बाजारके मार्गको छोड़कर लक्ष्मण राज्यद्वारके निकट पहुँच गया । तब प्रतिहारने टोककर पूछा, “इस प्रकार कहाँ जाओगे” । इस पर कुमारने कड़ककर कहा, “जाओ और राजासे कहो कि जितपद्माका मान जीतनेवाला आ गया है । पर-बलका संहारक, गर्वितशत्रुका दमनकर्ता, रिपु-समूहका घातक तथा शक्तियों सहित अरिदमनका भी हरण करनेवाला एक देव आया है । अथवा बहुत कहने से क्या ? उस राजासे कहना कि मैं दस बीसकी बात तो कौन पूछे (कमसे कम) सौ शक्तिको पानेकी इच्छा रखता हूँ । पाँच शक्तियोंका ग्रहण करनेसे क्या होगा” ॥ १-६ ॥

[ ८ ] यह सुनकर प्रतिहार, मण्डपमें आसनपर बैठे हुए राजाके पास गया । प्रणाम करके उसने निवेदन किया, “परमेश्वर, विज्ञप्तिसे प्रसन्न हों । यमसे प्रेरित एक योधा आया है, मैं नहीं जानता कि वह चन्द्र है या इन्द्र, या अतुलित प्रतापी कामदेव है । पर उसके पास पाँच बाण हैं और एक धनुष नहीं है । उस नरकी कोई अनोखी ही भंगिमा है कि उसके शरीरके एक भी अंगकी शोभा नष्ट नहीं होती । वह कहता है कि मैं जितपद्माको लेकर रहूँगा । इन पाँच शक्तियोंको क्या लूँ ?” यह सुनकर राजा अरिदमनने आवेशमें कहा, “बुलाओ, देखूँ कौन-सा आदमी है ।” तब प्रतिहारके पुकारने पर, जय-लक्ष्मीको प्रसन्न करने-वाला, युद्धका प्यासा कुमार लक्ष्मण भीतर आया । भयङ्कर मुख, दीर्घनेत्र बहुतसे अजेय नर-पतियोंने सुलक्षण लक्ष्मणको आते हुए ऐसे देखा मानो महागज सिंहको देख रहे हों ॥ १-६ ॥



[ ६ ]

लक्खणु पासु पराइउ जं जे । वुत्तु णिवेण हसेप्पिणु तं जे ॥१॥  
 'को जियपउम लएवि समत्थु । केण हुवासणें ढोइउ हत्थु ॥२॥  
 केण सिरेण पडिच्छिउ वज्जु । केण कियन्तु वि घाइउ अज्जु ॥३॥  
 केण णहङ्गणु छित्त करगें । केण सुरिन्दु परज्जिउ भोग्गें ॥४॥  
 केण वसुन्धरि दारिय पाएं । केण पलोट्टिउ दिग्गउ घाएं ॥५॥  
 केण सुरेहहों भग्गु विसाणु । केण तलप्पएँ पाडिउ भाणु ॥६॥  
 लद्धिउ केण समुद्दु असेसु । केँ फण-मण्डवें चूरिउ सेसु ॥७॥  
 केण पहङ्गणु वद्धु पडेण । मेरु-महागिरि टालिउ केण ॥८॥

घत्ता

जिह तुहँ तिह अण्ण वि णीसावण्ण वि गरुयइँ गज्जिय बहुय णर ।  
 महु सत्ति-पहारें हिँ रणें दुव्वारेंहिँ किय सय-सकर दिट्ठ पर' ॥६॥

[ १० ]

अरिदमणें भडु जं अहिखित्तु । महुमहु जेम दवग्गि पलित्तु ॥१॥  
 'हउँ जियपउम लएवि समत्थु । मइँ जि हुआसणें ढोइउ हत्थु ॥२॥  
 मइँ जि सिरेण पडिच्छिउ वज्जु । मइँ जि कियन्तु वि घाइउ अज्जु ॥३॥  
 मइँ जि णहङ्गणु छित्तु करगें । मइँ जि सुरिन्दु परज्जिउ भोग्गें ॥४॥  
 मइँ जि वसुन्धरि दारिय पाएं । मइँ जि पलोट्टिउ दिग्गउ घाएं ॥५॥  
 मइँ जि सुरेहहों भग्गु विसाणु । मइँ जि तलप्पएँ पाडिउ भाणु ॥६॥  
 लद्धिउ मइँ जि समुद्दु असेसु । मइँ फण-मण्डवें चूरिउ सेसु ॥७॥  
 मइँ जि पहङ्गणु वद्धु पडेण । मेरु महागिरि टालिउ जेण ॥८॥

घत्ता

हउँ तिहुअण-डामरु हउँ अजरामरु हउँ तेत्तीसहुँ रणें अजउ ।  
 खेमञ्जलि-राणा अबुह अयाणा मेँल्लि सत्ति जइँ सत्ति तउ' ॥६॥

[ ६ ] लक्ष्मणके निकट आने पर अरिदमनमें हँसकर कहा, “अरे जितपद्माको कौन ले सकता है, आगको हाथसे किसने उठाया, किसने सिर पर वज्रकी इच्छा की, कृतान्तको आज तक किसने मारा? अंगुलीसे आकाशको कौन छेद सका है, भोगमें इन्द्रको किसने पराजित किया, कौन पैरसे धरतीका दलन कर सका। आघातसे मृगेन्द्रको कौन गिरा सका? ऐरावतके दाँत किसने उखाड़े, सूर्यको तल पर किसने गिराया, अशेष समुद्रको कौन बाँध सका, धरणेन्द्रके फनको कौन चूर-चूर कर सका, हवाको कपड़ेसे कौन बाँध सका, मंदराचलको कौन टाल सका? तुम्हारी ही तरह और भी बहुतसे युवक अपनेको असाधारण बताकर यहाँ गरजे थे पर युद्धमें दुर्धर मेरी शक्तियोंने अपने प्रहारोंसे उनके सौ सौ टुकड़े कर दिये” ॥१-६॥

[ १० ] अरिदमनने जब सुभट लक्ष्मण पर इस प्रकार आक्षेप किया तो वह दावानलकी तरह भड़क उठा, उसने कहा, “मैं जितपद्माको लेनेमें समर्थ हूँ, मैंने हाथ पर आग उठाई है, मैंने सिर पर वज्र भेला है, मैं आज भी कृतान्तका घात कर सकता हूँ, मैंने अँगुलीसे आकाशमें छेद किया है, मैंने भोगमें इन्द्रको पराजय दी है, धरतीको मैंने पैरोंसे चाँपा है, मैंने आघातसे गजको भूमिसात् किया है, मैंने ऐरावत हाथीका दाँत उखाड़ा है, मैंने सूर्यको तल पर गिराया है, मैंने अशेष समुद्रका उल्लंघन किया है, मैंने धरणेन्द्रके फनको चूर-चूर किया है, वस्त्रसे मैंने हवाको बाँधा है, मैं वही हूँ जिसने मेरुपर्वतको भी टाल दिया। मैं तीनों भुवनोंमें भयंकर हूँ। मैं अजर अमर हूँ, तैंतीस करोड़ देवोंके रणमें अजेय हूँ। क्षेमंजलिराज, तुम अपंडित और अज्ञानी हो, यदि तुममें शक्ति हो तो अपनी शक्ति मुझ पर छोड़ो” ॥१-६॥

[ ११ ]

तं णिसुणें वि खेमञ्जलि-राणउ । उट्टिउ गलगज्जन्तु पहाणउ ॥१॥  
 सत्ति-विहत्थउ सत्ति-पगासणु । धगधगधगधगन्तु स-हुआसणु ॥२॥  
 अम्बरें तेय-पिण्डु गउ दिणयरु । णिय-मज्जाय-चत्तु णउ सायरु ॥३॥  
 जणें अणवरय-दाणु णउ मयगलु । परमण्डल-विणासु णउ मण्डलु ॥४॥  
 रामायणहों मज्जे णउ रामणु । भीम-सरीरु ण भीसु भयावणु ॥५॥  
 तेण विमुक्क सत्ति गोविन्दहों । णं हिमवन्तें गङ्ग समुद्दहों ॥६॥  
 धाइय धगधगन्ति समरङ्गणें । णं तडि तडयडन्ति णह-अङ्गणें ॥७॥  
 सुरवर णहें वोल्लन्ति परोप्परु । 'एण पहारें जीवइ दुक्करु' ॥८॥

घत्ता

एत्थन्तरें कण्हें जय-जस-तण्हें धरिय सत्ति दाहिण-करेण ।  
 संकेयहों दुक्की थाणहों चुक्की णावइ पर-तिय पर-णरेण ॥९॥

[ १२ ]

धरिय सत्ति जं समरें समत्थें । मेल्लिउ कुसुम-वासु सुर-सत्थें ॥१॥  
 पुण्णिम-इन्दु-रुन्द - मुह - सोमहें । केण वि कहिउ गम्पि जियपोमहें ॥२॥  
 'सुन्दरि पेक्खु पेक्खु जुज्झन्तहों । णोखा का वि भङ्गि वरइत्तहों ॥३॥  
 जा तउ ताए' सत्ति विसडिजय । लग्ग हत्थें असइ व्वालज्जिय ॥४॥  
 णर-भमरेण एण अकलङ्कउ । पर चुम्बेवउ तुह मुह-पङ्कउ' ॥५॥  
 तं णिसुणेप्पिणु विहसिय-वयणए । णव-कुवलय-दल - दीहर-णयणए ॥६॥  
 ज्जाल-गवक्खए जो अन्तर-पडु । णाइँ सहत्थें फेडिउ मुह-वडु ॥७॥  
 रुक्खणु णयण-कडक्खिउ कण्णए । णं जुज्झन्तु णिवारिउ सण्णए ॥८॥  
 ताम कुमारें दिट्ठु सुदंसणु । धवलहरम्बरें मुह-मयलञ्छणु ॥९॥  
 सुह-णक्खत्तें सुजोगो सुहङ्करु । णयणामेलउ जाउ परोप्परु ॥१०॥

[ ११ ] यह सुनते ही क्षेमंजलि-राज गरजकर उठा, कुछ शक्तियोंको प्रकाशित करता और कुछ को हाथमें लिये हुए वह धक-धककर रहा था। वह ऐसा लगता था मानो आकाशमें तेजपिंड सूर्य हो, या मर्यादारहित समुद्र हो या अनवरत मद भरता हुआ महागज हो। या परमण्डलका नाश करनेवाला मांडलिक राजा हो, या रामायणके बीचमें रावण हो। या भीम शरीरवाला भीम ही हो। उसने तब लक्ष्मणके ऊपर उसी तरह शक्ति फेंकी जिस तरह हिमालयने समुद्रमें गंगा प्रक्षिप्त की। वह शक्ति धकधकाती हुई समरांगणमें इस तरह दौड़ी मानो नभमें तड़-तड़ करती बिजली ही चमक उठी हो। ( यह देखकर ) देवता आकाशमें यह बातें करने लगे कि अब इसके आघातसे लक्ष्मणका बचना कठिन है। परन्तु यश और जयके लोभी लक्ष्मणने अपने दाहिने हाथमें उस शक्तिको उसी तरह धारण कर लिया जिस तरह संकेतसे चूकी हुई परस्त्रीको पर-पुरुष पकड़ लेता है ॥१-६॥

[ १२ ] लक्ष्मणके युद्धमें शक्तिके मेलते ही सुरसमूह पुष्प-वर्षा करने लगा। किसीने जाकर पूर्ण चन्द्रमुखी जितपद्मासे कहा, “सुंदरी, सुंदरी, लड़ते हुए लक्ष्मणकी अनोखी भंगिमा तो देखो, तातने जो शक्ति छोड़ी थी वह असती स्त्रीकी तरह लक्ष्मणसे जा लगी। यह नररूपी भ्रमर तुम्हारे मुख-कमलको अवश्य चूमेगा।” यह सुनकर नव-कमलकी तरह दीर्घनयन, विहसितमुख उसने अपने मुखपटकी तरह, जालीदार झरोखेके अन्तःपटको हटाकर लक्ष्मणको अपने नेत्र-कटाक्षसे देखा मानो उसने संकेतसे लड़ते हुए उसे निवारण किया हो, इतने में ही कुमारने भी धवलगृहके आकाशमें सुदर्शन मुखचन्द्र देखा। इस तरह शुभ नक्षत्र और सुयोगमें उन दोनोंकी आँखोंका परस्पर शुभङ्कर मिलाप हो गया।

## घत्ता

एत्थन्तरें दुट्टें मुक्कारुट्टें लहु अण्णेक्क सत्ति णरेंण ।  
स वि धरिय सरग्गें वाम-करग्गें णावइ णव-वहु णव-वरेंण ॥११॥

[ १३ ]

अण्णेक्क मुक्क बहु-मच्छरेण । वज्जासणि णाउँ पुरन्दरेण ॥१॥  
स हि दाहिण-कक्खहिँ छुद्ध तेण । अवरुण्डिय वेस व कामुण्ण ॥२॥  
अण्णेक्क विसज्जिय धगधगन्ति । णं सिहि-सिह जाला-सय मुअन्ति ॥३॥  
स वि धरिय एन्ति णारायणेण । वामद्धें गोरि व त्तिणयणेण ॥४॥  
णं महिहरु देवइणन्दणेण । पञ्चमिय मुक्क बहु-मच्छरेण ॥५॥  
पम्मुक्क पधाइय णरवरासु । णं कन्त सुकन्तहाँ सुहयरासु ॥६॥  
स विसाणें हिँ एन्ति णिरुद्ध केम । णव-सुरय-समागमं जुवइ जेम ॥७॥  
एत्थन्तरें देवहिँ लक्खणासु । सिरें मुक्क पडीवउ कुसुम-वासु ॥८॥  
अरिदमणु ण सोहइ सत्ति-हीणु । खल-कुपुरिसु व्व थिउ सत्ति-हीणु ॥९॥

## घत्ता

हरि रोमञ्चिय-तणु सहइ स-पहरणु रण-मुहें परिसक्कन्तु किह ।  
रत्तुप्पल-लोयणु रस-वस-भोयणु पञ्चाउहु वेयालु जिह ॥१०॥

[ १४ ]

समरङ्गणें असुर - परायणेण । अरिदमणु वुत्तु णारायणेण ॥१॥  
'खल खुद्द पिसुण मच्छरिय राय । मइँ जेम पडिच्छिय पञ्च घाय ॥२॥  
तिह तुहु मि पडिच्छहि एक्क सत्ति । जइ अत्थि का वि मणें मणुस-सत्ति' ॥  
किर एम भणेप्पिणु हणइ जाम । जियपउमएँ घत्तिय माल ताम ॥४॥

इसी बीचमें उस दुष्ट और क्रोधी अरिदमनने एक और शक्ति लक्ष्मणके ऊपर छोड़ी परंतु लक्ष्मणने उसे भी बायें हाथमें वैसे ही ले लिया जैसे नया वर नई दुलहिनको ले लेता है ॥१-६॥

[ १३ ] तब उसने इन्द्रके वज्रकी भाँति एक और शक्ति छोड़ी उसने उसे भी दाहिनी काँखमें ऐसे ही चाप लिया जैसे कामुक वेश्याको आलिंगनबद्ध कर लेता है । राजाने एक और शक्ति छोड़ी जो धक-धक करती हुई बालशिखाकी तरह सैकड़ों लपटें उगलने लगी । लक्ष्मणने आती हुई उसे वैसे ही धारण कर लिया, जैसे शिवजीने पार्वतीको अपने बायें अर्द्धांगमें धारण कर लिया था । तब अत्यंत मत्सरसे भरकर देवकीपुत्र राजा अरिदमनने पाँचवीं शक्ति विसर्जित की । वह भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मणके पास इस तरह दौड़ी मानो कांता ही अपने सुभगराशि कांतके पास जा रही हो । किंतु कुमार लक्ष्मणने उसे भी अपने दाँतोंसे वैसे ही रोक लिया, पति जैसे सुहागरातमें आती हुई युवतीको रोक लेता है । तब देवोंने पुनः लक्ष्मणपर फूल बरसाये । शक्तिसे हीन होकर राजा अरिदमन बिलकुल भी नहीं सोह रहा था । तब वह शक्तिहीन दुष्ट पुरुष की तरह स्थित हो गया । पुलकितशरीर युद्धस्थलमें इधर-उधर दौड़ता हुआ सशस्त्र लक्ष्मण वैसे ही सोह रहा था, जैसे रक्तकमलकी तरह नेत्रवाला, रसमज्जाका भोजी पंचायुध वैताल शोभित होता है ॥१-६॥

[ १४ ] समरांगणमें असुरोंको पराजित करनेवाले लक्ष्मणने अरिदमनसे कहा, “खल, लुद्र, दुष्ट, नीच ईर्ष्यालु राजन् ! जिस तरह मैंने तेरे पाँच आघात भेले । उसी तरह यदि तेरे मनमें थोड़ी भी मनुष्यशक्ति हो तो मेरी एक शक्ति भेल । यह कहकर कुमार लक्ष्मण जब तक मारने लगा तब तक जितपद्माने उसके गलेमें

‘भो साहु साहु रणें दुण्णिरिक्ख । मं पहरु देव दइ जणण-भिव्ख ॥५॥  
 जें समरें परजिउ सत्तुदमणु । पइँ मुणुँ विअणुणु वरइत्तु कवणु’ ॥६॥  
 तं वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेण । आउद्धइँ घित्तइँ तक्खणेण ॥७॥  
 मुक्काउहु गउ अरिदमण-पासु । सहसक्खु व पणविउ जिणवरासु ॥८॥

घत्ता

‘जं अमरिस-कुद्धें जय-जस-लुद्धें विप्पिउ किउ तुम्हेहिँ सहुँ ।  
 अणुणु वि रेकारिउ कह वि ण मारिउ तं मरुसेज्जहि माम महु’ ॥९॥

[ १५ ]

खेमञ्जलिपुर - परमेसरेण । सोमित्त वुत्तु रज्जेसरेण ॥१॥  
 ‘किं जम्पिणुण वहु-अमरिसेण । लइ लइय कण्ण पइँ पउरिसेण ॥२॥  
 तुहुँ दीसहि दणु-माहप्प-चप्पु । कहें कवणु गोत्तु का माय वप्पु’ ॥३॥  
 महुमहणु पवोस्सिउ ‘णिसुणि राय । महु दसरहु ताउ सुमित्ति माय ॥४॥  
 अणुणु वि पयडउ इक्खक्कु वंसु । वड्डारउ जिह तरुवरहों वंसु ॥५॥  
 वे अम्हइँ लक्खण-राम भाय । वणवासहों रज्जु मुणुवि आय ॥६॥  
 उज्जाणें तुहारणुँ असुर-मद्दु । सहुँ सीयणुँ अक्कइ रामभद्दु’ ॥७॥  
 वयणेण तेण कण्टइउ राउ । संचल्लु णवर साहण-सहाउ ॥८॥

घत्ता

जण-मण-परिओसें तूर-णिघोसें णरवइ कहि मि ण माइयउ ।  
 जहिँ रामु स-भज्जउ वाहु-सहेज्जउ तं उद्देसु पराइयउ ॥९॥

[ १६ ]

एत्थन्तरें पर-वल-भड-णिसामु । उट्टिउ जण-णिवहु णिणुवि रामु ॥१॥  
 करें धणुहरु लेइ ण लेइ जाम । सकलत्तउ लक्खणु दिट्ठु ताम ॥२॥

माला डाल दी और वह बोली, “हे रणमें दुर्दर्शनीय, साधु-साधु, प्रहार मत करो, पिताकी भीख दो मुझे। तुमने युद्धमें अरि-दमनको जीत लिया। तुम्हें छोड़कर और कौन मेरा पति हो सकता है।” यह सुनकर लक्ष्मणने तुरंत अपने हथियार डाल दिये। और अरिदमनके पास जाकर उसने वैसे ही उसको प्रणाम किया जैसे इन्द्र जिनको प्रणाम करता है। उसने कहा—“अमर्ष और क्रोधसे, तथा यश और जयके लोभसे मैंने आपके साथ बुरा-वर्ताव किया है और भी ‘रे’ कहकर बुलाया। किसी तरह मारा भर नहीं। हे मामा (ससुर) वह क्षमा कर दीजिए!” ॥१-६॥

[ १५ ] तब क्षेमंजलिका राज-राजेश्वर अरिदमन बोला, “बहुत अमर्षपूर्ण प्रलापसे क्या, तुमने अपने पौरुषसे कन्या ले ली। तुम दानवांके माहात्म्यको चाँपनेवाले दिखाई देते हो, बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है? माँ और बाप कौन हैं?” इसपर लक्ष्मण बोला, “सुनिये राजन्! दशरथ मेरे पिता हैं और सुमित्रा माँ। और भी मेरा प्रसिद्ध इक्ष्वाकु कुल तरुवरके वंशकी तरह बड़ा है। हम राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, जो राज्य छोड़कर वनवासके लिए आये हैं। असुरसंहारक भद्र राम सीता देवीके साथ तुम्हारे उद्यानमें ठहरे हैं।” यह सुनकर राजा पुलकित हो उठा और सेनाको लेकर चल पड़ा। जनोंके मनके परितोष और तूर्यके निर्घोषसे वह नरपति अपने तईं नहीं समा सका। शीघ्र ही वह उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ अपने ही बाहुओंका भरोसा करने-वाले राम अपनी पत्नीके साथ थे ॥१-६॥

[ १६ ] यहाँ भी शत्रु-सेनाके सुभटोंका संहार करनेवाले राम जनसमूहको देखकर उठे। जब तक वह अपने हाथमें धनुष लें या न लें तब तक उन्होंने स्त्रीसहित लक्ष्मणको आते देखा।



सुरवइ व स-भज्जउ रहँ णिविट्ठु । अण्णेक्कु पासँ भरिदमणु दिट्ठु ॥३॥  
 सन्दणहोँ तरेप्पिणु दुण्णिवारु । रामहोँ चलणोँ हिँ णिवडिउ कुमारु ॥४॥  
 जियपउम स-विब्भम पउम-णयण । पउमच्छि पफुल्लिय-पउम-वयण ॥५॥  
 पउमहोँ पय-पउमोँहिँ पडिय कण्ण । तेण वि सु-पसत्थासीस दिण्ण ॥६॥  
 प्त्थन्तरोँ मामेँ ण किउ खेउ । कणय-रहँ चडाविउ रामएउ ॥७॥  
 पडु पडह पहय किय-कलयलेहिँ । उच्छाहोँहिँ धवल्लेहिँ मङ्गलेहिँ ॥८॥

### घत्ता

रहँ एक्केँ णिविट्ठइँ णयरँ पइट्ठइँ सीय-वलइँ वलवन्ताइँ ।  
 णारायणु णारि वि थियइँ चयारि वि रज्जुस इँ भु अ न्त इँ ॥९॥



## [ ३२, वत्तीसमो संधि ]

हलहर-चक्रहर परचक्र-हर जिणवर-सासणँ अणुराइय ।  
 मुणि-उवसग्गु जहिँ विहरन्त तहिँ वंसत्थलु णयरु पराइय ॥

### [ १ ]

ताम विसन्थुलु पाणकन्तउ । दिट्ठु असेसु वि जणु णासन्तउ ॥१॥  
 दुम्मणु दीण-वयणु विहाणउ । गउ विच्छत्त व गलिय-विसाणउ ॥२॥  
 पण्णय-णिवहु व फणिमणि-तोडिउ । गिरि-णिवहु व वज्जासणि-फोडिउ ॥३॥  
 पङ्कय-सण्डु व हिम-पवणाहउ । उब्भड-वयणु समुब्भिय-वाहउ ॥४॥  
 जणवउ जं णासन्तु पदीसिउ । राहवचन्देँ पुणु मग्गीसिउ ॥५॥  
 'थक्कोँ मं भज्जहोँ मं भज्जहोँ । अभउ अभउ भउ सयलु विवज्जहोँ' ॥६॥  
 ताम दिट्ठु ओखण्डिय-माणउ । णासन्तउ वंसत्थल - राणउ ॥७॥

इन्द्रकी भाँति वह पत्नीके साथ रथपर आरूढ़ था। उसके निकट दूसरा अरिदमन था। (रामको देखते ही) दुनिर्वार कुमार लक्ष्मण उनके चरणोंपर गिर पड़ा। खिले हुए कमलकी तरह मुखवाली कमलनयनी कन्या जितपद्मा विलासके साथ रामके चरणकमलोंपर नत हो गई। उन्होंने भी उसे प्रशस्त आशीर्वाद दिया। इतनेमें मामाने (ससुरने) जरा भी देर नहीं की। उसने रामदेवको सोनेके रथ पर बैठाया। पट्टु पटह बज उठे! कलकल ध्वनि और धवल तथा मंगल गीतोंके साथ, एक ही रथमें बैठकर बलवंत राम और सीताने नगरमें प्रवेश किया। ऐसे मानो वे विष्णु और लक्ष्मी हों। वे चारों इस तरह राज्यका उपभोग करते हुए वहीं रहने लगे ॥ १-६ ॥



### बत्तीसवीं संधि

जिनशासनमें अनुरक्त, दूसरेके चक्रका हरण करनेवाले वे दोनों राम और लक्ष्मण वहाँसे चलकर उस वंशस्थल नगरमें पहुँचे जहाँ मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था।

[ १ ] वह नगर जैसे सिसक रहा था, उन्होंने देखा सारे जन नष्ट हो रहे हैं, दुर्मन, दीनमुख और विद्रूप वे लोग दन्तहीन हाथीकी तरह एकदम कान्तिहीन हो उठे थे। वह जनपद वैसे ही नष्ट हो रहा था जैसे, फणमणि तोड़ लेनेपर सर्पराज, वज्रसे विदर्पण पर्वतसमूह और हिमपवनसे आहत होकर कमलसमूह नष्ट हो जाता है। हाथ उठाये और मुँह ऊपर किये हुए उन्हें देखकर, रामने यह अभय वचन दिया, “ठहरो ठहरो, भागो मत।” इतने ही में उन्हें वंशस्थलका गलितमान राजा दीख पड़ा। उसने कहा,

तेण वुत्तु 'मं णयरँ पईसहँ । तिण्णिमि पाण लएप्पिणु णासहँ ॥८॥

घत्ता

एत्तिउ एत्थु पुरँ गिरिवर-सिहरँ जो उट्टइ णाउ भयङ्करु ।  
तेण महन्तु डरु णिवडन्ति तरु मन्दिरइँ जन्ति सय-सक्करु ॥९॥

[ २ ]

एँउ दीसइ गिरिवर-सिहरु जेत्थु । उवसग्गु भयङ्करु होइ तेत्थु ॥१॥  
वाओलि धूलि दुव्वाइ एइ । पाहण पडन्ति महि थरहरेइ ॥२॥  
धर भमइ समुट्टइ सीह-णाउ । वरसन्ति मेह णिवडइ णिहाउ ॥३॥  
तँ कज्जे णासइ सयलु लोउ । मं तुम्ह वि उट्टु उवसग्गु होउ' ॥४॥  
तं णिसुणेवि सीय मणे कम्पिय । भाय-विसन्थुल एव पजम्पिय ॥५॥  
'अम्हँ देसें देसु भमन्तहुँ । कवणु पराहउ किर णासन्तहुँ' ॥६॥  
तं णिसुणेवि भणइ दामोयरु । 'वोल्लिउ काइँ माएँ पइँ कायरु ॥७॥  
विहि मि जाम करँ अतुल-पयावइँ । सायर - वजावत्तइँ चावइँ ॥८॥  
जाम विहि मि जय-लच्छि परिट्टिय । तोणारहिँ णाराय अहिट्टिय ॥९॥  
ताम माएँ तुहुँ कहँ आसङ्कहि । विहरु विहरु मा मुहु ओवङ्कहि ॥१०॥

घत्ता

धीरँवि जणय-सुय कोवण्ड-भुय संचल्ल वे वि वल-केसव ।  
सग्गहँ अवयरिय सइ-परियरिय इन्द-पडिन्द-सुरेस व ॥११॥

[ ३ ]

पहन्तरँ भयङ्करो । भूसाल - छिण्ण - कक्करो ॥१॥  
वलो व्व सिङ्ग-दीहरो । णियच्छिओ महीहरो ॥२॥  
कहिँ जँ भीम-कन्दरो । भरन्त-णीर - णिज्भरो ॥३॥  
कहिँ जि रत्तचन्दणो । तमाल-ताल - वन्दणो ॥४॥

“नगरमें मत घुसो, नहीं तो तीनोंके प्राण चले जाँयगे । यहाँ इस नगरमें पहाड़की चोटीपर जो भयङ्कर नाद उठता है, उससे बहुत भय होता है, बड़े-बड़े पेड़ तक गिर जाते हैं, और प्रासाद सौ-सौ खण्ड हो जाते हैं” ॥१-६॥

[ २ ] जहाँ यह विशाल पर्वत दीख पड़ता है, वहाँ भयङ्कर उत्पात हो रहा है । तूफान, धूलि और दुर्वात आ रहे हैं । पत्थर गिर रहे हैं और धरती काँप रही है । घर घूम रहे हैं, वज्राघात और सिंहनाद हो रहा है । मेघ बरस रहे हैं । अतः समूचा नगर ही नष्ट हुआ जाता है । तुमपर भी कहीं उत्पात न हो जाय” यह सुनते ही सीता देवी अपने मनमें काँप उठीं । वह भयकातर होकर बोलीं, “एक देशसे दूसरे देशमें घूमते और मारे-मारे फिरते हुए हम लोगोंपर कौन-सा पराभव आना चाहता है ।” यह सुनकर कुमार लक्ष्मणने कहा, “माँ तुम इस तरह कायर वचन क्यों कहती हो ! जब तक वज्रावर्त और सागरावर्त धनुष हमारे हाथमें हैं और जब तक तूणीर और बाणोंसे अधिष्ठित विजय-लक्ष्मी हमारे पास है तब तक माँ तुम आशङ्का ही क्यों करती हो, आगे चलनेमें मुँह मत बिचकाओ” । इस तरह जनकसुताको धीरज बँधाकर और हाथमें धनुष-बाण लेकर वे लोग चल दिये । जाते हुए वे ऐसे लगते थे मानो स्वर्गसे उतरकर, इन्द्र-प्रतीन्द्र ही शचीके साथ जा रहे हों ॥१-११॥

[ ३ ] थोड़ी दूरपर उन्हें कंकड़ और पत्थरोंसे आच्छन्न एक भयङ्कर पर्वत दिखाई दिया । उसके शृङ्ग ( चोटी और सींग ) बैलकी तरह विशाल थे । कहीं भीषण गुफाएँ थीं और कहीं पर पानी भरते हुए झरने । कहीं रक्तचंदनके वृक्ष थे और कहींपर तमाल, ताल तथा पीपलके पेड़ थे । कहीं काँतिसे रंजित मत्त मयूर

कहिं जि दिट्ट-छारया । लवन्त मत्त - मोरया ॥५॥  
 कहिं जि सीह-गण्डया । धुणन्त - पुच्छ-दण्डया ॥६॥  
 कहिं जि मत्त-णिढभरा । गुलुगुलन्ति कुञ्जरा ॥७॥  
 कहिं जि दाढ-भासुरा । घुरुघुरन्ति सूयरा ॥८॥  
 कहिं जि पुच्छ-दीहरा । किलिक्किलन्ति वाणरा ॥९॥  
 कहिं जि थोर-कन्धरा । परिढभमन्ति सम्बरा ॥१०॥  
 कहिं जि तुङ्ग-अङ्गया । हयारि - तिक्खसिङ्गया ॥११॥  
 कहिं जि आणणुणया । कुरङ्ग वुण्ण-कण्णया ॥११॥

घत्ता

तहिं तेहएँ सइलें तरुवर-वहलें आरूढ वे वि हरि-हलहर ।  
 जाणइ-विज्जुलएँ धवलुज्जलएँ चिञ्चइय णाइँ णव जलहर ॥१३॥

[ ४ ]

पिहुल-णियम्ब - विम्ब-रमणीयहँ । राहउ दुम दरिसावइ सीयहँ ॥१॥  
 एँहु सो धणें णग्गोह-पहाणु । जहिं रिसहहँ उप्पणउ णाणु ॥२॥  
 एँहु सो सत्तवन्तु किं न मुणित । अजित स-णाण-देहु जहिं पथुणित ॥३॥  
 एँहु सो इन्दवच्छु सुपसिद्धउ । जहिं संभव-जिणु णाण-समिद्धउ ॥४॥  
 एँहु सो सरलु सहलु संभूअउ । अहिणन्दणु स-णाणु जहिं हूअउ ॥५॥  
 एँहु पीयङ्गु सीएँ सच्छायउ । सुमइ स-णाणपिण्डु जहिं जायउ ॥६॥  
 एँहु सो सालु सीएँ णियच्छिउ । पउमप्पहु स-णाणु जहिं अच्छिउ ॥७॥  
 एँहु सो सिरिसु महद्दुमु जाणइ । णाणु सुपासँ भणँवि जगु जाणइ ॥८॥  
 एँहु सो णागरुक्खु चन्दपहँ । णाणुप्पत्ति जेत्थु चन्दप्पहँ ॥९॥  
 एँहु सो मालइरुक्खु पदीसिउ । पुप्फयन्तु जहिं णाण-विहूसिउ ॥१०॥

घत्ता

एँहु सो पक्खतरु फल-फुल्ल-भरु तेन्दुइ-समाणु दुह-णासहुँ ।  
 जहिं परिहूयाइँ संभूयाइँ सीयल-सेयंसहुँ ॥११॥

थे और कहीं पर अपनी पूँछ घुमाते हुए सिंह और मेढ़े । कहीं पर मदमाते गज गुरगुरा रहे थे और कहीं भयङ्कर दाढ़वाले सुअर घुर-घुरा रहे थे । कहीं मोटी और लम्बी पूँछके बन्दर किलकारी भर रहे थे । कहीं स्थूल कंधोंके सांभर घूम रहे थे, कहीं लम्बे शरीर और तीखे सोगोंके भैसे थे और कहींपर ऊपर मुख किये खिन्न कानवाले हिरन थे । ऐसे उस वृक्षोंसे सघन पर्वत पर दोनों भाई ( आगे बढ़ते ) चले गये । अत्यन्त गोरी जानकीके साथ वे दोनों भाई ऐसे ज्ञात हो रहे थे मानो बिजलीसे अंचित मेघ ही हो ॥१-१३॥

[ ४ ] तब राम सीताको, ( मोटे नितम्बों और अधरोंसे रमणीय ) अच्छी तरह पेड़ दिखाने लगे । उन्होंने कहा, “धन्ये, देखो वह मुख्य वटवृक्ष है जहाँ आदि तीर्थङ्कर आदिनाथको केवलज्ञान प्राप्त हुआ था । क्या तुम इस सत्यवंत वृक्षको जानती हो जिसके नीचे अजित केवलीकी खूब स्तुति हुई थी । और यह वह इन्द्र वृक्ष है जहाँ सम्भव-जिनने केवल ज्ञान प्राप्त किया था । यह वह सरल द्रुम है जहाँ अभिनंदन स्वामी केवलज्ञानी बने थे । यह वह सच्छाय प्रियंगु वृक्ष है जहाँ सुमतिनाथने केवलज्ञान प्राप्त किया । सीतादेवी देखो, यह वह शाल वृक्ष है जहाँ पद्मप्रभ-जिन केवलज्ञानी हुए थे और हे जानकि, यह शिरीषका महाद्रुम है जहाँ भगवान् सुपाश्वने ध्यान धारणकर समस्त विश्वको जाना था । चन्द्रमाके समान देखो यह नाग वृक्ष है जिसके नीचे चन्द्र प्रभु भगवान्ने केवलज्ञान प्राप्त किया था । यह वह मालती वृक्ष है जहाँ पुष्पदंत ज्ञानसे विभूषित हुए थे । फल-फूलोंसे लदा हुआ यह वह तेंदुकी की तरह प्लक्ष वृक्ष है जहाँ दुखनाशक शीतलनाथ और श्रेयांस भगवान्को केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई थी ॥१-११॥

[ ५ ]

एँह सा पाडलि सुहल सुपत्ती । वासुपुज्जें जहिँ णाणुप्पत्ती ॥१॥  
 एँसु सो जम्बू एहु असत्थु । विमलाणन्तहुँ णाण-समत्थु ॥२॥  
 उहु दहिवण्ण-गन्दि सुपसिद्धा । धम्म-सन्ति जहिँ णाण-समिद्धा ॥३॥  
 उहु साहार - तिलउ दीसन्ति । कुन्थु-अरहुँ जहिँ णाणुप्पत्ति ॥४॥  
 एँहु सो तरु कङ्केलि-पहाणु । मल्लिजिणहोँ जहिँ केवल-णाणु ॥५॥  
 एँहु सो चम्पउ किण्ण णियच्छिउ । मुणि सुव्वउ स-णाणु जहिँ अच्छिउ ॥६॥  
 इय उत्तिम-तरु इन्दु वि वन्दइ । जणु कज्जेण तेण अहिणन्दइ ॥७॥  
 एम चवन्त पत्त वल-लक्खण । जहिँ कुलभूसण-देसविहूसण ॥८॥  
 दिवस चयारि अणङ्ग-वियारा । पडिमा-जोगेँ थक्क भडारा ॥९॥

घत्ता

वेन्तर-घोणसेँ हिँ आसीविसेँ हिँ अहि-विच्छिय-वेत्ति-सहासेँ हिँ ।  
 वेडिय वे वि जण सुह-लुद्ध-मण पासण्डिय जिस पसु-पासेँ हिँ ॥१०॥

[ ६ ]

जं दिट्ठु असेसु वि अहि-णिहाउ । वलएउ भयङ्करु गरुडु जाउ ॥१॥  
 तोणीर-पक्खु वइदेहि-चब्बु । पक्खुज्जल - सर - रोमञ्च - कब्बु ॥२॥  
 सोमिन्ति-वियड-विप्फुरिय-वयणु । णाराय - तिक्ख - णिडुरिय-णयणु ॥३॥  
 दोण्णि वि कोवण्डइँ कण्ण दो वि । थिउ राहउ भीसणु गरुडु होवि ॥४॥  
 तं णयण-कडक्खेँ वि दुग्गमेहिँ । परिचिन्तिउ कज्जु भुअङ्गमेहिँ ॥५॥  
 'लहु णासहुँ किं णर-संगमेण । खज्जेसहुँ गरुड-विहङ्गमेण' ॥६॥  
 एत्थन्तरें विहडिय अहि मयन्ध । गय खयहोँ णाँँ मुणि-कम्मवन्ध ॥७॥  
 भय-भीय विसन्थुल मणेंण तट्ट । खर-पवण-पहय घण जिह पणट्ट ॥८॥

[ ५ ] यह अच्छे पत्तोंवाली पाटली लता है जिसकी छायामें वासुपूज्यको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था । ये वे जामुन और पीपल के वृक्ष हैं जिनके नीचे विमलनाथ और अनन्तनाथ ज्ञानसे समर्थ हुए थे । वे दधिपर्ण और नन्दीवृक्ष हैं जिनके नीचे धर्मनाथ और शान्तिनाथ ज्ञानसे समृद्ध हुए । ये वे तिलक और सहकार वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जहाँ कुंथुनाथ और अरहनाथको ज्ञानकी उत्पत्ति हुई । यह वह अशोक वृक्ष है जहाँ मल्लिनाथ जिनने केवलज्ञान-प्राप्त किया । क्या तुम वह चंपक पेड़ नहीं देख रही हो जहाँ केवल ज्ञानी, मुनिसुव्रत ध्यानके लिए बैठे थे । इस उत्तम वृक्षकी तो इन्द्र तक वन्दना करता है और इसीलिए लोग भी इसका अभि-नन्दन करते हैं ।” इस प्रकार बातें करते हुए वे लोग वहाँ पहुँचे जहाँपर भट्टारक, जितकाम, देशभूषण और कुलभूषण मुनि प्रतिमा योगध्यानमें लीन बैठे थे । शुद्धमन वे दोनों यति घूरते हुए ध्यन्तर देवों, विषाक्त साँपों-बिच्छुओं और लताओंसे इस प्रकार घिरे हुए थे जैसे पाखंडीजन घर, स्त्री आदि परिग्रहसे घिरे रहते हैं ॥१-१०॥

[ ६ ] रामने जब वहाँ सब ओर सर्प-समूह देखा तो स्वयं भयङ्कर गरुड़ बनकर बैठ गये । तूणीर उनके पंख थे, सीतादेवी चोंच थीं । रोमांच और कंचुक उजले पंखके बाण थे । लक्ष्मण ही खुला हुआ विकट मुख था । तीखे तीर डरावने नेत्र थे । दोनोंके दो धनुष, उस ( गरुड़ ) के कान थे । इस तरह राम भीषण गरुड़ का रूप धारण करके बैठ गये । उस ( रामरूपी गरुड़ ) को देखकर सर्पोंके लिए अपने प्राणोंकी चिन्ता होने लगी कि इस नरसंगममें हम शीघ्र ही नष्ट हो जायँगे । यह गरुड़ पक्षी हमें खा लेगा । इस प्रकार उन सर्पोंका नाश वैसे ही हो गया जैसे मुनिके कर्मबन्धका नाश हो जाता है । मनसे त्रस्त, भयभीत और कातर वे ध्वस्त होने



घत्ता

वेह्नी-सङ्कुलहों वंसत्थलहों विसहर-फुक्कार-करालहों ।  
जाय पगास रिसि णहें सूर-ससि उम्मिह्ण णाहँ घण-जालहों ॥६॥

[ ७ ]

अहि-णिवहु जं जें गउ ओसरें वि । मुणि वन्दिय जोग-भत्ति करें वि ॥१॥  
जे भव-संसारारिहें डरिय । सिव-सासय-गमणहों अइतुरिय ॥२॥  
विहिं दोसहिं जे ण परिग्गहिय । विहिं वज्जिय विहिं ऋणहिं सहिय ॥३॥  
तिहिं जाइ-जरा-मरणें हिं रहिय । दंसण - चारित्त - णाण - सहिय ॥४॥  
जे चउगइ-चउकसाय-महण । चउ-मङ्गल-कर चउ-सरण-मण ॥५॥  
जे पञ्च-महव्वय-दुधर-धर । पञ्चेन्दिय-दोस-विणासयर ॥६॥  
छत्तीस-गुणद्धि-गुणें हिं पवर । छज्जीव-णिकायहुँ खन्ति-कर ॥७॥  
जिय जेहिं सभय सत्त वि णरय । जे सत्त सिवङ्कर अणवरय ॥८॥  
कमट्ट - मयट्ट - दुट्ट - दमण । अट्टविह-गुणद्धी-सरसवण ॥९॥

घत्ता

एक्केकोत्तरिय इय गुण-भरिय पुणु वन्दिय वल-गोविन्दें हिं ।  
गिरि-मन्दिर-सिहरें वर-वेइहरें जिण-जुवलु व इन्द-पडिन्दें हिं ॥१०॥

[ ८ ]

भावें तिहि मि जणें हिं धम्मज्जणु । किउ चन्दण-रसेण सम्मज्जणु ॥१॥  
पुप्फच्चणिय छुद्ध-सयवत्तें हिं । पुणु आइत्तु गेउ मुणि-भत्तें हिं ॥२॥  
रामु सुघोस वीण अफ्फालइ । जा मुणिवरहु मि चित्तइँ चालइ ॥३॥  
जा रामउरिहिं आसि रवण्णी । तूसेंवि पूयण-जक्खें दिण्णी ॥४॥  
लक्खणु गाइ सलक्खणु गेउ । सत्त वि सर ति-गाम-सर-भेउ ॥५॥  
एक्कवीस वर-मुच्छण-ठाणइँ । एक्कुणपञ्चास वि सर-ताणइँ ॥६॥

लगे। उसके अनंतर, लताओंसे संकुल, और सर्पोंकी फूत्कारोंसे कराल उस वंशस्थल प्रदेशमें प्रकाश करते हुए उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमुक्त आकाशमें सूर्य और चन्द्र चमकते हैं ॥१-६॥

[ ७ ] सर्पसमूहका नाश होने पर रामने उचित भक्तिके साथ मुनिकी वन्दना की कि “आप दोनों ही भवसागरसे डरे हुए मोक्ष जानेकी शीघ्रतामें हैं, आप दोनों दोषरहित और दृढ़ हैं। दोनों ही ध्यानमें स्थित जन्म, जरा और मृत्युसे हीन हैं। दर्शन ज्ञान और चारित्रसे संपन्न चारों गतियों और कषायोंका नाश करनेवाले धर्मकी शरण अपने मानसमें धारण करनेवाले, पाँच महाकठोर व्रतोंके पालक, पाँचों ही इन्द्रियोंके दोषोंको दूर करनेवाले, छत्तीस उत्तम गुणोंसे सम्पन्न, छह प्रकारके निकायोंके जीवोंके प्रति क्षमाशील, सप्त महाभयङ्कर नरकोंके विजेता, सप्त कल्याणोंको निरन्तर धारण करनेवाले, दुष्ट आठ कर्मोंका नाश करनेवाले आप आठगुण-ऋद्धियोंसे परिपूर्ण हैं।” इस प्रकार एकसे एक उत्तम गुणोंसे भरपूर उन मुनियोंकी उसी तरह वन्दना-भक्ति की जिस तरह, मंदराचलकी वेदी पर इन्द्र और उपेन्द्र बाल जिनकी वन्दना-भक्ति करते हैं ॥१-१०॥

[ ८ ] फिर राम लक्ष्मणने भावपूर्वक धर्मलाभ किया और स्वच्छ कमलोंसे उनकी पुष्प-पूजा की। तदनन्तर मुनियोंकी भक्तिसे प्रेरित होकर उन्होंने गीत प्रारम्भ किया। और मुनियोंके मनको डगमगा देनेवाले सुघोष वीणाका वादन किया। यह वही सुन्दर वीणा थी जिसे राम-पुरीमें प्रसन्न होकर पूतन यक्षने रामको प्रदान की थी। लक्ष्मणने शास्त्रीय संगीत प्रारम्भ किया। उसमें सात स्वर, तीन ग्राम और दूसरे दूसरे स्वर-भेद थे। मूर्छनाके सुन्दर इक्कीस स्थान और उनचास स्वर-तानें थीं। तालपर

ताल-विताल पणञ्चइ जाणइ । णव रस अट्ट भाव जा जाणइ ॥७॥  
दस दिट्ठिउ वार्वास लयाइँ । भरहँ भरह-गविट्ठइँ जाइँ ॥८॥

घत्ता

भावें जणय-सुय चउसट्ठि भुय दरिसन्ति पणञ्चइ जावें हिँ ।  
दिणयर-अत्थवणों गिरि-गुहिल-वणों उवसग्गु समुट्ठिउ तावें हिँ ॥९॥

[ ९ ]

तो कोवग्गि-करम्बिय - हासइँ । दिट्ठइँ णहयलें असुर-सहासइँ ॥१॥  
अण्णइँ विप्फुरियाहर-वयणइँ । अण्णइँ रत्तुम्मिल्लिय-णयणइँ ॥२॥  
अण्णइँ पिङ्गइँ पिङ्गवखइँ । अण्णइँ णिम्मंसइँ दुप्पेक्खइँ ॥३॥  
अण्णइँ णहँ णञ्चन्ति विवत्थइँ । अण्णइँ तहिँ चामुण्ड-विहत्थइँ ॥४॥  
अण्णइँ कङ्कालइँ वेयालइँ । कत्तिय-मडय-करइँ विकरालइँ ॥५॥  
अण्णइँ मसि-वण्णइँ अपसत्थइँ । णर-सिर-माल - कवाल-विहत्थइँ ॥६॥  
अण्णइँ सोणिय-महर पियन्तइँ । णञ्चन्तइँ घुम्मन्त-घुलन्तइँ ॥७॥  
अण्णइँ किलकिलन्ति चउ-पासँ हिँ । अण्णइँ कहकहन्ति उवहासँ हिँ ॥८॥

घत्ता

अण्णइँ भांसणइँ दुहरिसणइँ 'मरु मारि मारि' जम्पन्तइँ ।  
देसविहूसणहँ कुलभूसणहँ आयइँ उवसग्गु करन्तइँ ॥९॥

[ १० ]

पुणु अण्णइँ अण्णण-पयारें हिँ । दुक्कइँ विसहर-फण-फुक्कारें हिँ ॥१॥  
अण्णइँ जम्बुव-सिव-फेक्कारें हिँ । वसह - ऋडक्क - मुक्क-ढेक्कारें हिँ ॥२॥  
अण्णइँ करिवर-कर - सिक्कारें हिँ । सर-सन्धिय-धणु-गुण - टक्कारें हिँ ॥३॥  
अण्णइँ गइह - मण्डल-सहँ हिँ । अण्णइँ बहुविह-भेसिय-णइँ हिँ ॥४॥  
अण्णइँ गिरिवर-तरुवर-घाएँ हिँ । पाणिय-पाहण - पवणुप्पाएँ हिँ ॥५॥  
अण्णइँ अमरिसं-रोस-फुरन्तइँ । णयणें हिँ अग्गि-फुलिङ्ग सुयन्तइँ ॥६॥

सीता नाच रही थीं। वह भी नौ रस, आठ भाव, दस दृष्टियों और बाईस लयोंको जानती थीं। इन सबका भरतके नाट्यशास्त्रमें भलीभाँति वर्णन है। इस प्रकार चौसठ हस्त-कलाओंका प्रदर्शन करती हुई सीतादेवी जब नाच रही थीं, तभी सूर्यास्त होने पर उस गहन वनमें फिर घोर उपसर्ग होने लगा ॥ १-६ ॥

[ ६ ] क्रोधसे भरे हुए हजारों राक्षस आकाशमें दिखाई देने लगे। उनमेंसे कितनों ही के अधर और मुख काँप रहे थे। कईके नेत्र आरक्त थे। कितनोंकी आँखें पीली-पीली थीं। कई निर्मास और दुर्दर्शनीय हो रहे थे। कितने ही आकाशमें नग्ननृत्य कर रहे थे। कई चामुण्ड हाथमें लिये हुए थे। कितने ही कंकाल और वेताल थे। कई कृत्तिका और शव अपने हाथ रखते थे। कोई अप्रशस्त काले रंगके थे। कईके हाथोंमें मुण्डमाला और खप्पर थे। कई रक्तकी मदिरा पीकर, और नाच-घूमकर मत्त हो रहे थे। कई चारों ओर खिलखिलाकर उपहास कर रहे थे। कितने ही दुर्दर्शनीय 'मारो मारो' चिल्ला रहे थे। इस प्रकार वे सब कुलभूषण और देश-भूषण मुनियों पर उपसर्ग करनेके लिए आये ॥१-८॥

[ १० ] दूसरे (उपद्रवी) सर्पके फनों और फूत्कारोंके साथ वहाँ उपसर्ग करने पहुँचे। कितने ही शृगाल और जम्बूककी फेक्कार ध्वनि कर रहे थे। कई गजशुंडके शीत्कार, सरसंधान और धनुषकी डोरीके साथ आये। दूसरे गर्दभ मण्डलकी ध्वनि तथा और और ध्वनियोंके साथ आये। दूसरे पेड़ों और पहाड़ोंके आवात, पानी, पत्थर और पवनका उत्पात करते हुए आये। दूसरे कई, क्रोध और अमर्षसे भरकर आये। कई आँखोंसे चिनगारियाँ बरसाते हुए दस-दस और सौ-सौ मुख बनाकर आये। दूसरे

अण्णइँ दह-वयणइँ सय-वयणइँ । अण्णइँ सहस-मुहइँ बहु-णयणइँ ॥  
तहिँ तेहएँ वि कालेँ मइ-विमलहुँ । तो वि ण चलिउ ऋणु मुणि-धवलहुँ ॥

घत्ता

वइरु सरन्ताइँ : पहरन्ताइँ सव्वल-हुलि-हल-मुखलग्गोँ हिँ ।  
कालेँ अप्पणउ भाँसावणउ दरिसाविउ णं बहु-भङ्गोँ हिँ ॥६॥

[ ११ ]

उवसग्गु णिएँ वि हरिसिय-मणेँ हिँ । णोसङ्गेँ हिँ वल-णारायणेँ हिँ ॥१॥  
मम्भाँसेँ वि सीय महावल्लेँ हिँ । मुणि-चलण-धराविय करयल्लेँ हिँ ॥२॥  
धणुहरइँ विहि मि अण्फालियइँ । णं सुर-भवणइँ संचालियइँ ॥३॥  
वुण्णइँ भय-भीय - विसण्ठुलइँ । णं रसियइँ णहयल-महियलइँ ॥४॥  
तं सद्दु सुणेँ वि आसङ्कियइँ । रिउ-चित्तइँ माण-कलङ्कियइँ ॥५॥  
धणुहर-टङ्कारेँ हिँ वहिरियइँ । णट्टइँ खल-खुइँ वइरियइँ ॥६॥  
णं अट्ट वि कम्मइँ णिज्जियइँ । णं पञ्चेन्दियइँ परजियइँ ॥७॥  
णं णासेँ वि गयइँ परीसहइँ । तिह असुर-सहासइँ दूसहइँ ॥८॥

घत्ता

छुडु छुडु णट्टाइँ भय-तट्टाइँ मेल्लेप्पिणु मच्छरु माणु ।  
ताव भण्डाराहुँ वय-धाराहुँ उप्पणउ केवल-णाणु ॥६॥

[ १२ ]

ताव मुणिन्दहँ णाणुप्पत्तिएँ । आय सुरासुर-वन्दणहत्तिएँ ॥१॥  
जेहिँ कित्ति तइल्लोक्केँ पगासिय । जोइस वेन्तर भवण-णिवासिय ॥२॥  
पहिलउ भावण सङ्ख-णिणहँ । वेन्तर तूरयफालिय - सहेँ ॥३॥  
जोइस-देव वि सीह-णिणाएँ । कप्पामर जयघण्ट - णिणाएँ ॥४॥  
संचलियेँ चउ-देवणिकाएँ । छाइउ णहु णं घण-संघाएँ ॥५॥  
वहइ विमाणु विमाणेँ चप्पिउ । वाहणु वाहण-णिवह-भुडघिउ ॥६॥

हजारों मुखों और असंख्य नेत्रोंको बनाकर आये। यह सब होनेपर भी उन विमलबुद्धि दोनों मुनियोंका ध्यान डिगा नहीं। (आततायी) सब्बल हलि हल और मूसलसे प्रहार कर रहे थे, अपनी तरह-तरह की भंगिमाओंसे वे यमकी तरह कराल जान पड़ रहे थे ॥१-६॥

[ ११ ] उस भयानक उपसर्गको देखकर हर्षितमन, निःशंक, महाबली राम और लक्ष्मणने सीताको अभयवचन दिया और अपने करतलसे मुनियोंके चरण-कमल पकड़कर, दोनों धनुष चला दिये। उनकी कठोर ध्वनिसे सुमेरु पर्वत भी हिल उठा। धरती और आसमान दोनों भयकातर हो गूँज उठे। उस शब्दसे शत्रुओंके हृदय दहल गये। उनका मान खण्डित हो गया। उन धनुषोंकी टंकारसे बड़े-बड़े लुब्ध राक्षस वैसे ही प्रणष्ट हो गये जिस प्रकार जिनके द्वारा आठ कर्म और पाँचों इन्द्रियाँ विजित कर ली जाती हैं। इस प्रकार मान और मत्सरसे भरे हुए राक्षसोंके नष्ट होते होते, उन व्रतधारी मुनियोंको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥१-६॥

[ १२ ] तब सुर और असुर उनकी वन्दना भक्तिके लिए आये। और उनकी कीर्ति चारों लोकोंमें फैल गई। ज्योतिष, भवन और व्यंतरवासी देव आने लगे। सबसे पहले भवनवासी देवोंने शङ्खध्वनि की। फिर व्यन्तर देवोंने अपना तूर्य बजाया और ज्योतिष देवोंने सिंहनाद किया तथा कल्पवासी देवोंने जय-घण्टोंका निनाद किया। इस प्रकार चारों निकायोंके देवोंके प्रस्थान करते ही आकाश इस प्रकार ढक गया मानो मेघोंसे ही आच्छन्न हो उठा हो। विमान विमानको चापकर उड़ रहे थे। सवारीसे सवारी टकरा गई। अश्वोंसे अश्व और रथोंसे रथ अवरुद्ध हो उठे।

तुरउ तुरङ्गमेण ओमाणिउ । सन्दणु सन्दणेण संदाणिउ ॥७॥  
 गयवरु गयवरेण पडिखलियउ । लग्गे वि मउडें मउडु उच्छलियउ ॥८॥

घत्ता

भावेँ पेलिलियउ भय-मेल्लियर सुर-साहणु लीलएँ आवइ ।  
 लोयहुँ मूढाहुँ तमेँ लूडाहुँ णं धम्म-रिद्धि दरिसावइ ॥९॥

[ १३ ]

ताव पुरन्दरेण अइरावउ । साहिउ जण-मण-णयण-सुहावउ ॥१॥  
 सोह दिन्तु चउसट्टी-णयणेँ हिँ । गुलगुलन्तु वत्तीसहिँ वयणेँ हिँ ॥२॥  
 वयणेँ वयणेँ अट्टट्ट विसाणइँ । णाइँ सुवण्ण - णिवद्ध-णिहाणइँ ॥३॥  
 एक्केक्कएँ विसाणेँ जण-मणहरु । एक्केक्कउ जेँ परिट्टउ सरवरु ॥४॥  
 सरें सरें सर-परिमाणुप्पण्णी । कमलिणि एक्क-एक्क णिप्पण्णी ॥५॥  
 एक्केक्केँ पउमिणिहेँ विसालइँ । पङ्कयाइँ वत्तीस स-णालइँ ॥६॥  
 कमलें कमलें वत्तीस जि पत्तइँ । पत्तेँ पत्तेँ णट्टाइ मि तेत्तइँ ॥७॥  
 वद्धिउ जम्बूदीव - पमाणें । पुणु जि परिट्टिउ तेण जि थाणेँ ॥८॥  
 तहिँ दुग्घोट्टेँ चडेँ वि सुर-सुन्दरु । वन्दणहत्तिणँ आउ पुरन्दरु ॥९॥  
 पुरउ सुरिन्दहोँ णयणाणन्देँहिँ । गुरु पोमाइउ वन्दिण-वन्देँहिँ ॥१०॥

घत्ता

देवहोँ दाणवहोँ खल-माणवहोँ रिसि चलणेँहिँ केव ण लगहोँ ।  
 जेहिँ तवन्तएँहिँ अचलन्तएँहिँ इन्दु वि अवयारिउ सग्गहोँ ॥११॥

[ १४ ]

जिणवर-चलण-कमल-दल - सेवहिँ । केवल-गाण-पुउज किय देवहिँ ॥१॥  
 भणइ पुरन्दरु अहोँ अहोँ लोयहोँ । जइ सङ्किय जर-मरण-विओयहोँ ॥२॥  
 जइ णिव्विण्णा चउ-गइ-भमणहोँ । तो कि ण दुक्कहो जिणवर-भवणहोँ ॥३॥  
 पुत्त कलत्तु जाव मणेँ चिन्तहोँ । जिणवर-विम्बु ताव कि ण चिन्तहोँ ॥४॥

गजसे गज और मुकुटसे मुकुट टकराकर उछल पड़े। भावविह्वल और अभय देवसेना वहाँ इस तरह आई मानो मूढलोकका अन्धकार दूर करनेके लिए धर्मऋद्धि ही चारों ओर बिखर गई हो ॥१-६॥

[ १३ ] तब इन्द्रने भी अपना ऐरावत हाथी सजाया। जनों के मन और नेत्रों के लिए सुहावने उस गजकी चौसठ आँखें अत्यन्त शोभित हो रही थीं। अपने बत्तीस मुखों से वह गुरगुरा रहा था। उसके एक-एक मुखमें आठ-आठ दाँत थे जो स्वर्णिम निधानकी तरह लगते थे। एक-एक दाँतपर एक-एक सरोवर था, प्रत्येक सरोवरमें उसीके अनुरूप आकार-प्रकारकी कमलिनी थी। एक-एक कमलिनीपर मृणालसहित बत्तीस कमल थे। एक-एक कमलमें बत्तीस पत्ते थे और पत्ते-पत्तेपर उतनी ही अप्सराएँ नृत्य कर रही थीं। जम्बूद्वीप प्रमाण वह गज अपने स्थानसे चल पड़ा। उसपर सुरसुन्दर पुरन्दर भी मुनिकी वन्दना-भक्ति करनेके लिए आया। इन्द्रके सम्मुख नयनानन्द दायक देवसमूहने जिनकी स्तुति प्रारम्भ की। देव, दानव, खल और मनुष्योंमें उस समय कौन ऐसा था जो उन मुनियोंके चरणोंमें नत न हुआ हो और तो और, स्वयं इन्द्र तकको स्वर्गसे उतरकर आना पड़ा ॥१-११॥

[ १४ ] जिनवरके चरण-कमलोंके सेवक देवोंने केवलज्ञानी उन मुनियोंकी खूब अर्चना की। फिर इन्द्रने कहा—“अरे, अरे ! तुम्हें यदि जन्म, जरा, मरण और वियोगसे आशंका हो, और यदि तुम चारगतियोंके भ्रमणसे छूटना चाहते हो तो जिनवर भवनकी शरणमें क्यों नहीं आते। जितनी पुत्र-कलत्रकी अपने मनमें चिन्ता करते हो उतनी जिन-प्रतिमाकी चिन्ता क्यों नहीं करते। जितना तुम मांस और कामका चिन्तन करते हो, उतना जिन-शासनका



चिन्तहों जाव मासु मयरासणु । कि ण चिन्तवहों ताव जिणसासणु ॥५॥  
 चिन्तहों जाव रिद्धि सिय सम्पय । कि ण चिन्तवहों ताव जिणवर-पय ॥६॥  
 चिन्तहों ताव रूउ धणु जोव्वणु । धणु सुवणु अणु घरु परियणु ।७॥  
 चिन्तहों जाव वलिउ भुव-पञ्जरु । कि ण चिन्तवहों ताव परमक्खरु ॥८॥

घत्ता

पेक्खहु धम्म-फलु चउरङ्गवल्लु पयहिण ति-वार देवाविउ ।  
 स इँ भु वणेसरहों परमेसरहों अत्थक्कएँ सेव कराविउ' ॥९॥



### [ ३३. तेत्तीसमो संधि ]

उप्पणएँ णाणें पुच्छइ रहु-तणउ ।  
 'कुलभूसण-देव किं उवसग्गु कउ' ॥

[ १ ]

तं णिसुणेंवि पभणइ परम-गुरु । 'सुणु जक्खथाणु णामेण पुरु ॥१॥  
 तहिँ कासव-सुरव महाभविय । एयारह - गुणथाणघविय ॥२॥  
 एक्कोवर किक्कर पुरवइहें । णं तुम्बुरु-णारय सुरवइहें ॥३॥  
 हम्मन्तु विहङ्गमु लुद्धएँ हिँ । परिरक्खिउ तेहिँ पवुद्धएँ हिँ ॥४॥  
 खगवइ तुणु बहुकालेण मुउ । विक्काचलें भित्ताहिवइ हुउ ॥५॥  
 तो कासव-सुरव वे वि मरें वि । थिय अमियसरहों घरें ओभरें वि ॥६॥  
 उवभोवादेविहें दोहलेंहिँ । उप्पणा वड्डुहिँ सोहलेंहिँ ॥७॥  
 वद्धावउ आयउ वन्धुजणु । किउ उइय-मुइय णामग्गहणु ॥८॥

चिन्तन क्यों नहीं करते ? जितनी चिन्ता तुम ऋद्धि, श्री और सम्पदा को करते हो उतनी जिनवरके चरणोंकी क्यों नहीं करते ? जितनी चिन्ता तुम्हें रूप, धन और यौवनकी है, और भी धान्य, सुवर्ण, घर और परिजनोंकी है, जितनी चिन्ता तुम्हें नश्वर भव-पञ्जर (शरीर) की है, उतनी चिन्ता परमाक्षरोंवाले (जिनवर) की क्यों नहीं है ? जरा, धर्मका फल तो देखो कि चतुरंग देवसेना मुनिवरकी तीन वार प्रदक्षिणा दे रही है । वह भुवनेश्वर-परमेश्वर जिनकी सेवा कर रही है ॥१-६॥



## तेतीसवीं संधि

केवलज्ञान उत्पन्न होने पर रामने पूछा, “कुलभूषण देव आप पर यह उपसर्ग क्यों हुआ ।”

[ १ ] यह सुनकर वह परम गुरु बोले, “सुनो बताता हूँ । यक्षस्थानपुर नामका एक नगर था । उसमें कर्षक और सूरप नामके दो ग्यारह प्रतिमाधारी भाई रहते थे । वे दोनों एक राजाके उसी प्रकार अनुचर थे जिस प्रकार इन्द्रके तुम्बुरु और नारद अनुचर हैं । प्रबुद्ध उन दोनोंने एक दिन व्याधसे आहत एक पत्नी की रक्षा की । बहुत दिनोंके बाद मरने पर वह पत्नी विंध्याटवीमें भिल्लराज हुआ । सूरप और कर्षक, दोनों भाई भी मरकर राजा अमृतसरकी पत्नीसे उत्पन्न हुए । उनके जन्म दिनका उत्सव खूब धूमधामसे मनाया गया । बन्धुजन बधाई देने आये । उनके

घत्ता

णं अमर-कुमार छुडु सागहों पडिय ।

णाणङ्कुस-हत्थ जोव्वण-गएँ चडिय ॥६॥

[ २ ]

तो पउमिणिपुर - परमेसरहों । दरिमाविय विजय-मर्हीहरहों ॥१॥  
 तेण वि णिय-सुअहों जयन्धरहों । किय किङ्कर वड्डिय-रणभरहों ॥२॥  
 अच्छन्ति जाम भुञ्जन्ति सिय । तो ताम जणेरहों गमण-किय ॥३॥  
 पट्टविउ णरिन्दें अमियसरु । अइभूमि - लेह - रिब्बोलि-धरु ॥४॥  
 वसुभूइ सहेजउ तासु गउ । तें णवर पाण-विच्छोउ कउ ॥५॥  
 पल्लट्टइ पल्लट्टिउ भणेंवि । ते उइय-मुइय तिण-ससु गणेंवि ॥६॥  
 सो उवउवाएविणें सहुँ जियइ । अमिओवमु अहर-पाणु पियइ ॥७॥  
 परियाणेंवि जेहें दुच्चरिउ । वसुभूइहें जाविउ अवहरिउ ॥८॥

घत्ता

उप्पण्णउ विब्भें होप्पिणु पल्लिवइ ।

पुव्वक्किउ कम्मु सब्बहों परिणवइ ॥६॥

[ ३ ]

जय-पव्वय - पवरुजाणु जहिँ । रिसि-सङ्घु पराइउ ताव तहिँ ॥१॥  
 किय रुक्खँ रुक्खँ आवास-किय । णं रुक्खँ रुक्खँ अवइण्ण सिय ॥२॥  
 संजायइँ अङ्गइँ कोमलइँ । अहियइँ पण्णइँ फुल्लइँ फलइँ ॥३॥  
 रिसि रुक्ख व अविचल होवि थिय । किसलएँ परिवेढावेढि किय ॥४॥  
 रिसि रुक्ख व तवण-ताव तविय । रिसि रुक्ख व मूल-गुणग्घविय ॥५॥

नाम उदित और मुदित रक्खे गये । वे दोनो' ऐसे प्रतीत होते थे मानो अमर कुमार ही स्वर्गसे अवतरित हुए हों । धीरे-धीरे वे यौवनरूपी महागज पर आरूढ़ हो चले । तो भी उन पर विवेक का अंकुश उनके हाथमें था ॥१-६॥

[ २ ] ( कुछ समयके बाद ) पिताने पद्मिनीपुरके राजा विजयको अपने पुत्र दिखाये । उसने उन दोनोंको युद्धभार उठानेमें समर्थ जानकर अपने पुत्र जयन्धरका अनुचर नियुक्त कर दिया । इस प्रकार सम्पदाका उपभोग करते हुए वे दोनो' रहने लगे । एक दिन उनके पिता अमृतसरको ( किसी कामसे ) बाहर जाना पड़ा । राजाने उसे भूमिसंबन्धी कोई लेखमाला देकर बहुत दूर भेजा । वसुभूति नामका ब्राह्मण भी उसके साथ गया । वह वहाँ ( परदेशमें ) कुछ और नहीं कर सका तो अमृतसरके प्राणोंको ही समाप्त कर बैठा । ( उसका अमृतसरकी पत्नीसे अनुचित सम्बन्ध था ) वहाँसे लौटकर पतिको मरा समझ वह ब्राह्मण उसकी पत्नीके साथ आनन्दोपभोग करने लगा । उसे उदित-मुदितकी जरा भी परवाह नहीं थी । वह इस प्रकार उपभोगके साथ अधरामृतका पान करने लगा । तब बड़े भाईने उसे दुश्चरित्र समझकर मार डाला । वह भी मरकर विंध्याटवीमें भीलोंका राजा हुआ । पूर्वकृत कर्म सभीको भोगने पड़ते हैं ॥१-६॥

[ ३ ] इसी बीच राजा विजयके उद्यानमें एक मुनि संघका आगमन हुआ । वृक्षोंके नीचे निवास करता हुआ वह संघ ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्षोंके नीचे श्री ही अवतरित हुई हो । उनके अंकुर कोमल हो गये । नये पत्ते, फल और फूल आ गये । मुनि वृक्षोंकी ही भाँति अपने ध्यानमें अचल थे । पेड़ोंके पल्लव

रिसि रुक्ख व आलवाल-रहिय । रिसि रुक्ख व मोक्ख-फलब्भहिय ॥६॥  
 गउ णन्दणवणिउ तुरन्तु तहिँ । सो विजय-महीहर-राउ जहिँ ॥७॥  
 “परमेसर केसरि - विक्कमँहिँ । उजाणु लइउ जइ-पुङ्गवँहिँ ॥८॥

घत्ता

वारन्तहों मज्झु उम्मग्गिम करँवि ।  
 रिसि-सीह-किसोर (व) थिय वणँ पइसरँवि” ॥९॥

[ ४ ]

तं णिसुणँवि णरवइ गयउ तहिँ । आवासिउ महरिसि-सत्थु जहिँ ॥१॥  
 वोल्लाविय अहों “अहों मुणिवरहों । अवुहहों अयाण - परमक्खरहों ॥२॥  
 परमप्पउ अप्पउ होवि थिउ । कज्जेण केण रिसि-वेसु किउ ॥३॥  
 अइदुल्लहु लहँवि मणुअत्तणउ । कँ कज्जेँ विणडहों अप्पणउ ॥४॥  
 कहों केरउ परम-मोक्ख-गमणु । वरि माणिउ मणहरु तरुणियणु ॥५॥  
 सच्छाइँ आयइँ अङ्गाइँ । सोलह - आहरणहँ जोग्गाइँ ॥६॥  
 वित्थिण्णइँ आयइँ कडियलइँ । हय - गय-रह - वाहण-पच्चलइँ ॥७॥  
 लायण्णइँ रूवइँ जोव्वणइँ । णिप्फलइँ गयइँ तुम्हहँ तणइँ ॥८॥

घत्ता

सुपसिद्ध लोएँ एक्क वि तउ ण कउ ।  
 पुग्हाण किलेसु सयलु णिरत्थु गउ” ॥९॥

[ ५ ]

तो मोक्ख-रुक्ख - फल - वद्धणँण । महिपालु वुत्तु मइवद्धणँण ॥१॥  
 “पइँ अप्पउ काइँ विडम्बियउ । अच्छहि सुह - दुक्ख-करम्बियउ ॥२॥  
 कहों घरु कहो पुत्त-कलत्ताइँ । धय चिन्धइँ चामर-द्धत्ताइँ ॥३॥

उन्हें बार-बार ढक लेते थे । वह वृक्षको ही तरह तपनशील ( तप और घामको सहनेवाले ) उन्हींकी तरह मूलगुणों ( अट्टाईस मूल गुण और जड़ ) से महान् थे । फिर भी वे महामुनि वृक्षांके समान आलवाल ( परिग्रह और लता आदि ) से रहित थे । परन्तु फल ( मोक्ष ) से सहित थे । उन्हें देखकर वनपाल राजा विजयके पास दौड़ा गया और जाकर बोला, “परमेश्वर सिंहकी भाँति पराक्रमी, उत्तम मुनियोंने बलात् उद्यानमें प्रवेश कर लिया है ।” मना करने पर भी वे वैसे ही भीतर घुस आये हैं जैसे किशोर सिंह वनमें घुस आता है ॥१-६॥

[ ४ ] यह सुनते ही राजा वहाँ जा पहुँचा जहाँ वह मुनि-संघ विराजमान था । जाकर उसने भर्त्सना करते हुए कहा, “अरे अपण्डित परममूर्ख यतिवरो ! तुम तो स्वयं परमात्मा बनकर बैठे हो । तुमने मुनिका यह वेष किस लिए बनाया ? अत्यन्त दुर्लभ मानव शरीर पाकर उसका नाश क्यों कर रहे हो ? फिर परममोक्ष किसने आज तक प्राप्त किया ? इसलिए सुन्दर स्त्री-जनको ही बढ़िया समझो । ये सुन्दर कान्तिमय अङ्ग सोलह शृङ्गारके योग्य हैं । यह चौड़ा कटिभाग हय, गज और रथोंकी सवारीके लिए है । तुम्हारा लावण्य, रूप और यौवन सभी कुछ व्यर्थ गया । लोकमें प्रसिद्ध ( मौजकी ) तुमने एक भी बात नहीं की । तुम्हारा यह सब क्लेश उठाना एक प्रकारसे व्यर्थ गया ॥१-६॥

[ ५ ] तब मोक्ष महावृक्षके फलको बढ़ानेवाले मतिवर्धन नामके यतिने राजासे कहा “तुम अपनी विडम्बना क्यों कर रहे हो, सुख-दुखमें सने क्यों बैठे हो, किसका यह घर, किसके पुत्र-

स-विमाणइँ जाणइँ जोगाइँ । रह तुरय - महगय - दुग्गाइँ ॥४॥  
 धण-धणइँ जीविय-जोवणइँ । जल-कीलउ पाणइँ उववणइँ ॥५॥  
 वइसणउ वसुन्धरि वजाइँ । णउ कासु वि होन्ति सहेजाइँ ॥६॥  
 आयहिँ वहुयहिँ वेयारियइँ । वम्भाणहँ लक्खइँ मारियइँ ॥७॥  
 सुरवइँहिँ सहासइँ पाडियइँ । चक्कवइँ-सयइँ णिद्धाडियइँ ॥८॥

घत्ता

एय वि अवरे वि कालें कवलु किय ।  
 सिय कहों समाणु एक्कु वि पउ ण गय” ॥९॥

[ ६ ]

परमेसरु पुणु वि पुणु वि कहइ । “जिउ तिण्णि अवत्थउ उव्वहइ ॥१॥  
 उप्पत्ति - जरा - मरणावसरु । पहिलउ जें णिवद्धउ देह-घरु ॥२॥  
 पुग्गल-परिमाण - सुत्तु धरें वि । कर-चलण चयारि खम्म करें वि ॥३॥  
 बहु-अत्थि जि अन्तहिँ ढङ्कियउ । मासिट्ठु चम्म-छुह - पङ्कियउ ॥४॥  
 सिर - कलसालङ्कियउ संचरइ । माणुसु वर-भवणहों अणुहरइ ॥५॥  
 तरुणत्तणु जाम ताम वहइ । पुणु पच्छएँ जुण्ण-भाउ लहइ ॥६॥  
 सिरु कम्पइ जम्पइ ण वि वयणु । ण सुणन्ति कण्ण ण णियइ णयणु ॥७॥  
 ण चलन्ति चलण ण करन्ति कर । जर-जजरिहोइ सरारु पर ॥८॥

घत्ता

पुणु पच्छिम-कालें णिवडइ देह-घरु ।  
 जिउ जेम विहङ्गु उड्डइ मुएँ वि तरु ॥९॥

[ ७ ]

तं णिसुणें वि णरवइ उवसमिउ । णिय-णन्दणु णिय-पएँ सण्णिमिउ ॥१॥  
 अप्पुणु पुणु भाव-गाह-गहिउ । णिक्खन्तु णराहिव-सय-सहिउ ॥२॥

कलत्र ? ध्वजचिह्न, चामर, छत्र, विमान, बढ़िया योग्य रथ, अश्व, महागज, दुर्ग, धन-धान्य, जीवित, यौवन, जलक्रीड़ा, प्राण, उपवन, आसन, धरती और हीरा रत्न किसीके भी साथी नहीं होते। इन्होंने बहुतोंको खंडित किया है, लाखों ब्रह्मज्ञानियों ब्राह्मणोंको मार दिया है। इनसे हजारों इन्द्र धराशायी हो गये। सैकड़ों चक्रवर्ती विनष्ट हो गये। इनको और दैत्योंको भी कालने कवलित किया है। सम्पदा किसीके भी साथ एक भी पग नहीं गई ॥१-६॥

[ ६ ] तब परमेश्वरने बार-बार यही कहा—“जीवकी तीन अवस्थाएँ होती हैं। जन्म, जरा और मृत्यु। पहले ही (पूर्वजन्ममें) जो जीवने देहरूपी घर किया था (उसका बन्ध किया था।) उन्हीं पुद्गल परमाणुओंके सूत्रको लेकर हाथों और पैरोंके चार खम्भ बनाये जाते हैं फिर बहुत-सी हड्डियों और आंतोंसे उसे ढककर, मांस और चर्मके चूनेसे पोत दिया गया है। फिर सिर रूपी कलशसे अलंकृत होकर वह चलने लगता है। इस तरह मनुष्यका तन एक उत्तम भवनसे मिलता-जुलता है। यौवनको तो यह जिस किसी तरह ढकेलता है पर बादमें जीर्ण-शीर्ण हो जाता है। सिर काँपने लगता है, मुखसे बात नहीं निकलती। कान सुनते नहीं, आंखें देखती नहीं। पैर चलते नहीं। हाथ काम नहीं करते, केवल शरीर जर्जर हो उठता है। फिर मरण-कालमें यह देहरूप घर ढह जाता है और जीव उससे उसी तरह उड़ जाता है जिस तरह पक्षी पेड़को छोड़कर उड़ जाता है ॥१-६॥

[ ७ ] यह सुनकर राजा शान्त हो गया। अपने पुत्रको उसने अपने पदपर नियुक्त कर दिया। वह स्वयं भवरूपी ग्राहसे गृहीत होकर दूसरे सौ राजाओंके साथ दीक्षित हो गया। वहींपर



तहिँ उइय-मुइय णिगन्थ थिय । कर-कमलेंहिँ केसुप्पाड किय ॥३॥  
 पुणु सवण-सङ्घु तहों पुरवरहों । गउ वन्दणहत्तिण् जिणवरहों ॥४॥  
 सम्मेयहों जन्त जन्त वलिय । पहु छड्डेँ वि उप्पहेण चलिय ॥५॥  
 ते उइय-मुइय दुइ णिव्वडिय । वसुभूइ-भिल्ल - पल्लिहें पडिय ॥६॥  
 धाइउ धाणुककु वद्ध-वइरु । गुञ्जाहल-णयणु पीय-मइरु ॥७॥  
 दुप्पेच्छ - वच्छु थिर-थोर-करु । अप्फालिय धणुहरु गहिर-सरु ॥८॥

घत्ता

वइरइँ ण कुहन्ति होन्ति ण जजरइँ ।  
 हउ हणइ णिरुत्तु सत्त-भवन्तरइँ ॥९॥

[ ८ ]

हक्कारिय विण्णि वि दुद्धरेण । णिय-वइयर - वइर-विरुद्धएण ॥१॥  
 “अहों संचारिम-णर - वणयरहों । कहिँ गम्मइ एवहिँ महु मरहों” ॥२॥  
 तं सुणें वि महावय-धारएँण । धीरिउ लहुवउ वड्डारएँण ॥३॥  
 “मं भीहि थाहि अण्णहों भवहों । उवसग्ग-सहणु भूसणु तवहों” ॥४॥  
 तहिँ तेहण् विहुरें समावडिण् । अधुरन्धरें गरुअ-भारें पडिण् ॥५॥  
 थिउ खन्धु समड्डेँ वि एक्कु जणु । भिल्लाहिउ अब्भुद्धरण - मणु ॥६॥  
 जो पुव्व - भवन्तरें पक्खियउ । पुरें जक्खथाणं परिरक्खियउ ॥७॥  
 तें वुच्चइ “लोद्धा ओसरहि । को मारइ रिसि तुहुँ महु मरहि” ॥८॥

घत्ता

वोलाविय तेण कालान्तरेंण मय ।  
 दय चड्डेँ वि णिसेणि लीलएँ सग्गु गय ॥९॥

उदित-मुदित भी दिगम्बर हो गये । अपने करकमलोंसे ही उन्होंने केश लॉच कर लिया । फिर वह श्रमणसंघ उस नगरसे जिनवरकी वंदना-भक्ति करनेके लिए चल पड़ा । परन्तु सम्मेदशिखरजीको जाते-जाते उदित-मुदित दोनों भाई मुड़कर, पथ छोड़कर गलत मार्गपर जा लगे । भूले-भटके वे दोनों वसुमति भीलराजके गांव में पहुँच गये । उन्हें देखते ही आरक्त नेत्र, मदिरा पिये हुए वह वैर-भाव कर उनपर दौड़ा । उसका वक्ष दुर्दर्शनीय था और हाथ स्थूल और विशाल थे । उसने अपना गम्भीर स्वरवाला धनुष चढ़ा लिया । ठीक ही है कि वैर न तो नष्ट होता है और न जीर्ण । यह निश्चित है कि आहत व्यक्ति सात भवान्तरोंमें भी मारता है ॥१-६॥

[ ८ ] अपने शत्रुओंके वैरसे विरुद्ध होकर दुर्धर उसने उन दोनोंको ललकारा, “हे हेरिको ! कहाँ जाते हो ? मैं तुम्हें मारता हूँ ।” यह सुनकर महाव्रतधारी बड़े भाईने छोटे भाईको धीरज बंधाते हुए कहा, “डरो मत, दूसरे भवका मनमें विचार करो, उपसर्ग सहन करना ही तपका भूषण है” । उस ऐसे विधुर समयमें, अंधाधुन्ध घोर संकट आ पड़नेपर, एक और भिल्लराज उनके उद्धारकी इच्छासे कन्धा ऊँचा करके स्थित हो गया । यह पूर्व-भवका वही पत्नी था जिसकी यज्ञस्थानमें इन्होंने रक्षा की थी । उसने कहा, “अरे लुब्धक, हट । ऋषिको कौन मार सकता है, तू मुझसे मारा जायगा ।” इस तरह उसने उससे हमें छुड़वा दिया । कालान्तरमें मरकर वह दयाकी नसैनी चढ़कर लीलापूर्वक स्वर्ग चला गया ॥१-६॥

[ ६ ]

पावासउ पउरु पाउ करवि । बहु-कालु णरय-तिरियहिँ फिरँवि ॥१॥  
 वसुभूइ-भिल्लु धण-जण-पउरँ । पट्टणँ उप्पण्णु अरिट्टउरँ ॥२॥  
 णामेण अणुद्धरु दुहरिसु । कणयप्पह-जणणि - जणिय-हरिसु ॥३॥  
 दुल्लङ्गहोँ णिय-कुल-पव्वयहोँ । णन्दण णरवइहँ पियव्वयहोँ ॥४॥  
 ते उइय-मुइय तासु 'जि तणय । विण्णाण - कला - पर-पार-गय ॥५॥  
 गिरि-धीर महोवहि-गहिर-गुण । पय-पालण रज्ज-कज्ज-णिउण ॥६॥  
 णामङ्किय रयण-विचित्त - रह । पउमावइ-सुअ ससि-सूर-पह ॥७॥  
 छद्विवसइँ सल्लेहणु करँवि । गउ सग्गु पियव्वउ तहिँ मरँवि ॥८॥  
 जगडन्तु अणुद्धरु डामरिउ । रणँ रयण-विचित्तरहँ धरिउ ॥९॥

घत्ता

पच्चण्डहिँ तेहिँ छड्ढाविय,डमरु ।  
 हुउ अवर-भवेण अग्गिकेउ अमरु ॥१०॥

[ १० ]

बहु-कालेँ रयण- विचित्तरह । तउ करँवि मरँवि परिभमँवि पह ॥१॥  
 उप्पण्ण वे वि सिद्धत्थपुरँ । कण-कज्जण-जण-धण-पय - पउरँ ॥२॥  
 विमलग्गमहिसि - खेमङ्करहुँ । अवरोप्परु णयण - सुहङ्करहुँ ॥३॥  
 कुलभूसणु पढमु पुत्तु पवरु । लहु देसविहूसणु एक्कु अवरु ॥४॥  
 अण्णु वि उप्पण्ण एक्क दुहिय । कमलोच्छव रुन्द-चन्द-मुहिय ॥५॥  
 वेण्णि मि कुमार सालहिँ णिमिय । आयरियहोँ कहोँ वि समुल्लविय ॥६॥  
 पढमाण जुवाण-भावँ चडिय । णं दइवेँ वे अणङ्ग घडिय ॥७॥  
 वित्थय - वच्छयल पलम्ब-भुअ । णं सग्गहोँ इन्द-पडिन्द चुअ ॥८॥

[ ६ ] परन्तु पापाशय वह भीलराज खूब पाप कर, बहुत समय तक नरक और तिर्यञ्च गतियोंमें सड़ता रहा । फिर धन-जनसे पूर्ण अरिष्ट नगरमें उत्पन्न हुआ । उसका नाम था अनुद्धर । दुर्दर्शन वह अपनी मां कनकप्रभाके लिए बहुत हर्षदायक था । वे उदित-मुदित भी, अपने कुलके दुर्लभ्य पर्वत सदृश प्रियव्रत नामक राजाके पुत्र हुए । वे दोनों ही विज्ञान और कलामें पारङ्गत थे । पर्वतकी तरह धीर, समुद्रकी भांति गम्भीर, प्रजापालन और राजकाजमें निपुण । उनके नाम थे रत्नरथ और विचित्ररथ । शशि और सूर्यकी तरह प्रभावाले वे रानी पद्मावतीसे उत्पन्न हुए थे । ( कुछ समयके बाद ) छह दिनका सल्लेखना व्रत करके जब उनका पिता प्रियव्रत राजा मरकर स्वर्ग चला गया तब उन दोनों भाइयोंने विद्रोही और भगड़ालू अनुद्धरको पकड़ लिया । और उसका विद्रोह कुचल दिया । मरकर दूसरे जन्ममें वह अग्निकेतु नामका देव हुआ ॥१-६॥

[ १० ] बहुत कालके अनन्तर रत्नरथ और विचित्ररथ तप करके स्वर्गवासी हुए । और फिर घूम-फिरकर सिद्धार्थपुरमें उत्पन्न हुए । वह नगर धनकण कांचन जन और दुग्धसे खूब भरपूर था । परस्पर एक दूसरेके नेत्रोंके लिए शुभङ्कर विमला और क्षेमङ्कर उनके माता-पिता थे । उनमें बड़ेका नाम कुलभूषण और छोटेका देशभूषण था । एक और कमलोत्सवा नामकी चन्द्रमुखी कन्या उत्पन्न हुई । वे दोनों कुमार शासनमें आचार्य नेमिको सौंप दिये गये । पढ़ लिखकर जब वे युवक हुए तो ऐसे मालूम होते थे जैसे दैवहीने उन्हें गढ़ा हो । उनके वक्षस्थल विशाल, बाहुएँ लम्बी थीं । वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो स्वर्गसे इन्द्र उपेन्द्र ही अवतरित हुए ।

घत्ता

कमलोच्छ्रव ताम कहि मि समावडिय ।  
 णं वम्मह-भल्लि हियएँ ऋत्ति पडिय ॥६॥

[ ११ ]

कुलभूसण - देसविहूसणहुँ । णिय-वहिणि-रूव - पेसिय-मणहुँ ॥१॥  
 पडिहाइ ण चन्दण-लेव-छवि । धवलामल-कोमल-कमलु ण वि ॥२॥  
 ण वि जलु जलइ दाहिण-पवणु । कुसुमाउहेण ण णडिउ कवणु ॥३॥  
 पेक्खेप्पिणु पयइँ सु-कोमलइँ । ण सहन्ति रूइ - रत्तप्पलइँ ॥४॥  
 पेक्खेवि थणवट्टइँ चक्कलइँ । उच्चिट्टइँ करि - कुम्भत्थलइँ ॥५॥  
 पेक्खेप्पिणु मुहु वालहँ तणउ । पडिहाइ ण चन्दणु चन्दिणउ ॥६॥  
 लोयणइँ रूवँ पङ्गुत्ताइँ । ढोरा इव कहमँ खुत्ताइँ ॥७॥  
 पेक्खेप्पिणु केस-कलाउ मणँ । ण सुहन्ति मोर णच्चन्त वणँ ॥८॥

घत्ता

दिट्ठि-विस वाल सम्पहँ अणुहरइ ।  
 जो जोअइ को वि सो सयलु वि मरइ ॥६॥

[ १२ ]

तहिँ भवसरँ पणइहिँ पहु भणिउ । खेमङ्कर तुहुँ जणणिँ जणिउ ॥१॥  
 तुहुँ महियलँ धणणउ एक्कु पर । कमलोच्छ्रव दुहिय जासु पवर ॥२॥  
 कुल-देसविहूसण जमल सुय । तं णिसुणँवि णाँ कुमार सुय ॥३॥  
 हय-हियय काँ चिन्तवसि तुहुँ । पाविज्जइ जेहिँ महन्तु दुहु ॥४॥  
 खल-खुइँ दुक्किय-गाराँ । णारइय णरय-पइसाराँ ॥५॥  
 गय-वाहि-दुक्ख-हक्काराँ । सिव-सासय-गमण-णिवाराँ ॥६॥  
 तित्थङ्कर-गणहर-णिन्दियइँ । णउ खञ्जहि पञ्च-वि-इन्दियइँ ॥७॥  
 रूवेण पयङ्गु मीणु रसँण । मिगु सवणँ भसलु गन्धवसँण ॥८॥

हों। एक दिन कमलोत्सवा कहींसे आती हुई उन्हें दिख गई। कामकी अनीकी तरह वह शीघ्र ही उनके हृदयमें विंध गई ॥१-६॥

[ ११ ] अपनी ही बहिनके रूपमें आसक्तमन होकर उन दोनोंको चन्द्रलेखाकी छवि भी नहीं भाती थी। न तो धवल, अमल, कोमल, कमल अच्छा लगता और न जल या जलार्द्र दक्षिण-पवन। उसके सुकोमल चरण देखकर उन्हें सुन्दर रक्त-कमल अशोभन लगते थे। उसके गोल सुडौल स्तनोंको देखकर उनका मन हार्थीके कुम्भस्थलसे उचट गया। उस बालाका मुख देख लेनेपर, उन्हें चाँद या चाँदनी अच्छी नहीं लगती थी। उसके सौन्दर्यमें उन दोनोंकी आँखें ऐसी लिप्त हो गईं मानो ढोर ही कीचड़में फँस गये हों। उसके केश-कलापको देखकर उनके मनको वनमें नाचता हुआ मोर अच्छा नहीं लगा। अपनी दृष्टिमें विष छिपाये हुए वह बाला—सांपके समान थी जो भी उसे देखता वही मारा जाता ॥ १-६ ॥

[ १२ ] उस अवसरपर वन्दीजनोंने राजासे कहा—“चेङ्कमर ! सचमुच मांसे उत्पन्न तुम्हीं हुए हो, महीमण्डलपर तुम्हीं एक धन्य हो, कि जिसकी कमलोत्सवा जैसी पुत्री है और कुल-भूषण देश-भूषण जैसे दो पुत्र हैं।” यह सुनकर वे दोनों कुमार जैसे सन्न रह गये। वे अपने तई सोचने लगे—“अभागे हृदय ! तुम क्या चिन्तन कर रहे हो, इससे तुम घोर दुख पाओगे, इन पाँच इन्द्रियोंमें तुम मत फँसो, ये क्षुद्र और दुष्ट बहुत ही अनर्थ करने-वाली हैं, ये नारकीय नरकमें ले जानेवाली हैं। ये, रोग-व्याधि और दुखोंको आमन्त्रण देती हैं, और शाश्वत शिवगमनका निवारण करती हैं। तीर्थङ्करों और गणधरोंने इनकी निन्दा की है। रूपसे

## घत्ता

फरिसेण विणासु मत्त-गइन्दु गउ ।  
जो सेवइ पञ्च तहों उत्तारु कउ ॥६॥

[ १३ ]

तो किय णिवित्ति परिणेवाहों । सावज्जु रज्जु भुञ्जेवाहों ॥१॥  
पारद्ध पयाणउ तव-पहेंण । णिय-देहमएण महारहेंण ॥२॥  
विहि विण्णाणिय उप्पाइएण । दुट्टट्ट- कम्म- पच्छाइएण ॥३॥  
इन्दिय- तुरङ्ग- संचालिएण । सत्तविह- धाउ- वन्धालिएण ॥४॥  
चल- चलण- चक्क- संजोइएण । मण- पक्कल- सारहि- चोइएण ॥५॥  
तव- संजम- णियम-धम्म-भरेंण । आइय णिय- णिय-तणु-रहवरेंण ॥६॥  
थिय पडिमा-जोग्गों गिरि-सिहरें । सो अग्गिकेउ तेहएँस्वसरें ॥७॥  
संचलिउ णहङ्गणें कहिँ वि जाम । गउ अम्हहँ उप्परि खलिउ ताम ॥८॥  
पुव्वभउ सरें वि कोहें जलिउ । थिउ रुन्धवि णहयलें किलिकिलिउ ॥९॥  
उवसग्गु जाम पारम्भियउ । वहु-रुवेंहिँ गयणें वियम्भियउ ॥१०॥  
पडिवण्णएँ तहिँ तेहएँस्वसरें । वट्टन्तएँ गुरु-उवसग्ग-भरें ॥११॥  
तुम्हहँ जें पहावें तट्टाइँ । असुरइँ धणु-रवेंण पणट्टाइँ ॥१२॥

## घत्ता

तो अम्हहँ वप्पु कालन्तरेंण मुउ ।  
सो दीसइ एत्थु गारुडु देउ हुउ ॥१२॥

[ १४ ]

तो गरुडें परिओसिय-मणेंण । वे विज्जउ दिण्णउ तक्खणेंण ॥१॥  
राहवहों सीहवाहणि पवर । लक्खणहों गरुडवाहणि अवर ॥२॥

शलभ, रससे मछली, शब्दसे मृग, गन्धसे भ्रमर और स्पर्शसे मत्त गज विनाशको प्राप्त होता है । पर जो पाँचोंका सेवन करता है उसका निस्तार कहाँ ? ॥ १-६॥

[ १३ ] यह विचारकर उन्हें विवाह और दोषपूर्ण राज्यके भोगसे विरक्ति हो गई । अपने देहमय महारथसे उन्होंने तपके पथपर चलना प्रारम्भ कर दिया । और इस प्रकार हम दोनों विवेकशील (कुलभूषण और देशभूषण) दुष्ट आठ कर्मोंसे प्रच्छन्न, इन्द्रियरूपी अश्वोंसे संचालित, सात धातुओंसे आबद्ध, चञ्चल चरण चक्रसे संजोये मनरूपी मुख्य सारथिसे प्रेरित, एवं तप, संयम, नियम, धर्म आदिसे भरे हुए अपने-अपने इस शरीर-रूपी महारथोंसे चलकर इस पर्वत पर आये । और एक शिखरपर प्रतिमायोगमें लीन होकर बैठ गये । इसी अवसर पर अग्निकेतु आकाश-मार्गसे कहीं जा रहा था कि उसका विमान हम लोगोंके ऊपर आते ही अचानक स्वलित हो उठा । इसपर पूर्व जन्मके वैरका स्मरणकर वह क्रोधसे आगबबूला हो गया । अवरुद्ध हो वह आकाशमें किलकारी भरकर स्थित हो गया । ( बादमें ) उसने हम लोगोंके ऊपर अपना उपसर्ग करना प्रारम्भ कर दिया । वह नाना रूपोंसे आकाशमें विस्मय दिखाने लगा । तब उस घोर संकटके समय गुरुओंपर भारी उपसर्ग देखकर तुम्हारे प्रभावसे राक्षस अब त्रस्त हो गये और धनुषकी टंकार सुनते ही भाग खड़े हुए । कालान्तरमें मरणको प्राप्त हुए हमारे पिताजी भी गरुड़ हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं ॥१-१३॥

[ १४ ] तब तत्काल प्रसन्न होकर—गरुड़देवने उन्हें दो विद्याएँ प्रदान कीं । राघवको प्रवर सिंहवाहिनी और लक्ष्मणको प्रवर गरुड़वाहिनी । पहली सातसौ और दूसरी तीनसौ शक्तियोंसे



पहिलारी सत्त-सएँहिँ सहिय । अणुपच्छिम तिहिँ सएँहिँ अहिय ॥३॥  
 तो कोसल-सुएँण सु-दुल्लहँण । वच्चइ वइदेही- वल्लहँण ॥४॥  
 'अच्छन्तु ताव तुम्हहुँ जेँ घरँ । अवसरँ पडिवणँ पसाउ करँ ॥५॥  
 सहुँ गरुडें संभासणु करँवि । गुरु पुच्छिउ पुणु चलणँहिँ धरँवि ॥६॥  
 'अम्हहुँ हिण्डन्तहुँ धरणि-वहँ । जं जिम होसइ तं तेम कहँ ॥७॥  
 कुलभूसणु अक्खइ हलहरहँ । 'जलु लक्खवि दाहिण-सायरहँ ॥८॥

घत्ता

संगाम-सयाइँ विहि मि जिणेवाइँ ।  
 महि-खण्डइँ तिण्णि स इँ भुञ्जेवाइँ ॥६॥



### [ ३४. चउतीसमो संधि ]

केवल्ले केवलीहँ उप्पण्णएँ चउविह-देव-णिकाय-पवण्णएँ ।  
 पुच्छइ रामु महावय-धारा 'धम्म-पाव-फलु कहहि भडारा ॥

[ १ ]

काइँ फलु पञ्च-महव्वयहुँ । अणुवय-गुणवय - सिक्खावयहुँ ॥१॥  
 काइँ फलु लइएँ अणत्थमिएँ । उववास-पोसवएँ संथविएँ ॥२॥  
 फलु कहँ जीव सम्भीसियएँ । परहणँ परदारँ अहिँसियएँ ॥३॥  
 काइँ फलु सच्चें वोत्थिलएँण । अलिअक्खरेण आमेत्थिलएँण ॥४॥  
 काइँ फलु जिणवर-अच्चियएँ । वर-विउल्लें घरासणँ वच्चियएँ ॥५॥  
 काइँ फलु मासेँ छण्डिएँण । रत्तिहिउ देहें दण्डिएँण ॥६॥  
 काइँ फलु जिण-संमज्जणँण । वलि- दीवङ्गार- विलेवणँण ॥७॥

घत्ता

किं चारित्तें णाणें वएँ दंसणें अणु पसंसिएँ जिणवर-सासणें ।  
 जं फलु होइ अणङ्ग-वियारा तं विण्णासेँ वि कहहि भण्डारा ॥८॥

सहित थी । तब कौशल पुत्र सीतापति, दुर्लभ रामने ( गरुड़से ) कहा, “तबतक आप घरपर रहें और अवसर आनेपर प्रसाद करें ।” इस प्रकार गरुड़से सम्भाषणकर और फिर गुरुके चरण छूकर रामने पूछा, “धरतीपर घूमते हुए हम लोगोंको क्या-क्या होगा ? बताइए ?” यह सुनकर कुलभूषणने कहा, “दक्षिण समुद्रको लांघकर तुम लोग शत युद्धोंसे जीतकर तीनों लोकोंकी धरतीका उपभोग करोगे” ॥१-६॥



### चौतीसवाँ संधि

[ १ ] चारों देव-निकायोंको जाननेवाला केवलज्ञान जब कुल-भूषण महाराजको उत्पन्न हो गया तो रामने उनसे पूछा,—“हे भट्टारक, धर्म और पापका फल बताइए । पाँच महाव्रत, अणुव्रत, गुणव्रत और शिचाव्रतका क्या फल है ? अनर्थदण्ड व्रत ग्रहण करनेका क्या फल होता है ? उपवास और प्रोषधोपवासका क्या फल है ? जीवोंको अभयदान करने, और परस्त्री तथा परधनमें अभिलाषा न करनेका क्या फल है ? सच बोलने और मूठ छोड़नेका क्या फल है ? जिनवर पूजाके अनुष्ठान तथा गृहस्थाश्रमके प्रपञ्चसे बचनेमें क्या फल है ? मांस छोड़ने और दिन-रात संयमके पालनमें क्या फल प्राप्त होता है ? जिनका अभिषेक करने और नैवेद्य तथा दीप धूप और विलेपन करनेका क्या फल है ? चारित्र्य व्रत ज्ञान दर्शन आदिका जिन-शासनमें जो फल वर्णित हों उसे बताइये । हे जित-काम ! केवलज्ञानसे उसे जानकर प्रकट करें” ॥१-७॥

[ २ ]

पुणु पुणु वि पडीवउ भणइ वलु । 'कहँ सुक्किय-दुक्किय-कम्म-फलु ॥१॥  
 कम्मेण केण रिउ-डमर-कर । सयरायर महि भुञ्जन्ति णर ॥२॥  
 कम्मेण केण पर-चक्क-धर । रह-तुरय-गएँहिँ वुञ्जन्ति णर ॥३॥  
 परियरिय सु-णारिहिँ णरवरँहिँ । विज्जिज्जमाण वर-चामरँहिँ ॥४॥  
 सुन्दर सच्छन्द मइन्द जिह । जोहँहिँ जोह वुञ्जन्ति किह ॥५॥  
 कम्मेण केण किय पङ्गुलय । णर कुण्ट मण्ट वहिरन्धलय ॥६॥  
 काणोण दीण-मुह-काय-सर । वाहिँल्ल भिल्ल णाहल सवर ॥७॥  
 दालिदिय पर-पेसणइँ कर । कँ कम्मे उप्पज्जन्ति णर ॥८॥

घत्ता

धीर-सरीर वीर तव-सूरा सव्वहुँ जीवहुँ आसाऊरा ।  
 इन्दिय-पसवण पर-उवयारा ते कहिँ णर पावन्ति भडारा ॥९॥

[ ३ ]

के वि अण्ण णर दुह-परिचत्ता । देवलोएँ देवत्तणु पत्ता ॥१॥  
 चन्दाइच्च- राहु- अङ्गारा । अण्णहोँ अण्ण होन्ति कम्मारा ॥२॥  
 हंस-स-मेस-महिस-विस-कुञ्जर । मोर- तुरङ्ग- रिच्छ- मिग- सम्बर ॥३॥  
 जइ देवहुँ जँ मज्झँ संभूआ । तो किं कज्जेँ वाहण हूआ ॥४॥  
 एँहु जो दीसइ कुलिस-प्पहरणु । सहसणयणु अइरावय-वाहणु ॥५॥  
 गिज्जइ किण्णर-मिहुण-सहासँहिँ । सुरवर जय भणन्ति चउपासँहिँ ॥६॥  
 हाहा- हूहू- तुम्बुरु- णारा । तेजा-तेणा जसु चक्कारा ॥७॥  
 चित्तङ्गो वि मुरव पडिपेहइ । रम्भ तिलोत्तिम सह उव्वेहइ ॥८॥

[ २ ] रामने दुबारा उनसे पूछा—“पुण्य-पापका फल भी बतलाइए । शत्रुके लिए भयंकर और चराचर धरतीका उपभोग करनेवाला किस कर्मके उदयसे जीव बनता है ? किस कर्मसे दूसरेके चक्रको ग्रहण करता है ? रथ, अश्व और गजसे युद्ध होता है । किस कर्मसे वह सुन्दर स्त्रियों और उत्तम मनुष्योंसे घिरा रहता है और उसपर उत्तम चँवर डुलाये जाते हैं और योधा-गण उसे स्वच्छन्द मत्त गजकी भाँति समझते हैं ? किस कर्मसे मनुष्य पंगु, कुबड़ा, बंहरा और अंधा बनता है ? किस कर्मके उदय से वह कुँवारा तथा मुख-स्वर और शरीरसे दीन-हीन और रोगी बनता है ? भील, नाहर व्याध, शवर, दरिद्र और दूसरोंका सेवक किस कर्मसे बनता है ? दृढ़शरीर तपःसूर सब जीवोंके आशापूरक जितेन्द्रिय और परोपकारी कौनसी गति प्राप्त करते हैं ? हे भट्टारक, बताइए ॥ १-६ ॥

[ ३ ] और भी मनुष्य, दूसरे-दूसरे दुखोंसे मुक्ति पाकर स्वर्ग कैसे जाते हैं ? चन्द्र, सूर्य, मङ्गल, राहु आदि एक दूसरेसे भिन्न कर्म करनेवाले क्यों हैं ? हंस, मेष, महिष, बैल, गज, मयूर, तुरङ्ग, रीछ, मृग, सांभर आदि देवोंके बीच उत्पन्न होकर उनके वाहन कैसे बनते हैं ? और जो यह वज्रसे प्रहार करनेवाले, ऐरावत गजपर आरूढ़ इन्द्र है, जिसकी सहस्रां किन्नर-दम्पति और बड़े-बड़े देव चारों ओरसे जय बोलते हैं, हा हा, हू हू नारे बोलते हुए तुम्बुरु तेज और तेण जिसके चाकर हैं । चित्राङ्ग जिसके लिए मृदङ्ग वादक है । स्वयं तिलोत्तमा अप्सरा जिसके लिए प्रकट होती है । आखिर यह सब किस कर्मके फलसे होता है ? जो स्वयं

घत्ता

अप्पणु असुर-सुरहुँ अब्भन्तरँ मोक्खु जेम थिउ सब्बहुँ उप्परँ ।  
दोसइ जसु एवहु पदुत्तणु पत्तु फलेण केण इन्दत्तणु' ॥६॥

[ ४ ]

तं वयणु सुणँ वि कुलभूसणँण । कन्दप्प- दप्प- विद्धं सणँण ॥१॥  
सुणु अक्खमि वुच्चइ तेण वलु । आयण्णहि धम्महँ तणउ फलु ॥२॥  
महु मज्जु मंसु जो परिहरइ । छज्जीव-णिकायहँ दय करइ ॥३॥  
पुणु पच्छइ सल्लेहणँ मरइ । सो मोक्ख-महा-पुरँ पइसरइ ॥४॥  
जो घइँ दरिसावइ पाणिवह । अण्णु वि महु-मँसहँ तणिय कह ॥५॥  
सो जोणी जोणि परिब्भमइ । चउरासी लक्ख जाम कमइ ॥६॥  
एँउ सुक्किय-दुक्किय कम्म-फलु । सुणु एवहिँ सच्चहँ तणउ फलु ॥७॥  
तुल-तोलिय महि स-महीहरिय । स-सुरासुर स-घण स-सायरिय ॥८॥

घत्ता

वरुणु कुबेरु मेरु कइलासु वि तुल-तोलिउ तइलोक्कु असेसु वि ।  
तो वि ण गरुवत्तणउ पगासिउ सच्चु स-उत्तरु सब्बहँ पासिउ ॥६॥

[ ५ ]

जो सच्चउ ण चवइ कापुरिसु । सो जाँवइ जणवएँ तिण-सरिसु ॥१॥  
जो णरु पर-दव्वु ण अहिलसइ । सो उत्तिम-सग्ग-लोएँ वसइ ॥२॥  
जो घइँ रत्तिहिणु मूढ-मणु । चोरन्तु ण थक्कइ एकु खणु ॥३॥  
सो हम्मइ छिज्जइ भिच्चइ वि । कप्पिज्जइ सूलँ भरिज्जइ वि ॥४॥  
जो दुद्धरु वम्भचेरु धरइ । तहँ जसु आरुट्टउ किं करइ ॥५॥  
जो घइँ तं जोणि चारु रमइ । सो पङ्कएँ भमरु जेम मरइ ॥६॥  
जो करइ णिवित्ति परिग्गहहँ । सो मोक्खहँ जाइ सुहावहहँ ॥७॥  
जो घइँ अविअण्हु परिग्गहहँ । सो जाइ पुरहँ तमतमपहहँ ॥८॥

असुरों और देवों के बीच मोक्षकी तरह सबसे ऊपर रहता है, और जिसकी इतनी प्रभुता दीख पड़ती है, वह इन्द्रत्व किस फल से मिलता है” ॥ १-६ ॥

[ ४ ] रामके वचन सुनकर, कामका भी मान खण्डित करने वाले कुलभूषण मुनिने कहा—“सुनो, राम बताता हूँ । धर्मका फल सुनो । मधु, मद्य और मांसका जो त्याग करता है, छह निकायके जीवोंपर दया करता है और ( अन्तमें ) संल्लेखनापूर्वक मरण करता है, वह तो मोक्षरूपी महानगरमें प्रवेश करता है । परन्तु जो मधु-मांसका भक्षण करता है, प्राणियोंका वध करता है वह योनि-योनिमें घूमता हुआ चौरासी लाख योनियोंमें भटका करता है, यह पुण्य-पापका फल है, अब सत्यका फल सुनो । महीधर, सुर, असुर, धन और समुद्र पर्यन्त यथेच्छ धरती है, तथा वरुण, कुबेर, मेरु, कैलाश प्रभृति जितना भी त्रिभुवन है वह भी सत्यका गौरव व्यक्त करनेमें असमर्थ है । सत्य सबसे उत्तम महान् है ॥ १-६ ॥

[ ५ ] जो मनुष्य सत्यवादी नहीं, वह समाजमें मृगकी तरह नगण्य होकर जीता है । और जो दूसरेके धनकी इच्छा नहीं करता है वह स्वर्ग लोकमें जाता है । जो मूढ़बुद्धि दिन-रात एक क्षण भी चांरीसे बाज नहीं आता वह मारा जाता है और नरक-निकाय में छेदा-भेदा-काटा जाता है । परन्तु जो दुर्धर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है उसका यम रूठकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता । जो व्यक्ति स्त्री-योनिमें खूब रमण करता है कमलमें भौंरेकी तरह उसकी मृत्यु हो जाती है । जो परिग्रहसे निवृत्त होता है वह मोक्षके सुखद पथपर अग्रसर होता है । और जो सदैव परिग्रह से अतृप्त होता है वह महातमप्रभ नरकमें वास करता है । अथवा कितना वर्णन किया जाय । जब एक-एक व्रत पालन करनेमें इतना फल

## घत्ता

अहवइ णिव्वणिजइ केत्तिउ एक्केकहो वयहो फलु एत्तिउ ।  
जो घइँ पच्च वि धरइ वयाइँ तासु मोक्खु पुच्छिजइ काइँ ॥६॥

[ ६ ]

फलु एत्तिउ पञ्च-महव्वयहो । सुणु एवहिँ पञ्चाणुव्वयहो ॥१॥  
जो करइ णिरन्तर जीव-दया । पविरलु असच्चु सच्चउ मि सया ॥२॥  
किस हिंस अहिंस सउत्तरिय । ते णरय-महाणइ-उत्तरिय ॥३॥  
जे णर स-दार-संतुट्ट-मण । परहण- परणारी- परिहरण ॥४॥  
अपरिग्गह-दाण-करण पुरिस । ते हेन्ति पुरन्दर-समसरिस ॥५॥  
फलु एत्तिउ पञ्चाणुव्वयहुँ । सुणु एवहिँ तिहि मि गुणव्वयहुँ ॥६॥  
दिस-पच्चक्खाणु पमाण-वउ । खल-संगहु जासु ण वड्ढियउ ॥७॥

## घत्ता

इय तिहिँ गुणवएहिँ गुणवन्तउ अच्छइ सगोँ सुहइँ मुज्जन्तउ ।  
जासु ण तिहि मि मज्जेँ एक्कु वि गुणु तहोँ संसारहोँ छेउ कहिँ पुणु ॥८॥

[ ७ ]

फलु एत्तिउ तिहि मि गुणव्वयहुँ । सुणु एवहिँ चउ-सिक्खावयहुँ ॥१॥  
जो पहिलउ सिक्खावउ धरइ । जिणवरें तिकाल-वन्दण करइ ॥२॥  
सो णरु उप्पजइ जहिँ जेँ जहिँ । वन्दिजइ लोएहिँ तहिँ जेँ तहिँ ॥३॥  
जो घइँ पुणु विसयासत्त-मणु । धरिसहोँ वि ण पेच्छइ जिण-भवणु ॥४॥  
सो सावउ मज्जेँ ण सावयहुँ । अणुहरइ णवर वण-सावयहुँ ॥५॥  
जो वीयउ सिक्खावउ धरइ । पोसह-उववास-सयइँ करइ ॥६॥

प्राप्त होता है तो पाँचों व्रतोंके धारण करने पर 'जीव' के मोक्षका क्या पूछना ॥१-६॥

[ ६ ] पांच महाव्रतोंका यह फल है अपरं च—अणुव्रतों का फल सुनिए । जो सदैव जीव दया करता है, तथा मूठ थोड़ा और सच बहुत बोलता है, हिंसा थोड़ी और अहिंसा अधिक करता है, वह नरक रूपी महानदीका संतरण कर लेता है । जो मनुष्य अपनी स्त्रीमें संतुष्ट रहकर परस्त्री और परधनका त्याग करता है और परिग्रहसे रहित होकर दान करनेमें समर्थ है, वह इन्द्रके समान हो जाता है । पाँच अणुव्रतोंका यह फल है । अब तीन गुणव्रतोंका फल सुनिए । जिसने दिग्व्रत और भोगोपभोग परिमाणव्रत लिया है, और जो दुष्ट जीव, मुर्गा, बिल्ली आदिका संग्रह नहीं करता, वह इन तीन गुणोंसे अन्वित होकर स्वर्गलोकमें सुखका भोग करता है, और जिसके इन तीनोंमेंसे एक भी नहीं है, कहो उसके संसारका नाश कैसे हो सकता है ॥१-८॥

[ ७ ] इस प्रकार तीन गुणव्रतोंका इतना फल है । अब चार शिज्ञा व्रतोंका फल सुनो । जो पहला शिज्ञा व्रत धारण करता है और जो तीन समय जिनकी वन्दना करता है । वह मनुष्य फिर कहीं भी उत्पन्न हो, लोकमें वन्दनीय हो उठता है । परन्तु जिसका मन विषयासक्त है, जो वर्षभरमें एक भी बार जिन-भवनके दर्शन करने नहीं जाता, वह श्रावकोंके बीचमें (रहकर) भी श्रावक नहीं है । प्रत्युत वह शृगालकी भाँति है । जो दूसरा शिज्ञाव्रत धारण करता है । वह सैकड़ों प्रोषधोपवास करता है, वह मनुष्य देवत्वकी कामना करता है और सौधर्म स्वर्गमें अप्सराओं के बीचमें रमण करता है । जो तीसरा शिज्ञाव्रत धारण करता है, तपस्वियोंको आहारदान देता है और सम्यक्त्व धारण करता



सो णरु देवत्तणु अहिलसइ । सोहम्मँ बहुव-मज्जेँ रमइ ॥७॥  
 जो तइयउ सिक्खावउ धरइ । तवसिहिँ आहार-दाणु करइ ॥८॥  
 अण्णु वि सम्मत्त-भारु वहइ । देवत्तणु देवलोएँ लहइ ॥९॥  
 जो चउथउ सिक्खावउ धरइ । सण्णासु करेप्पिणु पुणु मरइ ॥१०॥  
 सो होइ तिलोयहँ वड्ढियउ । णउ जम्मण-मरण-विओअ-भउ ॥११॥

घत्ता

सामाइउ उववासु स-भोयणु पच्छिम-कालँ अण्णु सल्लेहणु ।  
 चउ सिक्खावयाइँ जो पालइ सो इन्दहँ इन्दत्तणु टालइ ॥१२॥

[ ८ ]

एँउ फलु सिक्खावएँ संथविएँ । सुणु एवहिँ कहमि अणत्थमिएँ ॥१॥  
 वरि खद्धु मंसु वरि मज्जु महु । वरि अलिउ वयणु हिँसाएँ महुँ ॥२॥  
 वरि जीविउ गउ सरारु लहसिउ । णउ रयणिहिँ भोयणु अहिलसिउ ॥३॥  
 पुव्वणणउ गण-गन्धव्वयहुँ । मज्जणहउ सव्वहुँ देवयहुँ ॥४॥  
 अवरणहउ पियर-पियामहहुँ । णिसि रक्खस-भूय-पेय-गहहुँ ॥५॥  
 णिसि-भोयणु-जेण ण परिहरिउ । भणु तेण काइँ ण समायरिउ ॥६॥  
 किमि-कीड-पयङ्ग-सयइँ असइ । कुसरार-कुजोणिहिँ सो वसइ ॥७॥  
 जो घइँ णिसि-भोयणु उम्महइ । विमलत्तणु विमल-गोत्तु लहइ' ॥८॥

घत्ता

सुअउ ण सुणइ ण दिट्ठउ देक्खइ केण वि वोल्लिउ कहों वि ण अक्खइ ।  
 भोअणँ मउणु चउत्थउ पालइ सो सिव-सासय-गमणु णिहालइ' ॥९॥

[ ९ ]

परमेसरु सुट्ठु एम कहइ । जो जं मग्गइ सो तं लहइ ॥१॥  
 सम्मत्तइँ को वि को वि वयइँ । कों वि गुण-गण-वयण-रयण-सयइँ ॥२॥  
 तवचरणु लइजइ पत्थिवेण । वंसत्थल-णयर-णराहिवेण ॥३॥

है, वह देवलोकमें देवत्वको पाता है। जो चौथा शिज्ञाव्रत धारण करता है और संन्यासपूर्वक मरण धारण करता है वह त्रैलोक्य में भी वृद्धिको पाता है। उसे जन्म मरण और वियोगका भय नहीं होता। इस प्रकार सामायिक, उपवास, आहारदान और मरण-कालमें संलेखना इन चार शिज्ञाव्रतोंका जो पालन करता है, वह इन्द्रका इन्द्रपन टालनेमें भी समर्थ है ॥१-१२॥

[ ८ ] शिज्ञाव्रतका फल यह है। अब अनर्थदंडव्रतका फल सुनो। मांस खाना, मद्य और मधु पान करना, हिंसा करना, मूठ बोलना, किसीका जीव अपहरण कर लेना अच्छा, पर रात्रिभोजन करना ठीक नहीं, चाहे शरीर स्वलित हो जाय। गंधर्व देव दिनके पूर्वमें, सभी देव दिनके मध्यमें, पिता पितामह दिनके अंतमें तथा राक्षस भूत पिशाच और ग्रह रातमें खाते हैं। इसलिए जिसने रात्रिभोजन नहीं छोड़ा बताओ उसने कौनसा आचरण नहीं किया ( अर्थात् सभी कुछ किया )। वह सैकड़ों कृमि पतंगों और कीड़ों का भक्षण करता है और कुयोणियोंमें वास करता है। ( इसके विपरीत ) जो रात्रिभोजनका त्याग करता है वह विमल शरीर और उत्तम गोत्रमें उत्पन्न होता है। जो भोजन करनेमें मौनका पालन करता है, सुनकर भी नहीं सुनता, देखकर भी नहीं देखता, किसीके बुलाने पर भी नहीं बोलता वह शाश्वत मोक्षको पाता है ॥१-६॥

[ ९ ] जब परमेश्वर कुलभूषणने इस प्रकार ( धर्मका ) सुंदर प्रतिपादन किया और जिसने जो व्रत माँगा उसे यह व्रत मिल गया। किसीने सम्यक्त्व ग्रहण किया तो किसीने किसी और व्रत को। किसीने गुणसमूहसे भरे वचन रूपी रत्नोंको ग्रहण किया। वंशस्थलके राजाने तपस्या अंगीकार कर ली। देवता लोग उनकी

गय वन्दणहत्ति करेवि सुर । जाणइएँ धरिज्जइ धम्म-धुर ॥४॥  
 राहवेंण वि वयइँ समिच्छियइँ । गुरु-दिण्णइँ सिरेंण पडिच्छियइँ ॥५॥  
 वउ णवर ण थक्कइ लक्खणहों । वालुअपह - णरय - णिरिक्खणहों ॥६॥  
 तहिँ तिण्णि वि कह वि दिवस थियइँ । जिण-पुज्जउ जिण-ण्हवणइँ कियइँ ॥७॥  
 णिगन्ध-सयइँ भुञ्जावियइँ । दीणहँ दाणइँ देवावियइँ ॥८॥

घत्ता

तिहुअण-जण-मण-णयणणन्दहों वन्दणहत्ति करेवि जिणिन्दहों ।  
 जाणइ-हरि-हलहरइँ पहिट्टइँ तिण्णि वि दण्डारण्णु पइट्टइँ ॥९॥

[ १० ]

दिट्ट महाडइ णाइँ विलासिणि । गिरिवर-थणहर-सिहर-पगासिणि ॥१॥  
 पञ्चाणण - णह - णियर - वियारिय । दीहर-सर - लोयण - विप्फारिय ॥२॥  
 कन्दर-दरि-मुह - कुहर - विहूसिय । तरुवर - रोमावलि - उद्धूसिय ॥३॥  
 चन्दण-अगरु-गन्ध - डिविडिक्किय । इन्दगोव - कुङ्कुम - चञ्चिकिय ॥४॥  
 अहवइ किं बहुणा विन्थारें । णं णच्चइ गय-पय-संचारें ॥५॥  
 उज्झर - मुरवप्फालिय - सद्धें । वरहिण - थिर-सुपरिट्ठिय - छन्दें ॥६॥  
 महुअरि-तिय - उवर्गाय - वमालें । अहिणव - पल्लव - कर - संचालें ॥७॥  
 सीहोरालि - समुट्ठिय - कलयलु । णाइँ पढइ मुणि-सुव्वय-मङ्गलु ॥८॥

घत्ता

तहों अट्ठभन्तरें अमर-मणोहरु णयण-कडक्खिउ एक्कु लयाहरु ।  
 तहिँ रइ करें वि थियइँ सच्छन्दइँ जोगु लएविणु जेम मुणिन्दइँ ॥९॥

[ ११ ]

तेहिँ तेहएँ वणें रिउ-डमर-करु । परिभमइ समुदावत्त-धरु ॥१॥  
 आरण्ण-गइन्दें समारुहइ । वण-गोवउ वण-महिसिउ दुहइ ॥२॥

वंदना-भक्ति करके चले गये । तब सीतादेवीने भी धर्मकी ( धुरा ) शीलव्रतको ग्रहण किया । रामने भी व्रत ग्रहण किया । परंतु बालुक-प्रभ नरकमें जानेवाले लक्ष्मणने एक भी व्रत ग्रहण नहीं किया । कितने ही दिनों तक वे लोग वहीं रहे । वहाँ उन्होंने जिन-पूजा और जिनका अभिषेक किया । दीनोंको दान दिलवाया । सैकड़ों निर्ग्रथ साधुओंको आहारदान दिया । उसके बाद, त्रिभुवनानंद-दायक जिनवरकी वंदना-भक्ति करके उनलोगोंने बड़े हर्षके साथ दंडक वनकी ओर प्रस्थान किया ॥१-६॥

[ १० ] दंडकवनकी वह अटवी उन्हें विलासिनी स्त्रीकी तरह दिखाई पड़ी । वह सिंहोंके नखसमूहसे विदारित, चोटियोंके रूपमें अपने स्तन प्रकट कर रही थी । बड़े-बड़े सरोवर रूपी नेत्रोंसे विस्फारित, कंदरा और घाटियोंके मुखकुहरोंसे विभूषित, वृक्ष रूपी रोमराजिसे अलंकृत, चंदन और अगरु ( इस नामके वृक्ष ) से अनुलिप्त, तथा वीरवहूटी रूपी केशरसे अंचित थी । अथवा अधिक विस्तारसे क्या, मानो वह दंडक अटवी गजोंके पदसंचार के बहाने नृत्य कर रही थी । निर्भरोंके स्वरोंमें मृदंगकी ध्वनि थी, मयूरोंके स्वर ही प्रतिष्ठित छंद थे । मधुकरियोंकी सुंदर कल-कल ध्वनि गीत थे । नव पल्लवोंके से वह अपने हाथ मटका रही थी । सीहोरालीसे उठा हुआ कल-कल स्वर ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानां वह अटवी मुनिसुव्रत ( भगवान् ) का मंगल पाठ गान कर रही हो । उसके भीतर उन्हें, अमरोंकी भाँति सुन्दर एक लतागृह दिखाई दिया । स्वच्छंद क्रीड़ा करते हुए वे लोग उसमें उसीप्रकार रहने लगे जिस प्रकार मुनींद्र योग ग्रहण कर रहने लगते हैं ॥१-१०॥

[ ११ ] शत्रुभयङ्कर लक्ष्मण उस वनमें अपना समुद्रावर्त धनुष लेकर घूमने लगे । कभी वह वनगजपर जा चढ़ते और

तं खीरु वि चिरिडिहिल्लु महिउ । जाणइहें समप्पइ घिय-सहिउ ॥३॥  
 स वि पक्कावइ घण-हण्डियहिं । वण-धणन्दुल्लेहिं सुकण्डिण्हिं ॥४॥  
 णाणाविह - फल-रस - तिम्मणेंहिं । करवन्द-करिरेहिं सालणेंहिं ॥५॥  
 इय विविह-भक्ख भुज्जन्ताहुं । वण-वासें तिहि मि अच्छन्ताहुं ॥६॥  
 मुणि गुत्त-सुगुत्त ताव अइय । असुदाणिय दोडु-महव्वइय ॥७॥  
 कालामुह-कावालिय भगव । मुणि संकर तवण तवसि गुरव ॥८॥

### घत्ता

वन्दाइरिय भोय पव्वइया हवि जिह भूइ-पुज्ज-पच्छविया ।  
 ते जर-जम्मण-मरण-वियारा वण-चरियएँ पइसन्ति भडारा ॥९॥

[ १२ ]

जं पइसन्त पदीसिय मुणिवर । सावय जिह तिह पणविय तरुवर ॥१॥  
 अलि-मुहलिय खर-पवणायम्पिय । 'थाहु थाहु' णं एम पजम्पिय ॥२॥  
 के वि कुसुम-पढभारु मुअन्ति । पाय-पुज्ज णं विहि मि करन्ति ॥३॥  
 तो वि ण थक्क महव्वय-धारा । रामासमँ पइसन्ति भडारा ॥४॥  
 रिसि पेक्खेप्पिणु सीय विणिग्गय । णं पच्चक्ख महा-वणदेवय ॥५॥  
 'राहव पेक्खु पेक्खु अच्छरियउ । साहु-जुअलु चरियएँ णीसरियउ' ॥६॥  
 वलु वयणेण तेण गब्बजोह्लिउ । 'थाहु थाहु' सिरु णवें वि पत्रोह्लिउ ॥७॥  
 विणयक्कुसँण साहु-गय वालिय । किउ सम्मज्जणु पाय पखालिय ॥८॥

कभी वनकी गायों और भैसोंका दूध दुहने लगते । कभी दूध, दही और घी सहित मट्ठा ( मही ) लाकर जानकीको देते और सीता उनसे भोजन बनातीं । इस प्रकार घन-हंडिय, वनधान्य, तन्दुल, सुकंड, तरह तरहके फलरस कढ़ी, करवंद, करोर, सालन आदिका विविध भोजन करते हुए वे तीनों अपना समय यापन करने लगे । एक दिन जीवदयाके दानी, गुप्त और सुगुप्त नामके महाव्रती दो महामुनि आये । वे काला मुख ( एक सम्प्रदाय और त्रिकाल भोगी ) कापालिक ( सम्प्रदाय विशेष और कामकषायसे दूर ) भगवा ( भगवा वस्त्र धारी और पूज्य शंकर ) शंकर ( शिव और सुख देनेवाले ) तपन शील ( आदित्य और ऋद्धिसे युक्त ) वनवासी ( एक सम्प्रदाय और वनमें रहनेवाले ) गरु महान्, वन्दनीय सेवनीय, संन्यासी और यज्ञकी तरह धूलिसे आच्छादित थे । जरा जन्म मरणका नाश करनेवाले वे दोनों ( महामुनि ) चर्याके लिए निकले ॥१-६॥

[ १२ ] आते हुए उन यतियोंको देखकर मानो वृक्ष श्रावकोंकी भाँति नत हो गये । भ्रमरोंसे गुञ्जित और पवनसे कंपित वे मानो कह रहे थे, “ठहरिए ठहरिए” । कोई वृक्ष फूलोंकी वर्षा कर रहे थे मानो विधाता ही उनकी फूलोंसे पादपूजा कर रहा था । तब भी महाव्रत धारी वे ठहरे नहीं । चलकर वे दोनों भट्टारक रामके आश्रमके निकट पहुँचे । मुनियोंको देखते ही सीता देवी बाहर निकलीं मानो साक्षात् वनदेवी ही बाहर आई हों । वह बोलीं ‘राम देखो देखो’ अचरजकी बात है दो यति चर्याके लिए निकले हैं ।’ यह सुनकर राम एकदम पुलकित हो उठे । और माथा भुकाकर, आह्वान करते हुए उन्होंने कहा—“ठहरिए ठहरिए” । तब विनयरूपी अङ्कुशसे वे दोनों साधुरूपी महागज रुक गये । रामने

दिण्ण ति-चार धार सलिलेण वि । कम चच्चिय गोसीर-रसेण वि ॥६॥  
पुप्फक्खय - वलि - दीवङ्गारैँहिँ । एम पयञ्चैँ वि अट्ट-पयारैँहिँ ॥१०॥

घत्ता

वन्दिद्य गुरु गुरु भत्ति करेवि लग्ग परीसवि सीयाण्वि ।  
मुह-पिय अच्छ पच्छ मण-भाविणि भुत्त पेज्ज कामुएँहिँ व कामिणि ॥११॥

[ १३ ]

दिण्णु पाणु पुणु मुहहोँ पियारउ । चारण-भोग्गु जेम हलुवारउ ॥१॥  
सिद्धउ सिद्धु जेम सिद्धीहउ । जिणवर-आउ जेम अइदीहउ ॥२॥  
पुणु अग्गिमउ दिण्णु हियइच्छिउ । जिह सु-कलत्तु सु णेहु-स-इच्छउ ॥३॥  
सुद्धइँ पुणु सालणइँ विचित्तइँ । तिक्खइँ णाँ विलासिणि-चित्तइँ ॥४॥  
दिण्णइँ पुणु तिम्मणइँ मणिट्टइँ । अहिणव-कइ-वयणा इव मिट्टइँ ॥५॥  
पच्छइ सिंसिरु स-मच्छरु सुद्धउ । दुट्ट-कलत्तु जेम अइ-थद्धउ ॥६॥  
पुणु मय-सलिलु दिण्णु सीयालउ । णं जिण-वयणु पाव-पक्खालउ ॥७॥  
लीलएँ जिमिय भडारा जावँहिँ । पञ्चच्छरिउ पदरिसिउ तावँहिँ ॥८॥

घत्ता

दुन्दुहि गन्धवाउ रयणावलि साहुक्कारु अण्णु कुसुमञ्जलि ।  
पुण्ण-पवित्तइँ सासय-दूअइँ पञ्च वि अच्छरियइँ स इँ भूअइँ ॥९॥



उनके चरण साफकर, तीन बार जलकी धारा छोड़कर उनका प्रक्षालन किया। उसके अनन्तर, चंदन रसका लेपकर आठ प्रकारके द्रव्य ( पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, दीप धूपादि ) से पूजा की। खूब वन्दना-भक्तिके अनन्तर सीता देवीने आहार देना शुरू किया। कामुकके लिए कामिनीकी तरह मनभाविनी सीता देवीने बादमें मुखमधुर भोजन और पेय दिया ॥१-११॥

[ १३ ] फिर उसने मुखको प्रिय लगानेवाला स्वादिष्ट, तपस्वीके योग्य हलका भोजन दिया। वह भोजन सिद्धिके लिए अभिलाषी सिद्धकी तरह सिद्ध था, जिनवरकी आयुकी तरह सुदीर्घ था। फिर सीताने उन्हें सुन्दर दाल वगैरह दी। वह दाल, सुकलत्रकी तरह सस्नेह ( प्रेम और घी से युक्त ) और वांछनीय थी। फिर उन्हें विलासिनियोंके चित्तकी भाँति शुद्ध विचित्र शालन परसा गया। उसके अनन्तर अभिनव कवि-वचनोंकी तरह मीठी मनप्रिय कढ़ी दी। दुष्ट कलत्रकी भाँति थद्ध ( गाढ़ी और ठीठ ) दही मलाई दी। उसके अनन्तर, पाप धोनेवाले जिन-वचनोंकी तरह, अत्यन्त शीतल और सुगन्धित जल दिया। इस प्रकार जब लीला-पूर्वक उन परम भट्टारकोंने भोजन समाप्त किया तो पाँच आश्चर्य प्रकट हुए। दुंदुभिका बज उठना, सुगन्धित पवनका बहना, रत्नोंकी वृष्टि, आकाशमें देवोंका जय-जय कार, और पुष्पोंकी वर्षा। पुण्यसे पवित्र शासन दूतोंकी तरह ये आश्चर्य प्रकट हुए ॥१-६॥





## [ ३५. पञ्चतीसमो संधि ]

गुत्त-सुगुत्तहँ तण्णै पहावें रामु स-सीय परम-सब्भावें ।  
देवें हिँ दाण-रिद्धि खणें दरिसिय वल-मन्दिरें वसुहार पवरिसिय ॥

[ १ ]

जाय महाघ रयण सु-पगासइँ । लक्खहँ तिण्णि सयइँ पञ्चासइँ ॥१॥  
वरिसँ वि रयण-वरिसु सइँ हत्थें । रामु पसंसिउ सुरवर-सत्थें ॥२॥  
'तिहुवणें णवर एककु वलु धण्णउ । दिच्चाहारु जेण वणें दिण्णउ' ॥३॥  
मणें परितुट्ठइँ अमर-सयाइँ । 'अण्णें दाणें किज्जइ काइँ ॥४॥  
अण्णें धरिउ भुवणु सयरायरु । अण्णें धम्मु कम्मु पुरिसायरु ॥५॥  
अण्णें रिद्धि-विद्धि वंसुब्भउ । अण्णें पेम्मु विलासु स-विब्भमु ॥६॥  
अण्णें गेउ वेउ सिद्धक्खरु । अण्णें जाणु ऋणु परमक्खरु ॥७॥  
अण्णु सुएवि अण्णु किं दिज्जइ । जेण महन्तु भोगु पाविज्जइ ॥८॥

घत्ता

अण्ण-सुवण्ण-क्कण-गोदाणहुँ मेइणि-मणि-सिद्धन्त-पुराणहुँ ।  
सच्चहुँ अण्ण-दाणु उच्चासणु पर-सासणहुँ जेम जिण-सासणु' ॥९॥

[ २ ]

दाण-रिद्धि पेक्खेवि खगेसरु । णवर जडाइ जाउ जाईसरु ॥१॥  
गग्गर-वयणउ मुणि-अणुराणं । पहउ णाई सिरें मोग्गर-घाणं ॥२॥  
जिह जिह सुमरइ णियय-भवन्तरु । तिह तिह मेल्लइ अंसु णिरन्तरु ॥३॥  
'मइँ पावेण तिलोयाणन्दहुँ । पञ्च-सयइँ पालियइँ मुणिन्दहुँ' ॥४॥

## पैतीसवीं संधि

गुप्त सुगुप्त मुनिके प्रभाव तथा राम और सीताके सद्भावसे, देवोंने दानका प्रभाव दिखानेके लिए रामके आश्रममें ( तत्काल ) रत्नोंकी वृष्टि की ।

[ १ ] उन्होंने साढ़े तीन लाख बहुमूल्य रत्नोंकी वृष्टि की । इस प्रकार अपने हाथों रत्नोंकी वर्षा करके देवोंने रामकी प्रशंसा की, “तीनों लोकोंमें एक राम ही धन्य हैं जिन्होंने वनमें भी मुनियोंके लिए आहार दान दिया । उन्होंने आपसमें चर्चा की कि अन्नदान ही उत्तम है, दूसरे दानसे क्या ? अन्नसे चराचर विश्व पलता है । अन्नसे ही धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ हैं । अन्नसे ही ऋद्धि वृद्धि और वंशकी समुत्पत्ति होती है । अन्नसे ही हाव-भाव सहित प्रेम और विलास उत्पन्न होते हैं । अन्नसे ही गेय वाद्य और सिद्धाक्षर होते हैं । अन्नसे ही ज्ञान, ध्यान और परमाक्षरपद ( सिद्धपद ) प्राप्त होता है । अतः अन्नको छोड़कर और क्या दान किया जाय । अन्नदानसे बड़े भोग प्राप्त होते हैं । अन्नदान सुवर्ण, कन्या, गौ, धरती, मणि, शास्त्र और पुराणोंके दानसे महत्त्वपूर्ण है । उनमें उसका स्थान वैसे ही ऊँचा है जैसे दूसरे शासनोंमें जिन शासनका स्थान ऊँचा है ॥१-६॥

[ २ ] दानकी ऋद्धि देखकर पक्षिराज जटायुको अपना जाति-स्मरण हो आया । मुनिके प्रति भक्तिसे वह गद्गद हो उठा । उसे लगा जैसे उसके सिरपर वज्रका भटका लगा हो । ज्यों-ज्यों वह अपने जन्मान्तरोंकी याद करता त्यों-त्यों उसे अश्रु वेगसे बहने लगते । वह बार-बार पश्चात्ताप करता कि “मुझ पापीने त्रिभुवनानन्ददायक पाँच सौ मुनियोंको पीड़ित किया था ।” इस प्रकार

एम पहाउ करन्तु विहङ्गउ । गुरु-चलणेहिँ पडिउ मुच्छंगउ ॥५॥  
 पय-पक्खालण - जल्लेणासासिउ । राहवचन्देँ पुणु उवयासिउ ॥६॥  
 सीयएँ वुत्तु 'पुत्तु महु एवहिँ । छुडु वद्धउ छुडु धरउ सुखेवहिँ' ॥७॥  
 ताव रयण-उज्जोवेँ भिण्णा । जाय पक्ख चामीयर-वण्णा ॥८॥

घत्ता

विद्दुम-चञ्चु णील-णिह-कण्ठउ पय-वेरुलिय-वण्ण मणि-पट्टउ ।  
 तक्खणेँ पञ्च-वण्णु णिव्वडियउ वीयउ रयण-पुञ्जु णं पडियउ ॥९॥

[ ३ ]

भावेँ विहि मि पयाहिण देहन्तउ । णडु जिह हरिस-विसाएँहिँ जन्तउ ॥१॥  
 दिट्ठु पक्खि जं णयणाणन्दणु । भणइ णवेप्पिणु दसरह-णन्दणु ॥२॥  
 ' हे मुणिवर गयणङ्गण-गामिय । चउगइ-दुक्ख-महाणइ - णामिय ॥३॥  
 कहि कज्जेण केण सच्छायउ । पक्खि सुवण्ण-वण्णु जं जायउ' ॥४॥  
 तं णिसुणेवि वुत्तु णीसङ्गेँ । 'सयलु वि उत्तिम-पुरिस-पसङ्गेँ ॥५॥  
 णरु हलुवो वि होइ गरुआरउ । रुक्खु वि सेल-सिहरें वड्डारउ ॥६॥  
 मेरु-णियम्वेँ तिणु वि हेमुज्जलु । सिप्पिउडेसु जलु वि मुत्ताहलु ॥७॥  
 तिह विहङ्गु मणि-रयणुज्जोएँ । जाउ सुवण्ण-वण्णु मुणि-तोएँ ॥८॥

घत्ता

तं णिसुणेवि वयणु असगाहेँ पुच्छिउ पुणु वि णाहु णरणाहेँ ।  
 'विहलङ्गलु घुम्मन्तु विहङ्गउ कवणेँ कारणेण मुच्छंगउ' ॥९॥

[ ४ ]

भणइ ति-णाण - पिण्ड - परमेसरु । 'एहु विहङ्गु आसि रज्जेसरु ॥१॥  
 पट्टणु दण्डाउरु भुञ्जन्तउ । दण्डउ णामु वउद्धहँ भत्तउ ॥२॥  
 एक्क-दिवसेँ वारद्विएँ चलियउ । ताव तिकाल-जोगि मुणि मिलियउ ॥३॥

प्रलाप करता हुआ वह मुनिके निकट गया । उनके चरणोंपर गिरते ही वह मूर्छित हो गया । तब रामने चरणोंके प्रक्षालनका जल छिड़ककर उसकी मूर्छा दूर की । यह सब देखकर सीता देवीने कहा—“इस समयसे यह मेरा पुत्र है ।” और उसे उठाकर सुखसे रख दिया । रत्नोंकी आभासे उस पक्षीके पंख सोनेके हो गये । चोंच मूँगेकी, कंठ नीलमका, पीठ मणिकी, चरण वैदूर्य मणिके । इस प्रकार तत्काल उसके पाँच रंग हो गये । वह ऐसा जान पड़ रहा था मानो दूसरी पंच रत्न-वृष्टि हुई हो ॥१-६॥

[ ३ ] हर्ष और विषादसे भरे हुए नटकी भाँति उस पक्षि-राजने दोनों मुनियोंकी भावसहित प्रदक्षिणा दी । उस आनन्द-दायक पक्षीको देखकर, दशरथ-पुत्र रामने प्रणामपूर्वक मुनिसे पूछा, ‘हे आकाशगामी और दुस्वरूपी महानदीके लिए नौका तुल्य, (कृपया) बताइए, यह सुन्दर कान्तिवाला पक्षी सोनेके रंगका कैसे हो गया ?’ यह सुनकर वह अनासंग मुनि बोले, “उत्तम नरकी संगतिसे सब कुछ संभव है । संगतिसे छोटा आदमी भी बड़ा आदमी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ पर्वत की चोटीपर बड़ा हो जाता है और सुमेरु पर्वतपर तिनका भी सोनेके रंगका दिखाई देता है । सीपीमें पड़ा हुआ पानी मोती बन जाता है । इसी प्रकार यह पक्षी भी मणि-रत्नोंकी आभा और गंधोदकके (प्रभावसे) स्वर्णिम रंगका हो गया ।” यह सुनकर रामने बिना किसी बाधाके पूछा—“विकलांग यह पक्षी, घूमता हुआ, किस कारणसे मूर्छित हो गया ?” ॥१-६॥

[ ४ ] तब त्रिज्ञानपिंडके धारक परमेश्वर बोले, “पहले यह पक्षी दंडपुरमें दंडक नामका राजा था । वह बौद्ध धर्मका अनुयायी था । एक दिन वह आखेटके लिए वनमें गया । वहाँ

थिउ अत्तावणें लम्बिय-वाहउ । अविचलु मेरु जेम दुग्गाहउ ॥४॥  
 तं पेक्खँवि आरुट्ठु महव्वलु । “अवसुअज्जुअवसवणुअमङ्गलु” ॥५॥  
 एम चवन्ते विसहरु घाएँवि । रोसें मुणिवर कण्ठे लाएँवि ॥६॥  
 गउ णिय-णयरु णराहिउ जावँहिँ । थिउ णासङ्कु णिरोहँ तावँहिँ ॥७॥  
 “एउ को वि फेडेसइ जइयहुँ । लम्बिय हत्थुच्चायमि तइयहुँ” ॥८॥

## घत्ता

जावण्णेक्क-दिवसेँ पटु आवइ तं जेँ भडारउ तहिँ जेँ विहावइ ।  
 गलएँ भुअङ्गम-मडउ णिवद्धउ कण्ठाहरणु णाइँ आइद्धउ ॥९॥

[ ५ ]

जं अविचलु वि दिट्ठु मुणि-केसरि । फेडँवि विसहर-कण्ठा-मञ्जरि ॥१॥  
 वोल्लाविउ “वोल्लाहि परमेसर । तव-चरणेण काइँ तवणेसर ॥२॥  
 खणिउ सरारु जीउ खण-मेत्तउ । जो भायहि सो गयउ अर्तातउ ॥३॥  
 तुहु मि खणिउ णऽज्ज वि सिद्धत्तणु । आयहोँ किं पमाणु किं लक्खणु” ॥४॥  
 सयलु णिरत्थु वुत्तु जं राएँ । मुणिवरु चवँवि लग्गु णयवाएँ ॥५॥  
 “जइ पुणु सो जेँ पक्खु वोल्लेवउ । ता खण-सद्धु ण उच्चारेवउ ॥६॥  
 खणिउ खयारु णयारु वि होसइ । खण-सद्धोँ उच्चारु ण दासइ ॥७॥

## घत्ता

अघडिउ अघडमाणु अघणन्तउ खणिएँ खणिउ खणन्तर-मेत्तउ ।  
 सुण्णेँ सुण्ण-वयणु सुण्णासणु सव्वु णिरत्थु वउद्धुँ सासणु” ॥८॥

उसे त्रिकालज्ञ मुनि दिखे । वह आतापिनी शिलापर बैठे, हाथ ऊपर उठाये, ध्यानमें अवस्थित थे । सुमेरु पर्वतकी तरह अचल और दुर्ग्राह्य उन्हें देखते ही वह आगबबूला हो उठा । “आज अवश्य कोई न कोई अमंगल अपशकुन होगा”—यह सोचकर एक साँप मारा और उसे मुनिके गलेमें डाल दिया । राजा अपने नगर वापस आ गया । मुनि उस विरोधमें अनासंग रहे । उन्होंने अपने मनमें यह बात जान ली कि जब तक कोई ( अपने आप ) इस साँपको अलग नहीं करेगा, तबतक मैं अपने हाथ ऊपर ही उठाये रहूँगा । दूसरे दिन जब वह दंडक राजा फिर वहाँ गया तो उसने भट्टारकको वहीं देखा । उनके गलेमें पड़ा हुआ वह साँप कंठहारकी तरह शोभित था ॥१-६॥

[ ५ ] उन मुनिसिंहको ( पहलेकी तरह ) अविचल देखकर, उसने सर्पकी वह कंठ-मञ्जरी दूर कर दी । फिर उसने कहा— “बताइये परमेश्वर, इस तपके अनुष्ठानसे क्या होगा ? यह शरीर क्षणिक है । जीव भी क्षण भर ठहरता है । जिसका ध्यान करते हो वह अतीत हो चुका है । तुम भी क्षणिक हो, और सिद्धत्व आज भी प्राप्त नहीं है, और फिर इस मोक्षका क्या प्रमाण है । उसका लक्षण क्या है ?” परन्तु इस प्रकार राजाने जो कुछ कहा वह सब निरर्थक ही था क्योंकि मुनिने नयवादसे उसका उत्तर दे दिया । ( उन्होंने कहा ) “यदि क्षणिक पक्ष कहते हो, तो ‘क्षण’ शब्दका उच्चारण भी नहीं हो सकता । फिर तो ‘क्ष’ और ‘ण’ भी क्षणिक हो जायेंगे । तब क्षणिक शब्दका उच्चारण नहीं होगा । अघटित, अघटमान और अघटंत, क्षणिक, क्षणांतमात्र, शून्यसे शून्यासन कैसे सम्भव है । अतः बौद्धोंका सब शासन व्यर्थ है ॥१-८॥

[ ६ ]

खण-सहेण णिरुत्तरु जायउ । पुणु वि पवोस्सिउ दण्डय-रायउ ॥१॥  
 “तो घइँ सव्वु अत्थि जं दीसइ । पुणु तवचरणु कासु किज्जेसइ” ॥२॥  
 तं णिसुणेप्पिणु भणइ मुणीसरु । जो कह-गवय वाइ वाईसरु ॥३॥  
 “अमहइँ राय ण वोल्लहुँ एवं । णेआइएँहिँ हसिज्जहुँ जेवं ॥४॥  
 अत्थि णत्थि दोणिण वि पडिबज्जहुँ । तुहुँ जिह णउ खणवाएं भज्जहुँ” ॥५॥  
 तं णिसुणेवि भणइ दणुदारउ । “जाणिउ परम-पक्खु तुम्हारउ ॥६॥  
 अत्थि ण अत्थि णिच्च-संदेहो । पुणु धवलउ पुणु सामल-देहो ॥७॥  
 पुणु वि मत्त-करि पुणु पञ्चाणणु । खत्तिउ वइसु सुद्धु पुणु वम्भणु” ॥८॥

घत्ता

भणिउ भडारउ “किं वित्थारें एक्कु चोरु चिरु धरिउ तलारें ।  
 गीवा-मुह-णासच्छि गविट्टर सीसु लएन्तहुँ कहि मि ण दिट्टउ ॥९॥

[ ७ ]

अहवइ एण काइँ संदेहें । अत्थि वि णत्थि वि णीसंदेहें ॥१॥  
 जेत्यु अत्थि तहिँ अत्थि भणेवउ । जहिँ ण अत्थि तहिँ णत्थि भणेवउ” ॥२॥  
 सच्छन्देण णराहिउ भाविउ । लइउ धम्मु पुणु मुणि पाराविउ ॥३॥  
 साहुहुँ पञ्च सयइँ धरियाइं । णिसुअइँ तेसट्ठि वि चरियाइं ॥४॥  
 तो एत्थन्तरें जण-मण-भाविणि । कुइय खणद्धेँ दुण्णय-सामिणि ॥५॥  
 पुणु मयवद्धणु पुत्तु महन्तउ । “णरवइ जाउ जिणेसर-भत्तउ ॥६॥

घत्ता

तो वरि मन्तु किं पि मन्तिज्जइ जिणहरें सव्वु दव्वु पुत्तिज्जइ ।  
 जेण गवेसण पहु कारावइ साहुहुँ पञ्च-सयइँ मारावइ” ॥७॥

[ ६ ] इस प्रकार क्षणिक शब्दसे निरुत्तर होकर राजा दंडकने फिर कहा, “जब सब अस्ति दिखाई देता है, तो फिर तप किसके लिए किया जाय ।” यह सुनकर कवियों और बादिबोंके वाग्मी वह मुनि बोले, “जैसे नैयायिकोंकी हँसी उड़ाई जाती है वैसे हमसे नहीं कह सकते । हम अस्ति और नास्ति दोनों पक्षोंको मानते हैं । अतः तुम्हारे क्षणवादकी तरह हमारे ( मतका ) खण्डन नहीं हो सकता ।” यह सुनकर दंडकराजने कहा, “तुम्हारा परम पक्ष मैंने जान लिया । अस्ति और नास्तिमें नित्य संदेह है । क्योंकि यह जीव कभी धवल होता है और कभी श्याम । फिर कभी मत्तगज तो कभी सिंह । फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र ।” इसपर भट्टारकने उत्तर दिया, “एक चोरको चिरकालसे तलार (कोतवाल) ने पकड़ रखा है । गर्दन, मुख, नाक, आँखसे रचित, श्वास लेता हुआ भी वह किसीको दिखाई नहीं देता । अधिक विस्तारसे क्या ॥१-६॥

[ ७ ] अथवा इस प्रकार सन्देह करना व्यर्थ है । अस्ति और नास्ति दोनों पक्ष सन्देहसे परे हैं । जहाँ अस्ति हो वहाँ अस्ति कहना चाहिए और जहाँ नास्ति हो वहाँ नास्ति कहना चाहिए । स्वच्छन्दतासे इस प्रकार विचार करनेपर राजा दण्डकने जैनधर्म अङ्गीकार कर लिया । उसने मुनिको घर आनेका आमंत्रण दिया । त्रेसठ प्रकारके चारित्रमें पारङ्गत, पाँच सौ साधुओंके साथ वह मुनि राजाके घर पहुँचे । यह देखकर जनमनको प्रिय लगनेवाली दुर्नयस्वामिनी उसकी पत्नी आधे ही पलमें आगबबूला हो उठी । वह अपने पुत्र मयवर्धनसे बोली, “राजेश्वर जिनका भक्त हो गया है । अच्छा हो कोई मन्त्र उपाय सोचा जाय । सब पूँजी इकट्ठी करके मन्दिरमें रख दो । राजा उसे खोजता हुआ वहाँ जायगा, और उन पाँच सौ मुनियोंको मरवा देगा ॥१-६॥



[ ८ ]

एक-दिवसँ तं तेम कराविउ । जिणहरँ सब्बु दब्बु पुञ्जाविउ ॥१॥  
 मयवद्धणँण णिवहँ वज्जरियउ । “तुम भण्डारु मुणिन्दँहिँ हरियउ” ॥२॥  
 तँ आलावँ दण्डयराएँ । हसियउ पुणु पुणु सीह-णिणाएँ ॥३॥  
 “पत्तिय सेल-सिहरँ सयवत्तइँ । पत्तिय महियलँ गह-णक्खत्तइँ ॥४॥  
 पत्तिय त्रिवरिय चन्द-दिवायर । पत्तिय परिभमन्ति रयणायर ॥५॥  
 पत्तिय णहँ हवन्ति कुलपव्वय । पत्तिय एकहिँ मिलिय दिसा-गय ॥६॥  
 पत्तिय णउ चउवीस वि जिणवर । पत्तिय णउ चक्कवइ ण कुलयर ॥७॥  
 पत्तिय णउ तेसट्ठि पुराणइँ । पञ्चेन्द्रियइँ ण पञ्च वि णाणइँ ॥८॥  
 सोलह सग भग्गइँ उप्पत्तिय । मुणि चोरन्ति मन्ति मं पत्तिय” ॥९॥

घत्ता

जं णरवइ वोल्लिउ कइवारँ मन्तिउ मन्तु पुणु वि परिवारँ ।  
 “लहु रिसि-रूउ एकु दरिसावहुँ पुणु महणवि-पासु वइसारहुँ ॥१०॥

[ ९ ]

अवसँ रंसँ पुर-परमेमरु । मुणिवर घल्लेसइ रजेसरु” ॥१॥  
 एम भणेवि पुणु वि कोक्काविउ । तक्खणँ मुणिवर-वेसु धराविउ ॥२॥  
 तेण समाणउ जण-मण-भाविणि । लग्ग वियारँहिँ दुण्णय-सामिणि ॥३॥  
 तो एत्थन्तरँ गञ्जोलिय-तणु । गउ णिय-णिवहँ पासु मयवद्धणु ॥४॥  
 णरवइ पेक्खु पेक्खु मुणि-कम्मइँ । दुक्कु पमाणहँ वोल्लिउ जं मइँ ॥५॥  
 मूढा अबुह ण बुज्झहि अज्ज वि । हिउ भण्डारु जाव हिय भज्ज वि” ॥६॥

[ ८ ] एक दिन उसने वैसा ही करवा दिया । सारा खजाना जिन-मन्दिरमें रख दिया गया । मयवर्धनने राजासे कहा कि तुम्हारा भण्डार मुनियोंने चुरा लिया है । कुमारके इस प्रलापपर राजा सिंहनादमें अट्टहास करके बोला, “विश्वास करलो कि शैल शिखर-पर कमलपत्र हो सकते हैं, विश्वास कर लो कि ग्रह नक्षत्र धरतीपर आ सकते हैं । विश्वास कर लो कि सूर्य और चन्द्र पूर्वकी अपेक्षा पश्चिममें उग सकते हैं । विश्वास कर लो कि समुद्र घूम सकता है, विश्वास कर लो कि कुल पर्वत आकाशमें होते हैं, विश्वास कर लो कि चारों दिग्भाज एक हो सकते हैं, विश्वास कर लो कि चौबीस तीर्थङ्कर नहीं हुए, विश्वास कर लो कि चक्रवर्ती और कुलधर नहीं हुए, विश्वास कर लो कि त्रेसठ पुराणपुरुष, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच ज्ञान, सोलह स्वर्ग तथा जन्म और मरण नहीं होते, पर यह विश्वास कभी मत करो कि जैन मुनि चोरी करते हैं ।” जब राजाने आदर पूर्वक ऐसा कहा तो फिर रानीने अपने परिवारके लोगोंके साथ मन्त्रणा की । और यह निश्चय किया कि किसी एकको मुनिका रूप बनाकर रानीके निकट बैठा दिया जाय ॥१-१०॥

[ ९ ] तब अवश्य राजा क्रोधमें आकर इन मुनिवरोंको मरवा देगा ।” यह विचारकर तत्काल किसीको मुनिरूपमें वहाँ बैठा दिया तथा जनमनभाविनी रानी दुर्नयस्वामिनी उसके साथ विकार चेष्टाका प्रदर्शन करने लगी । तब इसी बीचमें पुलकित-शरीर पुत्र मयवर्धन दौड़ा-दौड़ा राजाके पास गया और बोला— “राजन्, देखो देखो, मुनियोंका कर्म, जो कुछ मैंने निवेदन किया था उसका प्रमाण मिल गया । मूर्ख अज्ञानी तुम आज भी नहीं समझ सकते । भण्डारका तो उसने हरण किया ही था और आज स्त्रीका भी हरण कर लिया है । तुम जानबूझकर अपने मनमें मूर्ख बनते

## घत्ता

जाणन्तो वि तो वि मणें मूढउ णरवइ कोव-गइन्दारूढउ ।  
दिण्णाणत्ती णरवर-विन्दहुँ धरियइँ पञ्च वि सयइँ मुणिन्दहुँ ॥७॥

[ १० ]

पहु-आएसैं धरिय भडारा । जे पञ्चेन्द्रिय - पसर-णिवारा ॥१॥  
जे कलि-कलस-कसाय-वियारा । जे संसार - घोर - उत्तारा ॥२॥  
जे चारित्त-पुरहों पागारा । जे कमट्ट - दुट्ट - दणु - दारा ॥३॥  
जे णीसङ्ग अणङ्ग-वियारा । जे भवियायण - अब्भुद्धारा ॥४॥  
जे सिव-सासय-सुह - हक्कारा । जे गारव - पमाय - विणिवारा ॥५॥  
जे दालिइ-दुक्ख - खयकारा । सिद्धि - वरङ्गण - पाण - पियारा ॥६॥  
जे वायरण-पुराणइँ जाणा । सिद्धन्तिय एक्केक्क-पहाणा ॥७॥  
तें तेहा रिसि जन्तें झुहाविय । रसमसकसमसन्त पीलाविय ॥८॥

## घत्ता

पञ्च वि सय पीलाविय जावेंहिँ मुणिवर वेण्णि पराविय तावेंहिँ ।  
घोर-वीर-तवचरणु चरेप्पिणु आताघणें तव-तवणु तवेप्पिणु ॥९॥

[ ११ ]

केण वि ताम वुत्तु “मं पइसहों । वेण्णि वि पाण लएप्पिणु णासहों ॥१॥  
गुरु तुम्हारा आवइ पाविय । राणं जन्तें झुहें वि पीलाविय” ॥२॥  
तं णिसुणेवि एक्कु मुणि कुद्धउ । णं खय-कालें कियन्तु विरुद्धउ ॥३॥  
घोरु रउद्दु ऋणु आऊरिउ । वउ सम्मत्तु सयलु संचूरिउ ॥४॥  
अप्पाणेणप्पाणु विहत्तिउ । तक्खणें छार-पुञ्जु परिअत्तिउ ॥५॥  
जो कोवाणलु तेण विमुक्कउ । गउ णयरहों सवडम्मुहु दुक्कउ ॥६॥

हो ।” यह सुनते ही राजा दण्डक क्रोधरूपी महागज पर आसीन हो बैठा । उसने तुरन्त अपने आदमियोंको आदेश दिया कि इन पाँच सौ मुनियोंको पकड़ लो” ॥१-७॥

[ १० ] राजाके आदेशसे वे पाँचसौ मुनि बन्दी बना लिये गये । वे पञ्चेन्द्रियोंके प्रसारका निवारण करनेवाले, कलयुगके पाप और कषायोंको नष्ट करनेवाले, घोर संसारसे पार जानेवाले, चारित्ररूप नगरके प्राचीर, अष्ट दुष्ट कर्मोंको चूरनेवाले जितकाम, अनासङ्ग, भविकजनोंके उद्धारक, शाश्वत शिव सुखके उद्धारक, गर्हा और प्रमादके निवारक, दारिद्र्य और दुखके नाशक, सिद्धिरूपी नववधूके लिए प्राणप्रिय, ध्याकरण और पुराणोंमें पारङ्गत, सिद्धान्त प्रवीण उनमें प्रत्येक अपनेमें प्रधान था । उस वैसे मुनि-समूहको, यन्त्रोंसे लुब्ध कर कसमसाता हुआ वह राजा पीड़ित करने लगा । जिस समय पाँच सौ ही साधु इस प्रकार पीड़ित हो रहे थे उसी समय आतापिनी शिलापर तप करके दो मुनिवर नगरकी ओर आ रहे थे ॥१-६॥

[ ११ ] उन्हें आते हुए देखकर किसीने कहा, “तुम दोनों नगरके भीतर प्रवेश मत करो, नहीं तो प्राणोंसहित समाप्त कर दिये जा सकते हो । तुम्हारा गुरु आपत्तिमें है । राजा उन्हें यन्त्रसे पीड़ा दे रहा है ।” यह सुनते ही उनमेंसे एक मुनि एकदम क्रुद्ध हो उठा । मानो क्षणकालमें यम ही विरुद्ध हो उठा हो । वह घोर रौद्रध्यानमें उतर आया । उसका समस्त व्रत और चारित्र नष्ट-भ्रष्ट हो गया । आत्मा आत्मासे विभक्त हो गई । उसी समय उसने अग्निपुंज छोड़ा । इस प्रकार उसने जो क्रोध-ज्वाला मुक्त को वह शीघ्र ही नगरके सम्मुख चली, चारों ओरसे वह नगर जलने लगा ।

## घत्ता

पट्टणु चाउदिसु संदीविउ स-धरु स-राउलु जालालीविउ ।  
जं जं कुम्भ-सहसैंहिँ घिप्पइ विहि-परिणामें जलु वि पलिप्पइ ॥७॥

[ १२ ]

पट्टणु दड्डु असेसु वि जावैंहिँ । खल जम-जोह पराविय तावैंहिँ ॥१॥  
ते तइलोककु वि जिणें वि समत्था । असि-घण-सङ्गल-णियल-विहत्था ॥२॥  
कक्कड-कविल-केस भीसावण । काल-कियन्त - लील-दरिसावण ॥३॥  
कसण-सरीर वीर फुरियाधर । पिङ्गल-णयण भूसर-मोगगर-धर ॥४॥  
जीह-ललन्त दन्त-उदन्तुर । उब्भड-वियड-दाढ भय-भासुर ॥५॥  
जम-दूएहिँ तेहिँ कन्दन्तउ । णरवइ णिउ स-मन्ति स-कलत्तउ ॥६॥  
गम्पिणु जमरायहों जाणाविउ । “एण मुणिन्द-णिबहु पीलाविउ” ॥७॥  
तं णिसुणेप्पिणु कुइउ पयावइ । “तीहि मि दरिसावहों गरुयावइ” ॥८॥

## घत्ता

पहु-आएसैं दुण्णय-सामिणि घत्तिय छट्टहिँ पुढविहिँ पाविणि ।  
जहिँ दुक्खइँ अइ-घोर-रउदइँ णवराउसु वावीस-समुदइँ ॥९॥

[ १३ ]

अण्णोण्णेण जेत्यु हक्कारिउ । अण्णोण्णेण पहर-णिहारिउ ॥१॥  
अण्णोण्णेण दलें वि दलवट्टिउ । अण्णोण्णेण हणें वि णिव्वट्टिउ ॥२॥  
अण्णोण्णेण तिसूलें मिण्णउ । अण्णोण्णेण दिसा-वलि दिण्णउ ॥३॥  
अण्णोण्णेण कडाहें पमेस्सिउ । अण्णोण्णेण हुआसणें पेस्सिउ ॥४॥  
अण्णोण्णेण वइत्तरणिहें घत्तिउ । अण्णोण्णेण धरें वि णिज्जन्तिउ ॥५॥  
अण्णोण्णेण सिलहु अप्फालिउ । अण्णोण्णेण दुहाएँहिँ फालिउ ॥६॥  
अण्णोण्णेण धरें वि आवील्लिउ । अण्णोण्णेण वत्थु जिह पीलिउ ॥७॥  
अण्णोण्णेण घरट्टुएँ दलियउ । अण्णोण्णेण पयरु जिह मिलियउ ॥८॥  
अण्णोण्णेण वि कूवें पमुक्कउ । अण्णोण्णेण धरेप्पिणु रुक्कउ ॥९॥

सारी धरती और राजकुल आगकी लपटोंमें घिर गये । उसपर जो सहस्रों घड़े जल डाला जाता वह भी भाग्यके परिणामसे जल उठता था ॥१-७॥

[ १२ ] इस प्रकार सम्पूर्ण नगरके जलकर राख हो जानेपर यमके योधा आ पहुँचे । तलवार, मजबूत सांकलें और निगड उनके हाथमें थे । रूखे और कपिल रंगके बाणोंसे वे अत्यन्त भयानक थे । वे तरह-तरहको लीलाएँ करने लगे । कंपित अधर पीतनेत्र और श्याम शरीर वे वीर भ्रसर और मुद्गर लिये हुए थे । उनकी जीभ लपलपाती, दाँत लम्बे, और दाढ़ें निकली हुई थीं । भयङ्कर वे यमदूत पत्नी सहित विलखते हुए राजाको वहाँसे ले गये । आकर उन्होंने यमराजसे कहा, “इन्होंने मुनिसमूहको पीड़ा दी है” । यह सुनकर प्रजापति यम एकदम क्रुद्ध होकर बोला, “इन घमण्डियोंको भी वही पीड़ा दो ।” प्रभु यमके आदेशसे उन्होंने दुर्नय-स्वामिनी को छठे नरकमें डाल दिया । उसमें घोर दारुण दुःख थे और आयु बाईस सागर प्रमाण थी ॥१-६॥

[ १३ ] वहाँ एक दूसरेको ललकारकर प्रहार करते, एक दूसरे पर आक्रमणकर चकनाचूर करते, मार-मारकर, एक दूसरेको भगा देते । एक दूसरेका त्रिशूलसे भेदन करते, एक दूसरेको दिशा बलि देते, एक दूसरेको कड़ाहीमें डाल देते, एक दूसरेको आगमें भोंक देते, एक दूसरेको वैतरणीमें डाल देते, एक दूसरेको पकड़ कर पराजित कर देते, एक दूसरेको चट्टानपर पटकते, एक दूसरेको दुहागसे खंडित करते । एक दूसरेको पकड़कर पीड़ा देते । एक दूसरेको ( जड़ ) वस्तुओंकी तरह चपेटते, एक दूसरेको चक्की में पीस देते । एक दूसरेको बाणोंसे वेध देते, एक दूसरेको पकड़कर रोक लेते । एक दूसरेको कुँएमें फेंक देते, एक दूसरेको रोक लेते ।

घत्ता

अण्णोण्णेण पलोइउ रागें अण्णोण्णेण वियारिउ खग्गें ।

अण्णोण्णेण गिलिज्जइ जेत्थु दुण्णय-सामिणि पत्तिय तेत्थु ॥१०॥

[ १४ ]

अण्णु वि कियउ जेण मन्तित्तणु । घत्तिउ असिपत्तवणें अलक्खणु ॥१॥  
 जहिं तं तिणु मि सिलीमुह-सरिसउ । अण्णु वि अग्गि-वण्णु णिप्परिसउ ॥२॥  
 जहिं तेलोह-रुक्ख कण्टाला । असि-पत्तल असराल विसाला ॥३॥  
 दुग्गम दुण्णिरिक्ख दुल्ललिया । णाणाविह - पहरण - फल-भरिया ॥४॥  
 जहिं णिवडन्ति ताहँ फल-पत्तइँ । तहिं छिन्दन्ति णिरन्तर गत्तइँ ॥५॥  
 तं तेहउ वणु मुएँ वि पणट्टउ । पुणु वइतरणिहँ गम्पि पइट्टउ ॥६॥  
 जहिं तं सलिलु वहइ दुग्गन्धउ । रस-वस-सीणिय-मंस - समिद्धउ ॥७॥  
 उण्हउ खारु तोरु अइ विरसउ । मण्ड पियाविउ पूय-विमिस्सउ ॥८॥

घत्ता

इय संताव-दुक्ख-संतत्तउ खणें खणें उप्पज्जन्तु मरन्तउ ।

थिउ सत्तमएँ णरएँ मयवद्धणु मेइणि जाम मेरु गयणङ्गणु ॥९॥

[ १५ ]

ताव विरुद्धएहिं हक्कारिउ । णरवइ णारएहिं पच्चारिउ ॥१॥  
 “मरु मरु संभरु दुच्चरियाइँ । जाइँ आसि पइँ संचरियाइँ ॥२॥  
 पच्चसयइँ मुणिवरहुँ हयाइँ । लइ अणुहुअहि ताइँ दुहाइँ” ॥३॥  
 एम भणेप्पिणु खग्गेंहिं छिण्णउ । पुणु वाणेंहिं भल्लेहिं भिण्णउ ॥४॥  
 पुणु तिलु तिलु करवत्तेहिं कप्पिउ । पुणु गिद्धहुँ सिव-साणहुँ अप्पिउ ॥५॥  
 पुणु पेहलाविउ मग्ग-गइन्देहिं । पुणु वेढाविउ पण्णय-विन्देहिं ॥६॥  
 पुणु खण्डिउ पुणु जन्तेँ छुहाविउ । अद्धु सहासु वार पीलाविउ ॥७॥  
 दुक्खु दुक्खु पुणु कह वि किलेसेँ हिं । परिभमन्तु भव-जोणि-सहासेँ हिं ॥८॥

एक दूसरेको रागसे देखकर, फिर कृपाणसे टुकड़े-टुकड़े कर देते । एक दूसरेको लील जाते । दुर्नयस्वामिनी इसी नरकमें पहुँची ॥१-१०॥

[ १४ ] और भी जिसने मंत्रणा की थी, गुणहीन उसे असि-पत्रवन नरक में डाल दिया गया । वहाँके तिनके तक बाणोंके समान हैं । और पेड़ आगके रंगके हैं वहाँ तेलोहके कटीले भाड़ हैं । तलवारकी तरह उसके पत्ते हैं । वह बड़ा विकराल, दुर्गम और दुर्दर्शनीय है तथा दुर्ललित है । तरह-तरहके अस्त्रोंके समान फलोंसे लदा हुआ है । जहाँ भी उसके पत्ते गिरते हैं उनसे शरीर निरन्तर छिन्न-भिन्न होता रहता है । उनसे नष्ट होकर, फिर वह वैतरणी नदीमें जा गिरता है जो अत्यन्त दुर्गन्धित पानी, पीब तथा मांस और रक्तसे भरी हुई है । उसका जल उष्ण, खारा और अत्यन्त-विरस है । पीपमिश्रित जल जबर्दस्ती वहाँ पिलाया जाता है । इस तरह सन्ताप और दुखोंको सहन करता हुआ जीव उसमें क्षण-क्षण जन्मता और मरता रहता है । मयवर्द्धन भी तब-तकके लिए सातवें नरकमें गया है कि जब-तक धरती, सुमेरु पर्वत और आकाश विद्यमान रहेंगे ॥१-६॥

[ १५ ] इसके अनन्तर उन विरुद्ध नारकीयोंने राजाको भी ललकारा, “तूने जो-जो खोटे आचरण किये हैं, उन्हें याद कर । तूने पाँचसौ मुनियोंको मारा, अब इसका दुःख भोग ।” यह कहकर उन्होंने उसे तलवारसे काट-कूट दिया । फिर बाणों और भालोंसे भेदा । उसके बाद करपत्रसे तिल-तिल काटकर उसे गीध, कुत्तों और शृगालोंको दे दिया । हाथीके पाँवके नीचे दबोचकर साँपोंसे लपेट दिया । फिर खण्डितकर, पाँचसौ-पाँचसौ बार उसे यन्त्रसे पीड़ित किया । इस प्रकार कष्ट पूर्वक हजारों यातनाओंको सहन करता हुआ वह नाना योनियोंमें भटकता फिरा । वही अब इस वनमें



एथु विहङ्गु जाउ णिय-काणणें । एवहिँ अच्छइ तुम्ह-घरङ्गणें ॥१॥

घत्ता

ताव पक्खि मणें पच्छुत्ताविउ 'किह मइँ सवण-सङ्घु संताविउ ।

एत्तिय-मत्तें अब्भुद्धरणउ महु मुयहों वि जिणवरु सरणउ' ॥१०॥

[ १६ ]

जं आयण्णिउ पक्खि-भवन्तरु । जाणइ-कन्तें पभण्णिउ मुणिवरु ॥१॥

'तो वरि अम्हहुँ वयइँ चडावहु । पक्खिहें सुहय-पन्थु दरिसावहु' ॥२॥

तं वलएवहों वयणु सुणेण्णिपणु । पञ्जाणुव्वय उच्चारेप्पिणु ॥३॥

द्रिण्ण पडिच्छिय तिहि मि जणेहिँ । पुणु अहिणन्दिय एक्क-मणेहिँ ॥४॥

मुणिवर गय आयासहों जावेंहिँ । लक्खणु भवणु पराइउ तावेंहिँ ॥५॥

'राहव एउ काइँ अच्छरियउ । जं मन्दिरु णिय-रयणें हिँ भरियउ' ॥६॥

तेण वि कहिउ सव्वु जं वित्तउ । 'मइँ आहार-दाण-फलु पत्तउ' ॥७॥

तक्खणें पञ्चच्छरिउ पदरिसिउ । मेहेंहिँ जिह अणवरउ पवरिसिउ ॥८॥

घत्ता

रामहों वयणु सुणेवि अणन्तें गेण्हवि मणि-रयणइँ वलवन्तें ।

वड-पारोह-कमेहिँ पचण्डेहिँ रहवरु घडिउ सयं भु व-दण्डेहिँ ॥९॥

●

## [ ३६. छत्तीसमो संधि ]

रहु कोड्डावणउ मणि-रयण-सहासैंहिँ घडियउ ।

गयणहों उच्छलेंवि णं दिणयर-सन्दणु पडियउ ॥

[ १ ]

तहिँ तेहएँ सुन्दरें सुप्पवहें । आरण्ण - महागय - जुत्त - रहें ॥१॥

धुरें लक्खणु रहवरें दासरहि । सुर-लीलएँ पुणु विहरन्ति महि ॥२॥

(जटायु नामका ) पत्नी हुआ है । और इस समय तुम्हारे आश्रमके आँगनमें उपस्थित है ।” यह सुनकर वह पत्नी अपने मनमें बहुत पछताया । मैंने नाहक श्रमणसंघको यातना दी । इतने मात्रसे मेरा उद्धार हो गया । अब तो मैं बार-बार जिनकी शरणमें हूँ ॥१-१०॥

[ १६ ] पत्तिराज जटायुके जन्मान्तर सुनकर राम और सीताने पूछा, “तो फिर अच्छा हो आप हमें भी कुछ व्रत दें और इस पत्नीको भी सुपथ दिखावें ।” बलभद्र रामके वचन सुनकर मुनिवरने पाँच अणुव्रतोंका नाम लेकर उन्हें दीक्षा प्रदान की । उन तीनोंने मुनिका अभिनन्दन किया । मुनियोंके आकाश-मार्गसे प्रस्थान करनेपर जब लक्ष्मण घर लौटकर आया तो उसने कहा, “अचरज है यह सब क्या । घर रत्नोंसे भर गया है ।” तब रामने कहा कि यह सब हमें अपने आहार-दानका फल प्राप्त हुआ है । तत्क्षण उन्होंने वे पाँच आश्चर्य रत्न दिखाये कि जिनकी निरन्तर वर्षा हुई थी । तब बलवान् लक्ष्मणने रामके वचन सुनकर उन ( बहुमूल्य ) मणियोंको इकट्ठा कर लिया । फिर वटप्ररोह की तरह प्रबल अपने भुजङ्गोंसे लक्ष्मणने रत्नविजडित उत्तम रथ बनाकर तैयार किया ॥१-६॥



### छत्तीसवीं संधि

हजारों मणियों और रत्नोंसे रचित कुतूहल-जनक वह रथ ऐसा लगता था मानो सूर्यका ही रथ आकाशसे उछलकर धरती-पर आ गिरा हो ॥१-६॥

[ १ ] सुन्दर और कान्तिपूर्ण, तथा वनगजोंसे जुते हुए उस रथकी धुरापर लक्ष्मण बैठे हुए थे, और भीतर राम और सीता । इस प्रकार वे धरती पर लीलापूर्वक विहार कर रहे

तं कण्हवण्ण-णइ मुएँ वि गय । वणें कहि मि णिहालिय मत्त गय ॥३॥  
 कथ वि पञ्चाणण गिरि-गुहेंहिँ । मुत्तावलि विक्खिरन्ति णहेंहिँ ॥४॥  
 कथ वि उड्ढाविय सउण-सय । णं अडविहें उड्डुँ वि पाण गय ॥५॥  
 कथ वि कलाव णच्चन्ति वणें । णावइ णट्टावा जुवइ-जणें ॥६॥  
 कथ इ हरिणइँ भय-भीयाइँ । संसारहों जिह पव्वइयाइँ ॥७॥  
 कथ वि णाणाबिह-रुक्ख-राइ । णं महि-कुलवहुअहें रोम-राइ ॥८॥

घत्ता

तहों दण्डयवणहों अग्गएँ दीसइ जलवाहिणि ।  
 णामें कोञ्जणइ थिर-गमण णाइँ वर-कामिणि ॥९॥

[ २ ]

कोञ्जणइहें तीरेंण संठियइँ । लय-मण्डवें गम्पि परिट्टियइँ ॥१॥  
 छुडु जें छुडु जें सरयहों आगमणें । सञ्जाय महादुम जाय वणें ॥२॥  
 णव-णलिणहें कमलइँ विहसियइँ । णं कामिणि-वयणइँ पहसियइँ ॥३॥  
 घवलेण गिरन्तर-णिग्गएँण । घण-कलसैंहिँ गयण-महग्गएँण ॥४॥  
 अहिसिञ्जें वि तक्खणें वसुह-सिरि । णं थविय अवाहिणि कुम्भइरि ॥५॥  
 तहिँ तेहएँ सरएँ सुहावणएँ । परिभमइ जणइणु काणगएँ ॥६॥  
 कोवण्ड - सिलीमुह - गहिय-करु । गज्जन्त - मत्त - मायङ्ग - धरु ॥७॥  
 वणें ताम सुअन्धु वाउ अइउ । जो पारियाय-कुसुमव्वभहिउ ॥८॥

घत्ता

कड्डिउ भमरु जिह तें वाएँ सुट्ठु सुअन्धें ।  
 धाइउ महुमहणु जिह गउ गणियारिहें गन्धें ॥९॥

[ ३ ]

थोवन्तरें परिओसिय-मणेंण । वंसत्थलु लक्खिउ लक्खणेंण ॥१॥  
 णं सयण-विन्दु आवासियउ । णं मयउलु वाहें तासियउ ॥२॥

थे । कृष्णा नदी पार करने पर कहीं उन्हें मद भरते वनगज दिखाई पड़े और कहीं सिंह जो गिरि-गुहाओंमें अपने नखोंसे मोती बखेर रहे थे । कहीं पर सैकड़ों पक्षी इस भाँति उड़ रहे थे मानो अटवीके प्राण उड़कर जा रहे हों । कहींपर वनमोर इस प्रकार नृत्य कर रहे थे मानो युवतीजन ही नाच रहा हो । कहींपर भयभीत हरिन इस प्रकार खड़े थे मानो संसारसे भीत संन्यासी ही हों । कहींपर नाना प्रकारकी वृक्ष-मालाएँ थीं जो मानो धरारूपी वधूकी रोम-राजी ही हो । ऐसे उस दण्डक वनके आगे उन्हें क्रौंच नामकी नदी मिली वह सुन्दर कामिनीकी मन्थर-गतिसे बह रही थी ॥१-६॥

[ २ ] क्रौंचके तटपर जाकर वे एक लतागृहमें बैठ गये । ( इतनेमें ) शरदूके आगमनसे वनवृक्षोंकी कान्ति और छाया ( सहसा ) सुन्दर हो उठी । नई नलिनियोंके कमल ऐसी हँसी बखेर रहे थे मानो कामिनीजनोंके मुख ही स्मयमान हों । ( और वह दृश्य ऐसा लगता था ) मानो अपने निरन्तर निकलनेवाले घनरूपी धवल कलशोंसे आकाशरूपी महागजने ( शरदूकालीन ) वसुधाकी सौन्दर्य लक्ष्मीका अभिषेककर उस अबोधिनीको कुंभ-कार पर्वतपर अधिष्ठित कर दिया हो । ऐसी उस सुहावनी शरदूऋतु में, मत्तगजोंको पकड़नेवाले लक्ष्मण, अपना धनुषवाण लिये हुए घूम रहे थे । ( इतनेमें अचानक ) पारिजात कुसुमोंके परागसे मिश्रित सुगन्धित पवनका भोंका आया । उस सुगन्धित पवनसे, भ्रमरकी तरह आकृष्ट होकर कुमार लक्ष्मण उसी तरह दौड़े जिस प्रकार हाथी हथिनीकी वाँछासे ( आकृष्ट होकर ) दौड़ पड़ता है ॥१-६॥

[ ३ ] थोड़ी दूर चलनेपर सन्तुष्ट मन लक्ष्मणको एक वंश-स्थल नामक स्थान दीख पड़ा । वह ऐसा जान पड़ा मानो स्वजन-

अण्णेक-पासँ कोड्डावणउ । जम-जीह जेम भीसावणउ ॥३॥  
 गयणङ्गणें खग्गु णिहाफियउ । णाणाविह - कुसुमोमालियउ ॥४॥  
 लक्खणहों णाईँ अब्भुद्धरणु । णं सम्बुकुमारहों जमकरणु ॥५॥  
 तं सूरहासु णामेण असि । जसु तेएं णिय पह मुअइ ससि ॥६॥  
 जसु धारहों काल-दिट्ठि वसइ । जसु कालु कियन्तु वि जसु तसइ ॥७॥  
 तें हत्थु पसारें वि लइउ किह । पर-णर-णिप्पसरु कलत्तु जिह ॥८॥

घत्ता

पुणु कीलन्तएँण असिवत्तें हउ वंसत्थलु ।  
 ताव समुच्छलँवि सिरु पडिउ स-मउडु स-कुण्डलु ॥९॥

[ ४ ]

जं दिट्ठु विवाइउ सिर-कमलु । सिरिवच्छें विहुणित भुय-जुअलु ॥१॥  
 'धिम्मइँ णिकारणु वहिउ णरु । वत्तीस वि लक्खण-लक्ख-धरु' ॥२॥  
 पुणु जाम णिहालइ वंस-वणु । णर-रुण्डु दिट्ठु फन्दन्त-तणु ॥३॥  
 तं पेक्खें वि चिन्तइ खग्गधरु । 'थिउ माया-रूवें को वि णरु' ॥४॥  
 गउ एम भणेप्पिणु महुमहणु । णिविसेण परायउ णिय-भवणु ॥५॥  
 राहवेंण वुत्तु 'भो सुहड-ससि । कहिँ लद्धु खग्गु कहिँ गयउ असि ॥६॥  
 तेण वि तं सयलु वि अक्खियउ । वंसत्थलु जिह वणें लक्खियउ ॥७॥  
 जिह लद्धु खग्गु तं अतुल-वलु । जिह खुडिउ कुमारहों सिर-कमलु ॥८॥

घत्ता

घुच्चईँ राहवेंणा 'मं एत्तिय मुहिवएँ साडिय ।  
 असि सावण्णु णवि पईँ जमहों जीह उप्पाडिय' ॥९॥

[ ५ ]

जं एहिय भीसण वत्त सुय । वेवन्ति पजम्पिय जणय - सुय ॥१॥

समूह ही ठहरा हो, या व्याधसे पीड़ित मदगज ही हो। तब अत्यन्त निकट जाकर, उसने आकाशमें लटका हुआ एक खड्ग देखा। यमकी जीभकी तरह भयानक वह, पुष्पमालाओंसे लदा हुआ था। वह मानो, लक्ष्मणका उद्धारक और शम्बूक कुमारके लिए जन्मकरण था। यह वह सूर्यहास खड्ग था जिसके तेजसे चन्द्रमा भी अपनी आभा छोड़ देता है, जिसकी पैनी धारमें कालदृष्टि बसती है, यम कृतान्त भी जिससे सन्नस्त हो उठते हैं। लक्ष्मणने हाथ फैलाकर उस खड्गको उसी प्रकार झेल लिया जिस प्रकार कोई विट परपुरुषगामी स्त्रीको पकड़ ले। जब खेल-खेलमें कुमार लक्ष्मणने उस खड्गसे वंशस्थलपर चोट की तो उसमेंसे मुकुट और कुंडल सहित एक सिर उछल पड़ा ॥१-६॥

[ ४ ] उस मूक सिरकमलको देखकर, लक्ष्मण दोनों हाथसे अपना सिर धुनकर पछताने लगा, “मुझे धिक्कार है कि व्यर्थ ही मैंने बृत्तीस लक्ष्मणोंसे युक्त एक आदमीका वध कर दिया है।” जब उसने उस वंश-समूहको देखा, उसमें एक तड़फड़ाते मनुष्यका धड़ दिखाई दिया। उसे देखकर खड्गधर लक्ष्मणने सोचा शायद कोई मायाका रूप धारणकर इसमें बैठा था। यह विचारकर वह पलभरमें अपने डेरेमें पहुँच गया। तब रामने पूछा, “हे शुभ, यह खड्ग तुमने कहाँ पाया, तुम कहा गये थे।” तब लक्ष्मणने जिस तरह वंशस्थल देखा था और कुमारका सिर काटकर वह खड्ग प्राप्त किया था वह सब हाल कह सुनाया। इसपर राम बोले, “अरे तुमने इस तरह ( उसे ) काट डाला, निश्चय ही तुमने यमकी डाढ़ उखाड़ ली है। वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था” ॥१-६॥

[ ५ ] यह बात सुनते ही सीतादेवी काँप-सी गई। वह बोलीं, “चल, लतामंडपमें घुस चलें। इस वनमें प्रवेश करना शुभ

‘लय-मण्डवँ विउलँ णिविटाहुँ । सुहु णाहि वणँ वि पइटाहुँ ॥२॥  
 परिभमइ जणइणु जहिँ जँ जहिँ । दिवँदिवँ कडमइणु तहिँ जँ तहिँ ॥३॥  
 कर-चलण-देह-सिर - खण्डणहुँ । णिविण्ण माएँ हउँ भण्डणहुँ ॥४॥  
 हउँ ताएँ दिण्णी केहाहुँ । कलि - काल - कियन्तहुँ जेहाहुँ ॥५॥  
 तं वयणु सुणेप्पिणु भणइ हरि । ‘जइ राजु ण पोरिसु होइ वरि ॥६॥  
 जिम दाणँ जँम सुकइत्तणँ । जिम आउहेण जिम कित्तणँ ॥७॥  
 परिभमइ कित्ति सब्वहँ णरहँ । धवलन्ति भुवणु जिह जिणवरहँ ॥८॥

घत्ता

आयहुँ एत्तियहुँ जसु एक्कु वि चित्तँ ण भावइ ।  
 सो जाउ जि मुउ परिमिसु जं जसु णेवावइ ॥९॥

[ ६ ]

एत्थन्तरँ सुर - संतावणहँ । लहु वहिणि सहोयर रावणहँ ।  
 पायाललङ्क - लङ्केसरहँ । धण पाण-पियारी तहँ खरहँ ॥२॥  
 चन्दणहि णाम रहसुच्चलिय । णिय - पुत्तहो पासु समुच्चलिय ॥३॥  
 ‘लइ वारह-वरिसइँ भरियाइँ । चउ-दिवसँहिँ पुणु सोत्तरियाइँ ॥४॥  
 अण्णहिँ तहिँ दिवसँहिँ करँ चडइ । तं खग्गु अज्जु णहँ णिव्वडइ ॥५॥  
 सो एव चवन्ती महुर - सर । वलि - दीवङ्गारय - गहिय - कर ॥६॥  
 सज्जण - मण - णयणाणन्दणहँ । गय पासु पत्त णिय-णन्दणहँ ॥७॥  
 ताणन्तरँ असि - दलवट्टियउ । वंसत्थलु दिट्ठ णिवाट्टियउ ॥८॥

घत्ता

दिट्ठु कुमार-सिरु स-मउडु मणि-कुण्डल-मण्डिउ ।  
 जन्तँहिँ किण्णरँहिँ वर-कणय-कमलु णं छण्डिउ ॥९॥

[ ७ ]

सिर-कमलु णिएप्पिणु गीढ-भय । रोमन्ती महियलँ मुच्च - गय ॥१॥  
 कन्दन्ति रुवन्ति स - वेयणिय । णिज्जाव जाय णिच्चेयणिय ॥२॥  
 पुणु दुक्खु दुक्खु संवरिय-मण । मुह-कायर दर-मउलिय - णयण ॥३॥

नहीं है। कुमार लक्ष्मण तो दिनोंदिन वहीं घूमते रहते हैं जहाँ युद्ध और विनाश (की सम्भावना) रहती है। हाथ, पैर, सिर और शरीरका नाश करनेवाले इन युद्धोंसे मुझे बहुत विरक्ति हो उठी है। इससे मुझे उतना ही सन्ताप होता है जितना कलिकाल और कृतान्तसे।” यह सुनकर कुमार लक्ष्मणने कहा—“जिसमें पुरुषार्थ नहीं वह राजा कैसा? मनुष्यकी कीर्ति दान, सुकवित्व, आयुध और कीर्तनसे ही फैलती है वैसे ही जैसे जिनवरसे यह यह संसार धवल बनता है। इनमेंसे जिसके मनको एक भी अच्छा नहीं लगता वह मर क्यों नहीं जाता, वह व्यर्थ ही यमका भोजन बनता है ॥१-६॥

[ ६ ] इसी बीच चन्द्रनखा हर्षसे उछलती हुई, वहाँ आई। वह रावणकी सगी छोटी बहन और पाताललंकाके राजा खरकी पत्नी थी। “चार दिन ऊपर बारह वर्ष हो चुके हैं, दूसरे ही दिन खड्ग आकाशसे गिरकर मेरे पुत्रके हाथमें आ जायगा,” मधुर स्वरमें यह गुनगुनाती हुई, नैवेद्य, दीप, धूप वगैरह पूजाका सामान हाथमें लिये जैसे ही वह सज्जनोंके मन और नेत्रोंको आनन्ददायक अपने पुत्रके निकट पहुँची वैसे ही उसने खड्गसे छिन्न उस वंशस्थलको गिरा हुआ देखा। कुमारका मुकुट-कुंडलसे सहित कटा हुआ सिर देखकर उसे ऐसा जान पड़ा, मानो किन्नरोंने आते-जाते वन-कमलको तोड़कर फेंक दिया हो ॥१-६॥

[ ७ ] ( छिन्न ) सिरकमलको देखकर वह भयभीत हो उठी। रोती हुई वह, मूर्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी। क्रन्दन करती, रोती और वेदनासे भरी हुई वह एकदम निर्जीव और निश्चेतन हो उठी। फिर बड़े कष्टसे उसने अपना मन सम्हाला। उसका मुख कमल कातर हो रहा था, आँखें भयसे मुकुलित थीं।



णं मुच्छए किउ सहियत्तणउ । जं रक्खिउ जीवु गवणमणउ ॥४॥  
 पुणु उट्टेवि विट्ठणइ भुअजुअलु । पुणु सिरु पुणु पहणइ वच्छयलु ॥५॥  
 पुणु कोक्कइ पुणु धाहहिँ रडइ । पुणु दीसउ णिहालइ पुणु पडइ ॥६॥  
 पुणु उट्टइ पुणु कन्दइ कणइ । पुणुरुत्तेहिँ अप्पउ आहणइ ॥७॥  
 पुणु सिरु अप्फालइ धरणिवहँ । रोवन्तिहँ सुर रोवन्ति णहँ ॥८॥

घत्ता

जे चउदिसैहिँ थिय णिय डाल पसारँवि तरुवर ।

‘मा रुव चन्दणहि’ णं साहारन्ति सहोयर ॥९॥

[ ८ ]

अप्पाणउ तो वि ण संथवइ । रोवन्ति पुणु वि पुणु उट्टवइ ॥१॥  
 ‘हा पुत्त विउज्झहि लुहहि मुहु । हा विरुअएँ णिइएँ सुत्त तुहुँ ॥२॥  
 हा किण्णालावहि पुत्त मइँ । हा किं दरिसाविय माय पइँ ॥३॥  
 हा उवसंहारहि रूवु लहु । हा पुत्त देहि पिय-वयणु महु ॥४॥  
 हा पुत्त काइँ किउ रुहिर-वडु । हा पुत्त एहि उच्छङ्गँ चडु ॥५॥  
 हा पुत्त लाइ मुहँ मुह-कमलु । हा पुत्त एहि पिउ थण-जुअलु ॥६॥  
 हा पुत्त देहि आलिङ्गणउ । जेँ णच्चमि वणेँ वद्धावणउ ॥७॥  
 णव-मासु छुद्धु जं मइँ उअँर । तं सहल मणोरह अज्जु जणेँ ॥८॥

घत्ता

हा हा दइ विहि कहिँ णियउ पुत्तु कहों सङ्गमि ।

काइँ कियन्त किउ हा दइव कवण दिस लङ्गमि ॥९॥

[ ९ ]

हा अज्जु अमङ्गलु विहिँ पुरहँ । पायाललङ्क - लङ्काउरहँ ॥१॥  
 हा अज्जु दुक्खु बन्धव-जणहों । हा अज्जु पडिय भुअ रावणहों ॥२॥  
 हा अज्जु खरहों रोवावणउ । हा अज्जु रिउहुँ वद्धावणउ ॥३॥

मूर्छाने एक प्रकारसे उसकी बहुत बड़ी सहायता की जो उसके गमनशील प्राणोंको बचा लिया। उठकर वह फिर दोनों हाथ पीटने लगी। कभी वह सिर पीटती और कभी छाती। कभी वह (अपने पुत्रको) पुकार उठती और कभी डाढ़ मारकर रोने लगती। देखती, गिरती पड़ती, उठती और फिर वह क्रन्दन करने लगती। इस तरह बार-बार, अपनेको प्रताड़ित करती, और कभी धरतीपर सिर पटक देती। उसके रोदनका स्वर आकाशमें गूँज रहा था। चारों ओर लगे हुए वृत्त, मानो अपनी डालोंसे यह संकेत कर रहे थे कि “चन्द्रनखा रो मत” और भाईकी तरह उसे सहारा दे रहे थे ॥१-६॥

[ ८ ] तो भी वह, किसी भी प्रकार अपने आपको ढाढ़स नहीं दे पा रही थी। रोती हुई वह बार-बार कह उठती, “हे पुत्र ! तुम विद्रूप महानिद्रामें क्यों निमग्न हो, हे पुत्र ! मुझसे क्यों नहीं बोलते, हे पुत्र ! तुमने माँको यह सब क्या दिखाया, अहा ! अपने रूपको तुम फिरसे खोल दो, हे पुत्र ! मुझसे मीठी बातें करो। हे पुत्र ! तुम्हारे वस्त्र रक्तरञ्जित क्यों हैं ? हे पुत्र आ, और मेरी गोदमें चढ़। हे पुत्र अपना मुखकमल मेरे मुँहसे लगा। हे पुत्र ! आ और मेरा दूध पी, हे पुत्र, मुझे आलिंगन दे, जिससे मैं वनमें बधावा नाच सकूँ, मैंने जिसके लिए, तुझे नौ माह पेटमें रखा, मेरे उस मनोरथको सफल कर। हा हा, हे रुठे हुए दैव, तूने मेरे पुत्रको कहाँ ले जाकर रख दिया। मैं उसे कहाँ खोजूँ ? कृतान्तने यह सब क्या किया, हे दैव ! मैं किस दिशामें जाऊँ ? ॥१-६॥

[ ९ ] आज सचमुच विधाताने पाताललंका नगरका बहुत बड़ा अमंगल किया है। आज बाँधवजनोंको घोर दुख है, आज रावणकी मानो एक भुजा टूट गई है। आज खरको रोदन आ

हा अज्जु फुट्ठु किं ण जमहों सिरु । हा पुत्त णिवारिउ मइ मि चिरु ॥४॥  
 तं खग्गु ण सावण्णहों णरहों । पर होइ अद्ध-चक्केसरहों ॥५॥  
 किं तेण जि पाडिउ सिर-कमलु । मणि-कुण्डल - मण्डिय-गण्डयलु' ॥६॥  
 पुणु पुणु दरिसावइ सुरयणहों । रवि-हुभवह - वरुण - पहञ्जणहों ॥७॥  
 ,अहों देवहों वालु ण रक्खियउ । सब्बेहिं मिलेवि उपेक्खियउ ॥८॥

घत्ता

तुम्हइँ दोसु णवि महु दोसु जाहें मणु ताविउ ।  
 मन्हुडु अण्ण-भवेँ मइँ अण्णु को वि संताविउ' ॥६॥

[ १० ]

एत्थन्तरें सोएँ परियरिय । णडि जिह तिह पुणु मच्छर-भरिय ॥१॥  
 णिडुरिय-णयण विप्फुरिय-मुह । विकराल णाइँ खय-काल-सुह ॥२॥  
 परिवद्धिय रवि-मण्डलें मिलिय । जम-जाह जेम णहें किलिगिलिय ॥३॥  
 'जेँ घाइउ पुत्तु महु-त्तणउ । खर-णन्दणु रावण-भायणउ ॥४॥  
 तहों जीविउ जइ ण अज्जु हरमि । तो हुयवह-पुञ्जेँ पईसरमि' ॥५॥  
 इय पइज करेप्पणु चन्दणहि । किर वल्लेवि पलोवइ जाम महि ॥६॥  
 लय-मण्डवेँ लक्खिय वे वि णर । णं धरणिहें उब्भिय उभय कर ॥७॥  
 तहिँ एक्कु दिट्ठु करवाल-भुउ । 'लइ एण जि हउ महु तणउ सुउ ॥८॥

घत्ता

एण जि असिवरेंण णियमत्थहों कुल-पायारहों ।  
 सहूँ वंसत्थलेंण सिरु पाडिउ सम्बुक्कुमारहों ॥६॥

[ ११ ]

जं दिट्ठ वणन्तरें वे वि णर । गउ पुत्त-विओउ कोउ णवर ॥१॥  
 आयामिय विरह-महाभडेंण । णच्चाविय मयरद्धय-णडेंण ॥२॥

गया, आज सचमुच शत्रुओंकी बढ़ती होगी, हा आज उस यमका सिर क्यों न फूट गया जिसने मेरे पुत्रका हमेशाके लिए अपलाप कर दिया। वह खड्ग किसी मामूली आदमीके लिए नहीं था, किसी अर्ध चक्रवर्तीके लिए था, क्या उसीने मणिमय कुण्डलोंसे मण्डित गण्डस्थलवाला उसका सिरकमल काटकर गिरा दिया है। वह बार-बार रवि, अग्नि, वरुण और पवन आदि देवोंको उसे दिखाकर कह रही थी, “अरे तुम लोग मेरे लालको नहीं बचा सके। तुम सबने मिलकर इसकी उपेक्षा की। परन्तु इसमें तुम्हारा दोष नहीं। दोष है मेरा, शायद दूसरे जन्ममें मैंने किसी दूसरेको सताया होगा” ॥१-६॥

[ १० ] इस प्रकार शोकातुर वह, जिस किसी प्रकार ईर्ष्यासे भरी हुई नटीकी तरह जान पड़ती थी। उसकी आँखें डरावनी, मुख खुला हुआ, और तृब्ध। वह क्षयकालकी भाँति विकराल थी। बढ़कर वह सूर्य-मंडलमें जा मिली और यमकी जिह्वाकी तरह किलकिलाती हुई वह बोली—“जिसने आज, खरके नन्दन, रावणके भानजे और मेरे पुत्रकी हत्या की है, उसके जीवनका यदि मैं हरण नहीं करूँ तो आगकी लपटोंमें प्रवेश कर लूँगी।” यह प्रतिज्ञा करके वह ज्यों-ही धरतीकी ओर मुड़ी त्यों-ही उसे लता-मंडपमें दो आदमी ऐसे दिखाई दिये मानो वे धरतीके ही उठे हुए दो हाथ हों ? उनमेंसे एक, हाथमें तलवार लिये हुए दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद इसीने मेरे पुत्रको मारा है। इस तलवारसे इसने मेरे कुलकी प्राचीरको तोड़ दिया है, वंशस्थलके साथ ही मेरे कुमारका सिर भी काटकर गिरा दिया है ॥१-६॥

[ ११ ] वनके बीचमें जैसे ही उसने उन दोनों नरोंको देखा वैसे ही उसका पुत्रवियोगका क्रोध चला गया। और अब वियोग

पुलइजइ पासेइजइ वि । परितप्पइ जर-खेइजइ वि ॥३॥  
 मुच्छिजइ उम्मुच्छिजइ वि । रुणुरुणइ वियारहिँ भजइ वि ॥४॥  
 'वरि एउ रूउ उवसंघरमि । सुर-सुन्दरु कण्ण-वेसु करमि ॥५॥  
 पुणु जामि एत्थु उम्वर-भवणु । परिणेसइ अवसेँ एक्कु जणु' ॥६॥  
 हियइच्छिउ तक्खणेँ रूउ किउ । णं कामहोँ कोडु(?) जेँ तिं विहिउ ॥७॥  
 गय तहिँ जहिँ तिण्णि वि जणइँ वणेँ । पुणु धाहहिँ रुअणहिँ लग्ग खणेँ ॥८॥

### घत्ता

पभणइ जणय-सुय 'वल पेक्खु कण्ण किह रोवइ ।  
 जं कालन्तरिउ तं दुक्खु णाइँ उक्कोवइ' ॥९॥

[ १२ ]

रोवन्ती वडुँ मलहरेंण । हक्कारेँवि पुच्छिय हलहरेंण ॥१॥  
 'कहि सुन्दरि रोवहि काइँ तुहुँ । किं पडिउ किं पि णिय-सयण-दुहु ॥२॥  
 किं केण वि कहिँ वि परिब्भविय' । तं वयणु सुणेवि वाल चविय ॥३॥  
 हउँ पाविणि दाण दयावणिय । णिव्वन्धव रुवमि वराय णिय ॥४॥  
 वणेँ भुल्ली णउ जाणमि दिसउ । णउ जाणमि कवणु देसु विसउ ॥५॥  
 कहिँ गच्छमि चक्खूहें पडिय । महु पुण्णेहिँ तुम्ह समावडिय ॥६॥  
 जइ अम्हहुँ उप्परि अत्थि मणु । तो परिणउ विण्ह वि एक्कु जणु ॥७॥  
 तं वयणु सुणेवि हलाउहेंण । किय णक्खच्छोडी राहवेंण ॥८॥

महाभटने उसपर धावा बोल दिया । कामदेव उसे नचाने लगा । वह सहसा पुलकित हो उठी । वह पसीना-पसीना हो गई । वह सन्तप्त होने लगी, उसके ज्वरकी पीड़ा बढ़ गई । कभी वह मूर्छित होती तो कभी उच्छ्वास छोड़ती । कभी रुन-भुन कर उठती । इस प्रकार वह विकारसे भग्न हो उठी । उसने मनमें सोचा, “अच्छा मैं अब अपने इस रूपको छिपा लूँ और सुर-सुन्दरीका नया रूप ग्रहण कर लूँ तब इस, उत्तम लताभवनमें प्रवेश करूँ । इनमेंसे एक-न-एक अवश्य मुझसे विवाह करेगा ।” यह विचारकर उसने तत्काल यथेच्छ सुन्दर रूप बना लिया । वह अब ऐसी लगने लगी मानो कामदेवने ही साक्षात् कोई कौतुक किया हो । कुछ दूरीपर जाकर वह ढाढ़ मारकर रोने लगी, उसके क्रन्दनको सुनकर सीतादेवीने रामसे कहा,—“ आर्य, देखो तो वह लड़की क्यों रो रही है, जान पड़ता है जो दुःख कालसे अन्तरित था, वही अब इसपर प्रकट हो रहा है” ॥१-६॥

[ १२ ] तब बलभद्र रामने ऊँचे स्वरमें पुकारकर रोती हुई उस बालासे पूछा “सुन्दरी, बताओ तुम क्यों रो रही हो ? क्या किसी स्वजनका दुःख आ पड़ा है या कहीं किसीने तुम्हारा पराभव कर दिया है ।” यह वचन सुनकर वह बाला बोली—“मैं पापिनी, दैवसे दयनीय, भाई-बन्धुओंसे हीन एक दम अनाथ हूँ । इसी लिए रो रही हूँ । इस वनमें भूल गई हूँ । दिशा मैं जानती नहीं, और न ही मैं यह जानती हूँ कि कौन मेरा देश या प्रान्त है । कहाँ जाऊँ समझमें नहीं आता । मैं जैसे चक्रव्यूहमें पड़ गई हूँ । अब मेरे पुण्यसे तुम अच्छे आ गये हो, यदि मेरे ऊपर आपका मन हो तो दोमेंसे कोई एक मेरा वरण कर ले ।” यह वचन सुनते ही

घत्ता

करयलु दिण्णु मुहँ किय वङ्क भउँह सिरु चालिउ ।  
 'सुन्दर ण होइ वहु' सोमिच्छिहँ वयणु णिहालिउ ॥६॥

[ १३ ]

जो णरवइ अइ - सम्माण-करु । सो पत्तिय अत्थ - समत्थ - हरु ॥१॥  
 जो होइ उवायणँ वच्छलउ । सो पत्तिय विसहरु केवलउ ॥२॥  
 जो मित्तु अकारणँ एइ घरु । सो पत्तिय दुट्टु कलत्त - हरु ॥३॥  
 जो पन्थिउ अलिय-सणेहियउ । सो पत्तिय चोरु अणेहियउ ॥४॥  
 जो णरु अत्थकएँ लल्लि - करु । सो सत्तु णिरुत्तउ जीव - हरु ॥५॥  
 जा कामिणि कवड-चाडु कुणइ । सा पत्तिय सिर-कमलु वि लुणइ ॥६॥  
 जा कुलवहु सवहँहिँ ववहरइ । सा पत्तिय विरुय - सयइँ करइ ॥७॥  
 जा कण्ण होवि पर-णरु वरइ । सा किं वड्डन्ती परिहरइ ॥८॥

घत्ता

आयहुँ अट्टहु मि जो णरु मूढउ वीसम्भइ ।  
 लोइउ धम्मु जिह छुडु विप्पउ पएँ पएँ लब्भइ ॥९॥

[ १४ ]

चिन्तेप्पिणु थेरासण - मुहँण । सोमिच्छि वुत्तु सीराउहँण ॥१॥  
 'महु अत्थि भज्ज सुमणोहरिय । लइ लक्खण वहु लक्खण-भरिय' ॥२॥  
 जं एव समासएँ अक्खियउ । कण्हेण वि मणँ उवलक्खियउ ॥३॥  
 हउँ लेमि कुमारि स-लक्खणिय । जा आगमँ सामुहएँ भणिय ॥४॥  
 जङ्कोरु - अहङ्गय वट्ट - थण । दीहर - कर - णक्खङ्गुलि - णयण ॥५॥  
 रत्तंहि गइन्द - णिरिक्खणिय । चामीयर - वरण सपुज्जणिय ॥६॥  
 जा उण्णय णासँ णिलाडँ तिय । सा होइ ति - पुत्तहुँ मायरिय ॥७॥

रामने फौरन खुट्टी कर ली । मुँहपर दोनों हाथ रखकर, भौहें टेढ़ीकर, उन्होंने अपना मुख फेर लिया और कहा—“वधू, यह सुन्दर न होगा । तुम लक्ष्मणका मुख जोहो” ॥१-६॥

[ १३ ] राम सोचने लगे—“जो राजा अत्यन्त सम्मान करने वाला होता है उसे अवश्य अर्थ और सामर्थ्यका हरण करनेवाला होना चाहिए । जो दान देनेमें अधिक ममत्व रखता है उसे अवश्य ही विषधर जानो । जो मित्र अकारण घर आता है उसे अवश्य स्त्री हरण करनेवाला दुष्ट समझो । जो पथिक मार्गमें भूठा स्नेह जताता है उसे अवश्य ही अहितकारी चोर समझो । जो नर जल्दी-जल्दी चापलूसी करता है उसे अवश्य जीवहरण करनेवाला समझो । जो स्त्री कपटसे भरी हुई चाटुता करती है वह निश्चय ही सिरकमल काटेगी । जो कुल-वधू बार-बार शपथ करती है वह अवश्य सैकड़ों बुराइयाँ करनेवाली है, जो कन्या होकर भी पर-पुरुषको वरण करती है क्या वह बड़ी होनेपर ऐसा करना छोड़ देगी । लौकिक धर्मकी भाँति, जो मूढ़ इन बातोंमें विश्वास नहीं करता, वह अवश्य ही पग-पगमें अप्रिय पाता है ॥१-६॥

[ १४ ] तब कमल-मुख रामने सोच-विचारकर लक्ष्मणसे कहा—“मेरे पास एक सुन्दर स्त्री है, तुम अनेक लक्ष्णोंसे युक्त हो, चाहो तो इसे ले लो ।” जब रामने अत्यन्त संक्षेपमें यह कहा तो लक्ष्मणने भी तुरन्त बात ताड़ ली । उन्होंने कहा—“नहीं, मैं तो सुलक्षणा स्त्री लूँगा जिसका सामुद्रिक-शास्त्रोंमें उल्लेख है । जिसकी जाँघें, उर, अभङ्ग हों । हाथ, नख, अंगुली, आँखें लम्बी हों । जिसके पद आरक्त हों और ( गति ) गजेन्द्रकी भाँति दर्शनीय हो जो सुनहले रङ्गकी सम्माननीय हो । जिसका भाल और नाक उन्नत



कायङ्घि स - गगर तावसिय । सम - चलणङ्घुलि अचिराउसिय ॥८॥  
 जा हंस - वंस - वरवीण - सर । महु - वण्ण महा - घण-छाय-धर ॥९॥  
 सुह-भमर-णाहि-सिर-भमर-थण(?) । सा बहु-सुय बहु-धण बहु-सयण ॥१०॥  
 जहँ वामएँ करयलें होन्ति सय । मीणारविन्द - विस - दाम-धय ॥११॥  
 गोउरु घरु गिरिवरु अहव सिल । सु-पसत्थ स-लक्खण सा महिल ॥१२॥  
 चक्कस - कुण्डल - उद्धरिह । रोमावलि वलिय भुयङ्घु जिह ॥१३॥  
 अद्धेन्दु - णिडालें सुन्दरेंण । मुत्ताहल - सम - दन्तन्तरेंण ॥१४॥

### घत्ता

भाएँहिँ लक्खणें हिँ सामुद्धएँ वणि [ य ] सुणिज्जइ ।  
 चक्काहिवहों तिय चक्कवइ पुत्तु उप्पज्जइ ॥१५॥

### [ १५ ]

बहु राहव एह अलक्खणिय । हउँ भणमि ण लक्खणेण भणिय ॥१॥  
 जङ्घोरु - करेहिँ समंसलिय । चल - लोयण गमणुत्तावलिय ॥२॥  
 कुम्मुणय - पय विसमङ्घुलिय । धुय-कविल-केसि खरि पङ्घुलिय(?) ॥३॥  
 सन्वङ्ग - समुट्टिय - रोम-रइ । तहँ पुत्तु वि भत्तारु वि मरइ ॥४॥  
 कडि-लङ्घण भउँहावलि-मिलिय । सा देव णिरुत्तउ भेन्दुलिय ॥५॥  
 दालिहिणि तित्तिर - लोयणिय । पारेवयच्छि जण - भोजणिय ॥६॥  
 विरसउह - दिट्ठि विरसउह-सर । सा दुक्खहुँ भायण होइ पर ॥७॥  
 णासग्गों थोरें मन्थरेंण । सा लङ्घिय किं बहु-वित्थरेण ॥८॥  
 कडि-चिहुर-णाहि(?)मुह-मासुरिय । सा रक्खसि बहु-भय-भासुरिय ॥९॥  
 कडु-अङ्घिय मत्त-गइन्द-छवि । हउँ एहिय परिणमि कण्ण णवि' ॥१०॥

हो, वह तीन-तीन पुत्रोंकी माता होती है । जिसके पैर और स्वर काककी तरह हों और पैरकी अंगुलियाँ बराबर हों, और शोभा क्षणिक हो वह तापसी होती है । जो हंस-वंश, और वीणाके उत्तम स्वरवाली हो । मेरे रङ्गकी भाँति अत्यन्त कांतिमती हो तथा जिसकी नाभि, सिर और स्तन सुन्दर तथा सुडौल हों वह बहुपुत्र-वती, धनवती और कुटुम्बवाली होती है । जिसकी बाईं हथेलीमें चक्र, अङ्गुश और कुण्डल उभरे हों, रोमराजि साँपकी तरह मुड़ी हुई हो, ललाट अर्धचन्द्रकी तरह सुन्दर हो, दाँत मोतीकी तरह चमकते हों, इन लक्षणोंसे युक्त वनिताके विषयमें यह कहा जाता है ( सामुद्रिक-शास्त्रमें ) कि वह चक्रवर्तीकी पत्नी होती है और उसका पुत्र भी चक्रवर्ती होता है ॥१-६॥

[ १५ ] परन्तु राघव, यह वधू कुलक्षणी है । यह मैं नहीं, सामुद्रिक शास्त्र कह रहा है । जिसकी जंघा और पिंडरी स्थूल हों, आँखें चञ्चल, और जो चलनेमें उतावली करती हो, जिसके पैर कल्लुएके समान ऊँचे हों, अंगुलियाँ विषम और बाल कपिल वर्णके चंचल हों, सारे शरीरमें रोमराजि उठी हुई हो उसके पुत्र और पति दोनों मर जायँगे । जिसकी कमर लङ्घित और भौँहें मिली हुई हों, हे देव ! वह निश्चय ही पुंश्रली होती है, दरिद्र, तीतर या कबूतर-सी आँखवाली स्त्री निश्चय ही नरभक्षिणी होती है । काकके समान दृष्टि और स्वरवाली जो हो वह अवश्य ही दुखकी पात्र है । जिसकी नाक आगे कुछ चिपटी वा लंजिता होती है, बहुत विस्तारसे क्या, जिसके बाल कमर तक नहीं होते और जो मसाली होती वह बहुत भयावनी राक्षसिनी होती है । जिसकी कमर पतली और छवि मत्त गजराज की भाँति हो, ऐसी कन्यासे मैं विवाह नहीं कर सकता ।” यह सुनकर चन्द्रनखाने अपने

घत्ता

पभणइ चन्दणहि 'किं गियय-सहावें लज्जमि ।  
जइ हउं गिसियरिय तो पइ मि अज्जु स इँ भु अमि' ॥११॥



### [ ३७. सत्ततीसमो संधि ]

चन्दणहि अलज्जिय एम पगज्जिय 'मरु मरु भूयहुँ देमि वलि' ।  
गिय-रूवें वड्डिय रण-रसेँ अड्डिय रावण-रामहुँ णाइँ कलि ॥

[ १ ]

पुणु णु पुवि पवड्डिय किलिकिलन्ति । जालावलि-जाला-सय मुअन्ति ॥१॥  
भय-भीसण कोवाणल-सणाह । णं धरएँ समुब्भिय पवर वाह ॥२॥  
णह-सरि-रवि-कमलहों कारणत्थि । अहवइ णं अब्भुद्धारणत्थि ॥३॥  
णं घुसलइ अब्भ-च्चिरिड्डिहिल्लु । तारा-वुव्वुव-सय-विड्डिरिल्लु ॥४॥  
ससि-लोणिय-पिण्डउ लेवि धाइ । गह-डिम्भहों पीहउ देइ णाइँ ॥५॥  
अहवइ किं बहुणा वित्थरेण । णं णहयल-सिल गेणहइ सिरेण ॥६॥  
णं हरि-वल-मोत्तिय-कारणेण । महि-गयण-सिप्पि फोडइ खणेण ॥७॥  
वलएवें वुच्चइ 'वच्छ वच्छ । तुहुँ बहुयहें चरियइँ पेच्छ पेच्छ ॥८॥

घत्ता

चन्दणहि पजम्पिय तिणु वि ण कम्पिय 'लइउ खग्गु हउ पुत्तु जिह ।  
तिण्णि वि खज्जन्तइँ मारिज्जन्तइँ रक्खेज्जहों अप्पाणु तिह ॥

मनमें सोचा तो क्या मैं अपने स्वभावपर लज्जित होऊँ ? कभी नहीं । यदि मैं सच्ची निशाचरी होऊँगी तो अवश्य तुम्हारा भोग करूँगी ॥१-६॥

### सैतीसवीं सन्धि

तब चन्द्रनखा एक दम लज्जाहीन होकर गरजती हुई बोली, “मरो मरो, मैं तुम्हारी बलि भूतोंको दूँगी । अपने रूपका विस्तार करती हुई, रण-रससे ओतप्रोत वह, राम और रावणकी साक्षात् कलहर्का भाँति जान पड़ती थी ।

[ १ ] बार-बार बढ़ती हुई वह कभी खिलखिला पड़ती और कभी आगकी ज्वालामाला छोड़ने लगती । कोपानलसे जलती हुई और भयभीषण वह ऐसी लगती थी मानो वसुधाकी बाधा ही उत्पन्न हो गई हो । या रवि और कमलोंके लिए आकाश-गंगा ऊपर उठती चली आ रही हो । या बादलरूपी दहीको मथ रही हो, या तारारूपी सैकड़ों बुदबुद बिखर गये हों, या शशिरूपी नवनीतका पिण्ड लेकर ग्रहरूपी बच्चेको पीठा लगानेके लिए दौड़ पड़ रही हो । अथवा बहुत विस्तारसे क्या मानो वह आकाशरूपी शिलाको उठा रही थी या राम और लक्ष्मण रूपी मोतियोंके लिए, धरती और आसमान रूपी सीपीको एक क्षणमें तोड़ना चाहती थी । ( यह देखकर ) रामने लक्ष्मणसे कहा—“वत्स वत्स, तुम इस वधूके चरित्रको देखो ।” यह सुनकर तृण बराबर भी नहीं डरती हुई चन्द्रनखा बोली, “जिस तरह तुमने मेरे पुत्रको मारकर वह खड्ग लिया है उसी तरह तुम तीनों मारे और खाये जाओगे, अपनी रक्षा करो” ॥१-६॥

[ २ ]

वयणेण तेण असुहावणेण । करवालु पदरिसिउ महुमहेण ॥१॥  
 दढ- कदिण- कढोरुप्पालणेण । अङ्गुलि- अङ्गुट्टावीलणेण ॥२॥  
 तं मण्डलगु थरहरइ केम । भत्तार-भणं सुकलत्तु जेम ॥३॥  
 अणवरय-मउज्झरें णर-णिसुम्भे । तहिं दारिज्जन्ते गइन्द-कुम्भे ॥४॥  
 जो धारहिं मोत्तिय-णियरु लगु । पासेव-फुलिङ्गु बहु व वलगु ॥५॥  
 तं तेहउ खरगु लणुवि तेण । विजाहरि पभणिय लक्खणेण ॥६॥  
 'जे लइउ सीसु तुह णन्दणासु । करवालु एउ तं सूरहासु ॥७॥  
 जइ अत्थि को वि रण-भर-समन्थु । तहो सन्वहो उब्भिउ धम्म-हत्थु ॥८॥  
 खर-घरिणिणं वुत्तु 'ण होइ कज्जु । को वारइ मारइ मइ मि अज्जु' ॥९॥

घत्ता

सा एव भणेप्पिणु गलगजेप्पिणु चलणेहिं अप्फालेवि महि ।  
 खर-दूसण-वीरहुं अतुल-सरीरहुं गय कूवारें चन्दणहि ॥१॥

[ ३ ]

रोवन्ति पधाइय दीण-वयण । जलहर जिह तिह वरिसन्ति णयण ॥१॥  
 लम्बन्ति लम्ब-कडियल-समग । णं चन्दण-लयहें भुअङ्ग लग्ग ॥२॥  
 वीया- मयलञ्जण- सण्णिहेहिं । अप्पाणु वियारिउ णिय-णहेहिं ॥३॥  
 रुहिरोस्सिय थण-घिप्पन्त-रत्त । णं कणय-कलस कुङ्कम विलित्ति ॥४॥  
 णं दावइ लक्खण-राम-कित्ति । णं खर-दूसण-रावण-भवित्ति ॥५॥  
 णं णिसियर-लोयहो दुक्ख-खाणि । णं मन्दोयरिहें सुपुरिस-हाणि ॥६॥  
 णं लङ्कहें पइसारन्ति सङ्क । णिविसेण पत्त पायाललङ्क ॥७॥  
 णिय-मन्दिरे धाहावन्ति णारि । णं खरदूसणहो पइट्ट मारि ॥८॥

[ २ ] तब उसके असुहावने वचन सुनकर दृढ़ कठोर कठिन और सन्तापकारी लक्ष्मणने अँगुली और अँगूठेसे दबाकर उसे तलवार दिखाई । उसका मण्डलाग्र थर-थर काँप रहा था, मानो पतिके भयसे सुकलत्र ही थर-थर काँप रही हो । अनवरत मदजल भरते नरनाशक गजोंके कुम्भस्थलोंको विदीर्ण करनेसे उस खण्डकी धारमें जो मोती समूह लग गया था मानो वही उसके प्रस्वेदकण रूपी चिनगारियाँ थीं । उस वैसे खड्गको लेकर लक्ष्मणने विद्याधरीसे कहा, “यह वही सूर्यहास खड्ग है जिसने तुम्हारे पुत्रके प्राण हरण किये, यदि कोई ( तुम्हारा ) मनुष्य रण-भार उठानेमें समर्थ हो तो उसके लिए यह धर्मका हाथ बढ़ा हुआ है ।” यह सुन खर-पत्नी चन्द्रनखा बोली, “यह काम क्या नहीं हो सकता । देखू आज कौन मुझे मार या हटा सकता है” यह कहकर गरजती हुई और पैरोंसे धरतीको चपाती हुई, विलपती वह, अतुल देह खर और दूषणके निकट पहुँची ॥१-१०॥

[ ३ ] जब वह उनके पास पहुँची तो उसका मुख दीन था, वह रो रही थी और आँखोंसे मेघधाराकी तरह अश्रुधारा प्रवाहित थी । अपनी लम्बी केशराशि उसने कटिभाग तक ऐसी फैला रक्खी थी मानो सर्पसमूह चन्द्रनलतासे लिपट गये हों । दोजके चन्द्रकी तरह अपने नखाँसे उसने अपने आपको विदीर्ण कर लिया था । रक्त-रञ्जित उसके लाल स्तन ऐसे लगते थे मानो कुंकुममण्डित स्वर्णिम कलश हों । या मानो रामलक्ष्मणकी कीर्ति चमक उठी हो या मानो खर, दूषण और रावणकी भवितव्यता ही हो, मानो निशाचरके लिए दुखकी खान हो, मानो मन्दोदरीके पतिकी हानि हो, या मानो लङ्कामें प्रवेश करती हुई आशङ्का ही हो । वह पलभर में पाताललङ्का जा पहुँची और अपने भवनमें ढाढ़ मारकर ऐसे

## घत्ता

कूवारु सुणेप्पिणु धण पेक्खेप्पिणु राएं वल्ले वि पलोइयउ ।  
तिहुयणु संघारै वि पलउ समारै वि गाहँ कियन्ते जोइयउ ॥६

[ ४ ]

कूवारु सुणै वि कुल-भूसणेण । चन्दणहि पपुच्छिय दूसणेण ॥१॥  
कहँ केणुप्पाडिउ जमहँ णयणु । कहँ केण पजोइउ काल-वयणु ॥२॥  
कहि केण कियन्तहँ कियउ मरणु । कहि केण कियउ विस-कन्द-चरणु ॥३॥  
कहि केण वद्ध पवणेण पवणु । कहि केण दड्ढु जलणेण जलणु ॥४॥  
कहि केण भिणु वज्जेण वज्जु । कहि केण धरिउ जलु जल्लेण अज्जु ॥५॥  
कहि केण भाणु उण्हेण तविउ । कहि केण समुद्दु तिसाएँ खविउ ॥६॥  
कहि केण खुडिउ फणि-मणि-णिहाउ । कहँ केण सहिउ सुर-कुलिस-घाउ ॥७॥  
कहि केण हुआसडँ भम्प दिण्ण । कहँ कण दसाणण-पाय छिण्ण ॥८॥

## घत्ता

चन्दणहि पवोल्लिय अंसुजलोल्लिय 'जण-वल्लहु महु तणउ सुउ ।  
ओलगाइ पाणै हि विणय-समाणै हि णरवइ सम्बुकुमारु मुउ ॥९॥

[ ५ ]

आयण्णे वि सम्बुकुमार - मरणु । संतावण - सोय-विओय - करणु ॥१॥  
पविरल-मुह वाह-भरन्त-णयणु । दुक्खाउरु दर - ओहुल्ल-वयणु ॥२॥  
खरु रुयइ स-दुक्खइ 'अतुल-पिण्डु । हा अज्जु पडिउ महु वाहु-दण्डु ॥३॥  
हा अज्जु जाय मणै गरुअ सङ्ग । हा अज्जु सुण्ण पायाललङ्ग ॥४॥  
हा गन्दण सुर - पञ्चाणणासु । कवणुत्तरु देमि दसाणणासु ॥५॥  
एत्थन्तरै ताम तिसुण्ड-धारि । बहु-बुद्धि पजम्पिउ वम्भयारि ॥६॥

रोने लगी जैसे खर-दूषणके लिए मारी ही घुस पड़ी हो। विलाप सुनकर, अपनी धन्याको देखनेके लिए खर इस तरह मुड़ा जिस तरह संहार और प्रलय करनेके विचारसे कृतान्त मुड़कर देखता है ॥१-६॥

[ ४ ] उसका क्रन्दन सुनकर कुलभूषण दूषणने चन्द्रनखासे पूछा, “कहो किसने ( आज ) यमके नेत्र उखाड़े, कहो किसने कालका मुख देखा है ? कहो किसने कृतान्तका वध किया, कहो बैलके स्कन्धको किसने चपेटा ? कहो पवनसे पवनको किसने बाँधा, बताओ आगसे आगको कौन जला सका ? कहो वज्रसे वज्रका भेदन किसने किया ? जलसे जलको धारण, आजतक किसने किया। सूर्यकी उष्णताको आजतक कौन तपा सका ? कहो समुद्रकी प्यास किसने शान्त की ? साँपके फनसमूहको किसने तोड़ा ? इन्द्रके वज्रका आघात कौन सहन कर सका ? कहो वनकी आगको कौन बुझा सका है ? कहो रावणके प्राण कौन छीन सकता है ?” ( यह सुनकर ) आँखोंमें आँसू भरकर चन्द्रनखाने कहा ! “राजन् मेरा जनप्रिय सुन्दर पुत्र कुमार शम्बूक, विनयके समान अपने प्राणोंको लेकर मर गया” ॥१-६॥

[ ५ ] अपने पुत्रकी, सन्ताप, शोक और वियोग उत्पन्न करनेवाली मृत्युकी बात सुनकर, म्लानमुख गलिताश्रु दुःखातुर और भयकातर खर रो पड़ा। ( वह विलाप करने लगा ) हे अतुल शरीर, आज मेरा बाहुदण्ड ही टूट गया है, आज मेरे मनमें बड़ी भारी आशंका उत्पन्न हो गई है। आज पाताललंका सूनी-सूनी लग रही है। हे पुत्र, देवसिंह रावणके लिए मैं अब क्या उत्तर दूँगा।” इसी बीचमें एक त्रिपुण्डधारी बहुबुद्धि ब्रह्मचारीने



‘हे णरवइ मूढा रुअहि काइँ । संसारें भमन्तहुँ सुअ - सयाइँ ॥७॥  
 भायाइँ सुआइँ गयाइँ जाइँ । को सकइ राय गणेवि ताइँ ॥८॥

घत्ता

कहों घरु कहों परियणु कहों सम्पय-धणु माय वप्पु कहों पुत्तु तिय ।  
 कें कजें रोवहि अप्पउ सोयहि भव - संसारहों एह किय’ ॥६॥

[ ६ ]

जं दुक्खु दुक्खु संथविउ राउ । पड्वोस्सिउ णिय-घरिणिणँ सहाउ ॥१॥  
 ‘कहें केण वहिउ महु तणउ पुत्तु’ । तं वयणु सुणेंवि धणिआएँ वुत्तु ॥२॥  
 ‘सुणु णरवइ दुग्गमँ दुप्पवेसँ । दुग्घोट्ट - थट्ट - घट्टण - पवेसँ ॥३॥  
 पञ्जाणण - लक्खुक्खय - करालँ । तहिँ तेहएँ दण्डय-वणँ विसालँ ॥४॥  
 वें मणुस दिट्ट सोण्डार वीर । मेहारविन्द - सण्हिह - सरार ॥५॥  
 कोवण्ड-सिलीमुह - गहिय-हत्थ । पर - वल-वल-उत्थल्लण - समत्थ ॥६॥  
 तहिँ एक्कु दिट्टु तियसहुँ असज्झु । तें लइउ खग्गु हउ पुत्तु मज्झु ॥७॥  
 अण्णु वि अवलोवहि देव देव । कक्खोरु वियारिउ पेक्खु केव ॥८॥

घत्ता

वणें धरें वि रुयन्तो धाह मुअन्ती कह वि ण भुत्त तेण णरेंण ।  
 णिय-पुण्णेंहिँ चुक्की णह-मुह-लुक्की णलिणि जेम सरें कुअरेंण’ ॥६॥

[ ७ ]

तं वयणु सुणेंवि बहु-जाणएहिँ । उवलक्खिय अण्णेंहिँ राणएहिँ ॥१॥  
 ‘माल्लर - पवर - पीवर - थणाएँ । पर एयइँ कम्मइँ अडयणाएँ ॥२॥  
 मन्हुडु ण समिच्छिय सुपुरिसेण । अप्पउ विद्धंसँवि आय तेण’ ॥३॥  
 एत्थन्तरँ णिवइ णिएइ जाव । णह - णियर-वियारिय दिट्ट ताव ॥४॥

कहा, “हे मूर्ख राजन् ! तुम रोते क्यों हो, संसारमें तुम्हारे सैकड़ों पुत्र घूम रहे हैं इनमें जो मर गये हैं उनको कौन गिन सकता है । किसका घर, किसके परिजन, किसकी सम्पत्ति और धन, आखिर तुम रोते किस लिए हो, अपनेको शोकमें मत डालो, संसारका यही क्रम है ॥१-६॥

[ ६ ] बहुत कठिनाईसे सचेत होनेपर खर अपनी पत्नीसे कहा, “मेरे पुत्रको किसने मारा ?” यह सुनकर वह बोली, “दुर्गम और दुःप्रवेश्य गज-संघर्षसे आकुल प्रदेश, तथा लाखों सिंहोंसे विकराल उस वनमें मैंने दो प्रचण्ड वीर देखे हैं । उनमेंसे एकके शरीरका रंग मेघवर्ण है और दूसरेका कमलके रंगका । धनुषबाण हाथमें लिये हुए वे दोनों शत्रुसेनाको परास्त करनेमें समर्थ हैं । उनमेंसे एकके पास सुन्दर कृपाण थी; उसीने उस खड्गको लिया है और मेरे पुत्रका वध भी किया है और हे देव ! यह भी तो सुनिष्ट । उसने किस तरह मेरा वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया है । वनमें रोती और ढाढ़ मारती हुई भी मुझे पकड़कर किसी तरह वे मेरा भोग भर नहीं कर पाये । नखाग्रसे विदीर्ण होने पर भी मैं किसी प्रकार अपने पुण्योदयसे उसी प्रकार बच सकी जिस तरह सरोवरमें कमलिनी हाथीसे बच जाय ॥१-६॥

[ ७ ] चन्द्रनखाके वचन सुनकर, सयानी और जानकार दूसरी-दूसरी रानियोंको यह ताड़ते देर नहीं लगी, कि यह सब इसी ( बेलके समान स्थूलस्तनी ) कुलटाका कर्म है । शायद उस पुरुषने इसे नहीं चाहा होगा, इसी कारण अपनी ऐसी गत बनाकर, यह यहाँ आ गई । नखांसे क्षत-विक्षत चन्द्रनखा खरको ऐसी लगी कि मानो लाल पलाशलता हो, या भ्रमरोंसे आच्छन्न

किंसुय-लय व्व आरत्त-वण्ण । रत्तुप्पल-माल व भमर - छण्ण ॥५॥  
 तहिँ अहरु दिट्ठ दसणग्ग-भिण्णु । णं बाल-तवणु फग्गुणें उइण्णु ॥६॥  
 तं णयण-कडक्खवि खरु विरुद्धु । णं केसरि मयगल - गन्ध - लुद्धु ॥७॥  
 भड्डु भिउडि-भयङ्करु मुह-करालु । णं जगहों समुट्ठिउ पलय-कालु ॥८॥

घत्ता

अमर वि आकम्पिय एम पजम्पिय 'कहों उप्परि आरुद्धु खरु' ।

रहु खच्चिउ अरुणें सहुँ ससि-वरुणें 'मइँ वि गिलेसइ णवर णरु' । ६॥

[ ८ ]

उट्ठन्तें उट्ठिड भड - णिहाउ । अत्थाण-खोहु णिविसेण जाउ ॥१॥  
 चूरन्त परोप्परु सुहड दुक्क । णं जलणिहि णिय-मजाय-चुक्क ॥२॥  
 सीसेण सीसु पट्टेण पट्टु । चलणेण चलणु करु कर-णिहट्टु ॥३॥  
 मउडेण मउडु तुट्टेवि लग्गु । मेहलु मेहल - णिवहेण भग्गु ॥४॥  
 उट्ठन्ति के वि तिण-समु गणन्ति । ओहावण - माणें ण वि णमन्ति ॥५॥  
 अह णमइ को वि किवणत्तणेण । पडिओ वि ण उट्टइ भड्डु भरेण ॥६॥  
 दूसणेण णिवारिय वद्ध - कोह । विहडप्फड सण्णज्झन्ति जोह ॥७॥  
 'जइ पउ वि देहु आरूसमाण । तो होमइ रायहों तणिय आण ॥८॥

घत्ता

मं कज्जु विणासहों ताम वईसहों जो असि-रयणु मण्ड हरइ ।

सिरु खुडइ कुमारहों विजा-पारहों सो किं तुम्महिँ ओसरइ ॥६॥

[ ९ ]

तो वरि किज्जउ महु तणिय बुद्धि । णरवइ असहायहों णत्थि सिद्धि ॥१॥  
 णाव वि ण वहइ विणु तारएण । जलणु वि ण जलइ विणु मारुण ॥२॥  
 एक्कल्लउ गम्पिणु काँइ करहि । रयणायरें सन्तें तिसाएँ मरहि ॥३॥

रक्तकमलोंकी माला हो। दन्ताग्र भागसे कटे हुए उसके अधर ऐसे लगते थे मानो फागके महीनेमें सूर्योदय हुआ हो।” यह सब देख सुनकर खर उसी तरह भड़क उठा जिस तरह गजकी गन्ध पाकर सिंह भड़क उठता है। उस योधाकी भृकुटि भयंकर और आरक्त हो उठी। मानो जगमें प्रलय ही आना चाहता हो। देवता काँपकर आपसमें कहने लगे “अरे, खर आज किसपर कुपित हुआ है !” तदनन्तर शशि और वरुणके साथ रथमें चढ़कर खरने कहा कि मैं भी उस पामरको कवलित करूँगा ॥१-६॥

[ ८ ] इस प्रकार उसके उठते ही भट-समूह उठ खड़ा हुआ। पल-भरमें उसके दरबारमें खलबली मच गई। एक दूसरेको चपेटते और चूर-चूर करते हुए योधा वहाँ पहुँचने लगे मानो समुद्रने अपनी मर्यादा छोड़ दी हो। सिरसे सिर, पट्टसे पट्ट, पैरसे पैर और हाथसे हाथ टकराने लगे। मुकुटसे मुकुट और मेखलासे मेखला भग्न हो उठी। कितने ही योधा तृणके बराबर परवाह न करते हुए उठे। दीनता या मानके कारण वे नमस्कार तक नहीं कर रहे थे, यदि कृपणतावश कोई भुकता भी तो गिरकर सेनाके भारके कारण उठ ही नहीं पाता। इस प्रकार अहङ्कारसे भरे, क्रुद्ध तैयार होते हुए योधाओंको रोककर दूषण बोला, “यदि तुम क्रुद्ध होकर एक भी पैर रखोगे तो राजाकी अवज्ञा होगी, अपना विनाश मत करो। तुम लोग बैठ जाओ। जिसने बल पूर्वक तलवार (सूर्यहास) को हरण किया, और शम्बूक कुमारका सिरकमल तोड़ा है, विद्यामें पारङ्गत क्या तुम लोगोंसे हटेगा ॥१-६॥

[ ९ ] इसलिए अच्छा यह हो कि तुम लोग हमारी बुद्धिके अनुसार चलो, देखा बिना तारकके नाव बह जाती है। बिना पवनके आग तक नहीं जलती। इसलिए तुम अकेले गमन क्यों

सन्ते वि महग्गएँ विसहँ चडहि । जिणँ अच्चिए वि संसारँ पडहि ॥४॥  
जमु सारहि फुडु भुवणेक्कवीरु । सुरवर-पहरण-चड्डिय सरारु ॥५॥  
जग-केसरि अरि-कुल-पलय-कालु । पर-वल-वगलामुहु भुभ-विसालु ॥६॥  
दुद्दम- दाणव- दुग्गाह- गाहु । सुरकरि- कर- सम-थिर-थोर-वाहु ॥७॥  
तेलोक्क- भुवगल- भड- तडक्क । दुद्दरिसण भीसण जम-भडक्क ॥८॥

## घत्ता

तहँ तिहुअण-मल्लहँ सुर-मण-सल्लहँ तियस-विन्द-संतावणहँ ।  
गउ सम्बु सुहग्गइ पइँ ओलगइ गप्पि कहिज्जइ रावणहँ ॥९॥

[ १० ]

आयण्णँवि तं दूसणहँ वयणु । खरु खरउ पवोल्लिउ गुञ्ज-णयणु ॥१॥  
‘धिद्धि लज्जिज्जइ सुपुरिसाहुँ । पर एयइँ कम्मइँ कुपुरिसाहुँ ॥२॥  
सार्हीणु जीउ देहत्थु जाव । किह गम्मइ अण्हँ पासु ताव ॥३॥  
जाएँ जीवँ मरिएवउं जँ । तो वरि पहरिउ वर-वइरि-पुब्जँ ॥४॥  
जँ लब्भइ साहुक्कारु लोएँ । अजरामरु को वि ण मच्च-लोएँ ॥५॥  
जिम भिडिउ अज्जुअरि-वर-समुद्धँ । जिम जणिय मणोरह सयण-विन्दे ॥६॥  
जिम असि-सव्वल-कोन्तेहिँभिण्णु । जिम जस-पडहउ तइलोक्के दिण्णु ॥७॥  
जिम णहँ तोसाविउ सुर-णिहाउ । जिम महु मि अज्जु खय-कालु आउ ॥८॥

## घत्ता

जिम सत्तु-सिलायल्लँ बहु-सोणिय-जल्लँ भुउ परिहव-पडु अप्पणउ ।  
जिम स-धउ स-साहणु स-भडु स-पहरणु गउ गिय-पुत्तहँ पाहुणउ ॥९॥

करते हो । ( अरे ) समुद्र पास होते हुए भी प्यासे क्यों मरते हो ? महागजके होनेपर भी बैलपर क्यों बैठते हो ? जिनेन्द्रकी पूजा करके भी संसारचक्रमें पड़ते हो ? जिसका सारथि भुवनमें अद्वितीय वीर है, जिसका शरीर वज्रसे भी बढ़कर दृढ़ है जो विश्वसिंह अरिकुलके लिए प्रलयकाल है, शत्रु सेनाके लिए बढ़वानल है, विशालबाहु दुर्दम-दानव ग्राहोंको पकड़नेवाला ऐरावतकी सूँड़की तरह स्थूलबाहु त्रिलोककी भटशृङ्खलाको तोड़नेवाला दुर्दशनीय भीषण, और यमकी तरह चपेटनेवाला है ऐसे उस, देवोंके लिए शल्य स्वरूप और सुरसंतापक रावणसे जाकर कहो कि शम्बूक कुमार मारा गया है । आप (उसके हत्यारेका) पीछा करें ॥१-६॥

[ १० ] खर कड़ककर बोला, “धिक्कार धिक्कार तुम्हें, तुम सुपुरुषोंको लजा रहे हो, यह कापुरुषोंका कर्म हो सकता है । साहसी पुरुषके जब तक देहमें प्राण रहते हैं तब तक क्या वह दूसरेके पास जाता है । जो उत्पन्न हुआ है उसे जब मरना ही है तो अच्छा यही है कि शत्रु-समूह पर प्रहार किया जाय । उससे लोकमें साधुकार ( शाबाशी ) तो मिलेगा, फिर इस मर्त्यलोकमें अजर-अमर कौन है ? आज मैं अरिसमुद्रसे अवश्य भिड़ूँगा जिससे स्वजनोंका मनोरथ पूरा हो, असि, सञ्जल और कौंतसे इस तरह भिड़ूँगा, इस तरह तीनों लोकोंमें यशका डङ्का बजाऊँगा, आकाश लोकमें सुरसमूहको इस तरह सन्तुष्ट करूँगा, भले ही इस तरह मेरा क्षयकाल आ जाय । आज मैं, बहु रक्तरञ्जित शत्रुरूपी शिलातलपर, अपने पराभवके पटको इस तरह धोऊँगा कि जिससे अपने पुत्रकी ही तरह उसे अतिथि ( परलोक ) का अतिथि बना सकूँ ॥१-६॥

[ ११ ]

तं णिसुणँवि णिय-कुल-भूसणेण । लहु लेहु विसज्जिउ दूसणेण ॥१॥  
 सण्णद्ध खरु वि बहु-समर-सूरु । अप्फालँवि वलँ संगाम-तूरु ॥२॥  
 विहडप्फड भड सण्णद्ध के वि । सम्माण - दाणु रिणु संभरेवि ॥३॥  
 केण वि करेण करवालु गहिउ । केण वि धणुहरु तोणीर-सहिउ ॥४॥  
 केण वि मुसण्ठि मोगरु पचण्डु । केण वि हुलि केण वि चित्तदण्डु ॥५॥  
 णाणाविह - पहरण-गहिय-हत्थ । सण्णद्ध सुहड रण - भर-समत्थ ॥६॥  
 णीसरिउ सेणु परिहरँवि सङ्क । णं वमेवि लग्ग पायाल - लङ्क ॥७॥  
 रह - तुरय -गइन्द-णरिन्द-विन्द । णं सु-कइ-मुहहँ णिगन्ति सह ॥८॥

घत्ता

खर-दूसण-साहणु हरिस-पसाहणु अमरिस-कुद्धउ धाइयउ ।  
 गयणङ्गणँ लीयउ णावइ वीयउ जोइस-चक्कु पराइयउ ॥९॥

[ १२ ]

जं दिट्ठु णहङ्गणँ दणु-णिहाउ । वलएवँ वुत्त सुमिन्ति - जाउ ॥१॥  
 'एउ दीसइ काइँ णहग्ग-मग्गँ । किं किण्णर-णिवहु व चलिउ सग्गँ ॥२॥  
 किं पवर पक्खि किं घण विसट्ट । किं वन्दण-हत्तिँएँ सुर पयट्ट' ॥३॥  
 तं वयणु सुणेप्पिणु भणइ विण्डु । 'वलदीसइ वइरिहिँ तणउ चिण्डु ॥४॥  
 खग्गेण विवाइउ सीसु जासु । कुढँ लग्गउ मञ्जुडु को वि तासु' ॥५॥  
 अवरोप्परु ए आलाव जाव । हक्कारिउ लक्खणु खरँण ताव ॥६॥  
 'जिह सम्बुकुमारहँ लइय पाण । तिह पाव पडिच्छहि एन्त वाण ॥७॥  
 जिह लइउ खग्गु पर-णारि भुत्त । तिह पहरु पहरु पुण्णालि-पुत्त' ॥८॥

[ ११ ] यह सुनकर निजकुलभूषण दूषणने शोघ्न रावणके पास लेख भेजा । उधर, अनेक युद्धोंमें वीर खरने भी तैयार होकर रण-भेरी बजवा दी । अभिमानी कितने ही योधा, अपने प्रभुके सम्मान दान और ऋणकी याद करके तैयारी करने लगे । किसीने अपने हाथमें तलवार ली । किसीने तूणीर सहित धनुष ले लिया । किसीने प्रचण्ड भुसुंडि और मुद्गर, किसीने हुलि, किसीने चित्रदंड, इस तरह नाना अस्त्रोंको हाथमें लेकर, युद्धभार उठानेमें समर्थ आशंका छोड़कर सेना निकल पड़ी । पाताललंकामें कल-कल शब्द होने लगा । रथ, घोड़े, गजेन्द्र, और नरेन्द्र ऐसे निकल पड़े मानो कविके मुखसे शब्द ही निकल पड़े हों । खर दूषणकी सेना हर्षसे सन्नद्ध होकर, अमर्ष और क्रोधसे भरकर, आकाशसे जा लगी । उस समय ऐसा लगता था मानो आकाशमें दूसरा ही ग्रहचक्र आ पहुँचा हो ॥१-६॥

[ १२ ] आकाशमें निशाचरोंका समूह देखकर रामने लक्ष्मणसे कहा, “देखो यह क्या दीख रहा है, क्या कोई किन्नर-समूह स्वर्गको जा रहा है, या ये बड़े-बड़े पत्नी हैं, या विशेष महामेघ हैं, या कि यह देवसमूह है जो जिनकी घन्दना-भक्तिके लिए जा रहा है ।” यह सुनकर लक्ष्मणने कहा, “यह तो शत्रुकी सेना दिखलाई पड़ रही है, पहचानिए । मैंने तलवारसे जिसका सिर काटा था शायद उसीका कोई आत्मीयजन कुढ़ गया है ।” इस तरह उनकी आपसमें बातें हो ही रहीं थीं कि खरने लक्ष्मणको ललकारा—“तुमने जैसे शम्बूक कुमारके प्राण लिये हैं ! पाप, अब वैसे ही, आते हुए मेरे वाणोंकी प्रतीक्षा कर । तूने यह खड्ग क्या लिया दूसरेकी स्त्रीका ही भोग किया है । हे पुंश्चलीपुत्र ! बचा-बचा



घत्ता

एक्केक-पहाणहुँ खरेंण समाणहुँ चउदह सहस समावडिय ।  
 गय जेम मइन्दहों रिउ गोविन्दहों हक्कारेप्पिणु अट्ठिभडिय ॥६॥

[ १३ ]

एत्थन्तरें भड-कडमहणेण । जोक्कारिउ रामु जणहणेण ॥१॥  
 'तुहुँ सीय पयत्तें रक्खु देव । हउँ धरमि सेणु मिग-जूहु जेम ॥२॥  
 जव्वेल करेसमि सीह-णाउ । तव्वेल एज्ज धणुहर-सहाउ' ॥३॥  
 तं वयणु सुणँवि विहसिय-मुहेण । आसीस दिण्ण सीराउहेण ॥४॥  
 'जसवन्तु चिराउसु होहि वच्छ । करें लग्गउ जय-सिरि-वहुअ सच्छ' ॥५॥  
 तं सेवि णिमित्तु जणहणेण । वइदेहि णमिय रिउ-महणेण ॥६॥  
 तं णिसुणँवि सीयएँ वुत्तु एम । 'पच्चिन्दिय भग्ग जिणेण जेम ॥७॥  
 वावीस परीसह चउ कसाय । जर-जम्म- मरण मण-काय-वाया ॥८॥

घत्ता

जिह भग्गु परम्मसुहु रणें कुसुमाउहु लोहु मोहु मउ माणु खलु ।  
 तिह तुहुँ भज्जेज्जहि समरें जिणेज्जहि सयलु वि वहरिहिँ तणउ वलु' ॥९॥

[ १४ ]

आसीस-वयणु तं लेवि तेण । अप्फालिउ धणुहरु महुमहेण ॥१॥  
 तें सहेँ वहिरिउ जगु असेसु । थरहरिय वसुन्धरि डरिउ सेसु ॥२॥  
 खरलक्खण वे वि भिडन्ति जाव । हक्कारिउ हरि तिसिरेण ताव ॥३॥  
 ते भिडिय परोप्पर हणु भणन्त । णं मत्त महागय गुलुगुलन्त ॥४॥  
 णं केसरि घोरोरालि देन्त । वाणेहिँ वाण छिन्दन्ति एन्त ॥५॥  
 मोग्गर-खुरूप-कण्णिय पडन्ति । जावेहिँ जीव णं खयहों जन्ति ॥६॥  
 एत्थन्तरें अतुल परक्कमेण । अद्धेन्दु मुक्कु पुरिसोत्तमेण ॥७॥  
 तहों तिसिरउखुक्क ण कह वि भिण्णु । धणुहरु पाडिउ धय-दण्डु छिण्णु ॥८॥

अपनेको ।” इस प्रकार खरके समान एक-से-एक प्रमुख योधाओंने लक्ष्मणको घेर लिया तब वह भी हुंकार भरकर युद्धमें जाकर भिड़ गया ॥१-६॥

[ १३ ] उसी बीच शत्रुसेनाका संहार करते हुए लक्ष्मणने रामसे कहा, “देव ! आप सीताकी रक्षा प्रयत्नपूर्वक कीजिये । मैं इस शत्रु-सैन्यको मृगकुण्डकी तरह अभी पकड़ता हूँ । आप धनुष लेकर मेरी सहायताके लिए तब आयें जब मैं सिंहनाद करूँ ।” यह सुनकर रामने लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया और यह कहा, “वत्स तुम चिरायु बनो, यशस्वी हो, जयश्री वधू तुम्हारे हाथ लगे ।” यह बात सुनकर रिपुसंहारक लक्ष्मणने सीतादेवीको प्रणाम किया । तब सीता बोलीं “जिस प्रकार जिनने पाँचों इन्द्रियोंको भङ्ग किया, बाईस परीषह, चार कषाय—जरा, जन्म, मरण, मन, वचन, कायको वशमें किया, तथा रणमुखमें कामदेवको पराजित किया, लोभ, मोह, मद, मानको जीता उसी प्रकार तुम भी युद्धमें जीतो और समस्त शत्रुसेनाका नाश करो” ॥१-६॥

[ १४ ] इस आशीर्वादको लेकर धनुर्धारी लक्ष्मणने अपना धनुष चढ़ाया । उसकी ध्वनिसे ही सारा जग बहरा हो गया । धरती काँप उठी और शेष नाग डर गये । खर और लक्ष्मण भिड़ने ही वाले थे कि वीर त्रिशिराने लक्ष्मणको ललकारा । मानो सिंह ही दहाड़ उठा हो, या मदगज ही चिग्घाड़ा हो । मुद्गर, खुरपा, कर्णिक इस तरह पड़ने लगे मानो जीवसे जीव ही नाशको प्राप्त हो रहा हो । इतनेमें पुरुषोत्तम अतुल पराक्रमी लक्ष्मणने अर्धचन्द्र छोड़ा, उससे त्रिशिराका शिर किसी प्रकार बच गया । वह भग्न नहीं हुआ । उसका धनुष और ध्वजदण्ड छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़े ।

अण्णुणु पुणुप्पुणु समरें बहुग्गुणु जं जं तिसिरउ लेवि धणु ।  
तं तं उक्कण्ठइ खणु वि ण संठइ दइव-विहूणहों जेम धणु ॥६॥

[ १५ ]

धणुहरु सरु सारहि छत्त-दण्डु । जं वाणहिँ किउ सय-खण्ड-खण्डु ॥१॥  
तं अमरिस-कुद्धें दुद्धरेण । संभरिय विज्ज विज्जाहरेण ॥२॥  
अप्पाणु पदरिसिउ वद्धमाणु । तिहिँ वयणें हिँ तिहिँ सीसैं हिँ समाणु ॥३॥  
पहिलउ सिरु कक्कड-कविल-केसु । पिङ्गल-लोयणु किय-वाल-वेसु ॥४॥  
वायउ सिरु वयणु वि णव-जुवाणु । उब्भिण्ण-वियड-मासुरि - समाणु ॥५॥  
तइयउ सिरु धवलउ धवल-वयणु । फुरिआहरु दर-णिडुरिय-णयणु ॥६॥  
दुद्धरिसणु भीसणु वियड-दादु । जिण-भत्तउ जिणवर-धम्म-गादु ॥७॥  
एत्थण्तरें पर-वल-मद्दणेण । वच्छत्थलें विद्धु जगद्दणेण ॥८॥

घत्ता

णाराएँहिँ भिन्दें वि सीसइँ छिन्दें वि रिउ महि-मण्डलें पाडियउ ।  
सुरवरें हिँ पचण्डें हिँ स इँ भु व-दण्डें हिँ कुसुम-वासु सिरें पाडियउ ॥९॥

●

[ ३८. अट्टतीसमो संधि ]

तिसिरउ लक्खणेंण समरङ्गणें घाइउ जावँ हिँ ।  
तिहुअण-डमर-करु दहवयणु पराइउ तावँ हिँ ॥

[ १ ]

लेहु विसज्जिउ जो सुर-सीहहों । अग्गएँ पडिउ गग्गि दसगीवहों ॥१॥  
पडिउ णाइँ बहु-दुक्खहँ भारु । णाइँ णिसायर-कुल-संघारु ॥२॥

बहुगुणी त्रिशिरा बार-बार युद्धमें दूसरा धनुष लेता पर वह भग्न होकर गिर पड़ता । वह वैसे ही क्षणभर भी नहीं ठहरता जैसे भाग्यसे आहत व्यक्तिका धन ॥१-६॥

[ १५ ] धनुष बाण-सारथि छत्र दण्ड सभीको बाणोंसे जब लक्ष्मणने सौ-सौ टुकड़े कर दिये तब विद्याधर त्रिशिरा अमर्ष और क्रोधसे भर उठा । तब उसने अपनी विद्याका स्मरण किया । तत्काल वह तीन मुख और तीन सिरका हो गया । उसका आकार बढ़ गया । उनमें पहले सिरपर कठोर और कपिल केश थे । वह छोटा ( बालरूप ) था । आँखें पीली थीं । दूसरा मुख और सिर नवयुवकका था । उद्भिन्न और विकट मासुरिके सदृश । तीसरेके मुख और सिर, दोनों सफेद ही सफेद थे । अधर काँप रहे थे और आँखें अत्यन्त भयावनी थीं । अति दुर्दर्शनीय भीषण विकराल डाढ़ थी । जिनधर्मकी तरह प्रगाढ़ और जिन भक्त । परन्तु परबलसंहारक लक्ष्मणने उसे वक्षस्थलमें वेध दिया । लक्ष्मणके बाणोंसे उसके तीनों सिर कट गये और शत्रु धरणी-मण्डलपर गिर पड़ा । यह देखकर सुरवरोंने अपने प्रचण्ड बाहुओंसे उसके ऊपर फूलोंकी वर्षा की ॥१-६॥

### अट्टीसवीं संधि

जब तक लक्ष्मणने समराङ्गणमें त्रिशिराको मारा, तब तक त्रिभुवन भयंकर रावण भी वहाँ आ पहुँचा ।

[ २ ] सुरसिंह रावणके पास दूषणने जो लेखपत्र भेजा था, वह उसके सम्मुख ऐसे पड़ा था मानो रावणपर दुखका ( भार ) पहाड़ ही टूट पड़ा हो, मानो राक्षसकुलका संहार हो, या मानो

णाइँ भयङ्करु कलहहौँ मूलु । णाइँ दसाणण-मत्था-सूलु ॥३॥  
 लेहँ कहिउ सन्वु अहिणाणँहिँ । 'सन्वुकुमारु उलग्गइ पाणँहिँ ॥४॥  
 अण्णु वि खग्ग-रयणु उद्दालिउ । खर-घरिणिहँ हियवउ विहारिउ ॥५॥  
 तं णिसुणेवि वे वि जसभूसण । पर-वलँ भिडिय गम्पि खर-दूसण ॥६॥  
 णारि-रयणु णिरुवमु सोहग्गउ । अच्छइ रावण तुज्झु जँ जोग्गउ' ॥७॥  
 लेहु णिँएँवि अत्थाणु विसजँवि । पुप्फविमाणँ चडिउ गलगजँवि ॥८॥  
 करँ करवालु करेप्पिणु धाइउ । णिविसँ दण्डारणु पराइउ ॥९॥

घत्ता

ताव जगहणँण खरदूसण-साहणु रुद्धउ ।

थिर चउरङ्गु वलु णहँ णिच्चलु संसँएँ छुद्धउ ॥१०॥

[ २ ]

तो एत्थन्तरँ दीहर-णयणँ । लक्खणु पोमाइउ दहवयणँ ॥१॥  
 'वरि एक्कल्लओ वि पञ्चाणणु । णउ सारङ्ग-णिवहु वुण्णाणणु ॥२॥  
 वरि एक्कल्लओ वि मयलच्छणु । ण य णक्खत्त-णिवहु णिल्लच्छणु ॥३॥  
 वरि एक्कल्लओ वि रयणायरु । णउ जलवाहिणि-णियरु स-वित्थरु ॥४॥  
 वरि एक्कल्लओ वि वइसाणरु । णउ वण-णिवहु स-रुक्खु-गिरिवरु ॥५॥  
 चउदह सहस एक्कु जो रुम्भइ । सो समरङ्गणँ मइ मि णिसुम्भइ ॥६॥  
 पेक्खु केम पहरन्तु पईसइ । धणुहरु सरु संधाणु ण दीसइ ॥७॥

घत्ता

णहि गय णहि तुरय णहि रहवर णहि धय-दण्डइँ ।

णवरि पडन्ताइँ दीसन्ति महियले रुण्डइँ' ॥८॥

[ ३ ]

हरि पहरन्तु पसंसिउ जावँहिँ । जाणइ णयगकडक्खिय तावँहिँ ॥१॥  
 सुकइ-कह व्व सु-सन्धि सु-सन्धिय । सु-पय सु-वयण सु-सइ सु-वद्धिय ॥२॥

कलहका भयङ्कर मूल हो या रावणके मस्तकका शूल हो। उस लेखने अपने अभिज्ञानसे ही बता दिया, कि शम्भुकुमारके प्राणोंका अन्त हो गया। खड्ग रत्न छीन लिया गया, और खरकी र्क्षाके अङ्ग विदीर्ण कर दिये गये। यह सुनकर यशोभूषण दोनों भाई खर और दूषण जाकर शत्रु-सेनासे भिड़ गये हैं। वहाँ एक सुभग और अनुपम नारी रत्न है, हे रावण, वह तुम्हारे योग्य है।” वह लेख पढ़कर रावणने दरबार विसर्जित कर दिया। वह गरजकर, अपने पुष्पक विमानपर चढ़ गया। हाथमें तलवार लेकर वह दौड़ पड़ा और पलभरमें दण्डक वनमें जा पहुँचा। इतनेमें वहाँ लक्ष्मणने खर-दूषणकी सेनाको अवरुद्ध कर लिया। संशयमें पड़ी हुई चतुरङ्ग सेना आकाशमें निश्चलरूपसे स्थित थी। वह सब देखकर, विशाल नेत्र रावणने लक्ष्मणकी प्रशंसा की—सिंह अकेला ही अच्छा, मुँह ऊपर उठाये हरिणोंका झुण्ड अच्छा नहीं; मृगलाञ्छित चन्द्रमा अकेला अच्छा, पर लाञ्छनरहित बहुत-सा तारा-समूह अच्छा नहीं; रत्नाकर अकेला ही अच्छा, विस्तृत नदियोंका समूह ठीक नहीं। आग अकेले अच्छी, पर वृक्ष पर्वत समन्वित वन-समूह अच्छा नहीं। जो अकेला ही चौदह हजार सेनाको नष्ट कर सकता है, वह मुझे भी नष्ट कर देगा। देखो प्रहार करता हुआ वह कैसे प्रवेश कर रहा है। उसके धनुष-वाणका संधान दिखाई ही नहीं देता। न अश्व, न गज, न रथवर और न ध्वज-दण्ड केवल धड़ ही धड़ धरती पर गिरते हुए दिखाई देते हैं ॥१-८॥

[ ३ ] प्रहार-शील कुमार लक्ष्मणकी जब वह इस प्रकार प्रशंसा कर ही रहा था कि इतनेमें ही उसने सीताको देखा। वह सुकविकी कथाकी तरह सुसंधि (परिच्छेद, अङ्गोंके जोड़)

थिर-कलंहस-गमण गइ-मन्थर । किस मज्जारें गियम्बे सु-वित्थर ॥३॥  
 रोमावलि मयरहरुत्तिणी । णं पिम्पिलि-रिञ्छोलि विलिणी ॥४॥  
 अहिणव - हुण्ड-पिण्ड - पीण-त्थण । णं मयगल उर-खम्भ-णिसुम्भण ॥५॥  
 रेहइ वयण-कमलु अकलङ्कउ । णं माणस-सरें वियसिउ पङ्कउ ॥६॥  
 सु-ललिय-लोयण ललिय-पसण्हँ । णं वरइत्त मिलिय वर-कण्हँ ॥७॥  
 घोलइ पुट्टिहिँ वेणि महाइणि । चन्दण-लयहिँ ललइ णं णाइणि ॥८॥

## घत्ता

किं बहु-जम्पएण तिहिँ भुवणेंहिँ जं जं चङ्गउ ।  
 तं तं मेलवेंवि णं दइवें णिम्मिउ अङ्गउ ॥९॥

[ ४ ]

तो एत्थन्तरें गिय-कुल-दीवें । रामु पसंसिउ पुणु दहगीवें ॥१॥  
 'जीविउ एककु सहलु पर एयहों । जसु सुहवत्तणु गउ परिछेयहों ॥२॥  
 जेण समाणु एह धण जम्पइ । मुह-मुहेण तम्बोलु समप्पइ ॥३॥  
 हत्थें हत्थ धरेंवि आलावइ । चलण-जुअलु उच्छङ्गें चडावइ ॥४॥  
 जं आलिङ्गइ वलय-सणाहहिँ । मालइ - माला - कोमल-वाहहिँ ॥५॥  
 जं पेह्णावइ-थण-मायङ्गेंहिँ । मुहु परिचुम्बइ णाणा-भङ्गेंहिँ ॥६॥  
 जं अवलोयइ णिम्मल-तारेंहिँ । णयणहिँ विब्भम-भरिय-वियारेंहिँ ॥७॥  
 जं अणुहुअइ इच्छेंवि गिय-मणें । तासु मल्लु को सयलें वि तिहुअणें ॥८॥

सुसन्धिय ( शब्द-खण्डके जोड़, अवयवोंके जोड़से सहित ) सुपय ( सुबन्त तिङ्गत पद और चरण ) सुवयण ( वचन और मुख ) सुसद् ( वर्ण और स्वर ) और सुबद्ध थीं । कलहंसगामिनी, और मन्थरगतिसे चलनेवाली, उसका मध्यभाग कृश था, नितम्ब अति विस्तृत थे । कामदेवसे अवतीर्ण रोमराजि ऐसी ज्ञात होती थी मानो चीटियोंकी कतार ही उसमें संलग्न हो गई हो । अभिनव मुख-हीन पीन-स्तन ऐसे जान पड़ते थे मानो उररूपी स्तम्भको नष्ट करनेवाले मदमाते हाथी हों । सीताका अमल मुख-कमल ऐसा सोहता था मानो मानसरोवरमें कमल खिल गया हो । उसके सुन्दर नेत्र ऐसे लगते थे, मानो ललित प्रसन्न सुन्दर कन्याओंको वर ही मिल गये हों, उसकी पीठपर बड़ी-सी चोटी ऐसी लहरा रही थी कि मानो चन्दन लतासे नागिन ही लिपट गई हो । अधिक कहने से कोई लाभ नहीं, त्रिभुवनमें जो कुछ अच्छा था उसे लेकर ही विधाताने सीताके अङ्गोंको गढ़ा था ॥१-६॥

[ ४ ] फिर निजकुलदीपक रावणने रामकी प्रशंसा करते हुए कहा, “केवल एक इसी रामका जीवन सफल है, क्योंकि इसकी सज्जनता अपनी चरम सीमापर पहुँच चुकी है । इसके साथ यह धन्या संलाप करती है, बार-बार पान देती है, उसके पैरोंको अपनी गोदमें रखती है, हाथमें हाथ लेकर बात-चीत करती है । मालती-मालाकी तरह कोमल और चूड़ियों सहित अपने हाथोंसे आलिङ्गन करती है । नाना भंगिमावाले संघर्षशील स्तनरूपी मातंगोंसे मुँह चूमती है । विभ्रमभरित और विकारशील निर्मल तारावाले अपने नेत्रोंसे इन्हें देखती है । अपने मनसे कामना करके यह सीता जिस रामका भोग करती है, भला समस्त त्रिभुवनमें उसका प्रतिमल्ल कौन हो सकता है । यह मनुष्य धन्य



## घत्ता

धण्णउ एहु णरु जसु एह णारि हियइच्छिय ।  
जाव ण लइय मइँ कउ भङ्गहों ताव सुहच्छिय' ॥६॥

[ ५ ]

सीय णिएवि जाउ उम्माहउ । दहमुहु वम्मह-सर-पहराहउ ॥१॥  
पहिलएँ वयणु वियारेहिँ भज्जइ । पेम्म-परव्वसु कहों वि ण लज्जइ ॥२॥  
वीयएँ मुह-पासेउ वलग्गइ । सरहसु गाढालिङ्गणु मग्गइ ॥३॥  
तइयएँ अइ विरहाणलु तप्पइ । काम-गहिल्लउ पुणु पुणु जम्पइ ॥४॥  
चउथएँ णीससन्तु णउ थक्कइ । सिरु संचालइ भउँहउ वक्कइ ॥५॥  
पञ्चमें पञ्चम-भुणि आलावइ । विहसैँवि दन्त-पन्ति दरिसावइ ॥६॥  
छट्टएँ अङ्गु वलइ करु मोडइ । पुणु दाढीयउ लएप्पिणु तोडइ ॥७॥  
वट्टइ तल्लवेल्ल सत्तमयहों । मुच्छउ एन्ति जन्ति अट्टमयहों ॥८॥  
णवमउ वट्टइ मरणहों दुक्कउ । दसमएँ पाणहिँ कह व ण मुक्कउ ॥९॥

## घत्ता

दहमुहु 'दहमुहँहिँ जाणइ किर मण्डएँ भुज्जमि' ।  
अप्पउ संथवइ 'णं णं सुर-लोयहों लज्जमि' ॥१०॥

[ ६ ]

तो एत्थन्तरें सुर-संतासैं । चिन्तिउ एक्कु उवाउ दसासैं ॥१॥  
अवल्लोयणिय विज्ज मणें भाइय । 'दे आएसु' भणन्ति पराइय ॥२॥  
'किं घोट्टेण महोवहि घोट्टमि । किं पायालु णहङ्गणें लोट्टमि ॥३॥  
किं सहुँ सुरेंहिँ सुरेन्दु परज्जमि । किं मयरद्धय-पुरि-गउ भज्जमि ॥४॥  
किं जम-महिस-सिङ्गु मुसुभूरमि । किंसेसहों फणिमणि संचूरमि ॥५॥  
किं तक्खयहों दाढ उप्पाडमि । काल-कियन्त-वयणु किं फाडमि ॥६॥  
किं रवि-रह-तुरङ्ग उद्दालमि । किं गिरि मेरु करग्गें टालमि ॥७॥

है जिसकी ऐसी हृदय-वांछिता पत्नी है । जब तक मैं इसे ग्रहण नहीं करता तब तक मेरे अङ्गोंको सुखका आसन कहाँ ॥ १-६ ॥

[ ५ ] सीताको देखते ही रावणको उन्माद होने लगा । वह कामके वाणोंसे आहत हो उठा । कामकी प्रथमावस्थामें उसका मुख विकारोंसे क्षीण हो गया । प्रेमके वशीभूत होकर वह तनिक भी नहीं लजा रहा था, दूसरी दशामें उसका मुख पसीना-पसीना हो उठा, और हर्षपूर्वक वह आलिङ्गन माँगने लगा, तीसरीमें वियोग की आगसे वह जल उठा और कामग्रस्त होकर बार-बार वह बकने लगा । चौथी दशामें उसके अनवरत निश्वास चलने लगे । कभी वह सिर हिलाता और कभी भौहें टेढ़ी करता । पाँचवी अवस्थामें वह पञ्चम स्वरमें बोलने लगा और हँसकर अपने दाँत दिखाने लगा । छठीमें अङ्ग और हाथ मोड़ता और दाढ़ी पकड़कर नोचने लगता । आठवींमें उसे मूर्छा आने लगी, नौवींमें मृत्यु आसन्न प्रतीत होने लगी । दशवीं अवस्थामें किसी प्रकार केवल उसके प्राण ही नहीं निकल रहे थे । तब रावणने अपने आपको यह कहकर सान्त्वना दी कि “बलपूर्वक सीताका अपहरणकर मैं दशों मुखोंसे उसका उपभोग करूँगा । अन्यथा सुरलोकको लज्जित करूँगा” ॥ १-१० ॥

[ ६ ] सुरपीड़क रावणको इसी समय एक उपाय सूझा । और उसने अवलोकिनी विद्याका चिन्तन किया । तुरन्त ही वह ‘आदेश दो’ कहती हुई आई और बोली, “क्या पानकर समुद्रको सोख दूँ, या देवोंसे सहित इन्द्रको पराजित करूँ या जाकर काम-देवको ध्वस्त कर दूँ, या यममहिषके सींग उखाड़कर फेंक दूँ, या शेषनागके फण-मणियोंको चूर-चूर कर दूँ, या तक्षककी दाढ़ उखाड़ दूँ या कृतान्तका मुख फाड़ डालूँ । या सूर्यके रथके अश्व

किं तइलोक-चक्रु संघारमि । किं अथक्कएँ पलउ समारमि' ॥८॥

घत्ता

वुत्तु दसाणणेंण 'एक्केण वि ण वि महु कज्जु ।  
तं सङ्केउ कहें जें हरमि एह तिय भज्जु ॥९॥

[ ७ ]

दहवयणहों वयणेण सु-पुज्जएँ । पभणिउ पुणु अवलोयणि विज्जए ॥१॥  
'जाव समुद्दावत्तु करेक्कहों । वजावत्तु चाउ अण्णेक्कहों ॥२॥  
जावगोउ वाणु करें एक्कहों । वायवु वारुणत्थु अण्णेक्कहों ॥३॥  
जाम सीरु गम्भीरु करेक्कहों । करयलें चक्काउहु अण्णेक्कहों ॥४॥  
ताव णारि को हरइ दिसेवहुँ । मण्डएँ वासुएव-वलएवहुँ ॥५॥  
इय पच्छण्ण वसन्ति वणन्तरें । तेसट्ठी-पुरिसहुँ अब्भन्तरें ॥६॥  
जिण चउवीस अद्ध गोवद्धण । णव केसव राम णव रावण ॥७॥

घत्ता

ओए भवट्टम इय वासुएव वलएव ।  
जाव णव हिय रणें तिय ताम लइज्जइ केव ॥८॥

[ ८ ]

अहवइ एण काइँ सुणें रावण । एह णारि तिहुअण-संतावण ॥१॥  
लइ लइ जइ अजरामरु वट्टहि । लइ लइ जइ उप्पहेंण पयट्टहि ॥२॥  
लइ लइ जइ वड्डत्तणु खण्डहि । लइ लइ जइ जिण-सासणु छण्डहि ॥३॥  
लइ लइ जइ सुरवरहुँ ण लज्जहि । लइ लइ जइ णरयहों गमु सज्जहि ॥४॥  
लइ लइ जइ परलोउ ण जाणहि । लइ लइ जइ णिय-आउ णमाणहि ॥५॥  
लइ लइ जइ णिय-रज्जु ण इच्छहि । लइ लइ जइ जम-सासणु पेच्छहि ॥६॥

छीन लूँ, या मन्दराचलको अपनी अंगुलीसे टाल दूँ । क्या त्रिलोकचक्रका संहार कर दूँ, या फौरन प्रलय मचा दूँ ।” ( यह सुनकर ) रावणने कहा—“यह सब करनेसे मेरा एक भी काम नहीं सधेगा । कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं उस स्त्रीको प्राप्त कर सकूँ” ॥ १-६ ॥

[ ७ ] रावणके वचन सुनकर समादरणीय अवलोकिनी विद्याने कहा, “जब तक एकके हाथमें समुद्रावर्त और दूसरेके हाथमें वज्रावर्त धनुष है । जब तक एकके हाथमें आग्नेय बाण है और दूसरेके हाथमें वायव्य और वारुण आयुध है । जब तक एक हाथमें गम्भीर हल और दूसरे हाथमें चक्रायुध है, तबतक पथिक राम और लक्ष्मणसे सीता देवीको कौन छीन सकता है । ये लोग त्रेसठ महापुरुषोंमें से एक हैं और प्रच्छन्न रूपसे वनवास कर रहे हैं । वे त्रेसठ महापुरुष हैं—वारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ बलभद्र, नौ प्रतिनारायण और चौबीस तीर्थंकर । उनमें भी ये वासुदेव और बलभद्र बहुत ही बलिष्ठ हैं । जब तक तुम्हारे मनमें युद्धकी इच्छा नहीं तब तक तुम इस स्त्रीको कैसे पा सकते हो ?” ॥ १-८ ॥

[ ८ ] अथवा इससे क्या यह नारी, हे रावण ! त्रिभुवनको सतानेवाली है । यदि तुम अपनेको अजर-अमर समझते हो तो इस नारीको ग्रहण कर सकते हो । यदि तुम उन्मार्ग पर चलना चाहते हो, यदि तुम अपना बड़प्पन धूलमें मिलाना चाहते हो तो इसे ले लो । यदि जिन-शासन छोड़ना चाहते हो तो इसे ले लो, यदि तुम सुरश्रेष्ठोंसे नहीं लजाते तो इसे ले लो । यदि तुम नरक जानेका साज सजाना चाहते हो तो इसे ले लो । यदि तुम परलोकको नहीं जानते तो इसे ले लो । यदि अपने राज्यकी तुम्हें इच्छा नहीं है तो इसे ले लो । यदि तुम यमशासनकी इच्छा करते हो तो इसे

लइ लइ जइ णिविण्णउ पाणहुँ । लइ लइ जइ उरु उहुहि वाणहुँ ॥७॥  
तं णिसुणेवि वयणु असुहावणु । अइ-मयणाउरु पभणइ रावणु ॥८॥

घत्ता

‘माणवि एह तिय जं जिज्जइ एकु मुहुत्तउ ।  
सिव-सासय-सुहहोँ तहोँ पासिउ एउ बहुत्तउ’ ॥९॥

[ ९ ]

विसयासत्त-चित्तु परियाणोँ वि । विज्जएँ वुत्तु णिरुत्तउ जाणोँ वि ॥१॥  
‘णिसुणि दसाणण पिसुणमि भेउ । वेण्ह वि अत्थि एककु सङ्केउ ॥२॥  
एहु जो दीसइ सुहहु रणङ्गणोँ । वावरन्तु खर-दूसण-साहणोँ ॥३॥  
एयहोँ सोहणाउ आयणोँ वि । इट्ट-कलत्तु व तिण-समु मणोँ वि ॥४॥  
धावइ सीहु जेम ओरालोँ वि । वज्जावत्तु चाउ अप्फालेवि ॥५॥  
तुहुँ पुणु पच्छएँ धण उद्दालहि । पुप्फ-विमाणोँ छुहोँ वि संचालहि’ ॥६॥  
तं णिसुणेप्पिणु पभणिउ राउ । ‘तो घइँ पइँ जेँ करेवउ णाउ’ ॥७॥  
पहु-आएँसेँ विज्ज पधाइय । णिविसेँ तं संगामु पराइय ॥८॥

घत्ता

लक्खणु गहिय-सरु जं णिसुणिउ णाउ भयङ्करु ।  
धाइउ दासरहि णहोँ स-धणु णाइँ णव-जलहरु ॥९॥

[ १० ]

भीसणु सीह-णाउ णिसुणेप्पिणु । धणुहरु करेँ सज्जीउ करेप्पिणु ॥१॥  
तोणा-जुवलु लएवि पधाइउ । ‘मच्चुहु लक्खणु रणेँ विणिवाइउ’ ॥२॥  
कुढेँ लगन्तेँ रामेँ सुणिमित्तइँ । सउणु ण देन्ति होन्ति दु-णिमित्तइँ ॥३॥  
फुरइ स-वाहउ वामउ लोयणु । पवहइ दाहिण-पवणु अलक्खणु ॥४॥

ले लो । यदि तुम्हें अपने प्राणोंसे विरक्ति हो गई है तो इसे ले लो । यदि अपने वचनको वाणोंसे भिदवाना चाहते हो इसे ले लो, इन असुहावने वचनोंको सुनकर अत्यन्त कामातुर रावणने कहा, “यही तो एक मनुष्यनी है जो एक मुहूर्तके लिए मुझे जिला सकती है । शाश्वत शिवस्वरूपकी मुझे अपेक्षा नहीं, मुझे यही बहुत है” ॥१-६॥

[ ६ ] तब उसे अत्यन्त विषयासक्त समझकर और उसके निश्चयको जानकर, विद्या बोली, “सुन दशमुख ! मैं एक रहस्य प्रकट करती हूँ । उन दोनों ( राम और लक्ष्मण ) के बीचमें एक संकेत है । यह जो सुभट ( लक्ष्मण ) रणांगणमें दीख पड़ता है और जो खर-दूषणकी सेनासे लड़ सकता है, इसके ( लक्ष्मण ) सिंहनादको सुनकर दूसरा ( राम ) अपनी प्रिय स्त्रीको तृणवत् छोड़कर, वज्रावर्त धनुष चढ़ाकर सिंहकी भाँति गरजता हुआ दौड़ पड़ेगा । उसके पीछे ( अनुपस्थिति में ) तुम सीताको उठाकर पुष्पक विमानमें लेकर भाग जाना ।” यह सुनकर रावणने कहा कि यदि ऐसा है तो सिंहनाद करो । प्रभुके आदेशसे विद्या दौड़ी और पलभरमें संग्रामभूमिमें पहुँच गई । इतनेमें लक्ष्मणका भयङ्कर और गम्भीर स्वर सिंहनाद सुनकर नये जलधरकी तरह राम धनुष लेकर दौड़े ॥१-६॥

[ १० ] सिंहनाद सुनते ही हाथमें धनुष, और दोनों तरफसे लेकर राम दौड़े यह सोचकर कि कहीं युद्धमें लक्ष्मण आहत होकर तो नहीं गिर पड़ा । रामके पीछा करने पर, उन्हें सुनिमित्त ( शकुन ) दिखाई नहीं दिये । अपशकुन ही हो रहे थे । उनका बाँया हाथ और नेत्र फड़कने लगा । नाकके दाँ रंधसे हवा निकल रही थी । कौआ विद्रूप बोल रहा था । ‘सयार’ रो रहा

वायसु विरसु रसइ सिव कन्दइ । अगएँ कुहिणि भुअङ्गसु छिन्दइ ॥५॥  
 जम्बू पङ्गुरन्त उद्धाइय । णाइँ णिवारा सयण पराइय ॥६॥  
 दाहिणेण पिङ्गलय समुट्टिय । णहँ णव गह विवरीय परिट्टिय ॥७॥  
 तो वि वीरु अवगण्णँ वि थाइउ । तक्खणँ तं सङ्गामु पराइउ ॥८॥

घत्ता

दिट्ठइँ राहवँण लक्खण-सर-हंसँहिँ खुडियइँ ।  
 गयण-महासरहँ सिर-कमलइँ महियलँ पडियइँ ॥९॥

[ ११ ]

दिट्ठु रणङ्गणु राहवचन्देँ । रमिउ वसन्तु णाइँ गोविन्देँ ॥१॥  
 कुण्डल-कडय-मउड-फल-दरिसिय । दणु-दवणा-मब्जरिय पदरिसिय ॥२॥  
 गिद्धावलि - किय - चक्कन्दोलउ । णरवर-सिरइँ लणुप्पिणु केलउ ॥३॥  
 रणँ खेल्लन्ति परोप्परु चच्चरि । पुणु पियन्ति सोणिय-कायम्वरि ॥४॥  
 तेहउ समर-वसन्तु रमन्तउ । लक्खणु पोमाइउ पहरन्तउ ॥५॥  
 'साहु वच्छ पर तुज्जु जि छज्जइ । अण्णहँ कासु एउ पडिवज्जइ ॥६॥  
 पइँ इक्खाउ-वंसु उज्जालिउ । जस-पडहउ तिहुअणँअप्फालिउ' ॥७॥  
 तं णिसुणेप्पिणु भणइ महाइउ । 'विरुअउ कियउ देव जं आइउ ॥८॥

घत्ता

मेल्लेवि जणय-सुय किं राहव थाणहँ चलियउ ।  
 अक्खइ मज्जु मणु हिय जाणइ केण वि छलियउ' ॥९॥

[ १२ ]

पुणरवि वुच्चइ मरगय-वण्णं । 'हउँ ण करेमि णाउ किउ अण्णं' ॥१॥  
 तं णिसुणेवि णियत्तइ जावँहिँ । साया-हरणु पडुक्किउ तावँहिँ ॥२॥

था, आगे साँप रास्ता काटकर आ रहा था ? जम्बूक लड़खड़ाकर ऐसा उठा मानो स्वनिवारित मन ही लौटकर आया हो । दाहिने ओर खुसुर खुसुर शब्द होने लगा । आकाशमें ग्रहोंकी उल्टी स्थिति दीख पड़ने लगी । तो भी वीर राम, इन सबकी उपेक्षा करके दौड़े गये और पल भरमें युद्धभूमिमें जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि लक्ष्मणके बाणरूपी हंसोंसे उच्छिन्न आकाशरूपी महासरोवरके सिररूपी कमल धरातलपर पड़े हैं ॥१-६॥

[ ११ ] राघवने युद्ध-स्थलमें लक्ष्मणको इस प्रकार देखा कि मानो वह वसन्त क्रीड़ा कर रहा हो । उसके कुण्डल, कटक और मुकुट फलके रूपमें देख पड़ रहे थे, दानवरूपी दवण मञ्जरी थी । गृद्धावलि ही मानो चक्रांदोलन था । तथा नरसिरोंके कन्दुक लेकर बे लोग परस्पर रणमें चर्चरी खेल खेल रहे थे । बादमें रक्तकी मदिराका पान कर रहे थे । इस प्रकार युद्धरूपी वसन्तमें क्रीड़ा करते हुए आक्रमणशील लक्ष्मणकी रामने प्रशंसा की, “साधु वीर साधु, यह तुम्हें ही शोभा देता है, दूसरे किसके लिए यह उपयुक्त हो सकता है । तुमने सचमुच इक्ष्वाकुकुलको उज्ज्वल किया ! तुमने सचमुच तीनों लोकोंमें अपने यशका डंका पीटा है ।” तब यह सुनकर आदरणीय लक्ष्मणने कहा, “देव बहुत बुरा हुआ यह । आप सीताको छोड़कर उस स्थानसे क्यों हटे । मेरा मन कह रहा है कि किसीने छल करके सीताका अपहरण कर लिया है ॥१-६॥

[ १२ ] मरकत मणिके रंगकी तरह श्याम लक्ष्मणने फिर कहा, “मैंने ( सिंह ) नाद नहीं किया, किसी और ने किया होगा” । यह सुनते ही राम जब तक लौटकर ( डेरेपर ) आये, तब तक दशानन सीताका हरण कर चुका था । ( उनकी अनु-



आउ दसाणणु पुप्फ-विमाणे । णाहँ पुरन्दरु सिविया-जाणे ॥३॥  
 पासु पढुक्किउ राहव-घरिणिहँ । मत्त-गइन्दु जेम पर-करिणिहँ ॥४॥  
 उभय-करँहिँ संचालिय-थाणहँ । णाहँ सरीर-हाणि अप्पाणहँ ॥५॥  
 णाहँ कुलहँ भवित्त हक्कारिय । लक्कहँ सक्क णाहँ पइसारिय ॥६॥  
 णिसियर-लोयहँ णं वज्जासणि । णाहँ भयङ्कर-राम-सरासणि ॥७॥  
 णं जस-हाणि खाणि बहु-दुक्खहुँ । णं परलोय-कुहिणि किय मुक्खहुँ ॥८॥

## घत्ता

तक्खणेँ रावणेँण ढोइउ विमाणु आयासहँ ।  
 कालेँ कुद्धएँण हिउ जीविउ णं वण-वासहँ ॥९॥

[ १३ ]

चलिउ विमाणु जं जेँ गयणङ्गणेँ । सीयएँ कलुणु पकन्दिउ तक्खणेँ ॥१॥  
 तं कूवारु सुणेवि महाइउ । धुणेँवि सरीरु जडाइ पधाइउ ॥२॥  
 पहउ दसाणणु चञ्चू-घाएँहिँ । पक्खुक्खेवेँहिँ णहर-णिहाएँहिँ ॥३॥  
 एक्क-वार ओससइ ण जावेँहिँ । सयसय-वार ऋडप्पइ तावेँहिँ ॥४॥  
 जाउ विसण्ठुलु वइरि-वियारणु । चन्दहासु मणेँ सुमरइ पहरणु ॥५॥  
 सीय वि धरइ णियङ्गु वि रक्खइ । लज्जइ चउदिसु णयणकडक्खइ ॥६॥  
 दुक्खु दुक्खु तेँ धीरँवि अप्पउ । कर-णिट्ठुर-दढ-कडिण - तलप्पउ ॥७॥  
 पहउ विहङ्गु पडिउ समरङ्गणेँ । देवेँहिँ कलयलु कियउ णहङ्गणेँ ॥८॥

## घत्ता

पडिउ जडाइ रणेँ खर-पहर-विहुर-कन्दन्तउ ।  
 जाणइ-हरि-वल्लहुँ तिणिह मि चित्तइँ पाडन्तउ ॥९॥

पस्थितिमें ) पुष्पक विमानमें बैठाकर रावण वैसे ही आया जैसे इन्द्र अपनी शिविकामें बैठकर आता है । मन्दोन्मत्त हाथी जिस तरह दूसरेकी हथिनोके पास पहुँचता है, उसी तरह रावण रामकी पत्नीके निकट पहुँच गया । अपने दोनों हाथोंसे उसने सीता देवीको उठा क्या लिया हो, मानो अपने ही शरीरकी हानि की हो, या अपने ही कुलके लिए सर्वनाशका आह्वान किया हो, या लंकाके लिए आशंका उत्पन्न कर दी हो । वह सीता देवी मानो निशाचर-लोकके लिए वज्र थी या रामका भयङ्कर धनुष थी, क्या यशकी हानि, और बहुदुःखोंकी खान थी । या मानो मूर्खोंके लिए परलोकके लिए पगडंडी थी । शीघ्र ही रावण अपना विमान आकाशमें ऐसे चढ़ा ले गया मानो क्रुद्ध कालने एक वनवासीका जीवन हरण कर लिया हो ॥ १-६ ॥

[ १३ ] आकाश-प्रांगणमें जैसे ही विमान पहुँचा सीता देवीने अपना क्रंदन करना प्रारम्भ कर दिया । उस विलापको सुनते ही आदरणीय जटायु दौड़ा आया । और उस पक्षीराजने चोंचकी मार, पंखोंके उत्क्षेप और नखोंके आघातसे रावणको आहत कर दिया । वह उसे एक बार पूरा हटा नहीं पाता कि वह पक्षी सौ सौ बार झपट पड़ता । शत्रुसंहारक रावण ( प्रहारों से ) एकदम खिन्न हो उठा । उसने अपने चन्द्रहास खङ्गका चिंतन किया । कभी वह सीताको पकड़ता, कभी वह अपनी रक्षा करता, कभी लज्जित होकर चारों ओर देखता, फिर किसी तरह बड़े कष्टसे अपनेको धीरज बँधाता, अन्तमें अपने कठोर निष्ठुर आघातसे समरांगणमें जटायुको आहत कर दिया । देवताओंने आकाशमें कलकल शब्द किया । जानकी, राम और लक्ष्मणको स्मरण करता हुआ वह धरती पर गिर पड़ा ॥ १-६ ॥

[ १४ ]

पडिउ जडाइ जं जें फन्दन्तउ । सीयएँ किउ अकन्दु महन्तउ ॥१॥  
 'अहों अहों देवहों रणें दुवियडूहों । णिय परिहास ण पालिय सण्डहों ॥२॥  
 वरि सुहडत्तणु चञ्चू-जीवहों । जो अब्भिट्ठु समरें दसगीवहों ॥३॥  
 णउ तुम्हेंहिँ रक्खिउ वडूत्तणु । सूरहों तणउ दिट्ठु सूरत्तणु ॥४॥  
 सञ्चउ चन्दु वि चन्द-गहिल्लउ । वग्गु वि सोत्तिउ हरु दुग्गमहिलउ ॥५॥  
 वाउ वि चवलत्तणेंण दमिज्जइ । धम्मु वि रण्ड-सएँहिँ लइज्जइ ॥६॥  
 वरुणु वि होइ सहावें सीयलु । तासु कहि मि किं सङ्कइ पर-वलु ॥७॥  
 इन्दु वि इन्दवहेण रमिज्जइ । को सुरवर-सण्डेंहिँ रक्खिज्जइ ॥८॥

घत्ता

जाउ किं जम्पिणेंण जगें अण्णु ण अब्भुद्धरणउ ।  
 राहउ इह-भवहों पर-लोयहों जिणवरु सरणउ' ॥९॥

[ १५ ]

पुणु वि पलाउ करन्ति ण थक्कइ । 'कुँठे लग्गउ लग्गउ जो सक्कइ ॥१॥  
 हउँ पावेण एण अवगणेंणें वि । णिय तिहुअणु अ-मणूसउ मण्णें वि' ॥२॥  
 पुणु वि कलुणु कन्दन्ति पयट्टइ । 'एँहु अवसरु सप्पुरिसहों वट्टइ ॥३॥  
 अह मइँ कवणु णेइ कन्दन्ती । लक्खण-राम वे वि जइ हुन्ती ॥४॥  
 हा हा दसरह माम गुणोवहि । हा हा जणय जणय अवलोयहि ॥५॥  
 हा अपराइएँ हा हा केक्कइ । हा सुप्पहें सुमित्तें सुन्दर-मइ ॥६॥  
 हा सत्तुहण भरह भरहेसर । हा भामण्डल भाइ सहोयर ॥७॥  
 हा हा पुणु वि राम हा लक्खण । को सुमरमि कहों कहमि अ-लक्खण ॥८॥

घत्ता

को संथवइ मइँ को सुहि कहों दुक्खु महन्तउ ।  
 जहिँ जहिँ जामि हउँ तं तं जि पएँसु पलित्तउ' ॥९॥

[ १४ ] तड़फड़ाकर जटायुके गिर पड़नेपर सीता और भी उच्चस्वरसे विलाप करने लगी, “अरे अरे रणमें दुर्विदग्ध देवो ! तुम अपनी प्रतिज्ञाका भी पालन नहीं कर सके । तुमसे तो चंचु-जीवी जटायु पक्षीका ही सुभटपन अच्छा है । ( कमसे कम ) वह युद्धमें रावणसे लड़ा तो । तुम अपना बड़प्पन नहीं रख सके । सूर्यका सूर्यपन भी मैंने देख लिया, चन्द्रमा वास्तवमें राहुग्रस्त हैं । ब्रह्मा तो ब्राह्मण ही ठहरे, विष्णु दो पत्नीवाले हैं । वासुदेव भी अपनी चपलतासे दम्भी हो रहे हैं, धर्मदेव भी सैकड़ों राड़ोंसे लज्जित हो रहे हैं । वरुण तो स्वभावसे ही शीतल हैं । शत्रु-सेनाको उनसे क्या शक्का हो सकती है । इन्द्र भी अपने इन्द्रपनको याद कर रहे हैं । भला देव-समूहने ( आजतक ) किसकी रक्षा की है । और फिर क्या दुनियामें चिल्लानेसे किसीका उद्धार हुआ है । अब तो इस जन्ममें राम, और दूसरे जन्ममें जिनवरकी ही शरण मुझे प्राप्त हो ॥१-६॥

[ १५ ] सीतादेवी बार-बार विलाप करती हुई नहीं अघा पा रही थीं, जो सम्भव था उससे उन्होंने दशाननका सामना किया । बार-बार वह ( सीता देवी ) यही सोच रही थीं कि तीनों लोकोंमें मुझे अनाथ समझ, इस प्रकार अपमानित करके ले जा रहा है । सत्पुरुषका यही तो अवसर है । यदि राम और लक्ष्मण यहाँ होते तो इस तरह विलपती हुई मुझे कौन ले जा सकता था । हा दशरथ, हे गुणसमुद्र मामा, हा पिता जनक, हे अपराजिता, हे कैकयी, हे सुप्रभा, हे सुन्दरमति सुमित्रा, हा शत्रुघ्न, हे भरतेश्वर भरत ! हा सहोदर भामंडल । हा राम, लक्ष्मण ! अभागिनो मैं ( आज ) किससे कहूँ । किसको याद करूँ । मुझे कौन सहारा देगा । अपना इतना भारी दुख किससे निवेदित करूँ । मैं जिस प्रदेशमें जाती हूँ वही आगसे प्रदीप्त हो उठता है ॥१-६॥

[ १६ ]

तहिँ अवसरें वट्टन्तें सु-विउलएँ । दाहिण-लवण-समुद्दहों कूलएँ ॥१॥  
 अरिथि पचण्डु एक्कु विज्जाहरु । वर-करवाल-हत्थु रणें दुद्धरु ॥२॥  
 भामण्डलहों चलिउ ओलगाएँ । सुअ कन्दन्ति सीय तामगाएँ ॥३॥  
 वलिउ विमाणु तेण पडिक्खहों । 'णं तिय का वि भणइ मइँ रक्खहों ॥४॥  
 लक्खण-राम वे वि हकारइ । भामण्डलहों णामु उच्चारइ ॥५॥  
 मञ्जुडु एह सीय एँहु रावणु । अणु ण पर-कलत्त-संतावणु ॥६॥  
 अच्छउ णिवहों पासु जाएवउ । एण समाणु अज्जु जुम्भेवउ' ॥७॥  
 एम भणेवि तेण हकारिउ । 'कहिँ तिय लेवि जाहि' पच्चारिउ ॥८॥

घत्ता

'विहि मि भिडन्ताहुँ जिह हणइ एक्कु जिह हम्मइ ।  
 गेण्हें वि जणय-सुय वलु वलु कहिँ रावण गम्मइ' ॥९॥

[ १७ ]

वलिउ दसाणणु तिहुअण-कण्टउ । सीहहों सीहु जेम अन्भिट्टउ ॥१॥  
 जेम गइन्दु गइन्दहों घाइउ । मेहहों मेहु जेम उद्धाइउ ॥२॥  
 भिडिय महावल विज्जा-पाणेंहिँ । वे वि परिट्टिय सिविया-जाणेंहिँ ॥३॥  
 वे वि पसाहिय णाणाहरणेंहिँ । वेणिण वि वावरन्ति णिय-करणेंहिँ ॥४॥  
 वेणिण वि घाय देन्ति अवरोप्परु । मणें विरुद्धु भामण्डल-किङ्करु ॥५॥  
 वर-करवालु करेप्पिणु करयलें । पहउ दसाणणु वियड-उरत्थलें ॥६॥  
 पडिउ घुलेंप्पिणु जण्डुव-जोत्तेंहिँ । रुहिरु पदरिसिउ दसहि मि सोत्तेंहिँ ॥७॥  
 पुणु विज्जाहरेण पच्चारिउ । 'सुरवर-समर-सएँहिँ अ-णिवारिउ ॥८॥  
 तुहुँ सो रावणु तिहुवण-कण्टउ । एक्कें घाणं णवर पलोट्टिउ' ॥९॥

[ १६ ] उस अवसरपर दक्षिण समुद्रके विशाल तटपर अत्यन्त प्रचण्ड एक विद्याधर रहता था। हाथमें खड्ग लिये, युद्धमें दुर्धर, वह भामण्डलका अनुचर था जो उसकी सेवामें कहीं जा रहा था। उसने सीतादेवीके विलापको सुन लिया। उसे लगा कि कोई स्त्री पुकार रही है कि मेरी रक्षा करो, वह राम और रावणका नाम बार-बार ले रही है। फिर वह भामण्डलका भी नाम लेती है। कहीं यह सीता और रावण न हो। क्योंकि दशाननको छोड़कर और कौन परस्त्रीका हरण कर सकता है। “चाहे मैं राजा भामण्डलके पास न जा सकूँ पर मुझे इस दुष्टसे अवश्य जूझना चाहिए।” यह निश्चयकर वह रावणको ललकारकर व्यङ्गमें कहा, “अरे अरे, स्त्रीको उड़ाकर कहाँ जा रहा है। आओ हम दोनों लड़ लें। जिससे एक मरे और या दूसरा। रावण ! मुड़ो, मुड़ो सीताको लेकर कहाँ जा रहे हो” ॥ १-६ ॥

[ १७ ] तब त्रिभुवनकण्ठक दशानन उस विद्याधरसे उसी प्रकार भिड़ गया जिस प्रकार सिंह सिंहसे, गजेन्द्र गजेन्द्रसे और मेघ मेघसे टकरा पड़ते हैं। दोनोंके हाथमें विद्याएँ थीं। दोनों ही शिविकामें बैठे थे। दोनों ही विविध आभूषणोंसे भूषित थे। दोनों ही अपने हाथोंसे प्रहार कर रहे थे। दोनों एक दूसरेपर आघात करना चाह रहे थे। अपने मनमें क्रुद्ध होकर भामण्डलके अनुचर उस विद्याधरने अपनी उत्तम कृपाण हाथमें लेकर रावणकी छाती पर आघात किया। आहत होकर वह घुटनोंके बल गिर पड़ा ? दशां धाराओंमें उसका रक्त प्रवाहित हो उठा। तब वह विद्याधर व्यङ्गके स्वरमें बोला—“देवताओंके शत-शत युद्धोंमें दुर्निवार और त्रिभुवनकण्ठक रावण तुम्हीं हो, जो आज केवल एक ही आघात में लोट-पोट हो गये।” इतनेमें सचेतन होकर और युद्धमत्सरसे

## घत्ता

चेयणु लहैवि रणें भडु उट्टिउ कुरुडु स-मच्छरु ।  
तहों विज्जाहरहों थिउ रासिहिं णाईं सणिच्छरु ॥१०॥

[ १८ ]

उट्टिउ वीसपाणि असि लेन्तउ । णाईं स-विज्जु मेहु गज्जन्तउ ॥१॥  
विज्जा-छेउ करें वि विज्जाहरें । घत्तिउ जम्बूदीवडभण्तरें ॥२॥  
पुणु दससिरु संचल्लु स-सायउ । णहयलें णाईं दिवायरु वीयउ ॥३॥  
मज्जे समुद्दहों जयसिरि-माणणु । पुणु वोल्लेवणुं लग्गु दसाणणु ॥४॥  
'काईं गहिल्लिणुं मइं ण समिच्छहि । किं महएवि-पट्टु ण समिच्छहि ॥५॥  
किं णिक्कण्टउ रज्जु ण भुज्जहि । किं ण वि सुरय-सोक्खु अणुहुज्जहि ॥६॥  
किं महु केण वि भग्गु मडप्फरु । किं दूहउ किं कहि मि असुन्दरु ॥७॥  
एम भणें वि आलिङ्गइ जावेंहिं । जणय-सुयणुं णिडभच्छिउ तावें हिं ॥८॥

## घत्ता

'दिवसेंहिं थोवणुं हिं तुहुं रावण समरें जिणेवउ ।  
अमहहुं वारियणुं राम-सरें हिं आलिङ्गवउ' ॥९॥

[ १९ ]

णिट्ठुर-वयणें हिं दोच्छिउ जावेंहिं । दहमुहु हुअउ विलक्खउ तावें हिं ॥१॥  
'जइ मारमि तो एह ण पेच्छमि । वोल्लउ सव्वु हसेप्पिणु अच्छमि ॥२॥  
अवसें कं दिवसु इ इच्छेसइ । सरहसु कण्ठ-ग्गहणु करेसइ ॥३॥  
'अण्णु वि मइं णिय-वउ पालेवउ । मण्डणुं पर-कलत्तु ण लएवउ' ॥४॥  
एम भणेवि चलिउ सुर-डामरु । लङ्क पराइउ लद्ध-महावरु ॥५॥

भरकर दशानन उठा। वह विद्याधरके सम्मुख इस प्रकार स्थित हो गया मानो राशियोंके समक्ष शनि-देवता ही आ बैठे हों ॥१-६॥

[ १८ ] रावण खड्ग लेकर ऐसे उठा, मानो बिजली और महामेघ ही गरजा हो। तब उसने विद्याधरकी विद्याको छेदकर उसे जम्बूद्वीपके भीतर कहीं फेंक दिया। (बादमें) रावण सीताको लेकर चल दिया। (वह आकाशमें ऐसा चमक रहा था) मानो दूसरा ही सूर्य हो। फिर समुद्रके बीचमें, जयश्रीका अभिमानी रावण बार-बार सीता देवीसे कहने लगा—“हठीली, तुम मुझे क्यों नहीं चाहती। क्या तुम्हें महादेवी पदकी चाह नहीं है, क्या तुम निष्कण्ठक राज्यका भोग करना नहीं चाहती। क्या सुरति-सुखका आनन्द लेना नहीं है। क्या किसीने मेरा मान भङ्ग किया है। क्या मैं दुर्भग हूँ या असुन्दर”, ऐसा कहकर ज्यों ही उसने सीता देवीका आलिंगन करना चाहा त्योंहीं उसने उसकी भर्त्सना की और कहा—“रावण, थोड़े ही दिनमें तुम जीत लिये जाओगे और हमारी परिपाटीके अनुसार रामके बाणोंसे आलिंगन करोगे” ॥१-६॥

[ १९ ] इन कठोर वचनोंसे लाञ्छित रावण मनमें बहुत ही दुखी हुआ। उसने मन ही मन विचार किया कि यदि मैं मारता हूँ तो इसे फिर देख नहीं सकता, इसलिए सब बातोंको हँसकर टालते रहना ही अच्छा है। अवश्य ही कोई न कोई ऐसा दिन होगा कि जब मुझे चाहने लगेगी और हर्षोत्फुल्ल होकर मेरे (कण्ठ का) आलिङ्गन करेगी। और भी फिर मुझे अपने इस व्रतका पालन करना है कि मैं परस्त्रीको बल-पूर्वक ग्रहण नहीं करूँगा। इस असमंजसमें पड़ा हुआ देव-भयङ्कर बड़े-बड़े वरोंको प्राप्त



सीयएँ वुत्तु 'ण पइसमि पट्टणें । अच्छमि एत्थु विउल्लें णन्दणवणें ॥६॥  
जाव ण सुणमि वत्त भत्तारहों । ताव णिवित्ति मज्झु आहारहों' ॥७॥  
तं णिसुणें वि उववणें पइसारिय । सीसव-रुक्ख-मूल्लें वइसारिय ॥८॥

घत्ता

मेल्लें वि सीय वणें गउ रावणु घरहों तुरन्तउ ।  
धवल्लेहि मङ्गल्लेहि थिउ रज्जु स इं भु अन्तउ ॥९॥



### [ ३६. एगुणचालीसमो संधि ]

कुढें लग्गोप्पिणु लक्खणहों वलु जाम पडोवउ आवइ ।  
तं जि लयाहरु तं जि तरु पर सीय ण अप्पउ दावइ ॥

[ १ ]

णीसीयउ वणु अवयज्जियउ । णं सररुहु लच्छि-विसज्जियउ ॥१॥  
णं मेह-विन्दु णिव्विज्जुलउ । णं मुणिवर-वयणु अ-वच्छलउ ॥२॥  
णं भोयणु लवण-जुत्ति-रहिउ । अरहन्त-विम्बु णं अ-वसहिउ ॥३॥  
णं दत्ति-विवज्जियउ क्विविण-धणु । तिह सीय-विहूणउ दिट्ठु वणु ॥४॥  
पुणु जोअइ गुहिल्लें हिं पइसरें वि । थिय जाणइ जाणइ ओसरें वि ॥५॥  
पुणु जोवइ गिरि-विवरन्तरें हिं । थिय जाणइ लिहक्कवि कन्दरें हिं ॥६॥  
ताणन्तरें दिट्ठु जडाइ वणें । संसुडिय-गत्तउ पडिउ रणें ॥७॥

करनेवाला रावण चला और लङ्कामें पहुँच गया । तब सीता देवीने कहा—“मैं नगरमें प्रवेश नहीं करूँगी, मैं इसी विशाल नन्दन वनमें रहूँगी और जबतक मैं अपने पतिका समाचार नहीं सुन लेती तबतक मैं आहारका त्याग करती हूँ ।” तब रावण सीता देवीको नन्दन वनमें ले गया और वहाँ शिंशपा वृक्षके नीचे उन्हें छोड़ दिया । इस प्रकार सीता देवीको नन्दनवनमें छोड़कर वह तुरन्त अपने घर चला गया । धवल और मङ्गल गीतोंके साथ वह अपने राज्यका भोग करने लगा ॥१-६॥



### उनतालीसवीं संधि

इधर राम लक्ष्मणकी बात मानकर जैसे ही लौटकर आये तो उन्होंने देखा कि ( आश्रम ) में लतागृह वही है, वृक्ष भी वही है, पर सीता देवी कहीं भी दृष्टि-गोचर नहीं हो रही हैं ।

[ १ ] सीता देवीसे विहीन वह वन रामको ऐसे लगा मानो शोभासे हीन कमल हो, या विद्युत्से रहित मेघ-समूह हो या वात्सल्यसे शून्य मुनि-वचन हो, नमकसे रहित भोजन हो, या मानो देवगृहोचित आसनसे विहीन जिन-प्रतिबिम्ब हो या कि दानसे रहित कृपण हो । सीता देवीसे रहित वन रामको ऐसा ही दीख पड़ा । यह सोचकर कि जानकी शायद कहींपर जान-बूझकर छिपकर बैठी हैं उस लतागुल्मोंमें खोजने लगे । फिर उन्होंने उन्हें पर्वतोंकी कन्दराओंमें ढूँढ़ा, हो सकता हो वह वहीं जा छिपी हों । इतनेमें रामको जटायु पक्षी दीख पड़ा । क्षत-विक्षत होकर ( वह )

घत्ता

पहर-विहुर-धुम्मन्त-तणु जं दिट्ठु पक्खि णिहलियउ ।  
तावँहिं वुज्झिउ राहवँण हिय जाणइ केण वि छलियउ ॥८॥

[ २ ]

पुणु दिण्ण तेण सुह वसु-हारा । उच्चारँवि पञ्च णमोक्कारा ॥१॥  
जे सारभूय जिण-सासणहँ । जे मरण-सहाय भव्व-जणहँ ॥२॥  
लद्धेहिं जेहिं दिठ होइ मइ । लद्धेहिं जेहिं परलोय-गइ ॥३॥  
लद्धेहिं जेहिं संभवइ सुहु । लद्धेहिं जेहिं णिज्जरइ दुहु ॥४॥  
ते दिण्ण विहङ्गहँ राहवँण । किय-णिसियर-णियर - पराहवँण ॥५॥  
'जाणुज्जहि परम-सुहावहँण । अणरणाणन्तवीर - पहँण' ॥६॥  
तं वयणु सुणँवि सव्वायरँण । लहु पाण विसज्जिय णहयरँण ॥७॥  
जं मुउ जडाइ हिय जणय-सुअ । धाहाविउ उढभा करँवि भुअ ॥८॥

घत्ता

'कहिं हउं कहिं हरि कहिं धरिणि कहिं धरु कहिं परियणु छिण्णउ ।  
भूय-वालि व्व कुडुम्बु जगँ हय-दइवँ कह विक्खिण्णउ' ॥९॥

[ ३ ]

वलु एम भणेवि पमुच्छियउ । पुणु चारण-रिसिहिं णियच्छियउ ॥१॥  
चारण वि होन्ति अट्टविह-गुण । जे णाण-पिण्ड सीलाहरण ॥२॥  
फल फुल्ल-पत्त-णह - गिरि-गमण । जल - तन्तुअ - जङ्घा - संचरण ॥३॥  
तहिं वीर सुधीर विसुद्ध-मण । णह-चारण आइय वेणिण जण ॥४॥  
तँ अवही-णाणं जोइयउ । रामहँ कलत्त विच्छोइयउ ॥५॥  
आऊरँवि गल-गम्भीर-भुणि । पुणु लगु चवेवएँ जेट्ट-मुणि ॥६॥  
'भो चरम-देह सासय-गमण । केँ कज्जेँ रोवहि मूढ-मण ॥७॥

युद्ध-भूमिमें पड़ा हुआ था । प्रहारोंसे अत्यन्त विधुर कम्पित-शरीर और अधकुचले हुए उस जटायुको देखकर रामने पूछा—“कौन सीताको छल करके हर ले गया ।” ॥१-८॥

[ २ ] फिर रामने णमोकार मन्त्रका उच्चारण करके उसे आठ मूलगुण दिये । ये मूलगुण जिन-शासनके सार-भूत हैं, और मृत्युके समय भव्य-जनोंके लिए अत्यन्त सहायक होते हैं । इनको ग्रहण करनेसे बुद्धि दृढ़ होती है । परलोककी गति सुधरती है । जिनको ग्रहण करनेसे सुख सम्भव होता है । जिनको ग्रहण करनेसे दुखका क्षय होता है । निशाचर-समूहके संहारक रामने ऐसे मूल-गुणोंका उपदेश करते हुए कहा—“तुम अनरण्य और अनन्तवीरके शुभ-मार्गसे जाओगे ।” यह सुनते ही महनीय जटायुने अपने प्राणोंका विसर्जन कर दिया । उसकी मृत्यु और सीता देवीके अपहरणको देखकर राम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर डाढ़ मारकर विलाप करने लगे—“कहां मैं ? कहां लक्ष्मण और कहां कुटुम्बि-जन । कठोर भाग्य देवताने भूत-बलि की तरह मेरे कुटुम्बको कहींका कहीं बखेर दिया है ।” ॥१-९॥

[ ३ ] यह कहकर राम मूर्छित हो गये । तब दो चारण ऋद्धिधारी मुनियोंने रामको देखा । चारण होकर भी वे दोनों आठ गुणोंसे सम्पन्न जान शरीर शीलसे अलंकृत फल, फूल, पत्र, नभ और पर्वतपर गमन करनेवाले ? जल-जन्तु ( मृणाल ) की तरह जङ्गाओंसे चलनेवाले ? वीर, सुधीर और विशुद्ध आकाश-गामी वे दोनों वहाँ आये ( जहाँ राम थे ) । अवधिज्ञानका प्रयोग करके उन्होंने जान लिया कि रामको पत्नी-वियोग हुआ है । तदनन्तर कहुणासे भरकर ज्येष्ठ-मुनि, अपनी गम्भीर ध्वनिमें बोले—“अरे मोक्षगामी और चरमशरीर राम ! तुम मूढ़ बनकर

तियं दुक्खहुँ खाणि विभोय-णिहि । तहँ कारणेँ रोवहि काइँ विहि ॥८॥

घत्ता

किं पइँ ण सुइय एह कह छज्जीव-णिकाय-दयावरु ।

जिह गुणवइ-अणुअत्तणेण जिणयासु जाउ वणेँ वाणरु' ॥९॥

[ ४ ]

जं गिसुणिउ को वि चवन्तु णहँ । मुच्छा-विहलङ्गलु धरणि-वहँ ॥१॥

'हा सीय' भणन्तु समुट्टियउ । चउ-दिसउ णियन्तु परिट्टियउ ॥२॥

णं करि करिणिहँ विच्छोइयउ । पुणु गयण-मग्गु अवलोइयउ ॥३॥

तहिँ ताव णिहालिय विणिण रिसि । संगहिय जेहिँ परलोय-किसि ॥४॥

ते गुरु गुरु-भत्ति करेवि थुय । 'हो धम्म-विद्धि सिरि-णमिय-भुय ॥५॥

गिरि-मेरु-समाणउ जेत्थु दुहु । तहँ कारणेँ रोवहि काइँ तुहुँ ॥६॥

खल तियमइ जेण ण परिहरिय । तहँ णरय-महाणइ दुत्तरिय ॥७॥

रोवन्ति एम पर कप्पुरिस । तिण-समु गणन्ति जे सप्पुरिस ॥८॥

घत्ता

तियमइ वाहिहँ अणुहरइ खणेँ खणेँ दुक्खन्ति ण थक्कइ ।

हम्मइ जिण-वयणोसहँण जेँ जम्म-सए वि ण दुक्कइ ॥९॥

[ ५ ]

तं वयणु सुणेप्पिणु भणइ वलु । मेत्तलन्तु गिरन्तरु अंसु-जलु ॥१॥

'लब्भन्ति गाम-वरपट्टणइँ । सीयल-विउलइँ णन्दण-वणइँ ॥२॥

लब्भन्ति तुरङ्गम मत्त गय । रह कणय-दण्ड - धुव्वन्त-धय ॥३॥

लब्भन्ति भिच्चवर आण-कर । लब्भइ अणुहुज्जेँ वि स-धर धर ॥४॥

लब्भइ घरु परियणु वन्धु-जणु । लब्भइ सिय सम्पय दब्बु धणु ॥५॥

रोते क्यों हो ? स्त्रियाँ दुखकी खान और वियोगकी निधि होती हैं । तो उसके लिए तुम क्यों रोते हो ? क्या तुमने यह कहानी नहीं सुनी कि छह कायके जीवोंपर दया करनेवाले गुणव्रत और अणुव्रतके धारण करनेवाले जिनदासको किस प्रकार वनमें वानर बनना पड़ा ॥१-६॥

[ ४ ] तब धरतीपर मूर्छासे विह्वल रामने सुना कि कोई मुझसे आकाशमें बातें कर रहा है तो वह 'हा सीता' कहकर उठे वह चारों ओर देखने लगे । मानो हथिनीके वियोगमें हाथी चारो ओर देख रहा हो । फिर उन्होंने आकाशकी ओर देखा । आकाश में उन्हें दो मुनि दीख पड़े । वे दोनों मुनि अपने परलोककी खेती संगृहीत कर चुके थे । और गुरुभक्तिमें स्तुत्य थे । उन्होंने रामसे कहा—“अरे धर्मबुद्धि और श्रीसम्पन्न बाहु राम ! तुम उस बातके लिए क्यों रोते हो जिसमें सुमेरु-पर्वत बराबर दुख है । जिसने दुष्ट स्त्रीको नहीं छोड़ा उसके लिए नरकरूपी नदीका संतरण बहुत कठिन है । कायर-पुरुष ही इस प्रकार रुदन करते हैं । सत्पुरुष तो स्त्रीको तृणवत् समझते हैं । स्त्री वह व्याधि है जो क्षण-क्षण दुःख देती हुई भी नहीं अघाती । परन्तु जो जिनके उपदेशसे उत्साहित होकर उसे छोड़ देते हैं उन्हें सैकड़ों जन्ममें भी दुख नहीं होता ॥१-६॥

[ ५ ] यह वचन सुनकर, अविरल अश्रुधारा बहाते हुए रामने कहा “गाँव और पत्तन मिल सकते हैं, शीतल बड़े-बड़े उद्यान मिल सकते हैं, उत्तम अश्व और गज प्राप्त हो सकते हैं, स्वर्ण-दंडपर फहराती हुई पताका मिल सकती है, आज्ञाकारी अनुचर मिल सकते हैं, और भोगके लिए पर्वतसहित वसुंधरा प्राप्त हो सकती है । परिजन पुरजन मिल सकते हैं । शोभा, सम्पत्ति और द्रव्य

लढभइ तम्बोलु विलेवणउ । लढभइ हियइच्छिउ भोयणउ ॥६॥  
 लढभइ भिङ्गारोलम्बियउ । पाणिउ कप्पूर-करम्बियउ ॥७॥  
 हियइच्छिउ मणहरु पियवयणु । पर एहु ण लढभइ तिय-रयणु ॥८॥

घत्ता

तं जोव्वणु तं मुह-कमलु तं सुरउ सवट्टण-हत्थउ ।  
 जेण ण माणिउ एत्थु जगँ तहँ जीविउ सब्बु णिरत्थउ' ॥९॥

[ ६ ]

परमेसरु पभणइ वलँवि मुहु । 'तिय-रयणु पसंसहि काइँ तुहुँ ॥१॥  
 पेक्खन्तहुँ पर वणुज्जलउ । अब्भन्तरँ रुहिर-चिलिव्विलउ ॥२॥  
 दुग्गन्ध-देहु घिणि-विट्टलउ । पर चम्मँ हड्डुहुँ पोट्टलउ ॥३॥  
 मायामँ जन्तँ परिभमइ । भिण्णउ णव-णाडिहिँ परिसवइ ॥४॥  
 कम्मट्ट - गण्ठ - सय - सिक्किरिउ । रस-वस - सोणिय-कद्दम-भरिउ ॥५॥  
 बहु-मंस-रासि किमि-काड-हरु । खट्टहँ वइरिउ भूर्माहँ भरु ॥६॥  
 आहारहँ पिसिवउ सोवियउ । णिसि मडउ दिवसेँ संजोवियउ ॥७॥  
 णासासूसासु करन्ताहुँ । गउ जम्मु जियन्त-मरन्ताहुँ ॥८॥

घत्ता

मरण-कालँ किमि-कप्परिउ जँ पेक्खँवि मुहु वड्डिज्जइ ।  
 घिणिहिणन्तु मक्खिय-सएँहिँ तं तेहउ केम रमिज्जइ ॥९॥

[ ७ ]

तं चलण-जुअलु गइ-मन्थरउ । सउणहिँ खजन्तु भयङ्करउ ॥१॥  
 तं सुरय-णियम्बु सुहावणउ । किमि-विलविलन्तु चिलिसावणउ ॥२॥  
 तं णाहि-पएसु किसोयरउ । खजन्त-माणु थिउ भासुरउ ॥३॥  
 तं जोव्वणु अवरुण्डण-मणउ । सुजन्तु णवर भीसावणउ ॥४॥  
 तं सुन्दरु वयणु जियन्ताहुँ । किमि-कप्पिउ णवर मरन्ताहुँ ॥५॥

भो मिल सकते हैं, पान और विलेपन तथा अनुकूल उत्तम भोजन मिल सकता है। भ्रंगार ( भ्रमर ) चुम्बित और कर्पूर-सुधासित जल मिल सकता है, परंतु हृदयसे बांछित सुन्दरमुखी यह स्त्री-रत्न नहीं मिल सकता। वह यौवन, वह मुख कमल, वह सुरति, सुडौल हाथ, ( इन सबको ) जिसने इस जगमें बहुत नहीं माना उसका समस्त जीवन व्यर्थ है” ॥१-६॥

[ ६ ] थोड़ा मुख विचकाकर तब फिर परमेश्वर बोले—  
“तुम स्त्रीकी प्रशंसा क्यों करते हो, तुम उसका केवल उज्ज्वल रंग देखते हो। पर भीतर तो वह रक्तसे लिप्त है। शरीरमें दुर्गन्धित, घृणाकी गठरी और चामवेष्टित हड्डियोंकी पोटली है। मायाके यन्त्रसे वह घूमती है। नौ नाड़ियोंसे उद्भिन्न होकर चल रही है। आठ कर्माकी गाँठोंसे संघटित रस, मज्जा और रक्तपंकसे भरी उसे केवल प्रचुर मांसका ढेर समझिए, कृमि और कीड़ोंका घर है। तथा खाटकी शत्रु और धरतीकी भार है। आहारके लिए पीसना और रातमें मृतककी भाँति सो जाना, दिनमें जीवित रहना। इस प्रकार श्वास लेते छोड़ते तथा जीते मरते हुए स्त्रीका जन्म व्यतीत हो जाता है। मरणकालमें कीड़े उसे ऐसा काट खाते हैं, कि उसे देखकर लोग मुख टेढ़ा कर लेते हैं। सैकड़ों मक्खियोंसे घिनौने उस वैसे स्त्री-शरीरसे किस प्रकार रमण किया जाता है” ॥१-६॥

[ ७ ] उसके मंथर गतिवाले चरण-युगलको पक्षी बुरी तरह खा जाते हैं, वह सुहावना सुरति-नितम्ब कीड़ोंसे बिलबिलाता हुआ घिनौना हो उठता है। वह चमकीला क्षीण मध्यभाग केवल खा लिया जाता है। आलिंगनकी इच्छा रखनेवाला यह यौवन भयंकर रूपसे क्षीण हो उठता है। जीवित अवस्थाके उस सुन्दर



तं अहर-विम्बु वण्णुज्जलउ । लुञ्चन्तु सिवहिँ घिणि-विट्टलउ ॥६॥  
 तं णयण-जुअलु विव्भम-भरिउ । विच्छायउ काएँहिँ कप्परिउ ॥७॥  
 सो चिहुर-भारु कोड्ढावणउ । उड्डन्तु णवर भीसावणउ ॥८॥

घत्ता

तं माणुसु तं मुह-कमलु ते थण तं गाढालिङ्गणु ।  
 णवर धरेप्पिणु णासउड्डु वोल्लेवउ “धिधि चिलिसावणु” ॥९॥

[ ८ ]

तहिँ तेहएँ रस-वस-पूय-भरें । णव मास वसेवउ देह-धरें ॥१॥  
 णव-णाहि-कमलु उत्थल्लु जहिँ । पहिलउ जँ पिण्ड-संवन्धु तहिँ ॥२॥  
 दस-दिवसु परिट्टिउ रुहिर-जलें । कणु जेम पइण्णउ धरणियलें ॥३॥  
 विहिँ दसरत्तेहिँ समुट्टियउ । णं जलें डिण्डीरु परिट्टियउ ॥४॥  
 तिहिँ दसरत्तेहिँ वुव्वउ घडिउ । णं सिसिर-विन्दु कुक्कुमँ पडिउ ॥५॥  
 दसरत्तेँ चउत्थएँ वित्थरिउ । णावइ पवलक्कुरु णीसरिउ ॥६॥  
 पञ्चमँ दसरत्तेँ जाव वलिउ । णं सूरण-कन्दु चउप्फलिउ ॥७॥  
 दस-दसरत्तेहिँ कर-चरण-सिरु । वीसहिँ णिप्पणु सररीरु थिरु ॥८॥  
 णवमासिउ देहहँ णीसरिउ । वड्डन्तु पडीवउ वीसरिउ ॥९॥

घत्ता

जेण दुवारें आइयउ जो तं परिहरें वि ण सक्कइ ।  
 पन्तिहिँ जुत्त वइल्लु जिह भव-संसारें भमन्तु ण थक्कइ ॥१०॥

[ ९ ]

एँउ जाणँवि धीरहि अप्पणउ । करें कक्कणु जोवहि दप्पणउ ॥१॥  
 चउगइ-संसारें भमन्तएँण । आवन्तें जन्त-मरन्तएँण ॥२॥

मुखड़ेको, मरते समय कृमि खा जाते हैं। उजले रंगवाले, घृणित और उच्छिष्ट अधरबिम्ब सियार लुंजित कर देते हैं। विभ्रमसे भरे, कान्तिहीन दोनों नेत्रोंको कौए खण्डित कर देते हैं। कुतूहलजनक वह केशकलाप भी भयंकररूपसे बिखर जाता है। वह मनुष्य, वह मुख कमल, वे स्तन, वह प्रगाढ़ आलिंगन—ये जब नष्ट होने लगते हैं तो लोग यही बोल उठते हैं, “छिः छिः कितने धिनौने हैं ये” ॥१-६॥

[ ८ ] उस वैसे रस, मज्जा और मांससे भरे देहरूपो घरमें यह जीव ६ माह रहता है। वहीं पहले नया नाभिकमल ( नरा ) उत्पन्न होता है। पहला पिंड सम्बन्ध तभी होता है। फिर दस दिन वह रुधिर-रूपी जलमें रहता है, ठीक वैसे ही जैसे बीज धरतीमें पड़ा रहता है। फिर बीस दिनमें वह और उठता है, मानो जलमें फेन उठा हो, तीस दिनमें वह बुद्बुद् ( बुब्बुक् ) बनता है मानो परागमें हिमकण पड़ा हो। चालीस दिनमें वह फैल जाता है मानो नया प्रबल अंकुर फैल गया हो। पचास दिनमें वह और पुष्ट होता है मानो चारों ओरसे विकसित सूरन कन्द हो। फिर सौ दिनमें हाथ, सिर, पैर बन जाते हैं और बीस दिनमें शरीर स्थिर हो जाता है। इस प्रकार ६ माहमें जीव शरीर ( माँके उदर ) से निकलता है। और बढ़ता हुआ, यह सब भूल जाता है। ( आश्चर्य है ) कि जीव जिस द्वारसे आता है वह उसीको नहीं छोड़ सकता। जुँएमें जुते हुए तेलोके बैलकी तरह भव-संसारमें भटकता हुआ कभी नहीं थकता ॥१-१०॥

[ ६ ] यह समझकर अपने मनमें धीरज रखना चाहिए। जरा हाथका कड़ा और दर्पण तो देखो। चार गतियोंसे संकुल इस संसारमें आते-जाते और मरते हुए जीवने जगमें किसे नहीं रुलाया,

जगें जीवें को ण रुवावियउ । को गरुअ धाह ण मुआवियउ ॥३॥  
 को कहि मि णाहिं संतावियउ । को कहि मि ण भावइ पावियउ ॥४॥  
 को कहिं ण दड्ढु को कहिं ण मुउ । को कहिं ण भमिउ को कहिं ण गउ ॥५॥  
 कहिं ण वि भोयणु कहिं ण वि सुरउ । जगें जीवहों किं पि ण वाहिरउ ॥६॥  
 तइलोककु वि असिउ असन्तएण । महि सयल दड्ढु डज्जन्तएण ॥७॥

घत्ता

सायरु पीउ पियन्तएण अंसुएहिं रुअन्तें भरियउ ।  
 हड्ढु-कलेवर-संचएण गिरि मेरु सो वि अन्तरियउ ॥८॥

[ १० ]

अहवइ किं बहु-चविणुण राम । भवे भमिउ भयङ्करें तुहु मि ताम ॥१॥  
 णडु जिह तिह बहु-रूवन्तरें हिं । जर-जम्मण-मरण-परम्परें हिं ॥२॥  
 सा सीय वि जोणि-सएहिं आय । तुहुं कहि मि वप्पु सा कहि मि माय ॥३॥  
 तुहुं कहि मि भाउ सा कहि मि वहिणि । तुहुं कहि मि दइउ सा कहि मि घरिणि । ४  
 तुहुं कहि मि णरए सा कहि मि सगें । तुहुं कहि मि महिहिं सा गयण-मार्गें ॥५॥  
 तुहुं कहि मि णारि सा कहि मि जोहु । किं सविणा-रिद्धिहें करहि मोहु ॥५॥  
 उम्मेट्ठु विओअ-गइन्दएसु । जगडन्तु भमइ जगु णिरवसेसु ॥७॥  
 जइ ण धरिउ जिण-वयणकुसेण । तो खजइ माणुसु माणुसेण ॥८॥

घत्ता

एम भणेप्पिणु वे वि मुणि गय कहि मि णहङ्गण-पन्थें ।  
 रामु परिट्टिउ किविणु जिह धणु एक्कु लएवि स-हत्थें ॥९॥

[ ११ ]

विरहाणल-जाल-पलित्त-तणु । चिन्तेवएँ लग्गु विसण्ण-मणु ॥१॥  
 सच्चउ संसारें ण अत्थि सुहु । सच्चउ गिरि-मेरु-समाणु दुहु ॥२॥

डाढ़ मारकर कौन नहीं रोया, कहो कौन नहीं सताया गया, किसे कहाँ आपत्ति नहीं भोगनी पड़ी। कौन जला नहीं और कौन मरा नहीं। कौन भटका नहीं, कौन गया नहीं, कहाँ किसे भोजन नहीं मिला और किसे कहाँ सुरति नहीं मिली। संसारमें जीवके लिए बाह्य कुछ भी नहीं है। खाते हुए उसने तीनों लोक खा डाले और जल-जल कर सारी धरती फूँक डाली। पी-पीकर समस्त सागर पी डाला, और रो-रोकर उसे भर भी दिया। हड्डियों और शरीरोंके सञ्चयसे उसने सुमेरुपर्वतको भी ढक दिया ॥१-८॥

[ १० ] अथवा हे राम ! बहुत कहने से क्या, तुम भी भव-सागरमें अबतक भटकते रहे हो। नटकी तरह मानो रूप ग्रहणकर जन्म, जरा और मरणकी परम्परामें भटकते रहे हो। वह सीता भी सैकड़ों योनियोंमें जन्म पा चुकी है। कभी तुम बाप बने और वह माँ बनी। कभी तुम भाई बने और वह बहन बनी। कभी तुम पति बने तो वह पत्नी बनी। कभी तुम नरकमें थे वह स्वर्गमें थी। कभी तुम धरतीपर थे तो वह आकाशमार्गमें। कभी तुम स्त्री थे तो वह पुरुष थी। अरे स्वप्नमें प्राप्त इस वैभवमें मुग्ध क्यों होते हो ? महावतसे रहित यह वियोगरूपी उन्मत्त महा-गज सारे संसारमें उत्पात मचा रहा है। यदि जिन-वचन रूपी अक्रुशसे इसे वशमें न किया जाय तो वह सारे विश्वको खा जाय।” यह कहकर वे दोनों आकाश-मार्गसे कहीं चले गये। केवल राम ही कृपणकी भाँति एक, धन ही ( धन्या और रुपया-पैसा ) अपने हाथमें लेकर बैठे रह गये ॥१-६॥

[ ११ ] रामका शरीर वियोग-ज्वालामें जल रहा था। खिन्न-मन होकर वह सोचने लगे, “सचमुच संसारमें सुख नहीं है, सचमुच संसारमें दुःख सुमेरु पर्वतके बराबर है। सचमुचमें जन्म,

सच्चउ जर-जम्मण-मरण-मउ । सच्चउ जीविउ जल-विन्दु-सउ ॥३॥  
 कहों घरु कहों परियणु वन्धु-जणु । कहों माय-वप्पु कहों सुहि-सयणु ॥४॥  
 कहो पुत्तु मित्तु कहों किर घरिणि । कहों भाय सहोयर कहों वहिणि ॥५॥  
 फलु जाव ताव वन्धव सयण । आवासिय पायवें जिह सउण' ॥६॥  
 वलु एम भणेप्पिणु णीसरिउ । रोवन्तु पढीवउ वीसरिउ ॥७॥

### घत्ता

णिद्धणु लक्खण-वज्जियउ अण्णु वि बहु-वसणेंहिं भुत्तउ ।  
 राहउ भमइ भुअकु जिह वणें 'हा हा सीय' भणन्तउ ॥८॥

[ १२ ]

हिण्डन्तें भग्ग - मडप्फरेंण । वण-देवय पुच्छिय हलहरेंण ॥१॥  
 'खणें खणें वेयारहि काइँ मइँ । कहें कहि मि दिट्ठ जइ कन्त पइँ' ॥२॥  
 वलु एम भणेप्पिणु संचलिउ । तावग्गएँ वण-गइन्दु मिलिउ ॥३॥  
 'हे कुञ्जर कामिणि-गइ-गमण । कहें कहि मि दिट्ठ जइ मिगणयण' ॥४॥  
 णिय - पडिरवेण वेयारियउ । जाणइ सीयएँ हक्कारियउ ॥५॥  
 कथइ दिट्ठइँ इन्दीवरइँ । जाणइ धण-णयणइँ दीहरइँ ॥६॥  
 कथइ असोय-तरु हल्लियउ । जाणइ धण - वाहा-डोस्त्रियउ ॥७॥  
 वणु सयलु गवेसँवि सयल महि । परलट्टु पढीवउ दासरहि ॥८॥

### घत्ता

तं जि पराहउ णिय-भवणु जहिँ अच्छिउ आसि लयत्थले ।  
 चाव-सिलिम्मुह-मुक्क-करु वलु पडिउ स इं भु व-मण्डलें ॥९॥



जरा और मरणका भय है । और जीवन जल-बुदबुदकी तरह क्षणभंगुर है । किसका घर ? किसके परिजन और बन्धुजन; किसके माता-पिता और किसके सुधीस्वजन । किसके पुत्र, किसके मित्र, किसकी स्त्री, किसका भाई, किसकी बहन, जब तक कर्म-फल है तभी तक बन्धु और स्वजन वैसे ही हैं जैसे पत्नी पेड़पर आकर बसेरा कर लेते हैं । यह विचारकर राम उठे किन्तु रोते हुए वह अपनी सुध-बुध फिर भूल गये । राम, विटकी तरह कामातुर होकर 'हा सीता' कहते हुए घूमने लगे । वह निधन (धन्या और धनसे रहित ) लक्ष्मणवर्जित ( लक्ष्मण और गुणोंसे शून्य ) और बहुव्यसनों ( दुःख और बुरी आदत ) से युक्त थे ॥१-६॥

[ १२ ] तब भग्नप्राय और स्वाभिमानि रामने वनदेवीसे पूछा—“मुझे क्षण-क्षणमें क्यों दुखी कर रही हो । बताओ यदि तुमने मेरी कान्ता देखी हो ।” यह कहकर वह आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक मत्त गज मिला । उन्होंने कहा “अरे मेरी कामिनीकी तरह सुन्दर गतिवाले गज, क्या तुमने मेरी मृगनयनीको देखा है ?” अपनी ही प्रतिध्वनिसे प्रतड़ित होकर वह यही समझते थे कि मानो सीता देवीने ही उन्हें पुकारा है । कहीं वह नील कमलोंको अपनी पत्नीके विशाल नयन समझ बैठते, कहीं हिलते हुए अशोक वृक्षको वे यह समझ लेते कि सीतादेवीकी बाँह हिल डुल रही है । इस प्रकार समस्त धरती और वनकी खोज करके राम वापस आ गये, और वह अपने सुन्दर लतागृहमें पहुँचे । अपना धनुष बाण (उतारकर) एक ओर रखकर वह धरती पर गिर पड़े ॥१-६॥



## [ ४०. चालीसमो संधि ]

दसरह-तव-कारणु सव्वुद्धारणु वज्जयणु - सम्मय-भरिउ ।  
जिणवर-गुण-कित्तणु सीय-सइत्तणु तं णिसुणहु राहव-चरिउ ॥

[ १ ]

ध्रुवकं

तं सन्तं गयागसं धीसं संताव-पाव-संतासं (?) ।  
चारु-रुचा - रणं वंदे देवं संसार-घोर-सोसं ॥१॥  
असाहणं । कसाय-सोय-साहणं ॥२॥  
अवाहणं । पमाय-माय-वाहणं ॥३॥  
अवन्दणं । तिलोय-लोय-वन्दणं ॥४॥  
अपुज्जणं । सुरिन्दराय-पुज्जणं ॥५॥  
असासणं । तिलोय-हेय-सासणं ॥६॥  
अवारणं । अपेय-भेय - वारणं ॥७॥  
अणिन्दियं । जय-प्पहुं अणिन्दियं ॥८॥  
महन्तयं । पचण्ड-वम्महन्तयं ॥९॥  
रवणयं । घणालि-वार-वणयं ॥१०॥

घत्ता

मुणि-सुव्वय-सामिउ सुह-गइ-गामिउ तं पणवेप्पिणु दिढ-मण्ण ।  
पुणु कहमि महव्वलु खर-दूसण-वलु जिह आयामिउ लक्खण्ण ॥११॥

[ २ ]

दुवई

हिय एत्तहें वि सीय एत्तहें वि विओउ महन्तु राहवे ।  
हरि एत्तहें वि भिडिउ एत्तहें वि विराहिउ मिलिउ आहवे । १॥  
ताव तैत्थु भीसावणे वणे । एक्कमेक्क-हक्कारणे रणे ॥२॥  
कुरुड-दिट्ठि-वयणुवभडे भडे । विरइणु महा-वित्थडे थडे ॥३॥  
वावरन्त - भय-भासुरे सुरे । जज्जरङ्ग - पहराउरे उरे ॥४॥  
असि-सवाहु-पडियप्फरे फरे । जम्पमाण-कडुअक्खरे खरे ॥५॥

## चालीसवीं सन्धि

( फिर कवि निवेदन करता है कि ) अब उस राघवचरितको सुनिये जो दशरथके तपका कारण, सबका उद्धारक, वज्रवर्णके सम्यक्त्वसे परिपूर्ण, जिन-वरके कीर्तनसे शोभित और सीताके सतीत्वसे भरपूर है ।

[ १ ] मैं कवि ( स्वयम्भू ) शान्त और अठारह प्रकारके दोषोंसे रहित बुद्धिके अधीश्वर मुनिसुव्रत जिनको प्रणाम करता हूँ । वेद, कषाय और पापोंके नाशकर्ता, सुन्दर कान्तिसे परिपूर्ण सवारी आदिसे रहित, माया और प्रमादके वंचक, दुष्टोंसे अपूज्य और सुरेंद्रोंसे पूज्य है । वह उपाध्यायसे रहित होकर भी त्रिलोकके विदग्धोंके शिक्षक हैं । वह वारण रहित होकर भी मद्य मधु आदिके निषेधकर्ता हैं । निन्द्रा रहित और जितेन्द्रिय, महान् प्रचण्ड कामके संहारक और सुन्दर निधियोंके अधिपति हैं । मैं ऐसे उन शुभगतिगामी मुनिसुव्रत स्वामीको प्रणाम करता हूँ । अब मैं दृढसकल्प होकर इस बातको बता रहा हूँ कि लक्ष्मणने किस प्रकार खरदूषणको मारा और उसकी सेना परास्त की ॥१-११॥

[ २ ] यहीं ( इस प्रसंगमें ) सीतादेवीका हरण हुआ, यहीं रामको वियोग दुख सहन करना पड़ा, यहीं जटायुका घोर युद्ध हुआ, यहीं विराधित विद्याधरसे भेंट हुई । इस समय उस भीषण वनमें भयंकर युद्ध हो रहा था । सुभट एक दूसरेको ललकार रहे थे । वे अत्यन्त क्रूर और विकट दृष्टिसे उद्भट थे । बहुत बड़े-बड़े दल बने हुए थे, आक्रमणशील, भयसे भयंकर रौद्र जर्जर अंग, और घावोंसे भरे हुए थे । तलवार सहित हाथ इधर-उधर कटकर



दलिय-कुम्भ-वियलङ्गए गए । सिरु धुणाविए आहए हए ॥६॥  
 रुहिर-विन्दु-चच्चिकिए किए । सायरे व्व सुर-मन्थिए थिए ॥७॥  
 छत्त-दण्ड - सय-खण्ड - खण्डिए । हड्डु - रुण्ड - विच्छड्डु-मण्डिए ॥८॥  
 तहिँ महाहवे घोर-दारुणे । दिट्ठु वीरु पहरन्तु साहणे ॥९॥

## घत्ता

तिलु तिलु कप्परियइँ उरें जज्जरियइँ रत्तच्छइँ फुरियाणणइँ ।  
 दिट्ठइँ गम्भीरइँ सुहड-सरीरइँ सर-सल्लियहँ सवाहणइँ ॥१०॥

[ ३ ]

## दुवई

को वि सुभडु स- तुरङ्गमु को वि सजाणु सल्लिओ ।  
 को वि पडन्तु दिट्ठु आयासहों लक्खण सर-विरल्लिओ ॥१॥  
 भडो को वि दिट्ठो परिच्छिन्न-गतो । स-दन्ती स-मन्ती स-चिन्धो स-छत्तो ॥२॥  
 भडो को वि वावल्ल-भल्लेहिँ भिण्णो । भडो को वि कप्पद्दुमो जेम छिण्णो ॥३॥  
 भडो को वि तिक्खग-णाराय-विद्धो । महा-सत्थवन्तो व्व सत्थेहिँ विद्धो ॥४॥  
 भडो को वि कुद्धाणणो विप्फुरन्तो । मरन्तो वि हक्कार-डक्कार देन्तो ॥५॥  
 भडो को वि भिण्णो स-देहो समत्थो । पमुच्छाविओ को वि कोवण्ड-हत्थो ॥६॥  
 मुओ को वि कोवुब्भडो जीवमाणो । चलच्चामर-च्छोह - विज्जिज्जमाणो ॥७॥  
 वसा-कद्दमे महवे को वि खुत्तो । खलन्तो वलन्तो णियन्तेहिँ गुत्तो ॥८॥  
 भडो को वि भिण्णो खुरुप्पेहिँ एन्तो । णियन्तो कुसिद्धो व्व सिद्धिं ण पत्तो ॥९॥

पड़े थे । वे तीव्र और कठोर शब्द बोल रहे थे, हाथियोंके शरीर विकलांग थे । उनके कुम्भस्थल टूट फूट चुके थे । सिर फूटनेसे अश्व भी आहत हो उठे थे । रक्तरंजित वह युद्ध, समुद्रमें हुए देव मन्थनकी तरह जान पड़ता था । छत्रों और ध्वज-दण्डोंके सौ-सौ टुकड़े हो चुके थे । हड्डियों और धड़ोंसे मण्डित उस भयंकर युद्धमें लक्ष्मण सेनापर प्रहार करता हुआ दिखाई दे रहा था । योधाओंके शरीर सवारियों और वाणकी अनीकोंसे सहित थे । उनकी बोटी-बोटी कट चुकी थी । वक्षस्थल जर्जर थे । रक्तरंजित ध्वजाएँ काप रही थीं ॥१-१०॥

[ ३ ] स्वयं कुमार लक्ष्मणके तीरोंसे आहत होकर, कोई योधा अश्व सहित और कोई यान सहित खण्डित हो गया था । कोई आकाशसे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था । कोई योधा गजयंत्र ( अंकुश ) और चिह्नके साथ छिन्न शरीर दीख पड़ा । कोई योधा बावल्ल और भालोंसे विधकर पड़ा हुआ था । कोई कल्पद्रुमकी तरह छिन्न-भिन्न हो गया था । कोई योधा तीखे तीरोंसे विद्ध हो उठा । बड़े-बड़े अस्त्रोंसे सम्पन्न होने पर भी कोई योधा बन्दी बना लिया गया । क्रुद्ध होकर कोई सुभट काँपता और मरता हुआ भाँगरज रहा था । कोई समर्थ योधा सशरीर ही छिन्न-भिन्न हो गया । कोई योधा हाथमें धनुष-तीर लिये हुए ही मूर्च्छित होकर गिर पड़ा । क्रोधसे उद्भट कोई योधा, चञ्चल चमरोंकी शोभासे ऐसा चमक रहा था कि मृत भी जीवित लग रहा था । कोई योधा मांस-मज्जाकी घनी कीचड़में धँस गया । कोई गिरता पड़ता, अपनी ही आँतोंमें छिप सा गया । आता हुआ कोई भट खुरपोंसे छिन्न-भिन्न हो गया । कुसिद्धकी तरह नियंत्रित होने पर भी, वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा था । लक्ष्मणके तीरोंसे आहत,

घत्ता

लक्खण-सर-भरियउ अद्धुव्वरियउ खर-दूसण-वलु दिट्ठु किह ।  
साहारु ण वन्धइ गमणु ण सन्धइ णवलउ कामिणि-पेम्मु जिह ॥१०॥

[ ४ ]

दुवई

परधण-परकलत्त-परिसेसहुँ परवल-सण्णिवायहुँ ।

एक्केँ लक्खणेण विणिवाइय सत्त सहास रायहुँ ॥१॥

जीवन्तएँ अद्धएँ वइरि-सेणैँ । अद्धएँ दलवट्टिएँ महि-णिसणैँ ॥२॥

तहिँ अवसरैँ पवर-जसाहिण । जोक्कारिउ विण्हु विराहिण ॥३॥

‘पाइक्कहौँ वट्टइ एहु कालु । हउँ भिच्छु देव तुहुँ सामिसालु ॥४॥

कहिओ सि आसि जो चारणेहिँ । सो लक्खिओ सि सइँ लोयणेहिँ ॥५॥

तं सहल मणोरह अज्जु जाय । जं दिट्ठु तुहारा वे वि पाय ॥६॥

णिय-जणणिहँ हउँ गढ्भत्थु जइउ । विणिवाइउ पिउ महु तणउ तइउ ॥७॥

सहुँ ताएँ महु पाइक्क-पवरु । उहालिउ तमलङ्कार-णयरु ॥८॥

तँ समर - महब्भय - भांसणेहिँ । सहुँ पुव्व-वइरु खर-दूसणेहिँ ॥९॥

घत्ता

जय-लच्छि-पसाहिउ भणइ विराहिउ ‘पहु पसाउ महु पेसणहौँ ।

तुहुँ खरु आयामहि रणउहँ णामहि हउँ अब्भिट्ठिमिँ दूसणहौँ’ ॥१०॥

[ ५ ]

दुवई

तं णिसुणेवि वयणु विज्जाहरु मम्भासिउ कुमारैँणं ।

‘वइसरु ताव जाव रिउ पाइमि एक्केँ सर-पहारैँणं ॥१॥

एउ सेणु खर-दूसण-केरउ । वाणहिँ करमि अज्जु विवरेरउ ॥२॥

स-धउ स-वाहणु स-पहुँ स-हत्थेँ । लायमि सम्बु-कुमारहौँ पन्थेँ ॥३॥

तुज्जु वि जम्म-भूमि दरिसावमि । तमलङ्कार-णयरु भुज्जावमि ॥४॥

खर-दूषणकी अधउबरी सेना कामिनीके नवल प्रेमकी तरह जान पड़ती थी। क्योंकि न तो वह ( नवल प्रेम और सेना ) जा ही पाता था और न ढाढस ही बाँध पाता था ॥१-१०॥

[ ४ ] इस प्रकार दूसरेके धन और स्त्रीका अपहरण करनेवाले, शत्रु सेनाओंमें तोड़-फोड़ करनेवाले सात हजार योधा राजाओंको अकेले लक्ष्मणने ही मारकर गिरा दिया। इस प्रकार आधो सेनाके धराशायी हो जानेपर जब आधी सेना ही शेष बची तो परम यशस्वी विराधितने कुमार लक्ष्मणका अभिनन्दन करते हुए कहा—“हे देव, आज अवश्य ही आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका अनुचर। चारण मुनियोंने जो कुछ भविष्यवाणी की थी उसे मैं आज अपनी आँखोंसे सच होता हुआ देख रहा हूँ। आज मैंने आपके चरणयुगलके दर्शन कर लिये। जब मैं अपनी माताके गर्भमें था तभी इसने ( खर-दूषणने ) मेरे पिताका वध कर दिया था। और साथ ही उत्तम प्रजासे सहित मेरा तमलंकार नगर भी छीन लिया। इस प्रकार इस महा-समरमें खर-दूषणसे बहुत पुरानी शत्रुता है।” विजय-लक्ष्मीके इच्छुक विराधितने और भी कहा, “मुझ सेवकपर प्रसाद करें। आप युद्ध मुखमें जाकर खरसे लड़कर उसे नत करें और तबतक मैं दूषणसे निपटता हूँ” ॥१-२०॥

[ ५ ] विद्याधर विराधितके वचन सुनकर कुमार लक्ष्मणने उसे अभयदान दिया। उसने कहा—“जबतक मैं एक ही तीरसे शत्रुको मार गिराता हूँ तबतक तुम यहीं बैठो। खरदूषणकी सेना को मैं आज ही अपने तीरोंसे तितर-बितर करता हूँ। और पताका, वाहन, राजा, गजोंके साथ सभीको शम्बूक कुमारके पथपर प्रेषित किये देता हूँ। तुम्हें मैं अपनी जन्मभूमिके दर्शन करा दूँगा। मैं

हरि-वयणँहिँ हरिसिउ विज्जाहरु । चलणँहिँ पडिउ सीसँ लाएँवि करु ॥५॥  
 ताव खरेण समरँ णिव्वूढँ । पुच्छिउ मन्ति विमाणारूढँ ॥६॥  
 'दीसइ कवणु एहु वीसत्थउ । णरु पणमन्तु कियञ्जलि-हत्थउ ॥७॥  
 बाहुवलेण वलेण विवलयउ । णं खय-कालु कियन्तहँ मिलियउ' ॥८॥  
 पभणइ मन्ति विमाणँ पइट्टउ । 'किं पइँ वइरि कयावि ण दिट्टुउ ॥९॥

घत्ता

णामेण विराहिउ पवर-जसाहिउ वियड-वच्छु थिर-थोर-भुउ ।  
 अणुराहा-णन्दणु स-वल्लु स-सन्दणु एँहु सो चन्दोअरहँ सुउ' ॥१०॥

[ ६ ]

दुवई

मन्ति-णिवाण विहि मि अवरोप्परु ए आलाव जावँहिँ ।  
 विण्हु-विराहिएँहिँ आयामिउ पर-वल्लु सयलु तावँहिँ ॥१॥  
 तो खरोऽरिमइणेण । कोक्किओ जणइणेण ॥२॥  
 एत्तहे स-सन्दणेण । सोऽणुराह - णन्दणेण ॥३॥  
 आहवे समत्थएण । चाव - वाण-हत्थएण ॥४॥  
 गुञ्ज-वण्ण - लोयणेण । भोसणावलोयणेण ॥५॥  
 कुम्भि-कुम्भ-दारणेण । पुव्व-वइर - कारणेण ॥६॥  
 दूसणो जसाहिवेण । कोक्किओ विराहिएण ॥७॥  
 एहु वे(?)हओ हयस्स । चोइओ गओ गयस्स ॥८॥  
 वाहिओ रहो रहस्स । धाइओ णरो णरस्स ॥९॥

घत्ता

स-गुड-स-सण्णाहइँ कवय-सणाहइँ सप्पहरणइँ स-वाहणइँ ।  
 णिय-वइरु सरेप्पिणु हक्कारेप्पिणु मिडियइँ वेण्णि मि साहणइँ ॥१०॥

[ ७ ]

दुवई

सेण्णहँ मिडिउ सेण्णु दूसणहँ विराहिउ खरहँ लक्खणो ।  
 हय पडु पडह तूर किउ कलयलु गल-गम्भार-भीसणो ॥१॥

भी तमलंकारनगरका उपभोग करूँगा।” इस प्रकार लक्ष्मणके आश्वासन देनेपर विद्याधर विराधित प्रसन्न हो उठा। वह सिर झुकाकर चरणोंमें नत हो गया। इसी बीच, युद्धसे निपटनेपर खरने अपने मंत्रीसे पूछा कि “यह कौन है कि इस प्रकार एक दम निराकुल होकर और हाथमें अंजलि लेकर ( लक्ष्मणको ) प्रणाम कर रहा है। वह बाहुबलि ( विराधित ) लक्ष्मणसे उसी प्रकार जा मिला है जिस प्रकार क्षयकाल जाकर कृतान्तसे मिल जाता है।” इसपर, विमानमें बैठे-बैठे ही मंत्रीने कहा कि “क्या आपने अपने शत्रु विराधितको नहीं देखा। प्रबल यशस्वी विशालबाहु वह, अनुराधाका पुत्र विराधित है। रथ और अपनी सेना लेकर वह, चंद्रोदरका पुत्र है” ॥१-१०॥

[ ६ ] राजा खर और मंत्रीमें जब इस प्रकार बात-चीत हो रही थी तभी लक्ष्मण और विराधितने मिलकर शत्रुसेनाको घेर लिया। अरिदमन लक्ष्मणने खरको ललकारा और विद्याधर विराधितने रथ बढ़ाकर दूषणको। सचमुच युद्धमें समर्थ, हाथमें धनुष-वाण लिये हुए, आरक्तनयन, गज कुभंस्थलोंको विदीर्ण करनेवाला वह ( विराधित ) देखनेमें अत्यन्त भयंकर हो रहा था। अपने पूर्व वैरका स्मरणकर उसने दूषणको ( ललकारकर ) चुनौती दी। बस, अश्वपर अश्व और गजपर गज प्रेरित कर दिये गये। रथपर रथ हाँके जाने लगे। और योधापर योधा दौड़ पड़े। इस प्रकार दोनों ही सेनाएँ एक दूसरेके निकट जाकर आपसमें लड़ने लगीं। वे दोनों ही सेनाएँ सगुड ? संनद्ध कवच आयुध और वाहनोंसे परिपूर्ण थीं ॥१-१०॥

[ ७ ] उस तुमुल युद्धमें सेनासे सेना भिड़ गई। विराधित दूषणसे, लक्ष्मण खरसे भिड़ गये। पट-पटह वज उठे, तूर्योका

तहिँ रण-संगमें । वुण्ण - तुरङ्गमें ॥२॥  
 रह-गय-गोन्दल । वज्जिय - मन्दल ॥३॥  
 भड - कडमहणे । मोडिय-सन्दणे ॥४॥  
 णरवर-दण्डिण् । किय-किलिविण्डिण् ॥  
 वाला - लुञ्जिण् । रह-सय-खञ्जिण् ॥६॥  
 तहिँ अपरायण । खर - णारायण ॥७॥  
 भिडिय महव्वल । वियड - उरत्थल ॥८॥  
 वे वि समच्छर । वे वि भयङ्कर ॥९॥  
 वे वि अकायर । वे वि जसायर ॥१०॥  
 वे वि महब्भड । वे वि अणुब्भड ॥११॥  
 वे वि धणुद्धर । वेणिण वि दुद्धर ॥१२॥

घत्ता

वेणिण वि जस-लुद्धा । अमरिस-कुद्धा तिहुयण-मल्ल समावडिय ।  
 अमरिन्द-दसणण विप्फुरियाणण णाईँ परोप्परु अडिभडिय ॥१३॥

[ ८ ]

दुवई

ताम जणहुणेण अद्धेन्दु विसज्जिउ रणेँ भयङ्करो ।  
 णं खय-कालं कालु उद्धाइउ तिहुअण-जण-खयङ्करो ॥१॥  
 संचल्लु वाणु । णहयल - समाणु ॥२॥  
 रिउ-रहहोँ दुक्कु । खरु कह वि चुक्कु ॥३॥  
 सारहि वि भिण्णु । धय-दण्डु छिण्णु ॥४॥  
 धणुहरु वि भग्गु । कथ वि ण लग्गु ॥५॥  
 पाडिउ विमाणु । विज्जण् समाणु ॥६॥  
 खरु विरहु जाउ । थिउ असि-सहाउ ॥७॥  
 धाइउ तुरन्तु । मुह - विप्फुरन्तु ॥८॥  
 एत्तहोँ वि तेण । णारायणेण ॥९॥  
 तं सूरहासु । किउ करेँ पगासु ॥१०॥  
 अडिभट्ट वे वि । असिवरइँ लेवि ॥११॥

भीषण और गम्भीर कलकल होने लगा । अश्वोंके मुख ऊपर थे । रथ और गजोंकी भीड़ मची थी । ढोल बज रहे थे । योधाओंका संहार होने लगा । रथ मुड़ने लगे । नरवर ध्वस्त हो रहे थे । केश घसीटे जा रहे थे । सैकड़ों रथ वहीं खच गये थे । इस प्रकार उस युद्धमें अपराजित कुमार लक्ष्मण और खरमें मुटभेंड़ हो रही थी । दोनोंके उर विशाल थे, दोनों मत्सरसे भरे हुए भयङ्कर हो रहे थे । दोनों ही वीर यशकी आकांक्षा रखते थे ! दोनों ही उद्धत और धनुर्धारी थे । दोनों ही यशके लोभी, अमर्शसे क्रुद्ध और त्रिभुवन-मल्ल थे । वे ऐसे भिड़े मानो दशानन और इन्द्र ही भिड़े हों ॥१-१३॥

[८] तब लक्ष्मणने भयङ्कर अर्धचन्द्र तीर छोड़ा वह तीर मानो तीनों लोकोंको क्षय करनेवाला क्षयकाल ही था । आकाशतलमें सर्राता हुआ वह तीर खरके रथके निकट पहुँचा । खर तो किसी प्रकार बच गया, परन्तु उसका सारथि और ध्वज-दण्ड छिन्न-भिन्न हो गये । उसका धनुष भी टुकड़े-टुकड़े हो गया । किसी तरह वह तीर उसे नहीं लगा । विद्या सहित उसका रथ खण्डित हो गया । अब खर विरथ हो गया, केवल उसके हाथमें तलवार थी । तब तमतमाकर दौड़ा । यह देखकर नारायण लक्ष्मणने भी सूर्यहास खड्ग अपने हाथमें ले लिया । अब उत्तम खड्गोंसे इनमें द्वन्द्व होने



घत्ता

णाणाविह-थाण्हिं णिय-विण्णाण्हिं वावरन्ति असि-गहिय-कर ।  
कसणङ्गय दीसिय विज्जु-विहूसिय णं णव-पाउसँ अम्बुहर ॥१२॥

[ ६ ]

दुवई

हत्थि व उद्ध-सोण्ड सीह व लङ्गूल-वलग्ग-कन्धरा ।  
णिट्ठुर महिहर व्व अइ-खार समुद्द व अहि व दुद्धरा ॥१॥  
अड्ढिभट्ट वे वि सोण्डीर वीर । संगाम - धीर ॥२॥  
एत्थन्तरँ अमर-वरङ्गणाहँ । हरिसिय-मणाहँ ॥३॥  
अवरोप्परु बोल्लालाव हूय । 'कहँ गुण पहूय' ॥४॥  
तं णिसुणँ वि कुवलय-णयणियाएँ । ससि- वयणियाएँ ॥५॥  
णिढ्ढमच्छिय अच्छर अच्छराएँ । बहु-मच्छराएँ ॥६॥  
'खरु मुएँ वि अण्णु किं को वि सूरु । पर-सिमि-रचूरु ॥७॥  
अण्णोक्क पजम्पिय तक्खणेण । 'सहुँ लक्खणेण ॥८॥  
खरु गद्धु किह किज्जइ समाणु । जो अघडमाणु ॥९॥  
एत्थन्तरँ णिसियर-कुल-पइवँ । खरु पहउ गाँवँ ॥१०॥

घत्ता

कोवाणल-णालउ कटि-कण्टालउ दसण-सकेसरु अहर-दलु ।  
महुमहण-सरग्गँ असि-णहरग्गँ खुण्टँ वि घत्तिउ सिर-कमलु ॥११॥

[ १० ]

दुवई

एत्तहँ लक्खणेण विणिवाइउ णिसियर-सेण्ण-सारओ ।  
एत्तइँ दूसणेण किउ विरहु विराहिउ विणिण वारओ ॥१॥  
खुडु खुडु समरँ परज्जिउ साहणु । रह- गय- वाहणु ॥२॥  
खुडु खुडु जीव-गाहि आयामिउ । पर-वल-सामिउ ॥३॥  
खुडु खुडु चिहुरहँ हत्थु पसारिउ । कह वि ण मारिउ ॥४॥  
ताव खरहँ सिरु खुडँ वि महाइउ । लक्खणु धाइउ ॥५॥

लगा । हाथमें खड्ग लिये हुए वे नाना स्थानोंसे अपनी पैतरेबाजी दिखाने लगे । श्याम ( गौर ) वर्ण वे दोनों ऐसे जान पड़ते थे मानो नव वर्षागम कालमें विजलीसे शोभित मेघ हों ॥१-१२॥

[ ६ ] वे दोनों ऐसे लगते थे मानी सूँड उठाये हुए हाथी हों या पीठपर पूँछ लहराये हुए सिंह । पर्वतकी तरह निष्ठुर, समुद्रकी तरह खारे, और सर्पराजकी तरह दुर्धर हो रहे थे । युद्धधीर वे दोनों वीर आपसमें भिड़ गये । इसी बीच आकाशमें देवबालाएँ प्रसन्न होकर आपसमें बात-चीत करने लगीं । एक बोली—“बताओ, किसमें अधिक गुण हैं ?” यह सुनकर, चन्द्रमुखी और कमलनयनी दूसरी अप्सराने मत्सरसे भरकर उसे फिड़कते हुए कहा—“अरे युद्धमें शत्रु-शिविरको खरको छोड़कर दूसरा कौन चकनाचूर कर सकता है ।” इस अवसरपर कई अप्सराओंने कहा—“अरे लक्ष्मणके साथ इस खर ( गधे ) की तुलना क्यों करता हो । उसकी तुलनामें खर तो एक दम निकम्मा है ।” इतनेमें खर कण्ठमें आहत हो उठा । लक्ष्मणके तीरोंकी नोक और सूर्यहास खड्गके नखाग्रसे खरका सिरकमल तोड़कर लक्ष्मणने फेंक दिया । कोपाग्नि? उसकी मृणाल थी । युद्धसे कटकटाते उसके दाँत पराग थे । और अधर पत्ते ॥१-११॥

[ १० ] जिस समय कुमार लक्ष्मणने निशाचर-सेनाके सार श्रेष्ठ खरको मार गिराया उसी समय विराधितको दूषणने रथ-विहीन कर दिया । उसकी सेना रथ, गज और वाहनोंके साथ शीघ्र ही पराजित होने लगी । इस प्रकार शत्रु-सेनाका स्वामी जीते जी पकड़ लिया गया । हाथ फैलाकर उसने विराधितके बाल पकड़ लिये, किसी प्रकार उसे मारा भर नहीं । इसी बीच खरका सिरकमल काटकर लक्ष्मण उस ओर दौड़े जहाँ विराधित था ।

णिय-साहणें मग्गीस करन्तउ । रिउ कोकन्तउ ॥६॥  
 दूसण पहरु पहरु जइ सकहि । अहिमुहु थकहि ॥७॥  
 तं गिसुणेवि वयणु आरुट्टउ । चित्तें दुट्टउ ॥८॥  
 बलिउ गिसिन्दु गइन्दु व सीहहों । रण-सय-लीहहों ॥९॥

घत्ता

दससन्दण-जाएं वर-णाराएं वियड-उरत्थल्लं विद्धु अरि ।  
 रेवा-जल-वाहें मयर-सणाहें णाईं वियारिउ विक्कइरि ॥१०॥

[ ११ ]

दुवई

उद्धुअ - पुच्छ - दण्ड - वेयण्ड - रसन्तय-मत्त-वाहणं ।  
 पाडिएँ अतुल-मह्लें खरें दूसणें पडियमसेस-साहणं ॥१॥  
 सत्त सहास भिडन्तें मारिय । दूसणेण सहूँ सत्त वियारिय ॥२॥  
 चउदह सहस णरिन्दहुँ घाइय । णं कप्पद्दुम व्व विणिवाइय ॥३॥  
 मण्डिय मेइणि गरवर-छत्तें हिं । णावइ सरय-लच्छि सयवत्तें हिं ॥४॥  
 कथइ रत्तारत्त पदीसिय । णाईं विलासिणि घुसिण-विहूसिय ॥५॥  
 तो एत्थन्तरें रह-गय-वाहणें । कलयलु घुट्ठु विराहिय-साहणें ॥६॥  
 दिण्णाणन्द-भेरि अणुराएँ । रणु परिअच्चिउ दसरह-जाएँ ॥७॥  
 'चन्दोअर-सुअ महु करें वुत्तउ । ताम महाहवें अच्छु मुहुत्तउ ॥८॥  
 जाव गवेसमि भाइ महारउ । सहूँ वइदेहिएँ पाण-पियारउ' ॥९॥

घत्ता

खर-दूसण मारें वि जिणु जयकारें वि लक्खणु रामहों पासु गउ ।  
 णं तिहुअणु घाएँवि जम-पहें लाएँ वि कालु कियन्तहों सम्मुहउ ॥१०॥

अपनी सेनाको अभयदान देकर और शत्रुको ललकारते हुए उन्होंने कहा—“दूषण, सम्मुख मैं हूँ, यदि सम्भव हो तो मुझपर प्रहार करो।” यह दुष्ट वचन सुनते ही दूषण भड़क उठा। शत-शत युद्धोंमें प्रवीण दूषण लक्ष्मणके सम्मुख वैसे ही आया जैसे सिंहके सम्मुख गज आता है। लक्ष्मणने उसे भी तीरसे आहत कर दिया। मानो मगरसे सहित रेवा नदीके प्रवाहने विन्ध्याचलको ही विदीर्ण कर दिया हो ॥१-१०॥

[ ११ ] इस प्रकार अतुल बली खर और दूषणका पतन होने पर, उसकी सेनाको भी पराजित होना पड़ा। उसकी पताकाएँ उड़ रही थीं। और रणतूर्यसे उन्मत्त उसके वाहन थे। सात हजार सैनिक तो पहले ही मारे जा चुके थे, अब शेष सात हजार दूषणके युद्धमें काम आये। इस तरह कुल मिलाकर उसने चौदह हजार राजाओंको ऐसे साफ कर दिया मानो कल्पवृक्षको काट दिया हो। ( उस समय ) नरवरोंके छत्रोंसे पटी हुई धरती ऐसी मालूम होती थी मानो कमल-दलोंसे युक्त शरद्-लक्ष्मी हो। कहीं पर रक्त-रञ्जित धरती केशरसे अलंकृत विलासिनीकी तरह दीख पड़ती थी। इतनेमें रथ, गज, वाहनवाली विराधितकी सेनाने कलकल शब्द किया। लक्ष्मणने भी अनुरागसे आनन्दकी भेरी बजवाकर युद्धकी परिक्रमाकर विराधितसे कहा—“जब तक मैं सीता-सहित अपने भाईको खोजता हूँ तक तक तुम यहीं पर रहो।” इस प्रकार खर, दूषणका वधकर, और जिनवरकी जय बोलकर लक्ष्मण रामके निकट ऐसे गये मानो काल ही त्रिभुवनका घातकर और उसे यमके पदपर पहुँचाकर कृतान्तके पास गया हो ॥१-१०॥

[ १२ ]

दुवई

हलहरु लक्खणेण लक्खिज्जइ सीया-सोय-णिग्भरो ।  
घत्तिय तोण-वाण महि-मण्डलै कर-परिचत्त-धणुहरो ॥१॥  
विओय - सोय - तत्तओ । करि व्व भग्ग-दन्तओ ॥२॥  
तरु व्व छिण्ण-डालओ । फणि व्व णिप्फणालओ ॥३॥  
गिरि व्व वज्ज-सूडिओ । ससि व्व राहु-पांडिओ ॥४॥  
अपाणिउ व्व मेहवो । वणे विसण्ण-देहओ ॥५॥  
बलो सुमिच्चि-पुत्तिणं । पपुच्छिओ तुरन्तिणं ॥६॥  
‘ण दीसए विहङ्गओ । स-सीयओ कहि गओ’ ॥७॥  
सुणेवि तस्स जम्पियं । तमक्खियं ण जं पियं ॥८॥  
‘वणे विणट्ठ जाणई । ण को वि वत्त जाणई ॥९॥

घत्ता

जो पक्खि रणेऽज्जउ दिण्णु सहेज्जउ सो वि समरँ संघारियउ ।  
केणावि पचण्डे दिठ-भुअ-दण्डे णेवि तलप्पए मारियउ’ ॥१०॥

[ १३ ]

दुवई

ए आलाव जाव वट्टन्ति परोप्परु राम-लक्खणे ।  
ताव विराहिओ वि बल-परिमिउ पत्तु तहिं जि तक्खणे ॥१॥  
तो ताव कियञ्जलि-हत्थएण । महिर्वादीणामिय - मत्थएण ॥२॥  
बलएउ णमिउ विज्जाहरेण । जिणु जम्मणे जेम पुरन्दरँण ॥३॥  
आर्सास देवि गुरु-मलहरेण । सोमिच्चि पपुच्छिउ हलहरेण ॥४॥  
‘सहुँ सेण्णे पणमिउ कवणु एहु । णं तारा-परिमिउ हरिणदेहु’ ॥५॥  
तं वयणु सुणेप्पिणु पुरिस-सीहु । थिर-थोर-महाभुअ - फलिह-दीहु ॥६॥  
सव्भावें रामहो कहइ एम । ‘चन्दोयर-णन्दणु एहु देव ॥७॥  
खर-दूसणारि मुहु परम-मित्तु । गिरि मेरु जेम थिर-थोर-चित्तु’ ॥८॥  
तो एम पसंसवि तक्खणेण । ‘हिय जाणइ’ अक्खिउ लक्खणेण ॥९॥

घत्ता

कहिँ कुठेँ लग्गेसमि कहि मि गवेसमि दइवें परम्मुहँ किं करमि ।  
बलु सीया-सोएं मरइ विओएं एण मरन्तेँ हउ मरमि’ ॥१०॥

[ १२ ] लक्ष्मणने जाकर देखा कि राम सीताके वियोगमें दुःखसे परिपूर्ण हो रहे हैं। धनुष तीर और तूणीर, सभी कुछ हाथ से छूटकर धरतीपर पड़ा है। वियोगके शोकसे आकुल राम, ऐसे ही म्लान शरीर हो रहे थे जैसे भग्नदन्त गज, छिन्नशाखा वृक्ष, फणरहित सर्प, वज्र पीड़ित पर्वत, राहुग्रस्त चन्द्र, और जलरहित मेघ मलिन होता है। तुरन्त ही लक्ष्मणने रामसे पूछा—“अरे जटायु दिखाई नहीं देता, सीताके साथ वह कहाँ गया।” यह सुनकर रामने जो कुछ कहा, लक्ष्मणको वह किसी भी प्रकार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा—“सीता वनमें नष्ट हो गई, मैं अब और कोई बात नहीं जानता” तथा जो अजेय पत्तिराज जटायु था उसका भी रणमें संहार हो गया—किसी दृढ़ बाहु और प्रचंडवीरने उसे धरतीपर पटक दिया ॥१-६॥

[ १३ ] इस तरह राम और लक्ष्मणमें बातें हो ही रही थीं, तभी अपनी गिनी-चुनी सेना लेकर विराधित वहाँ आया। हाथोंमें अंजलि लेकर और पीठ तक माथा झुकाकर विद्याधर विराधितने रामको वैसे ही प्रणाम किया जैसे इन्द्र जन्मके समय जिनेन्द्रको प्रणाम करता है। निर्मल रामने भी उसे आशीर्वाद देकर लक्ष्मण से पूछा कि “यह कौन है जो तारोंसे वेष्टित चंद्रकी तरह, सेना सहित मुझे नमस्कार कर रहा है।” यह सुनकर लक्ष्मणने सद्भावपूर्वक कहा, “देव, मंदराचलकी तरह विशाल और दृढ़ हृदय चंद्रोदरका पुत्र विराधित है, मेरा पक्का मित्र और खरदूषणका कट्टर शत्रु है।” इस प्रकार उसकी प्रशंसा करके लक्ष्मणने तत्काल कहा,—“सीता हर ली गई हैं, उन्हें अब कहाँ खोजूँ। दैवके विमुख होनेपर क्या करूँ। राम सीताके वियोगमें मर रहे हैं। इनके मरनेपर मैं भी मर जाऊँगा” ॥१-१०॥

[ १४ ]

दुवई

तं गिसुणेवि वयणु चिन्ताविउ चन्दोयरहों गन्दणो ।

विमणु विसण्ण-देहु गह-पीडिउ णं सारङ्ग-लम्बणो ॥१॥

'जं जं किं पि वत्थु आसङ्गमि । तं तं णिप्फलु कहिं अवठम्भमि ॥२॥  
 एय मुएवि कालु किह खेविउ । णिद्धणो वि वरि वड्डुउ सेविउ ॥३॥  
 होउ म होउ तो वि ओलगमि । मुणि जिह जिण दिदु चलणहिं लग्गमि ॥४॥  
 विहि केत्तडउ कालु विणडेसइ । अवसें कं दिवसु वि सिय होसइ' ॥५॥  
 एम भणेवि वुत्तु णारायणु । 'कुँढे लग्गेवउ केत्तिउ कारणु ॥६॥  
 ताव गवेसहुँ जाम णिहालिय' । लहु सण्णाह-भेरि अप्फालिय ॥७॥  
 साहणु दस-दिसेहिं संचल्लिउ । आउ पढीवउ जय-सिरि-मेल्लिउ ॥८॥  
 जोइस-चक्कु णाई परियत्तउ । णं सिद्धत्तणु सिद्धि ण पत्तउ ॥९॥

घत्ता

विज्जाहर-साहणु स-धउ स-वाहणु थिउ हेट्टामुहु विमण-मणु ।

हिम-वाएं दड्डुउ मयरन्दड्डुउ णं कोमाणउ कमल-वणु ॥१०॥

[ १५ ]

दुवई

वुत्तु विराहिणुण 'सुर-डामरें तिहुअण-जण-भयावणे ।

घणें णिवसहुँ ण होइ खर-दूसणें मुएँ जीवन्तें रावणे ॥१॥

सम्बुक्कु वहेंवि असि-रयणु लेवि । को जीवइ जम-मुहें पइसरेत्ति ॥२॥  
 जहिं अच्चइ इन्दइ भाणुकणु । पञ्चामुहु मउ मारिच्चि अणुणु ॥३॥  
 घणवाहणु जहिं अक्खय-कुमारु । सहसमइ विहीसणु दुण्णिवारु ॥४॥  
 हणुवन्तु णालु णलु जम्बवन्तु । सुग्गीउ समर-भर-उव्वहन्तु ॥५॥  
 अङ्गण्य-गवय - गवक्ख जेत्थु । तहों वन्धु वहेंवि को वसइ एत्थु' ॥६॥

[ १४ ] यह सुनकर राहुग्रस्त चंद्रकी तरह खिन्नशरीर और विमल चन्द्रोदरपुत्र विराधित चिंतित हो उठा। वह अपने मनमें सोचने लगा कि “मैं जिसकी आशंसा ( शरण ) में जाता हूँ वही असफल क्यों हो जाता है। इनके विना मैं अपने समयका यापन कैसे करूँगा ? निर्धन होनेपर भी बड़ेकी सेवा करना अच्छा। हो न हो मैं इनकी ही सेवामें रहूँगा। आखिर भाग्यकी विडम्बना कबतक रहेगी। एक न एक दिन अवश्य संपदा होगी।” यह विचारकर उसने लक्ष्मणसे कहा, “पीछा करना कौन बड़ी बात है, मैं तबतक सीतादेवीकी खोज करता हूँ, कि जबतक वह मिल न जाय।” यह कहकर उसने तुरन्त भेरी बजवा दी। दशों दिशाओं में सेना इस प्रकार चल पड़ी मानो विजय-लक्ष्मी ही लौट रही हो या फिर ज्योतिषचक्र ही घूम रहा हो या सिद्धको सिद्धि प्राप्त हो रही हो। किंतु ( प्रयत्न करनेके अनंतर ) विद्याधर सेना ध्वज और वाहनों सहित अपना मुख नीचा करके ऐसे रह गई मानो हिम-वातसे आहत, म्लान और परागविहीन कमलिनीवन हो ॥१-१०॥

[ १५ ] तदनन्तर विराधितने आकर रामसे कहा, “खरदूषण के मारे जानेके अनंतर रावणके जीवित हुए, देवभीषण और त्रिभुवनके जनोंके लिए भयंकर इस वनमें रहना ठीक नहीं। शम्बूकका वधकर सूर्यहास उत्तम खड्गको लेकर एवं ( इस प्रकार ) कालके मुखमें प्रवेशकर कौन ( यहाँ ) बच सकता है। जहाँ इन्द्रजीत भानुकर्ण पंचमुख मय और मारीच हैं। तथा जहाँ मेघ-वाहन अक्षयकुमार तथा सहस्रबुद्धि और दुर्निवार विभीषण विद्यमान है। हनुमान नल नील जाम्बवंत तथा युद्धभार उठानेमें समर्थ सुग्रीव वर्तमान हैं, जहाँ अंग अंगद गवय और गवाक्ष हैं। वहाँ उसके बहनोईको मारकर कौन जीवित रह सकता है।” यह सुन-



वयणेण तेण लक्खण विरुद्धु । गय-गन्धे णाई महन्दु कुद्धु ॥७॥  
 'सुट्ठु वि रुद्धेहि मयङ्गमेहि । किं रुम्भइ सीहु कुरङ्गमेहि ॥८॥  
 रोमग्गु वि वङ्गु ण होइ जेहि । किं णिसियर-सण्ढेहि गहणु तेहि ॥९॥

घत्ता

जे णरवइ अक्खिय रावण-पक्खिय ते वि रणङ्गणे णिट्ठवमि ।  
 छुडु दिन्तु णिरुत्तउ जुञ्जु महन्तउ दूसण-पन्थे पट्ठवमि ॥१०॥

[ १६ ]

दुवई

भणइ पुणो वि एम विजाहरु 'अच्छे वि किं करेसहुँ ।  
 तमलङ्कार-णयरु पइसेप्पिणु जाणइ तहिँ गवेसहुँ' ॥१॥  
 वलु वयणेण तेण, सहुँ साहणेण, संचल्लिउ ।  
 णाई महासमुद्धु, जलयर-रउद्धु, उत्थल्लिउ ॥२॥  
 दिण्णाणन्द-भेरि, पडिवक्ख-खेरि, खर-वज्जिय ।  
 णं मयरहर-वेल, कल्लोलवोलं, गलगज्जिय ॥३॥  
 उम्भिय कणय-दण्ड, धुव्वन्त धवल, धुअ-धयवड ।  
 रसमसकसमसन्त-, तडतडयडन्त-, कर गय-घड ॥४॥  
 कथइ खिलिहिलन्त, हय हिलिहिलन्त, णीसरिया ।  
 चञ्चल-चड्डुल-चवल, चलवलय पवल, पक्खरिया ॥५॥  
 कथइ पहेँ पयट्ठ, दुग्घोट्ठ-थट्ठ, मय-भरिया ।  
 सिरें गुमुगुमुगुमन्त, - चुमुचुमुचुमन्त, - चञ्जरिया ॥६॥  
 चन्दण - वल-परिमलामोय-सेय - किय-कहमे ।  
 रह-खुप्पन्त-चक्क - वित्थक्क-छडय - भड-मइवें ॥७॥  
 एम पयट्ठु सिमिरु, णं वहल-तिमिरु, उद्धाइउ ।  
 तमलङ्कार-णयरु णिमिसन्तरेण संपाइउ ॥८॥  
 पय-विरहेण रामु, अइ-खाम-खामु, ऋणङ्गउ ।  
 विय-मग्गेण तेण, कन्तहेँ तणेण, णं लग्गाउ ॥९॥

घत्ता

दहवयणु स-सीयउ पाणहँ भीयउ मञ्जुडु एत्तहेँ णट्ठु खलु ।  
 मेइणि विहारें वि मग्गु समारें वि णं पायालें पइट्ठु वलु ॥१०॥

कर लक्ष्मण मदांध गजकी तरह एकदम भड़क उठा। वह बोला, “क्यों क्या सिंह रुष्ट गजों या मृगोंसे अवरुद्ध हो सकता है, जिसका कोई भी बाल बाँका नहीं कर सकता भला उसे निशाचर-समूह क्या खाक पकड़ सकता है। तुमने रावणके पक्षके जिन राजाओंका उल्लेख किया है मैं उन्हें भी युद्धमें नष्ट कर दूँगा।”  
॥१-१०॥

[ १६ ] इसपर विद्याधर विराधितने निवेदन किया, ‘यहाँ रहकर भी आखिरकार हम करेंगे क्या ? चलो तमलंकार नगरमें चलें, फिर सीताकी खोज की जाय।’ उसके अनुरोध करनेपर राम और लक्ष्मण सेनाके साथ ऐसे चल पड़े मानो जलचरोंसे भरा हुआ महासमुद्र ही उझल पड़ा हो। शत्रुको लुब्ध करनेवाली आनन्दकी भेरी बज उठी। मानो समुद्र ही अपनी तरंग-ध्वनि से गरज पड़ा हो। गजघटाएँ कसमसाती रसमसाती और तड़-तड़ करती हुई निकल पड़ी। बख्तर पहने, अपनी चंचल गर्दन झुकाये और अश्व हिनहिनाते और खलबलाते बलयसे चले जा रहे थे। उनके सिरोंपर गुनगुनाते हुए भ्रमर घूम रहे थे। इस प्रकार घनी-भूत तमकी तरह उस सेनाने प्रस्थान किया। तब, प्रचुर चंदनरेणु और प्रस्वेदसे मार्ग पंकिल हो उठा। गड़े हुए रथ चक्रोंसे निरुद्ध सैनिकोंमें रेल-पेल मची हुई थी। सेना उड़कर पलभरमें तमलंकार नगर जा पहुँची। प्रिया-विरहमें अत्यंत क्षीणाङ्ग राम ऐसे लगते थे मानो वे सीताके ही मार्गका अनुगमन कर रहे हों। धरती विदीर्ण करता हुई सेना, उस पाताल नगरमें मानो यह सोचती हुई घुस रही थी कि कहीं दुष्ट रावण अपने प्राणोंसे भयभीत, सीता देवीके साथ यहीं तो नहीं आया ॥१-१०॥

[ १७ ]

दुवई

ताव पचण्डु वोरु खर-दूसण-णन्दणु तण्णिवारणो ।  
 सो सण्णहँ वि सुण्डु पुर-वारँ परिट्टिड गहिय-पहरणो ॥१॥  
 जं थक्कु सुण्डु रणमुहँ रउद्दु । उद्धाइउ राहव - वल-समुद्दु ॥२॥  
 णवर कलयलारावु उट्टिउ दोहिं मि सेण्णोहिं अब्भिट्टमाणोहिं  
 जायं च जुज्जं महा - गोलुहाम-घोरारुणं मुक्क-हाहारवं ॥३॥  
 विरसिय-सय-सङ्ग - कंसाल - कोलाहलं काहलं-टट्टरी-भल्लरी-  
 मद्दुल्लोल - वज्जन्तभम्भीस - भेरी - सरुञ्जा - हुडुक्काउलं ॥४॥  
 पसहिय-गय-गिल्ल - कल्लोल - गज्जन्त-गम्भीर-भीसावणोरालि-  
 मेल्लन्त-रुण्टन्त, घण्टा-जुअं पाडियं मेट्ट-पाइक्कयं भिण्ण-वच्छथलं ॥५॥  
 सललिय-रह - चक्क - खोणी-पखुप्पन्त-धुप्पन्त-चिन्धावलि-हेम-  
 दण्डुज्जलं-चामरुच्छोह-विज्जिज्जमाणं स-जोहं महासन्दणावीढयं ॥६॥  
 हिलिहिलिय - तुरङ्गमुच्चुण्ण - कण्णं चलं चञ्चलङ्गं महा-दुज्जयं  
 दुद्धरं दुण्णिरिक्खं मही - मण्डलावत्त-देन्तं हयाणं वलं ॥७॥  
 हुलि-हल-मुसलग-कोन्तेहिं अद्धेन्दु-सूलेहिं वावल्ल-भल्लेहिं णाराय-  
 सल्लेहिं भिण्णं करालं ललन्तन्त-मालं अ-सीसं कबन्धं पणञ्चावियं ॥८॥

घत्ता

तहिं सुन्द-विराहिय समर-जसाहिय अवरोप्परु वड्ढन्त-कलि ।  
 पहरन्ति महा-रणे मेइणि-कारणे णं भरहेसर-वाहुवलि ॥९॥

[ १८ ]

दुवई

चन्दणहाएँ ताव जुज्जन्तु णिवारिउ णियय-णन्दणो ।  
 'दीसइ ओहु जोहु खर - दूसण-सम्बुकुमार-मद्दणो । १॥  
 जुज्जेवउ सुन्द ण होइ कज्जु । जावन्तहँ होसइ अण्णु रज्जु ॥२॥  
 वरि गम्पिणु सुर-पञ्चाणणासु । क्ववारउ करहु दसाणणासु ॥३॥  
 ओसरिउ सुण्डु वयणेण तेण । गउ लक्क पराइउ तक्खणेण ॥४॥

[ १७ ] सेना आती हुई देखकर खर-दूषणका वीर पुत्र प्रचंड सुण्ड उसका निवारण करनेके लिए तैयारी करने लगा । हाथोंमें अस्त्र लेकर वह आकर द्वारपर जम गया । रणमुखमें अत्यन्त भयङ्कर सुण्डके स्थित होते हो रामका सेना-समुद्र उबल पड़ा । दोनों सेनाओंमें कल-कल ध्वनि होने लगी । अत्यन्त भयङ्कर तथा उत्कट हाहारव मच गया । सैकड़ों शङ्ख, कंसाल, काहल, टहनी, झल्लरी, मृदङ्ग आदि वाद्यों, मम्भीस, भेरी, सरुञ्ज, और हुडुक्का कोलाहल पूरित हो उठा । सज्जित मद भरते और गरजते हुए गजोंके घण्टोंसे भीषण रव उठा । वक्षस्थलोंमें आहत होकर समर्थ पैदल सेना धराशायी होने लगी । सुन्दर रथचक्रोंकी कतारें धरतीमें धँसने लगी । टूटती हुई पताकाओंके स्वर्णिम दण्डों और चामरोंकी कान्ति चमक उठी । रथकी पीठके साथ योधा गिरने लगे । चपलाङ्ग महान्, अजेय, दुदर्शनीय, हिनहिनाते और कान खड़े किये हुए अश्व धरती पर मंडलावर्त बना रहे थे । हलि, हल, मूसलाग्र, भाला, अर्धचन्द्र, शूल, वावल्ल, भाला, वाण और शल्योंसे भिन्न कराल मस्तकहीन धड़ धरतीपर अपनी मालाओंको हिलाते हुए नाचने लगे । इस प्रकार उस तुमुल युद्धमें यशस्वी विराधित और सुण्डके बीच घमासान भिड़न्त हुई । ठीक उसी तरह, जिस तरह धरतीके लिए, भरत और बाहुबलिके बीच हुई थी ॥१-६॥

[ १८ ] परन्तु चन्द्रनखा ( खरकी पत्नी ) ने बीचमें ही अपने पुत्रको यह कहकर युद्धसे विरत कर दिया कि शम्बूक और खर-दूषणका हत्यारा लक्ष्मण दिखाई दे रहा है, इस प्रकार लड़नेसे काम नहीं चलेगा । जीवित रहने पर तुम्हें दूसरा राज्य मिल जायगा । अच्छा हो तुम सुरसंहारक रावणके पास जाकर गुहार करो । माँके कहने पर सुण्ड युद्धसे विमुख हो गया । उसने तुरन्त

एत्थु स-विराहिउ पइट्ठु रामु । णं कामिणि-जणु मोहन्तु कामु ॥५॥  
 खर-दूसण - मन्दिरें पइसरेवि । चन्दोयर - पुत्तहों रज्जु देवि ॥६॥  
 साहारु ण वन्धइ कहि मि रामु । वइदेहि-विओएं खामु खामु ॥७॥  
 रह-तिक - चउकॅहिं परिभमन्तु । दीहिय - विहार - मढ परिहरन्तु ॥८॥  
 गउ ताम जाम जिण-भवणु दिट्ठु । परिअञ्जैवि अब्भन्तरें पइट्ठु ॥९॥

घत्ता

जिणवरु णिज्जाएँ वि चित्तं भाएँवि जाइ णिरारिउ विउलमइ ।  
 आहुँहँ भासँहिं थोत्त-सहासँहिं थुअउ स यं भु वणाहिवइ ॥१०॥

●

## [ ४१. एकचालीसमो संधि ]

स्वर-दूसण गिल्लेवि चन्दणहिहें तित्ति ण जाइय ।  
 णं खय-काल-छुह रावणहों पडीवी धाइय ॥

[ १ ]

सम्बुकुमार-वीरें अत्थन्तएँ । खर-दूसण-संगामें समत्तएँ ॥१॥  
 दूरोसारिएँ सुन्द-महव्वलें । तमलङ्कार-णयरु गएँ हरि-वल्लें ॥२॥  
 एत्थएँ असुर-मल्लें सुर-डामरें । लङ्काहिवें बहु-लद्ध-महावरें ॥३॥  
 पर-वल - वल - पवाणाहिन्दोलणें । वइरि - समुद्द - रउद्द - विरोलणें ॥४॥  
 मुक्कङ्कुस- मयगल - गलथल्लणें । दाण-रणङ्गणें हत्थुत्थल्लणें ॥५॥  
 विहडिय-भड-थड-किय-कडमइणें । कामिणि- जण-मख - णयणाणन्दणें ॥६॥  
 सीयएँ सहुँ सुरवर-संतावणें । छुडु छुडु लङ्क पइट्ठएँ रावणें ॥७॥  
 तहिं अवसरें चन्दणहि पराइय । णिवडिय कम-कमल्लेहिं दुह-घाइय ॥८॥

ही लङ्काके लिए प्रस्थान किया। इधर तमलङ्कार नगरमें रामने विराधितके साथ वैसे ही प्रवेश किया जैसे काम कामिनीजनमें प्रवेश करता है। खर-दूषणके भवनमें जाकर विराधितने राजपाट सौंप दिया। परन्तु राम किसी भी प्रकार अपनेको सान्त्वना नहीं दे पा रहे थे। सीताके वियोगमें वह क्षीणतम हो रहे थे। राज्य त्रिपथ और चतुष्पथोंमें भ्रमण करते हुए वह विशाल विहार और मठोंको छोड़ते हुए एक जिन-मन्दिरमें पहुँचे। तीन बार उसकी प्रदक्षिणा देकर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। वहाँ जिनवरका दर्शन और ध्यानकर विमल बुद्धि राम एकदम निराकुल हो गये। अपभ्रष्ट (अपभ्रंश) भाषाओंमें हजारों श्लोकोंसे वनपति रामने स्वयं जिनकी स्तुति की ॥१-६॥



### इकतालीसवीं सन्धि

खरदूषणके मारे जानेपर भी चन्द्रनखाको तृप्ति नहीं हुई। क्षयकालकी भूखकी तरह, वह रावणके पास दौड़ी गई।

[ १ ] उधर वीर शम्बूकका अन्त हो चुका था खरदूषण भी युद्धमें समाप्तप्राय थे। वीर सुण्डकी सेना हट चुकी थी। राम और लक्ष्मण ससैन्य तमलङ्कार नगरमें प्रवेश कर चुके थे। इधर देव-भयंकर, निशाचर, वीर रावण भी अनेक वर प्राप्त कर चुका था। वह अत्यन्त ही समर्थ था, सेनारूपी पवनको आन्दोलित करनेमें, भयंकर शत्रु-समुद्रके मंथनमें, निरङ्कुश-गजोंको वश करनेमें, दान-युद्धमें, मुक्तदान करनेमें, विघटित भटसमूहको कुचलनेमें, कामिनियोंके मन और नेत्रोंको आनन्द देनेमें। सुरपीडक उसने सीताके साथ जिस समय लंकामें प्रवेश किया, उसी समय दुखकी

## घत्ता

सम्बुकुमारु मुउ खर-दूसण जम-पहँ लाइय ।  
पहँ जीवन्तएँ ण एही अवत्थ हउँ पाइय' ॥६॥

[ २ ]

तं चन्दणहिहँ वयणु दयावणु । गिसुणँवि थिउ हेट्टामुहु रावणु ॥१॥  
णं मयलब्बणु णिप्पहु जायउ । गिरि व दवगि-दड्ढु विच्छायउ ॥२॥  
णं मुणिवरु चारित्त-विभट्टउ । भविउ व भव-संसारहँ तट्टउ ॥३॥  
वाह-भरन्त-णयणु मुह-कायरु । गहँण गहिउ णं हूउ दिवायरु ॥४॥  
दुक्खु दुक्खु दुक्खेणामेल्लिउ । सयण-सणेहु सरन्तु पवोल्लिउ ॥५॥  
'घाइउ जेण सम्बु खरु दूसणु । तं पट्टवमि अज्जु जमसासणु ॥६॥  
अहवइ एण काइँ माहप्पेँ । को ण मरइ अपूरेँ मप्पेँ ॥७॥  
धीरि होहि पमायहि सोओ । कासु ण जम्मण-मरण-विओओ ॥८॥

## घत्ता

को वि ण वज्जमउ जाएं जीवेँ मरिएवउ ।  
अहँहिँ तुहँहिँ मि खर-दूसण-पहँ जाएवउ ॥६॥

[ ३ ]

धीरेँ वि णियय वहिणि सिय-माणु । रयणिहिँ गउ सोवणएँ दसाणु ॥१॥  
वर-पल्लङ्के चडिउ लङ्केसरु । णं गिरि-सिहरँ मइन्दु स-केसरु ॥२॥  
णं विसहरु णीसासु मुअन्तउ । णं सज्जणु खल-खेइज्जन्तउ ॥३॥  
सीया-मोहँ मोहिउ रावणु । गायइ वायइ पढइ सुहावणु ॥४॥  
णबइ हसइ वियारेँहिँ भज्जइ । णिय-भूअहुँ जि पडीवउ लज्जइ ॥५॥  
दंसण - णाण - चरित्त - विरोहउ । इह-लोयहँ पर-लोयहँ दोहउ ॥६॥

मारी चन्द्रनखा भी उसके निकट पहुँची। चरणोंमें गिरकर वह बोली, “शम्बूक कुमार मारा गया, खरदूषणने भी यमका रास्ता नाप लिया है। आपके जीते जी मेरी यह दशा” ॥१-६॥

[ २ ] चन्द्रनखाके दीन हीन वचनोंको सुनकर, दशानन शीश झुकाकर ऐसे रह गया मानो चन्द्र ही कान्तिसे हीन हो उठा हो, या पर्वत दावानलमें जलकर प्रभाहीन हो उठा हो। या मुनि ही चरित्रसे भ्रष्ट हो गया हो, या भव्य जीव संसारसे त्रस्त हो उठा हो। उसकी आँखोंसे अश्रु प्रवाह निरन्तर जारी था। उसका मुख एकदम कातर हो उठा मानो सूर्य ही राहुसे ग्रस्त हो गया हो। बड़े कष्टसे किसी प्रकार अपने दुखको दूरकर, दशानन स्वजनके स्नेह स्वरमें बोला, “कुमार शम्बूक और खरदूषणका जिसने वध किया है मैं उसे आज ही यमके शासनमें भेज दूँगा। अथवा इस माहात्म्यसे क्या। (अपूरे माप ??) असमयमें कौन नहीं मरता। धीरज धारण करो। शोक छोड़ो। जन्म जरा मरण और वियोग किसे नहीं होता, वज्रसे कोई नहीं बनता। जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य। हम तुम भी (एक दिन) आखिर खरदूषणके पदपर जायँगे ॥१-६॥

[ ३ ] लक्ष्मीका अभिमानी रावण अपनी बहिनको समझा बुझाकर रातको सोनेके लिए गया। वह लंकेश्वर उत्तम पलंगपर चढ़ा मानो अयाल सहित मृगेन्द्र ही गिरिशिखर पर चढ़ा हो, मानो विषधर ही निश्वास छोड़ रहा हो, या दुष्टजनोंसे सताया हुआ सज्जन ही हो। सीताके मोहमें विह्वल होकर रावण कभी गाता, कभी बजाता, कभी सुहावने ढंगसे पढ़ने लगता, नाचता और हँसता। इस प्रकार वह विकारग्रस्त हो रहा था। इन्द्रियसुखकी आकांक्षामें वह उल्टा लज्जित हो रहा था। दर्शन ज्ञान और



मलण-परव्वसु एउ ण जाणइ । जिह संघारु करेसइ जाणइ ॥७॥  
अच्छइ मयण-सरें हिं जजरियउ । खर-दूसण-णाउ मि वीसरियउ ॥८॥

घत्ता

चिन्तइ दहवयणु 'धणु धणु सुवणु समत्थउ ।

रज्जु वि जीविउ वि विणु सीयएँ सच्चु णिरत्थउ' ॥९॥

[ ४ ]

तहिँ अवसरें भाइय मन्दोवरि । सीहहों पासु व सीह-किसोयरि ॥१॥  
वर-गणियारि व लीला-गामिणि । पियमाहविय व महुरालाविणि ॥२॥  
सारङ्गि व विष्कारिय-णयणी । सत्तार्वासंजोयण-वयणी ॥३॥  
कलहंसि व थिर-मन्थर-गमणी । लच्छि व तिय-रूवें जूरवणी ॥४॥  
अह पोमाणिहें अणुहरमाणी । जिह सा तिह एह वि पउरणी ॥५॥  
जिह सा तिह एह वि बहु-जाणी । जिह सा तिह एह वि बहु-माणी ॥६॥  
जिह सा तिह एह वि सुमणोहर । जिह सा तिह एह वि पिय-सुन्दर ॥७॥  
जिह सा तिह एह वि जिण-सासणें । जिह सा तिह एह वि ण कु-सासणें ॥८॥

घत्ता

किं बहु जम्पिएँ ण उवमिज्जइ काहें किसोयरि ।

णिय-पडिच्छन्दएँ ण थिय सइँ जेणाइँ मन्दोयरि ॥९॥

[ ५ ]

तहिँ पल्लङ्के चडें वि रज्जेसरि । पभणिय लङ्कापुर - परमेसरि ॥१॥  
'अहों दहमुह दहवयण दसाणण । अहों दससिर दसास सिय-माणण ॥२॥  
अहों तइलोक - चक्र-चूडामणि । वइरि - महीहर - खर-वज्जासणि ॥३॥  
वीसपाणि णिसियर-णरकेसरि । सुर-मिग-वारण दारण-अरि-करि ॥४॥  
पर - णरवर - पायार-पलोट्टण । दुइम - दाणव - वल - दलवट्टण ॥५॥  
जइयहुँ भिडिउ रणङ्गणे इन्दहों । जाउ कुल-क्खउ सज्जण-विन्दहों ॥६॥  
तहिँ वि कालँ पइँ दुक्खुण णायउ । जिह खर-दूसण-मरणें जायउ' ॥७॥

चारित्रका विरोधी इहलोक और परलोकमें दुर्भाग्यजनक और कामके अधीन वह यह नहीं जान पा रहा था कि जानकी उसका कितना विनाश करेगी । कामके बाणोंसे इतना जर्जर हो बैठा था कि खर और दूषणका नाम तक भूल गया । रावण सोचता,—“धन-धान्य, सोना, सामर्थ्य, राज्य और यहाँ तक जीवन भी, सीताके बिना सब कुछ व्यर्थ है” ॥१-६॥

[ ४ ] इसी अवसरपर उसके पास मन्दोदरी आई मानो सिंह के निकट सिंहनी आई हो । वह वन-हथिनीकी तरह लीला-पूर्वक चलनेवाली थी, प्रिय कोयलकी तरह मधुर आलाप करनेवाली थी, हिरनीकी तरह विस्फारित नेत्र थी । चन्द्रकी तरह मुखवाली थी, कल-हंसिनीकी तरह मन्थर गतिवाली, अपने स्त्रीरूपसे लक्ष्मीकी तरह सतानेवाली, इन्द्राणीकी तरह अभिमानिनी और उसीकी तरह यह पटरानी थी । जैसे वह ( इन्द्राणी ) वैसे यह भी बहुपण्डिता थी । जैसे वह वैसे यह भी सुमनोहर थी । जैसे वह, वैसे ही यह भी अपने पतिकी बहुत प्रिय थी । जैसे वह वैसे ही यह जिन-शासनको मानती थी । जैसे वह, वैसे यह भी कुशासनमें नहीं रहती थी। अधिक कहनेसे क्या उस सुन्दरीकी उपमा किससे दी जाय, अपने प्रति-उपमान के समान वही स्वयं थी ॥१-६॥

[ ५ ] पलङ्गपर चढ़कर लङ्का परमेश्वरी राजेश्वरीने कहा—“अहो दशमुख, दशवदन, दशानन, दशशिर, दशास्य, लक्ष्मीके मानी, अहो, त्रिलोकचक्रचूड़ामणि, शत्रुरूपी कुलपर्वतोंके लिए वज्र, बीस हाथवाले निशाचरराज सिंह, सुरमृगगज, शत्रुरूपी गजको नष्ट करनेवाले, शत्रुमनुष्योंकी प्राचीरको तोड़नेवाले, दुर्दम दानव सेनाको चूरनेवाले, जब तुम इन्द्रसे लड़े थे उस समय अपने कुल का कितना माथा ऊँचा हुआ था । परन्तु उस समय तुम्हें उतना

भणइ पडीवउ णिसियर-णाहो । 'सुन्दरि जइ ण करइ अवराहो ॥८॥

घत्ता

तो हउँ कहमि तउ णउ खर-दूषण-दुक्खुञ्छइ ।

एत्तिउ डाहु पर जं मइँ वइदेहि ण इच्छइ' ॥ ६ ॥

[ ६ ]

तं णिसुणेवि वयणु ससिवयणएँ । पुणु वि हसेवि वुत्तु मिगणयणएँ ॥१॥

'अहँ दहगीव जीव-संतावण । एउ अजुत्तु वुत्तु पइँ रावण ॥२॥

किं जगँ अयस-पडहु अप्फालहि । उभय विसुद्ध वंस किं मइलहि ॥३॥

किं णारइयहँ णरएँ ण वीहहि । पर-धणु पर-कलत्तु जं ईहहि ॥४॥

जिणवर-सासणँ पञ्च विरुद्धइँ । दुग्गइ जाइ णिन्ति अविमुद्धइँ ॥५॥

पहिलउ बहु छज्जाव-णिकायहुँ । वीयउ गम्मइ मिच्छावायहुँ ॥६॥

तइयउ जं पर-दव्वु लइजइ । चउथउ पर-कलत्तु सेविजइ ॥७॥

पञ्चमु णउ पमाणु घरवारहँ । आयहिँ गम्मइ भव-संसारहँ ॥८॥

घत्ता

पर-लोएँ वि ण सुहु इह-लोएँ वि अयस-पडाइय ।

सुन्दर होइ ण तिय एँय-वेसँ जमउरि आइय' ॥९॥

[ ७ ]

पुणु पुणु पिहुल-णियम्व किसोयरि । भणइ हिमयत्तणेण मन्दोयरि ॥१॥

'जं सुहु कालकूडु विसु खन्तहुँ । जं सुहु पलयाणलु पइसन्तहुँ ॥२॥

जं सुहु भव-संसारँ भमन्तहुँ । जं सुहु णारइयहुँ णिवसन्तहुँ ॥३॥

जं सुहु जम-सासणु पेच्छन्तहुँ । जं सुहु असि-पअरँ अच्छन्तहुँ ॥४॥

जं सुहु पलयाणल-मुह-कन्दरँ । जं सुहु पञ्चाणण - दाढन्तरँ ॥५॥

जं सुहु फणि-माणिककु खुडन्तहुँ । तं सुहु एह णारि भुअन्तहुँ ॥६॥

जाणन्तो वि तो वि जइ वञ्छहि । तो कज्जेण केण मइँ पुच्छहि ॥७॥

दुख नहीं हुआ था जितना खर और दूषणके वियोगमें अभी हुआ। तब निशाचरनाथने कहा—“हे सुन्दरी, यदि अपराध न माना जाय तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे खर-दूषणके मरणका कुछ भी दुख नहीं है, दुख केवल यही है कि सीता मुझे नहीं चाहती” ॥१-६॥

[ ६ ] यह वचन सुनकर शशिवदना मृगनयनी मन्दोदरीने हँसकर कहा—“अरे दशग्रीव, जीव-संतापकारी रावण, यह तुमने अत्यन्त अनुपयुक्त कहा। क्यों दुनियामें अपने अयशका डक्का पिटवाते हो, दोनों ही विशुद्ध कुलोंको क्यों कलङ्कित करते हो, नरकके नारकियोंसे क्या नहीं डरते, जो तुम परस्त्री और परधन की इच्छा करते हो। जिनवर शासनमें पाँच चीजें विरुद्ध हैं। ये दुर्गतिमें ले जानेवाली और नित्यरूपसे अशुद्ध हैं। पहले छह निकायों के जीवोंका वध, दूसरे मिथ्यात्ववाद लगाना, तीसरे पर-द्रव्यका अपहरण, चौथे परस्त्री सेवन करना और पाँचवें अपने गृहद्वार ( गृहस्थी ) का परिमाण न करना। इनसे भव—संसारमें भटकना पड़ता है, परलोकमें तो अयश फैलता ही है। स्त्री सुन्दर नहीं होती, इसके रूपमें मानो यमपुरी ही आई है” ॥१-६॥

[ ७ ] पृथुलनितम्बा कृशोदरी मन्दोदरी बार-बार हृदयसे यही कहती—“कालकूट विष खानेमें जो सुख है, जो सुख प्रलय की आगमें प्रवेश करनेमें है, जो सुख भव-सागरमें घूमनेमें है, जो सुख नारकियोंके बीच निवास करनेमें है, जो सुख यमका शासन देखनेमें है, जो सुख, तलवारकी धारपर बैठनेमें है, जो सुख प्रलयानल मुख—गुहामें प्रवेश करनेमें है, जो सुख सिंहकी दंष्ट्राके नीचे आनेमें है, जो सुख शेषनागकी फणमणि तोड़नेमें है, वही सुख इस नारीका भोग करनेमें है, जानते हुए भी यदि तुम इसे

तउ पासिउ किं कोइ वि वलियउ । जेण पुरन्दरो वि पडिखलियउ ॥८॥

घत्ता

जं जसु आवडइ तहों तं अणुराउ ण भज्जइ ।

जइ वि असुन्दरउ जं पहु करेइ तं छज्जइ' ॥९॥

[ ८ ]

तं णिसुणेवि वयणु दहवयणें । पभणिय णारि विरिस्त्रिय-णयणें ॥१॥

'जइयहुँ गयउ आसि अचलिन्दहों । वन्दण-हत्तिएँ परम-जिणिन्दहों ॥२॥

तइहु दिट्ठु एक्कु मइँ मुणिवरु । णाउँ अणन्तवीरु परमेसरु ॥३॥

तासु पासँ वउ लइउ ण भञ्जमि । मण्डएँ पर - कलत्तु णउ भुञ्जमि ॥४॥

अहवइ एण काइँ मन्दोअरि । जइ णन्दन्ति णियहि लङ्काउरि ॥५॥

जइ मग्गहि धणु धणु सुवण्णउ । राउलु रिद्धि - विद्धि-संपण्णउ ॥६॥

जइ आरुहहि तुरङ्ग-गइन्देहिँ । जइ वन्दिज्जइ वन्दिण-वन्देहिँ ॥७॥

जइ मग्गहि णिक्कण्टउ रज्जु । जइ किर मइँ वि जियन्तेण कज्जु ॥८॥

घत्ता

सयलन्तेउरहों जइ इच्छहि णउ रण्डत्तणु ।

तो वरि जाणइहें मन्दोयरि करँ दूअत्तणु' ॥९॥

[ ९ ]

तं णिसुणें वि वयणु दहवयणहों । पभणिय मन्दोयरि पुरि मयणहों ॥१॥

'हो हो सव्वु लोउ जगें दूहउ । पइँ मेल्लेविणु अणु ण सूहउ ॥२॥

सुरकरि-अहिसिद्धिय-सिय-सेविहें । जो आएसु देहि महएविहें ॥३॥

एव वि करमि तुम्हारउ वुत्तउ । पहु-छन्देण अजुत्तु वि जुत्तउ' ॥४॥

ए आलाव परोप्परु जावेंहिँ । रयणिहें चउ पहरा हय तावेंहिँ ॥५॥

अरुणुग्गमँ अच्चन्त-किसोयरि । सोयहें दूई गय मन्दोयरि ॥६॥

सहुँ अन्तेउरेण उद्धूसिय । गणियारि व गणियारि-विहूसिय ॥७॥

चाहते हो, तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो, तुझसे अधिक बलवान् और कौन है। तुमने तो इन्द्रप्रभको परास्त कर दिया। जिसपर जो आ पड़ता है उससे उसका प्रेम नष्ट नहीं होता? यद्यपि यह अशोभन है फिर भी आप जो करेंगे वह शोभा ही देगा।

[ ८ ] यह वचन सुनकर विशालनयन रावणने अपनी पत्नीसे कहा, “जब मैं जिनको वन्दना-भक्तिके लिए मन्दराचल पर्वतपर गया हुआ था तो वहाँ अनन्तवीर्य नामक मुनिसे मेरी भेंट हुई थी, उनसे मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसका मैं बलपूर्वक भोग नहीं करूँगा। अथवा इससे क्या? हे मन्दोदरी, यदि तुम इस लङ्का-नगरीमें आनन्द करना चाहती हो, यदि धन-धान्य सुवर्णकी इच्छा करती हो, यदि ऋद्धि और वृद्धिसे पूर्ण राज्यका भोग करना चाहती हो, यदि तुरङ्ग और गजोंपर बैठना चाहती हो, यदि वन्दीजनोंसे अपनी स्तुति करवाना चाहती हो, यदि निष्कण्टक राज्य चाहती हो, यदि मुझे भी जीवित देखना चाहती हो, और यदि यह भी चाहती हो कि समूचे अन्तःपुरका रङ्गापा न आये तो जानकीके पास जाकर मेरा दौत्य-कार्य कर दो” ॥१-६॥

[ ९ ] यह वचन सुनकर, कामकी नगरीके समान मन्दोदरीने कहा, “हो हो, सब लोक दुखद है, तुम्हे छोड़कर मुझे अन्य कुछ भी सुभग नहीं है, ऐरावत द्वारा अभिषिक्त, श्रीसे सेवित, इस महादेवीको आप जो भी आज्ञा देंगे, वह मैं अवश्य करूँगी। क्योंकि पतिके स्वार्थके लिए अनुचित भी उचित होता है। इस प्रकारकी बातें होते-होते रातके चारों पहर बीत गये। सूर्योदय होते ही मन्दोदरी सीतादेवीके निकट दूती बनकर गई। अपने अन्तःपुरके साथ वह वैसी ही विभूषित थी जैसे हथिनियोंसे

वणु गिन्वाणरवणु संपाइय । राहव-घरिणि तेथु णिउक्काइय ॥८॥

घत्ता

वे वि मणोहरिउ रावण-रामहुँ पिय-गारिउ ।

दाहिण-उत्तरेंण णं दिस-गइन्द-गणियारिउ ॥९॥

[ १० ]

राम-घरिणि जं दिट्ठु किसोयरि । हरिसियं णिय-मणेण मन्दोयरि ॥१॥

‘अहिणव-गारि-रयणु अवइण्णउ । एउ ण जाणहुँ कहिँ उप्पण्णउ ॥२॥

सुरहु मि कामुक्कोयण-गारउ । मुणि-मण-मोहणु णयण-पियारउ ॥३॥

साहु साहु णिउणोऽसि पयावइ । तुह विण्णाण-सत्ति को पावइ ॥४॥

अह किं वित्थरेण बहु-वोत्तए । सइँ कामो वि पडइ कामिल्लए ॥५॥

कवणु गहणु तो लङ्का-राएँ । एम पसंसँवि मणँ अणुराएँ ॥६॥

पिय-वयणेहिँ दसाणण-पत्तिएँ । वुच्चइ राम-घरिणि विहसन्तिएँ ॥७॥

‘किं बहु-अम्पिण्ण परमेसरि । जीविउ एक्कु सहलु तउ सुन्दरि ॥८॥

घत्ता

सुरवर-डमर-करु तइलोकक-चक्क-संतावणु ।

काइँ ण अत्थि तउ जहँ आणवडिच्छउ रावणु’ ॥९॥

[ ११ ]

इन्दइ - भाणुक्कण - घणवाहण । अक्खय-मय-मारिच्च - विहीसण ॥१॥

जं चलणेहिँ धिवहि आरुसँवि । तं सांसेण लयन्ति असेस वि ॥२॥

अण्णु वि सयलु एउ अन्तेउरु । सालङ्कारु स-दोरु स-णेउरु ॥३॥

अट्टारह सहास वर-विलयहुँ । णिच्च-पसाहिय-सोहिय - तिलयहुँ ॥४॥

आयहुँ सव्वहुँ तुहुँ परमेसरि । णीसावण्णु रज्जु करि सुन्दरि ॥५॥

रावणु मुएँ वि अण्णु को चङ्गउ । रावणु मुएँ वि कवणु तणु-अङ्गउ ॥६॥

रावणु मुएँ वि अण्णु को सूरउ । पर-वल-महणु कुलासा-पूरउ ॥७॥

विभूषित हथिनी होती है। वह नन्दन वनमें पहुँची। वहाँ उसे रामकी पत्नी सीतादेवी दिखाई दी। उस अवसर पर राम और रावणकी सुन्दर पत्नियाँ ऐसी शोभित हो रहीं थीं मानो दक्षिण तथा उत्तरके दिग्गजोंकी हथिनियाँ ही हों ॥१-६॥

[ १० ] कृशोदरा रामकी पत्नी सीताको देखकर मन्दोदरी मन ही मन खूब प्रसन्न हुई, वह सोचने लगी, “यह तो अद्भुत नारी-रत्न अवतीर्ण हुआ है। यह कहाँ उत्पन्न हुई, यह तो देवोंको भी काम उत्पन्न करनेवाली, मुनियोंका मन मोहित करनेवाली अत्यंत नयनप्रिय है। साधु, साधु, विधाता ! तुम बहुत चतुर हो, तुम्हारी विज्ञानकलाको कौन पा सकता है। अथवा बहुत कहनेसे क्या, इसे देखकर तो साक्षात् काम भी कामासक्त हो सकता है। रावण द्वारा इसका ग्रहण कैसे हो। मन ही मन अनुरागसे इस तरह उनकी प्रशंसा कर, रावणकी पत्नी मन्दोदरीने हँसकर रामकी पत्नी सीतादेवीसे प्रिय वचनोंमें कहा, “हे परमेश्वरी, बहुत कहनेसे क्या, एक तुम्हारा ही जीवन ( दुनियामें ) सफल है। तुम्हारा ( अब ) क्या नहीं है जो सुरवरोंको भ्रम उत्पन्न करनेवाला, त्रिलोक चक्र-संतापक, रावण भी तुम्हारा आज्ञाकारी है ॥१-६॥

[ ११ ] इन्द्रजीत, भानुकर्ण, घनवाहन, अक्षय, मय, मारीच और विभीषण, जिस किसीको अपने पैरोंसे ठुकरा देते हैं, वे ही सब रावणको अपने सिर-माथे लेते हैं। और भी यह समस्त, अलंकार, डोर और नूपुरोंसे सहित, अन्तःपुर है तथा उत्तम चूड़ियों और नित्य सजाये गये तिलकोंवाली अठारह हजार सुन्दर स्त्रियाँ हैं। भाग्यशील ये सब तुम्हारी हैं, तुम इनपर शासन करो, ( अच्छा तुम्हीं बताओ ) रावणको छोड़कर, अन्य कौन, शत्रुसेनाका संहारक, अपने कुलका आशापूर्वक है। रावणके



रावणु मुएँ वि अण्णु को वलियउ । सुरवर-णियरु जेण पडिखलियउ ॥८॥  
 रावणु मुएँ वि अण्णु को भल्लउ । जो तिहुयणहोँ मल्लु एक्कल्लउ ॥९॥  
 रावणु मुएँ वि अण्णु को सूहउ । जं आपेक्खँ वि मयणु वि दूहउ ॥१०॥

घत्ता

तहोँ लङ्केसरहोँ कुवलय-दल-दीहर-णयणहोँ ।  
 भुअहि सयल महि महएवि होहि दहवयणहोँ' ॥११॥

[ १२ ]

तं तहँ कडुअ-वयणु आयणँ वि । रावणु जीविउ तिण-समु मणँ वि ॥१॥  
 सोल-वलेण वलिय णउ कम्पिय । रूसँ वि णिट्ठुर वयण पजम्पिय ॥२॥  
 'हलँ हलँ काइँ काइँ पइँ वुत्तउ । उत्तिम-णारिहँ एउ ण जुत्तउ ॥३॥  
 किह दइयहोँ दूअत्तणु किज्जइ । एण णाइँ महु हासउ दिज्जइ ॥४॥  
 मन्हुडु तुहुँ पर-पुरिस-पइदी । तँ कज्जेँ महु देहि दुवुद्धि ॥५॥  
 मत्थएँ पडउ वज्जु तहोँ जारहोँ । हउँ पुणु भत्तिवन्त भत्तारहोँ' ॥६॥  
 सीयहँ वयणु सुणँ वि मणँ डोह्लिय । णिसियर-णाह-णारि पडिवोह्लिय ॥७॥  
 'जइ महएवि-पट्टू ण पडिच्छहि । जइ लक्काहिउ कह वि ण इच्छहि ॥८॥

घत्ता

तो कन्दन्ति पइँ तिलु तिलु करवत्तँहिँ कप्पइ ।  
 अण्णु मुहुत्तएँ ण णिसियरहँ विहब्जेँ वि अप्पइ' ॥९॥

[ १३ ]

पुणुपुणुरुत्तँहिँ जणयहोँ धीयएँ । णिब्भच्छिय मन्दोवरि सीयएँ ॥१॥  
 'केत्तिउ वारवार वोह्लिज्जइ । जं चिन्तिउ मणेण तं किज्जइ ॥२॥  
 जइ वि अज्जु करवत्तँहिँ कप्पहोँ । जइ वि धरँ वि सिव-साणहोँ अप्पहोँ ॥  
 जइ वि वलन्तँ हुआसणँ मेह्लहोँ । जइ वि महग्गय-दन्तँहिँ पेह्लहोँ ॥४॥  
 तो वि खलहोँ तहोँ दुक्किय-कम्महोँ । पर-पुरिसहोँ णिवित्ति इह जम्महोँ ॥५॥  
 एक्कु जि णिय-भत्तारु पहुच्चइ । जो जय-लच्छिणँ खणु वि ण मुच्चइ ॥६॥

सिवाय, कौन ऐसा बलवान है जिसने सुरसमूहको सहसा परास्त कर दिया हो, तोनों लोकोंमें रावणको छोड़कर दूसरा वीर नहीं। रावणके अतिरिक्त और कौन सुभग है जिसे देखकर कामदेव भी विकल हो उठता है। तुम, कमलदलकी तरह विशालनयन लंकेश्वर उस रावणकी समस्त धरतीका भोग करो” ॥१-११॥

[ १२ ] रानी मन्दोदरीकी इन कड़वी बातोंको सुनकर भी सीताने रावणको तिनके की तरह तुच्छ समझा और अपने शीलके तेजसेवह जरा भी नहीं डरी। और क्रुद्ध होकर वह एकदम कठोर शब्दोंमें बोली,—“हला-हला, तुमने क्या कहा, एक भद्र महिलाके लिए यह उचित नहीं है, तुम रावणका दूतीपन क्या कर रही हो। इस तरह मेरी हँसी मत उड़ाओ, जान पड़ता है तुम्हारी किसी परपुरुषमें इच्छा है, इसीसे यह दुर्वुद्धि मुझे दे रही हो। तुम्हारे यारके माथे पर वज्र पड़े, मैं तो अपने ही पतिमें दृढ़ भक्ति रखती हूँ।” सीताके वचन सुनकर मन्दोदरीका मन चञ्चल हो उठा। उसने कहा, “यदि तुम महादेवीका पट्ट नहीं चाहती, यदि तुम लंका-नरेशको किसी भी तरह नहीं चाहती, तो क्रन्दन करती हुई तुम्हें करपत्रसे तिल-तिल काटा जायगा, और दूसरे ही क्षण, निशाचरोंको बाँट दी जाओगी ॥१-६॥

[ १३ ] तब जनककी पुत्री सीताने बार-बार मन्दोदरीको भर्त्सना करते हुए कहा, “बार-बार कितना बोलती हो जो तुम्हारे मनमें हो वह कर डालो, यदि तुम आज ही करपत्रसे काट दो, यदि तुम आज ही पकड़कर शानपर चढ़ा दो, यदि जलती हुई आगमें डाल दो, यदि गजराजके दाँतोंके आगे ठेल दो, तो आज ही, उस दुष्टके पापकर्म और परपुरुषसे इस जन्ममें ही छूट जाऊँगी। मुझे वही एक, अपना पति पर्याप्त है जिसे विजयलक्ष्मी कभी

जो असुरा-सुर-जण-मण-वल्लहु । तुम्हारिसहुँ कुणारिहिँ दुल्लहु ॥७॥

जो णरवर-मइन्दु भीसावणु । धणु-लङ्गूल-लील-दरिसावणु ॥८॥

घत्ता

सर-णहरारुणें धणुवेय-ललाविय-जीहें ।

दहमुह-मत्त-गउ फाडेवउ राहव-सीहें' ॥९॥

[ १४ ]

रामण - रामचन्द - रमणीयहुँ । जाम वोह्ल मन्दोवरि-सीयहुँ ॥१॥

ताव दसाणणु सयमेवाइउ । हत्थि व गङ्गा-वेणि पराइउ ॥२॥

भसलु व गन्ध-लुद्धु विहडप्फहु । जाणइ-वयण-कमल-रस - लम्पडु ॥३॥

करयल धुणइ भुणइ वुक्कारइ । खेड्डु करेवि देवि पच्चारइ ॥४॥

विण्णत्तिएँ पसाउ परमेसरि । हउँ कवणेण हीणु सुर-सुन्दरि ॥५॥

किं सोहग्गें भोग्गें ऊणउ । किं विरुयउ किं अत्थ-विहूणउ ॥६॥

किं लावण्णें वण्णें हीणउ । किं संमाणें दाणें रणें दीणउ ॥७॥

कहे कज्जेण केण ण समिच्छहि । जें महएवि-पट्टु ण पडिच्छहि' ॥८॥

घत्ता

राहव-गेहिणिएँ णिब्भच्छिउ णिसियर-राणउ ।

'ओसरु दहवयण तुहुँ अम्हहुँ जणय-समाणउ ॥९॥

[ १५ ]

जाणन्तो वि तो वि मं मुज्झहि । गेण्हें वि पर-कलत्तु कहिँ सुज्झहि ॥१॥

जाम ण अयस-पडहु उब्भासइ । जाम ण लङ्काणयरि विणासइ ॥२॥

जाम ण लक्खण-सीहु विरुज्झइ । जाम ण राम-कियन्तु विवुज्झइ ॥३॥

जाम ण सरवर-धोरणि सन्धइ । जाम ण तोणा-जुअलु णिवन्धइ ॥४॥

जाव ण वियड-उरत्थलु भिन्दइ । जाव ण वाहुदण्ड तउ छिन्दइ ॥५॥

सरवरें हंसु जेम दल-विमलइँ । जाव ण तोडइ दस-सिर-कमलइँ ॥६॥

नहीं छोड़ती, जो सुर और असुरोंके मनको प्रिय है, और जो तुम जैसी खोटी स्त्रियोंके लिए दुर्लभ है। वह मनुष्योंमें सिंह है जो धनुषकी पूँछसे अपनी लीला दिखाता है, वाणरूपी अरुणनखोंसे सहित, धनुषकी चपल जीभवाला रामरूपी सिंह रावणरूपी मद-गजको अवश्य विदीर्ण करेगा” ॥१-६॥

[ १४ ] राम तथा रावणकी पत्नियाँ ( सीता और मन्दोदरी ) में इस तरह बातें हो रही थीं कि इतनेमें दशानन ऐसा आ धमका मानो गङ्गा नदीके तटपर हाथी आ गया हो या जानकीके मुखरूपी कमलका लम्पट गन्धलुब्ध भ्रमर ही व्याकुल हो उठा हो। हाथ बजाता, ध्वनि करता और कुछ बुदबुदाता और क्रीड़ा करके पुकारता हुआ वह बोला—“देवी, परमेश्वरी ! मुझपर कृपा करो, मैं किसी बातमें हीन हूँ क्या ? सौभाग्य या भोगमें हीन हूँ क्या ? या अर्थ हीन हूँ ? क्या सौन्दर्य या रङ्गमें कम हूँ, क्या सम्मान, दान, युद्ध की दृष्टिसे हीन हूँ, कहो किस कारणसे तुम मुझे नहीं चाहती ? और जिससे तुम महादेवीके पदकी भी इच्छा नहीं करती ।” तब राघवकी गृहिणी सीताने रावणकी भर्त्सना करते हुए कहा—“रावण मेरे सामनेसे हट, तू मुझे पिताके बराबर है” ॥१-६॥

[ १५ ] जानकर भी तुम मुझपर मोहित हो रहे हो, परन्तु ग्रहण करके कैसे शुद्ध होओगे, इसलिए जब तक तुम्हारी अकीर्तिका डंका नहीं पिटता, जब तक लंका नगरी नहीं ध्वस्त होती, जब तक लक्ष्मण रूपी सिंह क्रुद्ध नहीं होता, जब तक रामरूपी कृतान्त इसे नहीं जान पाते, जब तक वह तीरोंकी धाराका संधान नहीं करते, जब तक दोनों तरफस नहीं बाँधते, जब तक तुम्हारा विकट उरस्थल नहीं भेदते, जब तक तुम्हारा बाहुदण्ड छिन्न-भिन्न नहीं करते, जब तक सरोवरमें हंसकी तरह दलमल नहीं करते, जब

जाम ण गिद्ध-पन्ति णिव्वट्टइ । जाम ण णिसियर-वल्लु आवट्टइ ॥७॥  
जाम ण दरिसावइ धय-चिन्धइ । जाम ण रणे णञ्चन्ति क्वन्धइ ॥८॥

घत्ता

जाम ण आहयणे कप्पिज्जहि वर-णारायहि ।  
ताव णराहिवइ पडु राहवचन्दहो पायहि ॥९॥

[ १६ ]

तं णिसुणेवि आरूट्ठु दसाणणु । णं घणे गज्जमाणे पञ्चाणणु ॥१॥  
कोवाणल-पलित्तु लङ्केसरु । चिन्तइ विजाहर-परमेसरु ॥२॥  
'किं जम-सासण-पन्थे लायमि । किं उवसग्गु किं पि दरिसावमि ॥३॥  
अवसे भव-वसेण इच्छेसइ । महु मयणग्गि समुत्थावेसइ' ॥४॥  
तहि अवसे स-तुरङ्गु सरहवरु । गउ अत्थवणहो ताम दिवायरु ॥५॥  
आय रत्ति णाणाविह-रुवेहि । अट्टहास मेल्लन्तेहि भूएहि ॥६॥  
खर-साणउल- विराल-सियालेहि । वहु-चामुण्ड - रुण्ड - वेयालेहि ॥७॥  
रक्खस-सीह-वग्घ-गय - गण्डेहि । मेस-महिस-वस-तुरय-णिसण्डेहि ॥८॥  
तं उवसग्गु णिएवि भयावणु । तो वि ण सीयहे सरणु दसाणणु ॥९॥  
घोरु रउद्दु ऋणु संचूरेवि । थिय मणे धम्म-भाणु आऊरेवि ॥१०॥

घत्ता

'जाव ण णीसरिय उवसग्ग-भयहो गम्भीरहो ।  
ताव णिवित्ति महु चउविह-आहार-सरीरहो ॥११॥

[ १७ ]

पहय पओस पणासेवि णिग्गय । हत्थि-हड व्व सूर-पहराहय ॥१॥  
णिसियरि व्व गय घोणावङ्किय । भग्ग-मडप्पर माण-कलङ्किय ॥२॥  
सूर-भएण णाइ रणु मेल्लेवि । पइसइ णयरु कवाडइ पेलेवि ॥३॥

तक तुम्हारा दस मुखरूपी कमल नहीं तोड़ते, जब तक गीधोंकी पाँत नहीं झपटती, जब तक निशाचर-सेना नहीं मथी जाती, जब तक उनके ध्वजचिह्न नहीं दीख पड़ते, जब तक युद्ध-स्थलमें कबन्ध नहीं नाचते, जब तक तुम युद्धमें बाणोंसे नहीं काटे जाते तब तक, हे राजन् ! तुम रामके पैरोंमें पड़ जाओ” ॥१-६॥

[ १६ ] यह सुनकर रावण क्रुपित हो उठा, वैसे ही जैसे मेघ गरजने पर सिंह गरज उठता है । कोपकी ज्वालासे प्रदीप्त होकर, विद्याधरोंका राजा और लंकाधिपति रावण सोचने लगा— “क्या इसे यमके शासन पथपर भेज दूँ, या किसी घोर उपसर्गका प्रदर्शन करूँ, अवश्य ही यह उस समय मुझे चाहने लगेगी और मेरी कामज्वालाका शमन करेगी ।” ठीक उसी समय रथ और अश्वोंके साथ, सूर्यका अस्त हो गया । नाना रूपोंसे रात आ पहुँची, भूत अट्टहास करने लगे, खर (गधा) श्वानकुल, शृगाल, चामुण्ड, रुण्ड, बेताल, राक्षस, सिंह, गज, मेंढा, मेघ, महिष, बैल, तुरग और निसुण्डोंसे उपसर्ग होने लगा । उस भयङ्कर उपसर्गको देखकर भी रावणको सीताकी शरण नहीं मिली । घोर रौद्र ध्यानको दूरकर, वह धर्मध्यानकी अवधारणाकर अपने मनमें लीन होकर बैठ गई । और उसने यह नियम ले लिया कि जब तक मैं गम्भीर उपसर्ग-भयसे मुक्त नहीं होती तब तक चार प्रकारके आहारसे मेरी निवृत्ति है ॥१-११॥

[ १७ ] रातका प्रहर नष्ट होकर वैसे ही चला गया जैसे शूरवीरके प्रहारसे आहत होकर गजघटा चली जाती है, रात, मन्त्रोंसे ताड़ित, भग्न अहङ्कार, और मान कलङ्कित करनेवाली निशाचरीकी तरह चली गई । सूरके भयसे मानो वह रण छोड़कर किवाड़ोंको धक्का देकर नगरमें प्रवेश कर रही थी । शयन-स्थानमें

दीवा पज्जलन्ति जे सयणें हिं । णं णिसि वल्लेवि णिहालइ णयणें हिं ॥४॥  
 उट्ठिउ रवि अरविन्दाणन्दउ । णं महि-कामिणि-केरउ अन्दउ ॥५॥  
 णं सञ्जाएँ तिलउ दरिसाविउ । णं सुकइहँ जस-पुञ्जु पहाविउ ॥६॥  
 णं मम्भास देन्तु वल-पत्तिहँ । पच्छल्लेँ णाइँ पधाइउ रत्तिहँ ॥७॥  
 णं जग-भवणहों वोहिउ दीवउ । णाइँ पुणु वि पुणु सो जे पडीवउ ॥८॥

घत्ता

तिहुअण-रक्खसहों दारेंवि दिसि-वहु-मुह-कन्दरु ।  
 उवरें पईसरेंवि णं सीय गवेसइ दिणयरु ॥९॥

[ १८ ]

रयणिहँ तिमिर-णियर-रएँ भग्गएँ । णिव रावणहों आय ओलगएँ ॥१॥  
 मय - मारिच्च - विहीसण - राणा । अवरें वि भुवणेक्केक-पहाणा ॥२॥  
 खर-दूसण-सोएण णयाणण । णं णिक्केसर वर पञ्चाणण ॥३॥  
 णिय-णिय-आसणेहिं थिय अविचल । भग्ग-विसाण णाइँ वर मयगल ॥४॥  
 मन्ति-महल्लएँहिं एत्थन्तरें । णिसुणिय सीय रुअन्ति पडन्तरें ॥५॥  
 भणइ विहीसणु 'एँहु को रोवइ । वारवार अप्पाणउ सोअइ ॥६॥  
 णावइ पर-कलत्तु विच्छोइउ' । पुणु दहवयणहों वयणु पजोइउ ॥७॥  
 'मञ्जुडु एउ कम्मु तुह केरउ । अण्णहों कासु चित्तु विवरेरउ' ॥८॥  
 णिसुणेवि सीय आसासिय । कलयण्ठि व पिय-वयणेंहिं भासिय ॥९॥  
 एहु दुज्जणहों मज्जे को सज्जणु । णिम्ब-वणहों अट्ठभन्तरें चन्दणु ॥१०॥

घत्ता

विहुरें समावडिएँ एँहु को साहम्मिय-वच्छलु ।  
 जो मइँ धीरवइ एवड्हु कासु स इँ भु व-वलु' ॥११॥

जो दीप जल रहे थे मानो रात उनके बहाने अपने नेत्रोंको मोड़कर देख रही थी, अरविन्दोंको आनन्द देनेवाला रवि उदित हो गया । वह मानो धरतीरूपी कामिनीका दर्पण था, या मानो संन्याका तिलक था, या मानो कवि यशःपुञ्ज चमक रहा था, या मानो रामकी पत्नी सीतादेवीको अभय देता हुआ रातके पीछे दौड़ा हो । या विश्व-भुवन दीपक जला दिया गया हो । और बार-बार वही लौट आ रहा हो । त्रिभुवनरूपी निशाचरकी दिशा-वधूके मुख-कन्दराको फाड़कर और ऊपर आकर मानो सूर्य सीता देवीको खो रहा था ॥१-६॥

[ १८ ] रातके अन्धकार-पटलकी धूल भग्न होनेपर राजा लोग रावणकी सेवामें उपस्थित हुए । उनमें मय, मारीच, विभीषण तथा और भी दूसरे प्रधान राजा थे । खर और दूषणके शोकमें उनके मुख ऐसे आनत थे जैसे बिना अयालके सिंह हों । सभी अपने अपने आसनपर अविचल भावसे बैठे थे मानो भग्नदन्त गज हों । मन्त्रियों और सभ्यजनोंने इसी समय पर्देके भीतर रोती हुई सीता देवीकी आवाज सुनी । तब विभीषणने कहा—“यह कौन रो रही है ? कौन यह वार-वार अपनेको सन्तप्त कर रही है । कहीं यह कोई वियोगिनी स्त्री न हो ?” फिर उसने रावणके मुखको लक्ष्य करके कहा, “शायद यह तुम्हारा काल तो नहीं है । क्योंकि दुनियामें तुम्हें छोड़कर और किसका चित्त विपरीत हो सकता है ।” यह सुनकर सीता देवी आश्वस्त हो उठीं और उन्होंने अपने कोकिल की तरह मधुर स्वरमें कहा—“अरे दुर्जनोंके बीचमें यह सज्जन कौन है वैसे ही जैसे नीमके वनमें चन्दनका वृक्ष ? घोर संकटमें यह कौन मेरा साधर्मी जन है कि जो इस प्रकार मुझे धीरज बँधा रहा है । किसका इतना प्रबल बाहुबल है ?” ॥१-११॥





## [ ४२. बायालीसमो संधि ]

पुणु वि विहीसणें देव्वयणेंहिं रावणु दोच्छइ ।  
तेत्थु पडन्तरेंण आसण्णउ होएवि पुच्छइ ॥

[ १ ]

'अक्खहि सुन्दरि वत्त णिभन्ती । कहिं आणिय तुहुं एत्थु रुवन्ती ॥१॥  
कासु धोय कहि को तुम्हहँ पइ' । अक्ख वहन्तु विहीसणु जम्पइ ॥२॥  
'कवणु ससुरु कहि को तुह देवरु । अत्थि पसिद्धउ को तुह भायरु ॥३॥  
सप्परियण कहि तुहुं एक्कल्ली । अक्खहि केम वणन्तरें भुल्ली ॥४॥  
कें कज्जण वणवासु पइट्ठी । चक्केसरेंण केम तुहुं दिट्ठी ॥५॥  
किं माणुसि किं खेयर-णन्दिणी । किं कुर्सील किं सीलहों भायणि ॥६॥  
अण्णु वि कवणु तुम्ह देसन्तरु । कहहि वियारेंवि णियय-कहन्तरु' ॥७॥  
एम विहीसण-वयणु सुणेविणु । लग्ग कहेव्वए जिम णिसुणइ जणु ॥८॥

घत्ता

'अह किं बहुएण लहुअ वहिणि भामण्डलहों ।  
हउँ सीयाएवि जणयहों सुअ गेहिणि वलहों ॥९॥

[ २ ]

वन्धेवि राय-पट्टु भरहेसहों । तिण्णि वि संचल्लिय वणवासहों ॥१॥  
सीहोयरहों मडप्फरु भञ्जेवि । दसउर-गाहहों णिय-मणु रञ्जेवि ॥२॥  
पुणु कल्लाणमाल मम्भासेवि । णम्मय मेलेल्लेवि विब्बु पईसेवि ॥३॥  
रुद्धुत्ति णिय-चल्लेणेंहिं पाडेंवि । वालिखिल्लु णिय-णयरहों धाडेंवि ॥४॥  
रामउरिहिं चउ मास वसेप्पिणु । धरणीधरहों धोय परिणेप्पिणु ॥५॥  
फेडेंवि अइवीरहों वीरत्तणु । पइसरेवि खेमज्जलि-पट्टणु ॥६॥  
तेत्थु वि पञ्च पडिच्छेंवि सत्तिउ । सत्तदवणु मसि-वण्णु पवित्तिउ ॥७॥

## बयालीसवीं सन्धि

बार-बार विभीषणने रावणकी खोटे शब्दोंमें निन्दा की । उसने पटकी ओटमें बैठी हुई सीता देवीसे पूछा ।

[ १ ] “हे सुन्दरी ! तुम अपनी बात निभ्रान्त होकर कहो । रोती हुई तुम्हें यह ( दशानन ) किस प्रकार ले आया । तुम किसकी कन्या हो, और तुम्हारा पति कौन है ?” चिंतित होकर, विभीषणने पुनः कहा, “तुम्हारा ससुर कौन है, और कौन तुम्हारा देवर है ? तुम्हारा सुप्रसिद्ध भ्राता कौन है, तुम्हारे कोई कुटुम्बीजन हैं, या तुम अकेली हो ? बताओ इस वनमें तुम भूल कैसे पड़ी ? किस कारणसे तुम्हें वनवासके लिए आना पड़ा । चक्राधिपति रावणने तुम्हें किस प्रकार देख लिया ? तुम मनुष्यनी हो या खेचरपुत्री कुशीला हो या शीलकी पात्र हो ? तुम्हारा देशान्तर कौन-सा है ? अपनी कहानी जरा विस्तारसे कहो ।” विभीषणके इन वचनोंको सुनकर सीतादेवीने उत्तरमें कहा, “( और विभीषण शान्तिसे सुनता रहा ) बहुत कहनेसे क्या मैं भामण्डलकी बहन सीता देवी हूँ । जनककी पुत्री, और रामकी पत्नी ॥१-६॥

[ २ ] भरतेश्वर भरतको राज्यपट्ट बाँधकर हम तीनों वनवासके लिए निकल पड़े थे । सिंहोदरका मान नष्ट कर, दशपुर-नाथके मनका अनुरंजन कर, कल्याणमालाको अभयदान देकर रेवा नदीको छोड़कर हम लोगोंने—विन्ध्याटवीमें प्रवेश किया । वहाँपर रुद्रभूतिको अपने पैरोंमें भुकाकर, बालिखिल्यको उसके अपने नगरमें पुनः प्रतिष्ठित किया । रामपुरीमें चार माह रहकर राजा धरणीधरकी कन्यासे पाणिग्रहण कर, अतिवीर्यकी वीरताको खण्डितकर वह क्षेमंजलि नगरमें पहुँचे । वहाँ भी पाँच शक्तियोंको

## घत्ता

हरि-सीय-वलाहँ आयहँ सज्जहँ आइयहँ ।  
णं मत्त-गयाहँ दण्डारण्णु पराइयहँ ॥६॥

[ ३ ]

तहिँ मि कालें मुणि-गुत्त-सुगुत्तहँ । संजम - णियम - धम्म-संजुत्तहँ ॥१॥  
वणें आहार-दाणु दरिसावें वि । सुरवर-रयण-वरिसु वरिसावें वि ॥२॥  
पक्खिहँ पक्ख सुवण्ण समारें वि । सम्बुकुमारु वीरु संघारें वि ॥३॥  
अच्छहुँ जाव तेत्थु वण-कालणँ । एक्क कुमारि आय णीय-लीलणँ ॥४॥  
पासु बहुक्खिय करिणि व करिणहँ । पुणु णिस्सज्ज भणइ “महँ परिणहँ” ॥५॥  
वल-णारायणेहिँ उवलक्खिय । पुणु थोवन्तरें जाय विलक्खिय ॥६॥  
गय खर-दूसणाहुँ कूवारें हिँ । भिडिय ते वि सहँ समरें कुमारेंहिँ ॥७॥

## घत्ता

किं मुक्कु ण मुक्कु सीह-णाउ रणें लक्खणें ।  
तं सद्दु सुणेवि रामु पघाइउ तक्खणेण ॥८॥

[ ४ ]

गउ लक्खणहँ गवेसउ जावेंहिँ । हउँ अवहरिय णिसिन्दें तावेंहिँ ॥१॥  
अज्जु वि जण-मण-णयणाणन्दहँ । पासु णेहु महँ राहवचन्दहँ ॥२॥  
लहउ णाउँ जं दसरह-जणयहुँ । हरि-हलहर - भामण्डल-तणयहुँ ॥३॥  
च्चित्तु विहीसण-रायहँ डोल्लिउ । ‘तुमहँ हिँ सुयउ सुयउ जं वोल्लिउ ॥४॥  
ते हउँ आउ आसि विणिवाणँ वि । णवर जियन्ति भन्ति उप्पाणँवि ॥५॥

पराजितकर, अरिदमन राजाका मुख कालाकर, उसकी कन्याका पाणिग्रहण किया। फिर वहाँसे (चलकर) उन्होंने दो मुनियोंका उपसर्ग दूर किया। उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता देवी, यहाँ इस साज से आये मानो मत्तगजने ही दण्डकारण्यमें प्रवेश किया हो ॥१-६॥

[ ३ ] वहाँ उस समय संयम, नियम और धर्मसे युक्त मुनिवर गुप्त और सुगुप्तको वनमें हमने आहार दिया। जिससे सुरवरोंने रत्नोंकी वर्षा की। पक्षिराज जटायुके पंख सोनेके हो गये। फिर लक्ष्मणने वीर शम्बुक कुमारको मारा। इस प्रकार जब हम वनमें क्रीड़ा कर रहे थे। तभी लीलापूर्वक एक कुमारी वहाँ आई। वह राम लक्ष्मणके पास उसी प्रकार पहुँची जिस प्रकार हथिनी हाथीके पास पहुँचती है। निर्लज्ज वह बोली कि मुझसे विवाह कर लो। फिर राम-लक्ष्मणसे तिरस्कृत होकर, वह थोड़ी दूर पर जाकर अत्यन्त विद्रुप हो उठी। क्रन्दन करती हुई वह खर-दूषणके पास पहुँची। वे भी राम-लक्ष्मणसे युद्ध करने आये थे। युद्धमें चाहे लक्ष्मणने सिंहनाद किया हो या नहीं, किन्तु उस शब्दको सुनकर राम तत्काल दौड़े ॥१-८॥

[ ४ ] जब तक वह लक्ष्मणकी खोज-खबरके लिए गये कि इतनेमें निशाचर रावणने मेरा अपहरण कर लिया। आज भी मेरा प्रेम जनोंके मन और नेत्रोंको आनन्द देने वाले रामचन्द्रके प्रति है ॥” इस प्रकार जब सीता देवीने दशरथ पुत्र राम, लक्ष्मण और भामण्डलका नाम लिया तो राजा विभीषणका चित्त जल उठा। उसने कहा, “रावण, तुमने सुना है क्या? जो कुछ इसने कहा। अरे, मैं तो उन दोनों (दशरथ और जनक) को मारकर आया था। मुझे बड़ी भारी भ्रान्ति है। क्या वे दोनों जीवित हैं। तो

दुकु पमाणहों सुणिवर-भासिउ । जिह “खउ लक्खण-रामहों पासिउ” ॥६॥  
एव वि करहि महारउ वुत्तउ । उत्तिम-पुरिसहुँ एउ ण जुत्तउ ॥७॥  
एक्कु विणासु अण्णु लज्जिज्जइ । धिद्धिक्कारु लोएँ पाविज्जइ ॥८॥

घत्ता

णिय-कित्तिहँ राय सायर-रसण-खलन्तियहँ ।

मं भञ्जहि पाय तिहुयणें परिसक्कन्तियहँ ॥९॥

[ ५ ]

रावण जे रमन्ति परदारइँ । दुक्खइँ ते पावन्ति अपारइँ ॥१॥  
जहिँ ते सत्त णरय भय-भासण । हसहसहसहसन्त स-हुवासण ॥२॥  
हुहुहुहुहुहुहुहन्त स-उपहव । सिमिसिमिसिमिसिमन्त-किमि-कहमाइँ ।  
रयणि-सकर - वालुय - पङ्क-प्पह । धूमप्पह - तमपह - तमतमपह ॥४॥  
तहिँ अंसरालु कालु अच्छेवउ । पहिलएँ उवहि-पमाणु जिवेवउ ॥५॥  
तिण्णि सत्त वीसद्ध रउइँ । सत्तारह वीवास समुइँ ॥६॥  
पुणु तेतीस-जलहि-परिमाणइँ । जहिँ दुक्खइँ गिरि-मेरु-समाणइँ ॥७॥  
जो पुणु णरउ णिगोउ सुणिज्जइ । मेइणि जाव ताव तहिँ छिज्जइ ॥८॥  
तें कज्जेँ पर-दारु ण रम्मइँ । तं किज्जइ जं सुगइहिँ गम्मइँ ॥९॥

घत्ता

आरुट्ठु दसासु ‘किं पर-दारहों एह किय ।

तिहुँ खण्डहुँ मज्जेँ अक्खु पराइय कवण तिय’ ॥१०॥

[ ६ ]

तो अवहेरि करेवि विहीसणें । चडिउ महग्गएँ तिजगविहूसणें ॥१॥  
सीय वि पुप्फ-विमाणें चडाविय । पट्टणें हट्ट-सोह दरिसाविय ॥२॥  
संचत्तलउ णिय-मण-परिओसेँ । ऋत्तरि - पडह - तूर - णिग्घोसेँ ॥३॥  
‘सुन्दरि पेक्खु महारउ पट्टणु । वरुण - कुवेर - वीर - दलवट्टणु ॥४॥  
सुन्दरि पेक्खु पेक्खु चउ-वारइँ । णं कामिणि-वयणइँ स-वियारइँ ॥५॥

फिर मुनिवरका कहा सच होना चाहता है । अब तुम्हारा राम-लक्ष्मण-से विनाश होगा । अब भी तुम मेरा कहना मानो । उत्तम पुरुषके लिए यह उचित नहीं है । एक तो विनाश और दूसरे लोक-लाज । फिर दुनिया थू थू करेगी । हे राजन्, तीनों लोकोंमें व्याप्त समुद्रके स्वरसे स्वलित अपनी कीर्तिको नष्ट मत करो । उसकी रक्षा करो ॥१-६॥

[ ५ ] रावण, जो परस्त्री-रमण करते हैं वे अपार दुख प्राप्त करते हैं । आग-सहित हस-हस करते हुए जो सात भयङ्कर नरक हैं उनमें उपद्रव और हूहू शब्द होते रहते हैं । सिम-सिमाती कृमि और कीचड़से वे सराबोर हैं । उनके नाम हैं । रत्न शर्करा, वालुका, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और तमतमप्रभ । उनमें तुम अनन्त काल तक रहोगे । पहले नरकमें एक सागरप्रमाण तक, उसके बाद फिर तीन, सात, दस, ग्यारह, सत्तरह और बाईस सागरप्रमाण समय दूसरे-दूसरे नरकोंमें रहना पड़ेगा । उसके अनन्तर तैंतीस सागरप्रमाण काल तक वहाँ रहोगे जहाँ सुमेरु पर्वत बराबर बड़े-बड़े दुख हैं । फिर निगोद सुना जाता है उसमें भी तुम तब तक सड़ते रहोगे कि जब तक यह धरती है । इसलिए पर-स्त्रीका रमण करना ठीक नहीं । ऐसा काम करो जिससे देवगति प्राप्त हो । यह सुनकर रावणने क्रुद्ध हो कहा—“क्या परस्त्रीमें यह कृत्य है ? अरे, तीनों लोकोंमें किसी स्त्रीने इन्द्रियोंको पराजित किया ॥१-१०॥

[ ६ ] तब विभीषणकी उपेक्षा करके रावण अपने त्रिजग-भूषण हाथीपर चढ़ गया और सीता देवीको पुष्पक विमानमें बैठा-कर नगरमें बाजारकी शोभा दिखानेके लिए ले गया । भल्लरी, पटह और तूर्यके निर्घोषसे अपने मनमें सन्तुष्ट होकर वह निकला । उसने सीता देवीसे कहा—“देवी ! मेरा नगर देखो, वह वरुण और कुबेर जैसांको धूलमें मिलानेवाला है । सुन्दरी, देखो-देखो ये चार

सुन्दरि पेक्खु पेक्खु धय-छत्तइँ । पफुल्लियइँ णाइँ सयवत्तइँ ॥६॥  
 सुन्दरि पेक्खु महारउ राउलु । हीर-गहणु मणि-खम्भ-रमाउलु ॥७॥  
 सुन्दरि करहि महारउ वुत्तउ । लइ चूडउ कण्ठउ कडिसूत्तउ ॥८॥  
 सुन्दरि करि पसाउ लइ चेलिउ । चीणउ लाडु घोडु हरिकेलिउ ॥९॥

घत्ता

महु जाविउ देहि वोल्लहि वयणु सुहावणउ ।  
 चडु गयवर-खन्धे लइ महएवि-पसाहणउ' ॥१०॥

[ ७ ]

सम्पइ दक्खवन्तु इय सेज्जएँ । दोच्छिउ रावणु राहव-भज्जएँ ॥१॥  
 'केत्तिउ णियय-रिद्धि महु दावहि । अप्पउ जणहों मज्जेँ दरिसावहि ॥२॥  
 एउ जं रावण रज्जु तुहारउ । तं महु तिण-समाणु हलुआरउ ॥३॥  
 एउ जं पट्टणु सोमु सुदंसणु । तं महु मणहों णाइँ जमसासणु ॥४॥  
 एउ जं राउलु णयण-सुहङ्करु । तं महु णाइँ मसाणु भयङ्करु ॥५॥  
 एउ जं दावहि खणें जोव्वणु । तं महु मणहों णाइँ विस-भोयणु ॥६॥  
 एउ जं कण्ठउ कडउ स-मेहलु । सील-विहूणहँ तं मलु केवलु ॥७॥  
 रहवर-तुरय-गइन्द-सयाइ मि । आयहिँ मसु पुणु गण्णु ण काइ मि ॥८॥

घत्ता

सग्गेण वि काइँ जहिँ चारित्तहों खण्डणउ ।  
 किं समलहणेण महु पुणु सीलु जें मण्डणउ' ॥९॥

[ ८ ]

जिह जिह चिन्तिय आसु ण पूरइ । तिह तिह रावणु हियएँ विसूरइ ॥१॥  
 'विहि तेत्तडउ देइ जं विहियउ । कि वढ जाइ णिलाडएँ लिहियउ ॥२॥  
 हउँ कम्मेण वेण संखोहिउ । जाणन्तो वि तो वि जं मोहिउ ॥३॥  
 धिधि अहिलसिय कुणारि विलीगी । वुण्ण-कुरङ्गि जेम मुह-दीणी ॥४॥

द्वार हैं। जो विकार-पूर्ण कामिनियोंके मुखोंके समान लगते हैं। सुन्दरी, देखो-देखो ये ध्वज और छत्र हैं। मानो कमल ही खिल उठे हों। सुन्दरी ! देखो-देखो, होरोंसे गम्भीर और मणियोंके खम्भों से सुन्दर यह मेरा राजकुल है। सुन्दरी, तुम मेरा कहना भर कर दो। और लो यह चूड़ामणि कण्ठा और कटक-सूत्र। सुन्दर चीनी वस्त्र, ताड़, अश्व और हरिकेल लेकर मुझपर प्रसाद करो। मुझे जीवन दो। मीठे शब्द बोलो। इस महागजपर आरूढ़ होकर महादेवीका प्रसाधन अङ्गीकार करो ॥१-१०॥

[ ७ ] इसपर राघवकी पत्नी आदरणीया सीतादेवीने भर्त्सना करते हुए रावणको उत्तर दिया—“अरे, मुझे कितनी अपनी ऋद्धि दिखाता है, अपने लोगोंको ही दिखा। यह जो तुम्हारा राज्य है, वह मेरे लिए तिनकेकी तरह तुच्छ है, चन्द्रमाकी तरह सुन्दर जो यह नगर है वह मेरे लिए मानो यमशासनकी तरह है। नयन-शुभङ्कर तुम्हारा यह राजकुल, मेरे लिए भयङ्कर श्मशानकी तरह है। और जो तुम बार-बार अपने यौवनका प्रदर्शन कर रहे हो, वह मेरे लिए विष-भोजनकी तरह है। और जो यह मेखला-सहित कण्ठा और कटक हैं, शीलविभूषिताके लिए केवल मल हैं। सैकड़ों रथवर तुरग और गज भी जो हैं उन्हें मैं कुछ भी नहीं गिनती। उस स्वर्णसे भी क्या जहाँ चारित्र्यका खण्डन हो, यदि मैं शीलसे विभूषित हूँ तो मुझे और क्या चाहिए” ॥१-६॥

[ ८ ] जैसे-जैसे अचिन्तित आशा पूरी नहीं होती वैसे-वैसे रावण मनमें दुखी होने लगा। विधाता उतना ही देता है जितना भाग्यमें होता है, जो ललाटमें लिखा है, उससे क्या बढ़ती होता है, मैं किस कर्मके उदयसे इतना पतित बना, जो जानते हुए भी इसपर मोहित हुआ। मुझे धिक्कार है कि जो मैंने विपन्न हिरनीकी



आयहँ पासिउ जाउ सु-वेसउ । महु घरँ अत्थि अणेयउ वेसउ' ॥५॥  
 एव विच्चित्तु चित्तु साहारँ वि । दुक्खु दुक्खु मण-पसरु णिवारँ वि ॥६॥  
 सीयणँ समउ खेड्हु आमेल्लँ वि । तं गिन्वाणरमणु वणु मेल्लँ वि ॥७॥  
 णरवर-विन्दँ हिँ परिमिउ दहमुहु । संचञ्चिउ णिय-णयरिहँ अहिमुहु ॥८॥

घत्ता

गिरि दिट्ठु तिकूडु जण-मण-णयण-सुहावणउ ।  
 रवि-डिम्भहँ दिण्णु णं महि-कुलवहुअणँ थणउ ॥९॥

[ ९ ]

णं धरु धरहँ गब्भु णीसरियउ । सत्तहिँ उववणेहिँ परियरियउ ॥१॥  
 पहिलउ वणु णामेण पइणणउ । सज्जण-हियउ जेम वित्थिणणउ ॥२॥  
 वीयउ जण-मण-णयणाणन्दणु । णावइ जिणवर-विम्बु स-चन्दणु ॥३॥  
 तइयउ वणु सुहसेउ सुहावउ । जिणवर-सासणु णाईँ स-सावउ ॥४॥  
 चउथउ वणु णामेण समुच्चउ । वग-वलाय - कारणड - सकोच्चउ ॥५॥  
 चारण-वणु पञ्चमउ रवणणउ । चम्पय - तिलय-वउल - संछणणउ ॥६॥  
 छट्टउ वणु णामेण णिवोहउ । महुअर-रुणुरुण्टन्तु सुसोहउ ॥७॥  
 सत्तमु वणु सीयलु सच्छायउ । पमउजाणु णाम-विक्खायउ ॥८॥

घत्ता

तहिँ गिरिवर-पट्टँ सोहइ लङ्काणयरि किह ।  
 थिय गयवर-खन्धँ गहिय-पसाहण वहुअ जिह ॥९॥

[ १० ]

घत्ता

ताव तेत्थु णिज्झाइय वावि असोय-मालिणी ।  
 हेमवणण स-पओहर मणहर णाईँ कामिणी ॥१॥

तरह दीन मुखवाली विलाप करनेवाली कुमारीकी अभिलाषा की। इसके पास जो सुन्दर रूप है, मेरे घर तो उससे भी सुन्दर अनेक रूप हैं? इस प्रकार अपने विचित्र-चित्तको सहारा देकर और बड़े कष्टसे मनके प्रसारको रोककर, सीताके साथ क्रीड़ाका त्यागकर उसे उसने नन्दन वनमें छोड़ दिया। और श्रेष्ठ पुरुषोंसे घिरा हुआ वह अपनी नगरीकी ओर चला। मार्गमें उसे जनोंके मन और नेत्रोंको सुहावना लगनेवाला त्रिकूट नामक पहाड़ ऐसा दीख पड़ा, मानो सूर्यरूपी बालकके लिए धरतीरूपी कुलवधूने अपना रतन दे दिया हो ॥१-६॥

[ ६ ] या मानो धराका गर्भ (अन्तर) ही निकल आया हो। वह सात उपवनोंसे घिरा हुआ था। उसमेंसे पहले 'पट्टण' वन सज्जनके हृदयको तरह विस्तीर्ण जन-मन-नयनप्रिय, दूसरा उपवन, जिनके बिम्बकी तरह चन्दन (पेड़ और चन्दन) से सहित था, सुहावना तीसरा सुहसंत? वन जिनवर-शासनकी तरह, सावय (श्रावक और वृत्तविशेष) से सहित। चौथा समुच्चय नामका वन बलाका, कारंडव और क्रौंच पक्षियोंसे भरा हुआ था। पाँचवाँ सुन्दर चारण वन था, छठा निबोधित नामक वन सुन्दर और भौरोंसे गुञ्जित था और सातवाँ प्रसिद्ध प्रमद वन था जो सुन्दर छाया सहित और शीतल था। गिरिवरकी पीठपर लंका नगरी ऐसी शोभित हो रही थी मानो महागजकी पीठपर नई दुलहिन ही खूब सज-धजकर बैठी हो ॥१-६॥

[ १० ] वहीं पर उसे अशोकमालिनी नामकी सुन्दर वापिका दिखाई दी जो कामिनो की तरह, सुनहरे रङ्गकी, पयोधर (स्तन

चउ-दुवार-चउ-गोउर - चउ-तोरण - रवणिया ।  
 चम्पय - तिलय-वउल-णारङ्ग- लवङ्ग - छणिया ॥२॥  
 तहिँ पएसँ वइदेहि ठवेप्पिणु गउ दसाणणो ।  
 भिज्जमाणु विरहेण विसंथुलु विमणु दुम्मणो ॥३॥  
 मयण-वाण-जजरियउ जरिउ दुवार-वारओ ।  
 दूइआउ आवन्ति जन्ति सयवार-वारओ ॥४॥  
 वयणएहिँ खर-मदुरँहिँ मुहु सूसइ विसूरए ।  
 छोहँ छोहँ णिवडन्तएँ जूआरो व्व जूरए ॥५॥  
 सिरु धुणेइ कर मोडइ अङ्गु वलेइ कम्पए ।  
 अहरु लेवि णिज्जायइ कामसरेण जम्पए ॥६॥  
 गाइ वाइ उव्वेल्लइ हरिस-विसाय दावए ।  
 वारवार मुच्छिज्जइ मरणावत्थ पावए ॥७॥  
 चन्दणेण सिञ्चिज्जइ चन्दण-लेउ दिजए ।  
 चामरेहिँ विज्जिज्जइ तो वि मणेण भिज्जए ॥८॥

घत्ता

किं रावणु एक्कु जो जो गरुअइँ गजियउ ।  
 जिण-धवलु मुएवि कामें को ण परजियउ ॥९॥

[ ११ ]

थिएँ दसाणणें विरह-भिम्भले । जाय चिन्त वर-मन्ति-मण्डले ॥१॥  
 'एत्थु मल्लु को कुइएँ लक्खणे । सिद्धु जासु असि-रयणु तक्खणे ॥२॥  
 णिहउ सम्भु जें दूसणो खरो । होइ कु-इ ण सावणु सो णरो' ॥३॥  
 भणइ मन्ति सहसमइ-णामें । 'कवणु गहणु एक्केण रामें ॥४॥  
 लक्खणेण सह साहणेण वा । रह-तुरङ्ग-गय-वाहणेण वा ॥५॥  
 दुत्तरे दुसञ्चार-सायरे । कहिँ पएसु विच्ची-भयङ्करे ॥६॥

और जल ) से सहित थी । चार द्वार, चार गोपुर और तोरणोंसे रमणीय थी । चम्पक, तिलक, मौलश्री, नारंगी और लवंगसे आच्छन्न उस प्रदेशमें सीताको छोड़कर रावण चला गया । विरहसे क्षीण और अस्त-व्यस्त, विमन दुर्मन, कामवाणोंसे जर्जर द्वारपालकी तरह बूढ़ा वह रावण दूतीकुलकी तरह बार-बार आता और लौट जाता । कठोर और मधुर वचनोंसे उसका मुख सूख रहा था ? क्षोभसे जुआरी की तरह गिरता पड़ता वह कभी अपना सिर धुनने लगता, कभी हाथ मरोड़ता, कभी अंग-अंग भुकाकर काँप उठता । कभी अधर पकड़कर चिंतामग्न हो जाता । कभी कामके स्वरमें बोल पड़ता । गाता बजाता हुआ, कभी-कभी हर्ष और विषादकी दीप्तिसे उद्वेलित हो उठता । बार-बार मूर्च्छित होकर वह मरणदशाको पहुँच गया । चंदनके ( जल ) सिंचन और उसीके लेपसे तथा चामरांसे हवा करनेसे वह मन ही मन छीज रहा था । क्या रावण अकेला ही पीड़ित हुआ ? जिनको छोड़कर, कौन ऐसा है जो गर्वसे गरजता नहीं और कामसे पराभूत नहीं हुआ ॥१-६॥

[ ११ ] इस प्रकार रावणके विरहव्याकुल होने पर रावणके मंत्री-मंडलमें चिंता व्याप्त हो गई । वे विचार करने लगे कि लक्ष्मणके क्रुद्ध होने पर, यहाँ कौन-सा वीर है । जिसे तत्काल सूर्यहास खड्ग सिद्ध हो गया । जिसने खरदूषण और कुमार शम्बूक की हत्या की, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है । इसपर सहस्र-मति नामके मंत्रीने कहा कि एक रामको पकड़नेकी क्या बात है । सेना, रथ, तुरंग, गज और वाहनों सहित लक्ष्मणको पकड़ने में भी क्या रखा है । रावणकी सेना दुस्तर लहरोंसे भयंकर

रावणस्स पवलं वलं महा । अत्थि वीर एक्केक्क दूसहा ॥७॥  
किं मुण्ण दूसण्ण सम्बुणा । सायरो किमोहु विन्दुणा' ॥८॥

घत्ता

तं वयणु सुणेवि विहसँवि पञ्चामुहु भणइ ।

'किं वुच्चइ एक्कु जो एक्कु जँ सहसइँ हणइ ॥९॥

[ १२ ]

अण्णुणँ णिसुअ वत्त मइँ एहिय । रावण-मन्दिरँ णीसन्देहिय ॥१॥

जे जे णरवइ के-इ कइद्धय । जम्बव - णरु - सुग्गीवङ्गय ॥२॥

समउ विराहिण्ण वण-सेवहुँ । मिलिया वासुएव-वलएवहुँ' ॥३॥

तं णिसुणेवि दसाणण-भिच्चँ । वुच्चइ पञ्चामुहु मारिच्चँ ॥४॥

'एह अजुत्त वत्त पइँ अक्खिय । रावणु मुएँ वि ण अण्णहँ पक्खिय ॥५॥

का वि अणङ्गकुसुम वलवन्तहँ । दिण्णी खरेण धीय हणुवन्तहँ ॥६॥

तं किं माम-वइरु वीसरियउ । जँ पडिवक्ख मिलइ भय-डरियउ' ॥७॥

तो एत्थन्तरे भणइ विहीसणु । 'केत्तिउ चवहु वयणु सुण्णासणु ॥८॥

एवहिँ सो उवाउ चिन्तिजइ । लङ्का-णाहु जेण रक्खिजइ' ॥९॥

एम भणेकि चउदिसु ताडिय । पुरँ आसालिय विज्ज भमाडिय ॥१०॥

घत्ता

तियसहु मि दुलङ्घु दिहु माया-पायारु किउ ।

णीसङ्कु णिसिन्दु रज्जु स यं भु व्जन्तु थिउ ॥११॥

अउज्झा कण्डं समत्तं !

●

आइच्चुएवि-पडिमोवमाएँ आइच्चग्गिमाएँ (?) ।

वीअमउज्झा-कण्डं सयम्भु-घरिणीएँ लेहवियं ॥

●

समुद्रसे भी प्रबल है । उसका एक-एक योधा असाध्य है । शम्बूकके घातसे क्या ? एक बूँद पानी सूख जानेसे समुद्रका क्या बिगड़ता है । यह सुनकर पंचमुखने हँसकर उत्तर दिया, “अरे, एक क्या कहते हो, अकेले ही वह हजारोंका काम तमाम कर देगा” ॥१-६॥

[ १२ ] तब उसने और भी निवेदन किया, “दूसरोंके मुखसे मैंने यह सुना है कि जाम्बवंत, नल, सुग्रीव, अंग और अंगद प्रभृति जो कपिध्वज हैं, निसंदेह वे सब राजा विराधितके साथ, वन-वासमें ही राम और लक्ष्मणसे जा मिले हैं” । यह सुनकर रावणके अनुचर मारीचने पंचमुखसे कहा, “उन्हें रावणके सिवा किसी दूसरेसे नहीं मिलना था । खरने अपनी कन्या अनंगकुसुम हनुमानको दी थी । क्या वह भी उसकी माताके शत्रुको भूल गया जो इस प्रकार डरकर प्रतिपक्षीसे जा मिला है” । तब बीचमें ही टोककर विभीषणने कहा—“खाली विचार करनेसे क्या लाभ, कोई उपाय सोचना चाहिए । जिससे लंकानरेश रावणको बचाया जा सके ।” यह कहकर उसने आशाली विद्याको बुलाया और नगरके चारों ओर उसकी परिक्रमा दिलवा दी । इस प्रकार देवों द्वारा अलंघ्य दृढ माया प्राचीर बनवाकर निशाचरराज वह निश्शंक होकर राज्य करने लगा ॥१-११॥

### अयोध्याकाण्ड समाप्त

आदित्य देवीकी प्रतिमासे उपमित स्वयंभू कविकी पत्नी आदित्य देवी द्वारा लिखित यह दूसरा अयोध्याकाण्ड समाप्त हुआ ।



# हमारे सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन

## उर्दू शायरी

१. शेर-ओ-शायरी	श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय	८१
२. शेर-ओ मुखन [भाग १]	श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय	८१
३. शेर-ओ-मुखन [भाग २]	श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय	३१
४. शेर-ओ-मुखन [भाग ३]	श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय	३१
५. शेर-ओ-मुखन [भाग ४]	श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय	३१
६. शेर-ओ-मुखन [भाग ५]	श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय	३१

## कविता

७. वर्द्धमान [ महाकाव्य ]	श्री अनूप शर्मा	६१
८. मिलन-यामिनी	श्री वच्चन	४१
९. धूपके धान	श्री गिरिजाकुमार माथुर	३१
१०. मेरे बापू	श्री हुकमचन्द्र बुखारिया	२११
११. पञ्च-प्रदीप	श्री शान्ति एम० ए०	२१

## ऐतिहासिक

१२. खण्डहरोका वैभव	श्री मुनि कान्तिसागर	६१
१३. खोजकी पगडण्डियाँ	श्री मुनि कान्तिसागर	४१
१४. चौलुक्य कुमारपाल	श्री लक्ष्मीशङ्कर व्यास	४१
१५. कालिदासका भारत [ भाग १-२ ]	श्री भगवतशरण उपाध्याय	८१
१६. हिन्दी जैन साहित्य-परिशीलन १-२	श्री नेमिचन्द्र शास्त्री	५१

## नाटक

१७. रजत-रश्मि	श्री डा० रामकुमार वर्मा	२११
१८. रेडियो नाट्य शिल्प	श्री सिद्धनाथ कुमार	२११
१९. पचपनका फेर	श्री विमला लूथरा	३१
२०. और खाई बढ़ती गई	श्री भारतभूषण अग्रवाल	२११
२१. तरकश के तीर	श्रीकृष्ण एम० ए०	३१

## ज्योतिष

२२. भारतीय ज्योतिष श्री नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य ६॥  
२३. करलक्षण [ सामुद्रिकशास्त्र ] प्रो० प्रफुल्लकुमार मोदी ॥॥

## कहानियाँ

२४. संघर्षके बाद श्री विष्णु प्रभाकर ३॥  
२५. गहरे पानी पैठ श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय २॥॥  
२६. आकाशके तारे : धरतीके फूल श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' २॥  
२७. पहला कहानीकार श्री रावी २॥॥  
२८. खेल-खिलौने श्री राजेन्द्र यादव २॥  
२९. अतीतके कम्पन श्री आनन्दप्रकाश जैन ३॥  
३०. जिन खोजा तिन पाइयौं श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय २॥॥  
३१. नये बादल श्री मोहन राकेश २॥॥  
३२. कुछ मोती कुछ सीप श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय २॥॥  
३३. कालके पंख श्री आनन्दप्रकाश जैन ३॥  
३४. नये चित्र श्री सत्येन्द्र शर्मा ३॥  
३५. जय-दोल श्री अज्ञेय ३॥

## उपन्यास

३६. मुक्तिदूत श्री वीरेन्द्रकुमार एम० ए० ५॥  
३७. तीसरा नेत्र श्री आनन्दप्रकाश जैन २॥॥  
३८. रक्त-राग श्री देवेशदास ३॥  
३९. संस्कारोंकी राह राधाकृष्ण प्रसाद २॥॥

## संस्मरण, रेखाचित्र

४०. हमारे आराध्य श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ३॥  
४१. संस्मरण श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ३॥  
४२. रेखाचित्र श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ४॥  
४३. जैन जागरणके अग्रदूत श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय ५॥



## सूक्तियाँ

४४. ज्ञानगङ्गा [ सूक्तियाँ ] श्री नारायणप्रसाद जैन ६)  
४५. शरत्की सूक्तियाँ श्री रामप्रकाश जैन २)

## राजनीति

४६. एशियाकी राजनीति श्री परदेशी साहित्यरत्न ६)

## निबन्ध, आलोचना

४७. जिन्दगी मुसकराई श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ४)  
४८. संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद श्री अत्रिदेव 'विद्यालङ्कार' ३)  
४९. शरत्के नारी-पात्र श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी ४॥)  
५०. क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ ? श्री रावी २॥)  
५१. बाजे पायलियाके घुँघरू श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ४)  
५२. माटी हो गई सोना श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' २)

## दार्शनिक, आध्यात्मिक

५३. भारतीय विचारधारा श्री मधुकर एम० ए० २)  
५४. अध्यात्म-पदावली श्री राजकुमार जैन ४॥)  
५५. वैदिक साहित्य श्री रामगोविन्द त्रिवेदी ६)

## भाषाशास्त्र

५६. संस्कृतका भाषाशास्त्रीय अध्ययन श्री भोलाशंकर व्यास ५)

## विविध

५७. द्विवेदी-पत्रावली श्री बैजनाथ सिंह 'विनोद' २॥)  
५८. ध्वनि और संगीत श्री ललितकिशोर सिंह ४)  
५९. हिन्दू विवाहमें कन्यादानका स्थान श्री सम्पूर्णानन्द १)

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी



